

राधप्रसेशी ।

॥ ध्यानम् ॥ श्रीबीतरगाय । नमो अरिहताय नमो सिद्धाय नमो
 आवरियाय नमो उवभूभावाय नमो लोणसव्वमाङ्गा ।

श्रीं नमो बीतरगाय । प्रणमतगीरिजनेश्वर चरणयुग परमपाटलच्छायम् । अधरीकृतनतवामव
 मुकुटम्पितरत्नचिचक्रम् ॥ राजप्रशनीयमह विवृणोमिययाक्रम गुरुनियोगात् । तत्रच शक्ति
 मगति गुर्वानानलि काञ्चिन् । अथकममादिन्मुपाग राजप्रशनीयामिधानमिति । उच्यते ।
 इहप्रदेशे नामराजाभगवतः किङ्किमारश्मसगय समीपं यान् जीवश्रियया प्रशाननकार्पात्, यानिच
 तभैकिङ्किमारश्मपागणभूत् व्याकरणानिव्याकृतवान् यच्च व्याकरणसम्यक्परिगतिभावतो
 बोधिमासाद्या मगान्नु शुभागुणयोगतः । प्रथमेगीधम्मिनामि नकलीकप्रिमानमधिपर्येना
 ध्यातपठत् । यथा च विमानाधिपत्यप्राप्त्यनन्तर मग्यवधिज्ञानाभोगत श्रीमदहंमानाप्रामिन
 भगवन्नुमालोक्य भक्तितयपरीतचेता मगस्वमासगीममेतदज्ञावतीयं भगवत पुत्रोदातिशदिधे
 नाद्यभारीनृत्यात् नक्षित्यात्न यथायुक्तदिविमुखमनुभूय ततश्चुत्वायवसमागत्य यथासुक्तिपदमवा
 प्यति, तदेतत्सर्वमिगन्नुपागमभिधेयं प्र सकावच्यतामून । राजप्रशनाइति राजप्रशनेपुमवराज
 प्रशनीयं, अथकस्यागम्येन्मुपाग उच्यतेऽसुत्रवृतांगस्य कथ तटुपागमतेतिचेत । सूत्रवृत्तेश्च श्री
 यधिकं शान्तगिजावादिना सप्तपष्टिरश्रातिकाना हातिगत् वैन्दिकाना सर्वसद्ययातीशिविपट्य
 धिकानिपापपिडकगतानि प्रतिनिष्यचममयथाप्यते । उक्तं च । "नन्याध्ययन म्यगड" क श्री
 यमयकिरियावाङ्गं । चउरामी अकिरियावाङ्गं सप्तद्वीपवाशीयवाङ्गवस्तीमाङ्गणइयवाङ्ग ।
 तिस्रहन्तंबहाणंपासगिउयसजाग वृहकिष्ठा मममयेवाविद्यइइति । प्रदेशीचराजापुवीमक्रियावादि
 मतभावितमनापामीन् अक्रियावादिमतमेवचाल्म्यजीवविषयान् प्रशान् कारान्, किङ्किमारश्म
 ष्यइचगणधारीनूतकृतागसूचितमक्रियावादिमतप्रतिषेपमुपजीवव्याकरणानिव्याकृत्येत् । ततो च
 न्येवसूयकृतांमसूचिनांकिङ्किमारश्ममन्याकरणानि व्याकृतानि तान्येवावसविरतरमुपानीति
 सूत्रकृतागगतविशेषप्रकटनादिन्मुपाग सूत्रकृतांगम्येति । एतद्वच्यताचभगवतावर्धमानाप्रामिन
 गेतेसायसाजा सिद्धिता तय नयस्या नगर्थ्या येनप्रक्रमेणाभ्यधीयते तदेतत्सर्वमभिधिसुक्तिमाह ।

इतिदिशिनने नम्य शुतदेशे विज्ञेयत राजप्रशनीय मृताय धार्मिक विधानच । राजप्रशनीय
 त्याम्पाह कश्चिद्य प्रशनीयामराजाइ केमीकुमारश्मसपासिजीवन अनेवप्रशनाया कसीगासता
 ये प्रशनाय उवाग्रीधा मदेशीराजाइ मय्यसप्रवारइतेतेप्रशनसह ष्या धर्मपायु बोधमह--

तेषु कालेण तेषु समयेण । आमलकप्याणाम् ण वरीहोत्या रिडित्विमियस
मिडा जावपामादीया दरिसणीया अभिरुवा पडिह्वा, तीसेण आमल-

“तेषु कालेण” तेनमित्यादि, ते इति प्राकृतशैलीवशात्तस्मिन्नितिद्राटव्य । अस्यायमर्था यस्मिन्
काले भगवान् बडमानस्वामीवय विहरतिस्म तस्मिन्निति णमितिवाक्यालकारेदृष्टप्रचान्यत्रापिण
शब्दोवाक्यालकारार्थो यथाइमाण् पुटवीडत्यादीविति । कान्निअधिकृतावसपिणी चतुर्थविभागरूपे
अत्रापिण शब्दोवाक्यालकृती “तेषु समयेणन्ति” समयोऽवसरवाचो तथाच लोकेवकारोनाद्याप्ये
तस्य वक्तव्यस्य समयोवचत्ते किमुक्त भवति । नाद्याप्येतस्य वक्तव्यस्याऽवसरोवचत्ते इति तस्मि
न्नितियस्मिन् समयेभगवान् मूयभिदेववक्तव्यतामवकथत् तस्मिन् “समये आमलकल्पानामनगरी”
अभवत् । तच्चिदानामपिसानगरीवर्त्तते । ततः कथमुक्तमभवदिति उच्यते वक्ष्यमाणवर्गकगृथीक
विभूतिसमन्विता तदेवाभवत् नतुविवक्षितोपांगविधानकाले णतदपिकथमवयमितिचेत उच्यते ।
अथकालो अत्रसपिणी अत्रमपिथयात्र प्रतिक्षणच शुभाभावाहानिमुपगच्छन्ति । एतच्चमुपतीत
जिनप्रवचनवेदनामतीऽभवदित्युच्यमान नविरोधभाक मप्रत्यस्यानयव्यावर्षकमाह (रिडित्विमियस
मिडा जावपामादीयादरिसणीया अभिरुवापडिह्वा इति) षट्शामवने पोरजनप्रचातीववृडिमु
पागता षट्शवृडावितिवचनात् स्तिमिता स्वचक्रपरचक्रतस्करडमरादिसमुत्यभयकल्लीलमान्नाविव
ज्जता, समृद्धा धनधान्यादिविभूतियुक्ता ततः पदवयस्यापिविशेषणसमास । यावच्छब्देन ‘पमुद्
यन्ननजानवया’ प्रमुदिता प्रमोदवन्तः प्रमोदहेतुवस्तुना तवसद्भावात् जनानगरीवास्तव्यालीका
जानपदा जनपदभवास्तत्रप्रयोजनवशात्प्रायाता मन्ती यव सा प्रमुदितननजानपदा, “आइयज्जण
मणसा’ मनुव्येज्जनेराकीणा प्राकृतत्वात्पदव्यत्यय । “हलसयसहस्रसकडविगडलडपवत्तसेतुसीमा” ।
इलानागते सहस्रे शसकृष्टाविलिखिताविकृष्टानगया दूरवत्तेतीवरेर्वर्त्तनीतिभाव , सत्प्राप्तनीजा
प्राञ्चैवकेराप्ताप्राञ्चान्ताच्छेकपुररूपपरिक्रमितीतिभाव , सेतुसीमाकुल्याजलसेवयचेवमीमा यस्या
सा हलगतमहस्रसृष्टविफुटलषट्प्राञ्चान्तसेतुसीमा । “कुकुडसडैयगामपउरा” कुक्कुटसपात्या
गामा सन्वासुदित्तुविदित्तुच प्रसुरायस्या सा कुक्कुटसडैयगामप्रसुरा गोमहिषगावलगत्यभूया
गावो वलीवहा महिषाप्रातीता गावः शोणव्यपडकाउरत्वास्तेप्रभूतास्यसा सा तथा । “आवारइत्ताच
इउज्जवदिसिद्धसन्निविद्धवह्वला” अकारवन्तिसुन्दराकाराणिचेत्यानियुवतीनांच पणयतरुणीनामिति

मूरियाभयण्ड उपनी भगवत आगलिआ वीनाटिकदेवास्यु एहवीसककलवकव्यतानइ एहनैविपड
तणिकारणिगजप्रग्नीकडियइ । नमस्कारयाउ अरिहत्तणी नमस्कारथाउमिड प्रतिनमस्कारथाउ
आचावभणी नमस्कारथाउ उपाध्यायभणी नमस्कारथाउ लोक अटीडीपरुखनेइमाहि सर्वसाभू
णीएइ मगलीकभगीपाचपददेपाह्या तेषाड कानइ अत्रसपिणीकालनइ चुडइ अरइ तेषाड समइ
असरवाचाज्जणइ समइमूयाभदेवइ भगवत आगलीनाटकदेपामइ आमलकल्पानामनगरी

भाव, विगिष्टानि सन्निविष्टानि सन्निवेशपाठका इतिभाव, बहुजानिबहुनियस्या सा तथा ।
 “उक्त्वोडियगायगविभेदतक्वरखडरस्कगद्विया” उक्त्वोडालवा तथा चरन्ति उक्त्वोडिकागैतैगविभेदे
 शरीरविनाशकारिभिर्गुन्यभेदेर्गुन्यिच्छेदे तस्करै मण्डरचैर्देण्डपाशिकैरहितै । अनेनतवीण्टव
 कारिणामभावमाह । चेमा अगिवाभावात् । “निरुहवा” राजादिकृतोपद्रवाभावात् । सुभिचा भिच
 कायामभिकाचावा मुलभत्वात् । “वीसत्यसुद्धावासा” विश्वस्तीनिर्भय सुम्भभावामोलोकानावरयां सा
 तथा, “अशैगकीडीकीटुम्बियाडस्यणिवुत्तनुहा” अनेककीटीभिरनेककीटीसप्यके कौटुम्बिकैरावीणा
 निर्वृत्ता सन्नुटजनयोगात्शुभाशुभवस्तुपेतत्वात् तत पटतयकम्मधारय । “उडनडडडलमल्लमुडिव
 वेलम्बगकडगपवकलासक आडम्बयलखमखज्जणडडल्लतु ब्रवीणियअणेगतालाचराणुचरिया” । नट्ट
 नाटकाना नाटयितारो नत्तकायेनृत्यन्ति, जल्लाराज्ज स्तीवयाठका मल्ला प्रतीतामीष्टिकामल्ला
 एवधेमुष्टिभि प्रहरन्ति, विडम्बकाविट्टपका कवकाप्रतीता एवकावेउत्पवन्तेनद्यादिक वा
 तरन्ति, लासकां वेरासकान गायन्ति =यगन्दोप्रयोक्कारोवैभण्डाडयर्थ, आप्यायिका येशुभा
 शुभमाप्यान्ति लखा मङ्गावगागुखेलका मङ्गाअिचवफलकहस्ताभिचाका । “तूणडल्ला” तूणाभि
 धानवादाविशेषवन्त । “तुम्बवीणिका” तुम्बवीणवादका, अनेकचयेतालाचारास्तालादानेनप्रिचाका
 रिण्टणैस्वैरनुचरिता यामेविता या सा तथा । “आरामुड्याणयगडतन्नागदीडियवपिण्यगुणोववेया”
 आरामा यवमाधवीलतागुहादिपु दम्पत्यणत्यादिन्योरमन्ते उधानानिपुण्यादिमदृचसकुलान्युत्पजादी
 वडुजनभोग्यानि । “अगडत्तिअवटा कूपा” स्तडागानिप्रतीतानि दीर्घिका सारियव वपिण्यविकेदारा
 एतंगुणोपपेता रम्यतादिगुणोपपेता यस्या सा तथा । “उडिविडडडडल्लगभीरस्रातफलिहा” उडिविड
 उ ड विजुलविस्तीर्णं गभीरमलभ्यमध्य स्नातमुपरिविस्तीर्णमधसकुचित परिवाच अथउपरिवसम
 स्नातरूपा यस्यासा तथा । “चक्कवगयमुमधियरोहसयगिवज्जमल्लकवाउधनदुप्यावसा” दक्काणिप्रहरण
 विगेषपाणि गदाप्रहरणविशेषा मुपटयोप्येव रूपाअवरोध प्रतीकीडारिभन्त प्राकारसाभार्यत
 गताशुमङ्गापट्टवीमङ्गाशिलावाजा पातितो गतानिपुरुपाणाधुन्ति यमलानिसमरथेतद्वयरूपाणि
 यानि कपाटानिघनानिचनिर्दिष्टाणि एतदु प्रवेगा ज सा तथा । “धगुर्कुडलव कपागारपरिरिक्त्ता”
 धनु कृटिल कृटिलधनुस्ततीपिवक्केयप्रकारेणपरिचिप्ता या सा तथा । “कविसीसयवट्टडउमवियवि
 रायमाणा” कपिगीवीक्रेत्तगपितसस्यितैव तुलकृतसथानैविगज्जमाना शोभमाना मा तथा ।
 “अडालयचरियदारगा पुरतोणउन्नयमुविभत्तरायमग्गा” अडालिका प्राकारोपरिभूत्याश्रयविशेषा
 चरिकापट्टहस्तप्रमाणोमाग, द्वाराणिभवनदण्डकुलादीना गोपुराणिप्राकारद्वाराणि तीरणानिच
 उन्नतानि उच्चानियम्या सा तथा, मुविभक्ताविविक्कारजमागायस्या मा तथा, तत पदद्वयस्य
 कम्मधारय । “क्रेयायरिवरडवदटफलिहडुक्कीला” क्रेकन निणुणेनाचायेण शिल्पपाद्याजिनरचितो

पूर्विद्विती भगवतादिक ऋद्धिमहितनड मूखजपरधक्कभूयगद्वित धनधानिसहित यावभट शब्दइ

फष्पाए ण्यरीए व्हिया उत्तरपुरखिमैदिसीभाए, अम्बसाल वणैणाम चेईए
होत्या पोराणे, जावपडिहूवे असोयवरपायावे पुढविमिला वट्टए वत्तच्चया

हदोबलवान् परिषीऽगुं लाडद्रकीलश्च रूपाटितकपाटहवाधारभूत प्रवेशमध्यभागी यस्या सा तथा ।
“विविधवणिष्वेत्तसिपियाडन्नित्वुडमुहा” । विपणीनांवणिक्वद्यानाहृदमागाथा वणिजाचचेत्
स्थान सविपणिवणिक्चेत्, तथा गिल्पिभि कु भकारादिभिर्निर्वृत्ते सुखिभि शुभैस्त्रवकर्म-
कुमलैराकीण्याप्रकृष्टा त्वाच्चवत्वेऽन्यथा पदोपन्यास तत पूर्वपदेन कर्मधारय । “सिधाड
गतिवचउक्कचत्तरपणियापणविधिह्विसुपरिमडिया” । शृ घाटकविकचतुष्वचत्वरै पणितानि
क्रे याणि तत्प्रधानेषु आपणेषु यातिविविधानि वस्तूनि द्रव्याणितैश्च परिमडिता शृ घाटक विकीण
स्थानत्रिक यत्र स्थयावयमिलति, चतुष्करष्टाचतुष्टयमीलनात्मक चत्वर बहुरथ्यापातस्थान
सुरभ्या अतिरभ्या । “नरवडपविडवणमहिबडपहा” । नरपतिना राज्ञा प्रविकीर्णैरामनागमनाभ्या
व्याप्तो मन्त्रीपतिपथीराजमागा यस्या सा तथा । “अथोगवरतुरगमत्तकु जरमहकरसीयसदमागी
आइअजाणजुग्गा” अनेकेवरतुरगाथा मत्तकु जराणा रथाना च सहकारै सघातैस्तथा शिविकाभि
स्यदमानोभियानियुग्गेश्चाकीणा व्याप्ता सा तथा । आकीणमब्दस्य मध्निपात प्राकृतत्वात्
तत्र शिविका । कूटाकारेणाच्छादिता जपानविशेषाः स्य दमानिका पुरुषप्रमाणजपानविशेषा
यानानि शकटादीनि युग्यानि गोल्लवेपन्नप्रसिद्धानि द्विहस्तप्रमाणानि वेदिकेषुशीभितानि जपा
नान्येव । “विमलउनवनलिनशीभियजला” विमुकुलैर्विकसितैरनेलिनै कमलै शीभितानि जलानि
यस्या सा तथा । “पडरभवणपत्तिमहियाउत्ताययनयणपिच्छणैह्याडतिमुगमापासाइया
इत्यादि” । प्रासादेषु भवा प्रासादबहुलाइत्यथ, अतएव दर्शनीया द्रष्टु योग्या प्रासादा-
नामति रमणीयत्वात् । तथा अभिद्रष्टन् प्रतिप्रत्येकमभिसुखमतीवचेतीहारित्वात् । रूपमाकारी
यस्या सा अभिरूपा । एतदेवव्याचष्टे प्रतिरूपा प्रतिविशिष्टमसाधारण रूपमारायस्या सा
प्रतिरूपा (तीक्ष्णमित्यादि) । तस्याणमिति पूर्ववत् । आमलकल्पाया नगत्या बहिरुत्तर
पौरष्टे उत्तरपूर्वारूपेडशानकोणेइत्यर्थ । दिग्भागे (अवसालवणेइति) आमू शालैश्चातिप्रचुरतयो
पलचित यदन तदामृशालावन तद्योगाचैत्यमपि आमृशालवन त्रितैर्लप्यादिवचनस्य भाव का
वा चैत्य तच्चसजाशब्दत्वात् देवता प्रतिविम्बे प्रसिद्ध । ततस्तदाश्रयसभूयईवतायागृह
तत्पुष्पवारात चैत्य तच्चैह्यतरा यतन द्रष्टव्य नतु भवतामर्हतामायतनहोत्या इति अभव

सरुलनगरीनउ वणकनूगिवउ प्रासादघणावड अथवखिउनइ प्रालहान्करइवड, तथाइ करपा
तेनगरदेसवायोग्यवड मनोजरुपवड प्रतिरूपकहिताक्षणा प्रतिजणीनडनउजरुवथाइ जेहभया
तडागा कारतैसद्धशीभाले अर्थइ आमलकल्पानगरीवड वाहिर उत्तर पूर्ववचइ दसविभागि
सानकूणिया अथवा सालवनतेयाइज नामड चैत्ययतननहुतउ जतुवड यावत् शब्दइ समस्तचैत्यनउ

च (किमुपि उचितम्) । शिरातीति पुराणोवावच्छब्दकारणात् "सद्विपरिचित्पनाएसकृत्ते सम्भए"
 "जावपडिक्खे" धम्मनिउवर्णकपरिगुह । एव रूप च चैत्यवर्णकमुक्ता वनखडवक्तव्यता
 "सत्त्वती समन्ता सपरिखिते" । "सैथअवसाखवणेचेइए एगेणमइयावणखडेण सत्त्वती समन्ता सपरिखिते" ।
 "पासाइएदरसणिज्जेअभिरूवेपडिक्खे" । तव
 कृष्णावभासत्वादिना गुणेन मन प्रसादहेतुत्वात् दर्शनीय बहुरानन्दहेतुत्वात् अभिरूप
 तिरूपशब्दार्था प्रागवत् । तत उक्त । (जावपडिक्खेअसोगेत्यादि) । अशोकपादपस्य पृथिवी
 शलापट्टकस्य च वक्तव्यता अपपातिकगुन्धानुसारं च ज्ञेया । "सावैवतम्मण वणखडस्स बहुमड-
 देसभागे इत्यथ मह एगेअसोगवरपायवे पन्नत्ते, जावपडिक्खे" । "सैथअसोगवरपाय-
 वेअन्नेहिच बहुहितिलएहिजावनन्दिक्खेहि सत्त्वती समन्ता सपरिखिते तेण तिलगा
 जावनन्दिक्खेअकुसविकुसविसुद्धक्खेअमूला, मूलमन्तोकदमन्तो जावपडिक्खे" । "तेण तिलगा
 जावनन्दिक्खेअन्नाहि बहुहि पउमलयाहि नागलयाहि अनीगलयाहि" । "भूयलयाहि
 इलयाहि वासन्नियलयाहि अइमुत्तयनयाहि कुन्दलयाहि सामलयाहि सत्त्वती
 मन्तासपरिखित्ता" । "ताउणएउमलयाउजावसामालाउतिच्चकुसुमियाउजावपडेक्खेवाउ" ।
 "तस्सण असोगवरपायवस्सउवरि वइवेअइइ मंगलगापन्नत्ता" । "तज्जा" । "सोच्छिय-
 सिरिवच्छेनदियावत्तवइमाणगमहासणकलसमच्छेदप्पणा सत्वरयणा मया अच्चासएहा लयहा" ।
 "घट्टामहाणीरया षिम्मलानिप्पका निक्ककटक्खाया सप्पभाससिरीया सउज्जीया पासा
 ईया दरिसणिज्जा अभिरूवा पडिक्खे" । "तस्सण असोगवरपायवस्सउवरि वइवे कियइचा
 मरइया लीहितचामरइया इलिइचामरइया मुक्किल्लचामरइया अक्का, सयहालएहारूप
 पट्टावइरामयदइडा जलयामलगन्धिया सुरम्भापासाइया दरिसणिज्जा अइक्खेवा पडिक्खे तस्सण
 असोगवरपायवस्सउवरि वइवाक्खेचाक्खेत्तापडागातिपडागा घटाभुयला चामरभुयलाउप्पलइत्त्व
 ता पउमइत्थगा कुमुयइत्थगा शलियइत्थगा सुभगइत्थगा सीगन्धइत्थगा पीण्डरियइत्थगा
 महापीण्डरीयइत्थगा सहस्सपत्तइत्थगा" । "सत्वरयणामया अच्चाजावपडिक्खे" । "तस्सण
 असोगवरपायवस्सइहाएत्थणं महाएगेपुटविसिलावट्टएपन्नत्ते इसिखधसमल्लीणे विक्खंभायामसु-
 प्पमाणे कियइ अजणगघथ कुवलयइलहरकीसेज्जसरिसे आगासकेसकज्जलकक्केयथाइदथीलअय
 सिकुसुमप्पगासे" । भिगजण सिगभेयरिइगुलियगवलाइरेग भमरनिकुह बभूते जम्बूफल असण-
 कुसुमबन्धयानीलुप्पलपत्तणिगरमरगया सासगणयणकायारासिवन्ननिडे धणेअभुसिरे रूवगपडि
 इवदरिसणिज्जे आयसगतलोवमे सुरम्मेसीहासणसठिए मुक्खेमुत्तजालखायन्तकम्मे" । "आइण
 गरुयपूरणवणीयतूलफासे सत्वरयणा मएअच्चेजावपडिक्खे" इति अस्यव्याख्या । तम्मणमिति
 पूर्ववत् वनखडस्य बहुमध्यदेशभागे, अत्र पूतस्मिन प्रदेशे, महान् एकीशोकवरपादप प्रज्ञप्त
 स्तीर्थकरगणधरे सचकिम्भूतइत्याह । जावपडिक्खे अत्र यावच्छब्देन गुन्यान्तरप्रसिद्ध विशेषणजात

मुचितं तच्चेदम्,—“द्रुग्यकन्दमूलवद्वल्लसिधिसिल्ले, धणमसिषसिषिडधुपुद्विमुजा
 विह्वरतो विह्वरखन्धो अयोग्यपरवरभूयागेभं कुसुमभरसमीपमन्तपत्तलविमालेसाले
 महुकरीभरगणगुमगुमाइयनिलितउडुन्तसरीरीए याथासउखगयसुमहुरकन्न सुहपलक्षसं
 महुरे कुसविकुसविसुद्धरुक्खमूले पासाइएदरिसिषिजभे अभिरुवे पडिह्वे” तत्र दूरमुद्रावत्पेन
 कन्दस्याधस्तात् मूल यस्य स दूरोद्भुतकदमूलमन्तथावृत्तौवृत्तभावेन परिणत एवनाम सर्वासुदि
 विदिच्च शाखाभिः प्रयाखाभिश्च प्रभूतो यथा वर्तुलं प्रतिभातते इति, तथा लटामनी
 सधय शाखागता यस्य स लष्टसन्धिस्तथाऽरिलप्टीऽन्यै पादपै सङ्घामपृक्ताविविक्तइत्यर्थः । त
 विमेषण समास सच पदद्वय २ मीलनेनावसेयी वहूना पादाना विशेषणसमासानत्युपगमात्
 तथा धनोनिविडो ममूणक्रीमलत्वक न कर्कशपर्शं, स्निग्धं शुभकान्तिं आनुपूयामूला
 परिपाटगा जन्मदीपरहित यथा भवति एव जातचानुपूर्वोसुजात, तथा निरुपहत उपदेहिवा
 द्रवरहित, उद्विड उच्च प्रवरप्रधानस्कन्धो यस्य स धनममूणस्निग्धानुपूर्वोसुजातनिरुपहतोस्ति
 प्रवरस्कन्धः, तथा अनेकस्य मनुष्यस्यैव प्रवरा प्रलम्बाभुजावाहवस्तैरग्राह्योऽपरिमेयोऽनेकनरप्रव
 भुजाग्राह्योऽनेकपुरुषव्यामैरप्य प्रतिमेयस्यैत्य इत्यर्थः । तथा कुसुमभरेण पुष्पसगभारेण स
 पदवनमत्य पवसमुढा, पत्रसमिद्धन्ति स्कंधपित्तलमिति वचनात्, विशालाविरतीणां शालागा
 यस्य स कुसुमभरसमवनमत्यवलविशालशालः । तथा मधुकरीणो च ये गुणा गुमगुमायि
 गुमगुमार्यान्तस्म कर्मकत्वात्कर्त्तरिक्तप्रत्ययो गुमगुमेतिशब्द कृतवन्तः सन्त इत्यर्थः, निलीयमा
 आश्रयन्त उद्गीयमानस्तत्प्रत्यासन्नमाकाशे परिभ्रमन्तस्तैसथोको मधुकरीभ्रमरगणगुमगुमायिता
 लीयमानोद्गीयमानसथीकः । तथा नानाजातीयाना शकुनगणाना यानि मिथुनानि रवीषु सरुग्ना
 तेषा प्रमोदवशतोयानि परस्परसुमधुरापयतएवकणामुखानि कर्णसुखदायकानि प्रलपन्तानि भा
 षानि, शकुनगणाना हि स्वेक्या क्रीडता प्रमोदभरवशतोयानि भाषणानि तानि प्रलिप्तानी
 प्रसिद्धानि ततः प्रलपन्त्युक्त तेषा य शब्दीध्वनि स्तेन मधुरो नानाशकुनगणमिथुनसमधुरकर्णसु
 प्रलप्यशब्दमधुरः । तथा कुशदभादयो विकुशावच्चकादयस्तैर्विशुद्ध रचित वृचय कामल
 शोकपादपस्य इहमूल शाखादीनामपि आदिमीभागो लक्षणया प्रीच्यते, यथा शास्त्रामूलमि
 प्रमाखामूलमित्यादि, ततः सकलागोकपादपसकमूलप्रतिपत्तये वृचगुण मूल यस्य
 कुशविकुशविशुद्धवृचमूलः । यश्चैव विधुः सहट्टणा चित्तसन्तोषाय भवति तत आह, प्रसादी
 प्रसादाय चित्तसन्तोषाय हितस्तद्व्यादकत्वात् प्रमादीयो अक्षर्य दर्शनीयो द्रष्टु योग्यः कस
 दित्याह, अभिरूपो द्रष्टारः २ प्रत्यभिमुख न कस्य चिद्विरागहेतुरुपमाकारो यस्यसोऽभिरूप
 एव रूपोक्तइत्याह । प्रतिरूपः प्रतिविशिष्ट सकलजगदसाधारण रूप यस्य स प्रतिरूप
 “शेष अमीगवरपायवेइत्यादि जावनन्दिह्वर्षेहि” इत्यत्र यावच्छब्दकरणात् “लडएहि क्व
 वगेहि सिरीसेहि सत्तवर्नेहि दहिव तेहि लोहोहि धवेहि चन्दणेहि अक्खणेहि नीमेहि कयस्वे

फणिसिद्धि । दालिमैद्धि सालेद्धि तालेद्धि तमालेद्धि पियगूद्धि रायकवखेद्धि” इति परिग्रह । एतेच-
 लवककृत्तीपगमिरीप सप्तपर्यदधिपर्यलोध्रकधवच दनार्जुनीनीपकदम्बपनसदाडिमतालतमालप्रियाल
 मियगुराजवृच नन्दिवृचा प्राय सुप्रसिद्धा । “तेषा तिलगा जावनन्दिवृक्षा कुसविकुसेत्यादि”
 ते तिलकायावन्नन्दिवृक्षाकुशविकुशविशुडवृक्षमूला अत्र व्याख्या पूर्ववत् । मूलवन्त मूलानि
 प्रभूतानि दूरावगाढानि मत्स्योपामिति मूलवन्त, कन्दएवामस्तीति कन्दवन्त, यावच्छब्दकारणात्
 “अन्धिमन्तो तयामन्तो सालमन्तीपवालमन्तो यत्तमन्तोपुष्पमन्तो वीयमन्तो अणुपुष्पसुजायरुडल-
 वदृभावपरिणया एगखधी अणुगसाहृषसाहृषडिमा अणुगनरवामसुष्पसारियअगिअधयाविपुल
 वदृखधी अक्रिहृपत्ता अवरिलपत्ता अवाइणपत्ता अणुइणपत्ता शिदुयजरठपयडुपत्ता नवहरिय-
 भिसन्तपत्तभारन्धवारगम्भीरदरिसणिज्जा । उवन्निरगय नवतरणपत्तपल्लपकोमलउज्जलचलत
 किसलसुकुमालपवालसोभियपवरकुर गसिहरा निच्चकुसुमिया निच्चमडलिया निच्चलवइया निच्च
 योच्छिद्या निच्चजमनिया निच्चहुयलिया निच्चखिवमिया निच्चपणमिया निच्चकुसुमियमडलि-
 यलवइयवइयगुलइयगुच्छियजमलियजुयलियविषामियपयामियसुविभक्तिण डिमञ्जरि वडिसयधर
 सुकवरइयामयथासलागाकोइलकीरुगकभिष्मारक कोणडलकजीवञ्जीवक नन्दीसुस्रकतिलविष्वा
 लवखगाकारणडवचकक्रवाग कलइस सारस अणुगसउयागयामिहुषाविरियसहोन्नय महुसर-
 णाइया, सुरम्मा सपिण्डवदरियभमर महुयरिपइकरपरिल्लेन्तमत्तइष्यय कुसुमासबलोमलमहु
 गुमगुमन्तगुञ्जन्तदेसभागा । अन्धिनरपुष्पफला वाहिरपत्तोक्कापत्तं हिय पुष्पेहियउकवपलि-
 छचानिरीगकासाउफलानिइफला । अकण्टकाथाथात्रिइगुच्छगुम्भप्रणडवगसीहयाविचिचसुइ-
 केउपभूया । वाविपुष्करिषिदीहियासुयसुनिविसियरम्मजालयरगा पिण्डमनीहारिमसुगन्धिसुइ-
 सुएभिमणाहरम्बमंइया गन्धइयामुयन्तासुइसेउकेउबहुला । अणुगसगडजायाजुगगिल्लि
 थिल्लिमीयसन्दभाणिपडिमीयया पासाइयादरिसणिज्जा अभिरूता” इतिपरिग्रह, अस्यव्याख्या ।
 इह मूलानि सुप्रतीतानि यानि कन्दस्याध प्रसरति कन्दास्तीषा मूलानासुपरिवात्तं नमते अपि
 प्रतीता सन्धीयुड त्वक् कल्लीयाला शाखा प्रवाल पल्लवाकुर । पत्रपुष्पफलवीजानि
 सुप्रसिद्धानि सर्वत्राणियायेन क्वचित् भूमिवामनुप्रत्यय । “अणुपुष्पसुजायरुडलवदृभाव परिणया”
 इति अनुपूर्व्यामूलादि परिपाटनसुष्टुजाता आनुपूर्वीसुजाता २ रुचिरा स्निग्धतयादेदीप्यमान-
 छविमन्त, तथा वृत्तभाव न परिणता किमुक्तम् भवति । एवं नाम सवासुदिचुचशाखाभिश्च
 प्रभूता यथा वतुला सन्ताता इति, आनुपूर्वीसुजाताश्चते रुचिराश्च आनुपूर्वीसुजात
 रुचिरास्तेच ते वृत्तभाव परिणता, आनुपूर्वीसुजातरुचिरवृत्तभाव परिणता । ते तथा तिलका-
 दय पादपा प्रत्येकमेकस्क्रन्धाप्राकृतेचास्य स्वीत्वमिति एगसन्धी इति सूत्रपाठ । तथा अनेकाभि-
 मशाखाभिश्च मध्यभागेविटापीविस्तारी येषा ते तथा । तथा तिर्यक्वाहुइयप्रसारणा प्रमाथो-
 न्याम व्यामीयते परिच्छिद्यते रज्जाद्यनेनेतिव्याम । बहुलवचनात् करणैकचिदितिइप्रत्यय ।

अनेकैर्नरव्यामै पुरुषव्यामै सप्तसारितैरग्राह्योऽप्रमेवो घनोनिघडोविपुलोतिगतीर्गावृत्त' इव धी
 येवा ते अनेकनरव्यामसुप्तसारिताग्राह्यायनविपुलवृत्तस्कन्धा । तथा अग्निद्राणि पत्राणि
 येवा ते अग्निद्रपत्रा, किमुक्त भवति । न तेषा पत्रेषु वातदीपता कालदीपती वा गदुरिकादि-
 रीतिरूपजातीयेन तेषु, पत्रे क्षिद्राण्यभविष्यन्तितीत्यग्निद्रपत्रा । अथवा एव नामान्योन्य
 शास्त्रप्रशास्त्रानुप्रवेशात्पत्राणि पत्राणामुपरिजातानि येन भनागप्यपान्तरालरूप क्षिद्रनोपलक्ष्यते
 इति तथा चाह । "अविरलपत्रा इति" । अथ हेतो प्रथमाततोऽयमर्थः । यतोऽविरलपत्रा इति
 अपि कुत इत्याह । अवातीतपत्रा, वातीनानि वातोपहतानि वातेनपातितानोत्यर्थः । न
 वातीनानि अवातीनानि पत्राणि येवा ते तथा, किमुक्त भवति, न प्रबलेन स्वरसुरूपेण वातेन तेषां
 पत्राणि भूमौ निपात्यन्ते ततो अवातीनपत्रत्वादविरलपत्रा इति । अग्निद्रपत्रा इत्यत्र प्रथम-
 व्याख्यानपत्रमधिकृत्य हेतुमाह । "अथाईद्रपत्रा" नवियते इति, गदुरिकादिरूपा येवा तान्य-
 नीतीनि पत्राणि येवा ते अनीतिपत्रा, अनीतिपत्रत्वच्चाच्छिद्रपत्रा । "निहुयजरठपण्डुपत्रा" इति
 निर्हृतानि अपनीतानि जरठानि पाण्डुपत्राणि येभ्यस्ते निर्हृतजरठपाण्डुपत्रा, किमुक्त भवति यानि
 वृक्षस्थानि जरठानि पाण्डुपत्राणि, वातेननिर्हृत्यनिर्हृत्यभूमौ पातितानि भूमेरपि च प्रायोनिर्हृत्य
 निर्हृत्यान्वापसरितानीति । "नवहरियमिसन्नपत्रभारन्धयारगम्भीरदरिसिपाज्जा" इति नवेन
 प्रत्यगुं ष हरितेन नीलेन भासमानेन स्निग्धत्वचादीप्यमानेन पत्रभारेण दलसञ्चयेन योजातोऽन्ध-
 कारस्तीन गम्भीरा अलब्धमध्यभागा स्ततोदर्शनीया नवहरितभासमानपत्रभारान्धकारगम्भीर-
 दर्शनीया । तथा उपविनिगृतिरिति भावः । नव तरुणपत्रपल्लवैस्तथा कीमलैर्मनोर्गैरुज्वलै
 शुद्धैश्चलद्विरीपत्कम्पमानैः किसलयैरवस्थाविशेषोपेतैः पल्लवविशेषैस्तथासुकुमारैः प्रवले
 पल्लवाकुरैः शोभितानि वराकुराणि वराङ्कुरापेतानि अगृगिस्त्राणि येवा ते उपनिगृतनव-
 तरुणपत्रपल्लवकीमलोज्वलचलकिसलयसुकुमार प्रवालशोभितवराङ्कुरागृगिस्त्रा । इहाङ्कुर-
 प्रवालयोः कलकृतावस्थाविशेषाद्विशेषोभावनीयः । तथा नित्यसर्वकाल पदस्वपिपहतुपुद्रत्यर्थः ।
 कुसुमिता कुसुमानि पुष्पाणि सञ्जातान्येषामिति कुसुमिता, तारकादि दर्शनादितप्रत्यय
 "नित्त्वम्भलिया" इति नित्य सर्वकाल मुकुलिता मुकुलानि नामकुमलानि कुलिकाइत्यर्थः, "नित्त
 लवइया" इति पल्लविता, "नित्यन्यवइया इति स्तबकिता, स्तबकभारवन्त इत्यर्थः, नित्त
 गुलइया इति गुल्मिता, स्तबकगुल्मी गुच्छविशेषी, नित्य गोक्षितो गोच्छवन्त, नित्य जमलिता
 यमलन्नामसमानजातीययोर्गुग्म तत् सञ्जातमेषामिति यमलिता, नित्य युगलिता युगल सजातीय
 विजातीययोर्द्वन्द्वन्तदेवा सञ्जातमिति युगलितास्तथा, नित्यं सर्वकाल फलभरेण विनता
 ईपन्नता स्था, नित्य महता फलभरेण प्रकर्षतोऽति दूरनता प्रथता । तथा नित्य सर्वकाल
 सुविभक्तासु विच्छिक्तिका प्रतिविशिष्टोमञ्जरोरूपीयोऽवतसञ्च तहरास्तहारिणः । एष सर्वेपि
 कुसुमितत्वादिको धर्मैकैकस्य वृक्षस्योक्त साम्प्रतश्चेत्पाचिद्दृष्टाणा सकल कुसुमितत्वादिब

धर्मप्रतिपादनार्थमाह । “निच्चकुसुमियमउलिये” त्यादि किमुक्त भवति केचित्कुसुमितार्थं कैक-
 गुणयुक्ता, केचिच्छमस्तकुसुमितादि गुणयुक्ता इति, अतएव “कुसुमयमालइये” इत्यादि पदेषु
 कर्मधारय । तथा शुक्रवर्द्धिण्य मदनमालिका कीकिलाकीरककीभक भिष्मारक कीण्डलक जीव
 जीवक नन्दीमुख कपिल पिष्मालाचकारण्डव चक्रवाक कलहससारसारयाना यनेकेपाशकुन-
 गणाना मिथुने स्त्रीषु सयुग्मे र्यत्विचरितमितस्ततीगमनम्, यथा शब्दोन्नतिक उन्नतशब्दक
 मधुरस्वरञ्चनादित लपित येषु ते तथा, अतएव सुरस्या सुष्टुरमणीया । अथ शुका
 कीरा बह्व्योमयूरा मदनमालिका शारिका कीकिला पिका चक्रवाककलहससारसा प्रतीताः
 शेषास्तु जीवविशेषा लोकीती वेदितव्या, स्तथा सपिण्डता एकव पिण्डीभृता हृता मदीन्मत्ततया
 दृगाधमाता भ्रमरमधुकरीषाम्पङ्करा सञ्जाता, “पङ्करभरोहसप्राया” इति देशीनाममाला
 वचनात् यत्र ते सम्पिण्डतदृप्तभ्रमरमधुकरीपङ्करा, स्तथा परिलीयमाना अन्यत आगत्या
 श्रयतीमत्ता पदपदा कुसुमासवलीला किञ्जल्कपानलम्पटा मधुर गुमगुमायमाना गुञ्जतश्च
 शब्दविशेष च विदधाना देशभागेषु येषां ते परिलीयमानमत्तपदकुसुमासवलीलमधुरगुमगुमाय
 मानगुञ्जन्तदेशभागा । गमकत्वादिवमपि समास, स्तती भूय पूर्वापदेन सङ्ग विशेषण
 समास । तथा अभ्यन्तराणि अभ्यन्तरभागवर्त्तिनि, पुष्पाणि च फलानि च पुष्पफलानि येषा
 ते तथा । “वाङ्गिपत्तोच्छ्रया” इति बद्धित पत्रेशन्ना व्याप्ता बद्धि पत्रशन्ता, स्तथा पात्रैश्च
 पुष्पैश्च अवृच्छन्नपरिक्लन्ना अत्यन्तमाच्छादिता, स्तथा नीरीगकारोगवर्जिता अकण्टका
 कण्टकरञ्जिता न तेषा प्रत्यासन्नावबूलादि वृक्षा सन्तीतिभाव, तथा स्वादूनि फलानि येषा
 ते स्वदुफला, स्तथा स्निग्धानि फलानि येषां ते स्निग्धफला, स्तथा प्रत्यासन्नेनानाविधैराना-
 प्रकारै गुञ्जैर्वृताकीप्रभृतिभि गुल्मै नवमालिकादिभिर्मण्डपकै शोभिता नानाविधगुच्छगुल्म-
 मण्डपकशीभिता, स्तथा विचित्रैरानाप्रकारै शुभैर्मञ्जालभूतै केतुभि ध्वञ्जै वञ्जुला व्याप्ता
 विचित्रगुभकेतुबहुला, तथा “वाविपुस्करिणीदीङ्घियासुयसुनिवेत्तियरम्मञ्जालधरगा,” वाप्यश्चतुर-
 म्गकारस्ताएव वृक्षा पुष्करिण्यी, यदि वा पुष्कराणि विद्यन्तेयासु ता पुष्करिण्ये दीघिका
 ष्टञ्जुसारिण्य, वापीषु पुष्करिणीषु दीघिकासु च सुष्टुनिवेत्तितानि रम्याणि, जालगृहकानि
 येषु ते वापीपुष्करिणीदीघिकासु सुनिवेत्तितरम्यजालगृहका । तथा पिण्डिमा पिण्डिता
 मती निहारिमादूर विनिगच्छन्ती पिण्डिननिहारिमा ता सुगन्धिसङ्गन्धिका शुभसुरभिरण्यी गधा
 न्दरेभ्य सकाशात् मनोहर शुभसुरभिमनोहरा तां च “मह्या” इति प्राकृतत्वात् । द्वितीयार्थे
 तृतीया महतीमित्यर्थ । “गन्धघ्राणि” यावद्भिर्गन्धिपुद्गलैर्गन्धिविषयेघ्राणिरूपजायते, तावती
 गन्धपुद्गलसङ्गतिरूपचारात् गन्धघ्राणिरित्युच्यते, तान्निरन्तरं मुञ्चन्त । तथा “सुहृसेडकेड
 बहुला” इति शुभा प्रधाना सेतवीमागा आलवालपाल्यी वाकेतवी ध्वजा बहुलावहवो येषां ते
 तथा । “अथेगरहसगडजाणुग्गगिल्लियिल्लिसिवियपडिमीएया” इति, रघाद्विधा क्रीडारथा

मग्नमग्न्याश्च शकटानि प्रतीतानि यानानि सामान्यतः श्रेयाणि वाहनानि युग्यानि गीत्सद्विषय
 प्रमिद्धानि द्विहस्तप्रमाणानि वेदिकीपश्रीमितानि जम्पानानि शिविका मूटाकारिणावार्तता
 नम्पानविशेषा, स्थन्दमानिका पुरुषप्रमाणजम्पाविशेषा, अर्नकेया रथशकटादीनामधीवि-
 स्तीकृत्वात् प्रतिभोचन वेपु त तथा । “पासादीया” इत्यादि पदचतुष्टय प्राग्वत्, “तेश तिलगा”
 इत्यादि पाठसिद्ध, “नवरन्नागलगाहि” न्नागाद्रमविशेषा, “वषलधाइतिवशा” अपिद्रमविशेषा ।
 द्रमाणाञ्चलतात्वमेकशाखाकाणा द्रष्टव्य वेहिद्रुमाद्रहागतैकशाखा नतु दिग्बिदिक्, प्रवृत्त
 बहुशाखास्ते लता इति प्रमिद्धानि । “निच्चकुमुमिताउ जावपाइरुवा” इत्यत्र यावच्छब्दकरण्यात्
 ‘निच्चमालइयाउ णिच्चलवइयाउ णिच्चयवइयाउ निच्चगुकियाउ निच्चगुमियाउ निच्चमलि
 याउ निच्चजुयलियाउ निच्चविणमियाउ निच्चपणमियाउ निच्चसुविभत्तपडिमकरिवडेसगधी
 उ निच्च’ । “कुमुमियमालइयवइयलवइयगुहियविणमिय सुविभत्तपडिमजरिवडिसगधीउ
 सपिडियदरियभरमइयपरिहकरपरिलेत मत्तवप्य कुसुमासवलीलमहुकरिगण गुमगुमेत-
 गुञ्ज तदेसभागाउपासाइयाउइरिसणिज्जाभभिरुवाउपडिरुवाउ” इति एतच्चसप्त प्राग्वत
 व्याख्येय । तस्यथामिति प्राग्वत, अशोकवरपादपस्य उपरिवहूनि चाटावटी मगलकानि
 प्रज्ञप्तानि । तद्यथा, स्वस्तिक “थीवच्छनदिया वत्ते” इति नन्द्यावत्त ववचित् नन्द्यावत्तइति
 पाठ, तव नन्द्यावत्त इति शब्दसम्कार । वद्धमानक शरावसपुट भद्रासन कलसोमशययुग्म
 दप्यथा । एतानि चाप्टावपि मगलकानि सर्वरत्नमयानि, अस्कानि आकाशाकृष्टिकवदतीव-
 स्वस्कानि श्लक्ष्णाणि श्लक्ष्णपुहुलस्कन्धनिप्यन्नानि, श्लक्ष्णनिप्यन्नपटवत्लवहानि मश्रुथानि
 घुटितप्रवत । “महा” इनिघृष्टानीवघृष्टातिस्तरशाणया पापाणप्रतिमानवत् । “महा” इति
 मृष्टानीवमृष्टानि सुकुमारशाणयापापाणप्रतिमेव अतएव नीरजाति स्वाभाविक रजोरहितत्वात् ।
 निम्नलान्यागन्तुकमलाभावात् निप्यकानि कनकविकलानि वद्धमरहितानि वा । “निक्कवट
 काया” इति निष्ककटानि निष्कवचानि रावणानिरुपघातेतिभावाद्यं, कायादीप्तिर्येषां तानि
 निष्ककटशायानि । मप्रभाणि स्वरूपतः प्रभावन्ति समरीचानि वहिर्विनिर्गतकिरणजालानि
 अतएव सोद्योतानि वहिर्व्यवस्थितवस्तुस्तीमप्रकाराकराणिपाइया इत्यादि । पदवचतुष्टयव्याख्या
 पूर्ववत् । तस्यथामित्यादि तस्यथामिति प्राग्वत, अशोकवरपादपस्थीपरिवहव कृष्णचामरध्वजा
 चामराणिव ध्वजाश्च चामरध्वजा कृष्णाश्च ते चामरध्वजाश्च कृष्णचामरध्वजा । एव नील-
 चामरध्वजा लोहितचामरध्वजा, हारिद्रचामरध्वजा । एतेच कथम्भूता इत्याह । “अक्षा”
 स्फटिकवदतिनिर्मला, श्लक्ष्ण श्लक्ष्णपुहुलस्कन्धनिप्यन्नारुप्यपट्टा इति रूपी रूप्यभयोवज्जुमयस्य
 त्र्यडश्रीपरिपट्टो येषां त रूप्यपट्टा तयदपडा इति वज्जीवज्जरत्नमयोदगडी रूप्यपट्टमध्यवर्ती येषां
 तं वज्जुदपडा । तथा जलजानामिव जलजकुसुमाना पद्मादीनामिवामली गन्धो येषां तं जलजा-
 मलगन्धका । अतएव सुरस्था अतिमयेन रमणीया, पासाइया इत्यादि पूर्ववत् । तस्यथामिति

प्राग्वत् । आगोकवरपादपस्यापरिवर्तनीकृत्वातिकृत्वाणिकृत्वात् लोकरूपमिडादेकस्यपदाकात्प्रतिशा-
योनि कृत्वाणि । उपर्ययोभागेन द्विसंशानि विमच्छानि वा कृत्वाति कृत्वाणि तथा बहवः पडागाइ
पडागा इति पताकाभ्यो लोकरूपमिडाभ्योतिशादिभ्यः पताका पताकाति पताका वञ्चन्तिरेव
कृत्वातिकृत्वादपु, घण्टा युगलानि चामगुगलानि तथा तत्र तत्रप्रदेशे उत्पलहस्तका उत्प-
लाद्य जलजकुमुमभवतविशेषा, एव पद्महस्तका कुमुदहस्तका ननिनहस्तका सुभगहस्तका
सौगन्धिकहस्तका पुण्डरीकहस्तका महापुण्डरीकहस्तका शतपलहस्तका सङ्घस्रपत्रहस्तका
उत्पलवर्द्धभक्तम् । पद्म मृयविकागिपञ्चकत्र कुमुदञ्चैरिव ननिनीपपटत्र पद्म सुभग पद्म-
विशेषः । सौगन्धिक कल्हार पुण्डरीक श्वेतान्बुज तदेवातिविगाल महापुण्डरीक शतपत्र
सङ्घस्रपत्रे पत्रसंख्याविशेषाः । एवञ्चौ पद्मविशेषी एतेच कृत्वातिकृत्वादयः सर्वेपि सर्वरत्न
मया सत्त्वात्मिनारत्नमया । “अच्छासण्डा” इत्यादि विशेषणजातपूर्ववत् । तस्मिन्मत्यादि
तस्यमिति प्राग्वत् । अगोकवरपादपस्याधस्तात् एत्यमिति अगोकवरपादपस्याधस्तात्
एत्यमिति अगोकवरपादपस्ययदधोऽवयमिति पूर्ववत्, एकीमहान् पृथ्वीगलापट्टक प्रज्ञप्त,
क्य भूतइत्याइ, “इसिञ्चन्धीसमल्लीणे” इत्यादि इहस्कन्ध म्हुडमित्युच्यते, तस्यागोकवर
पादपस्य यत् इयत् मनाक सम्यग्लीन स्तटासन्नइत्यर्थः । “विष्कम्भायामसुप्यमाणे” इति विष्क-
म्भेनायामेन शोभनमोचितानतिवर्तिप्रमाणं यस्य स विष्कम्भायामसुप्रमाणः । कृष्णः कृष्णात्वमेव
निरूपयति “पञ्जगघणकुवलयहलहरकीसेज्जसरिस” अञ्जनकी वनस्पति विशेषः, घनोमेघ
कुवलय नीलोत्पल हलधरकीशेय बलदेववस्त्रन्ते मृदुश्च समानवणः । “आगासकेसकज्जकवकीयथ
इन्दनीलअयसिकुमुमप्यगामे” आकाश धूनीमेघादिविगङ्गित केशा गिरसिजा कज्जल प्रतीत
कर्कतनेन्द्रनीलोमणिविशेषो, ऽतसीकुमुम प्रसिद्धमेतपामेज प्रकाशो दीप्तिवस्य स तथा “भग-
ज्जणभशामेयनीलगुलियगवलाइरेगे” इति भृशगञ्च तुरेन्द्रिजपत्तिविशेषो ऽञ्जनसीवीराञ्जन
तस्य भङ्गो न विश्रित्यामे” केंद्रीञ्जनभशामेदीरिष्टकी रत्नविशेषो नीलगुटिका प्रतीता । गवल
माइजगृष्णान्तभ्योपि कृष्णात्वेनातिरेकी यस्य स तथा । “भमरनिकुवभूये” इत्यत्र भूतशब्दोऽप्य-
भवाची यथा घटादेशः सुरलोकाभूतः सुरलोकापमइत्यर्थः, मतीयमथो, भुमरनिकुचम्बोपमो, “जम्बू
फलचसणकुमुमबन्धया तीनुप्यलपत्तनिकारमरगय आसासगनयणकीयासिबत्ते” । जम्बूफलानि प्रती-
तानि अमनकुमुमबन्धन असनपुप्यवृन्त नीलोत्पलपुप्यपत्रनिकरोमरकतमणि प्रतीत । आसासको-
वीकभाभिधानोपुच्चो नयनवीकान्वमध्यतरा । अमिः पड गतेपामिवज्जोऽस्यमतथा, भिनर्धोऽतः
रुचो घनोनिविडोनतुकोप्टकइवमध्यशुषेर । “अभुमिर” इतिशब्दश्चशुषेररहितः । “स्वगर्पाड-
रुवदरिसिञ्जे” इति रूपकाना यानि तत्र प्रतिरूपाणि सक्रान्तानि प्रतिविम्बानितैर्दृश्यनीयो, रूपक
प्रतिरूपदर्शनीयो, आदर्शतनीचमी आदर्शोदप्यन्त्यतलन्तेन समतयीपमायस्य आदर्शतलीपम ।
सुष्टुमनामिरनयतीति सुरस्य कृत्वञ्जुलमितिवचनात्कर्त्तरियप्रत्यय । “मीडासणसगिठण” इति

उवत्तियगामेण १ । सेउराया २ धारिणी देवी सामी
समासट्ट ३ परिसानिग्गया ४ राजा ५ जावपच्छवासइ ६ ।

सिद्धासनस्येव सस्थित सस्थान यस्य स सिद्धासनसस्थित । अतएव सुरूप श्रीभन रूपमाकारी
यस्य स सुरूप । इतश्च सुरूपीयत आह । “मुक्ताजालस्रइयन्तकम्मं” मुक्ताफलसमूहाः
स्रचितानि अन्तकम्मंसु पान्ताप्रदेशेषु यस्य स मुक्ताजालस्रचितान्तकम्मा । “आइयगस्यव्वर
नवनीयतूलफासे” आजिनक चम्ममय वन्त इत प्रतीतम्बूरी वनस्पतिविशेषो, नवनीत स्रचना
तूलमर्कतूल तेषामिव कीमलतयास्यर्थायस्य स आजिनकरुतवूरनवनीततूलस्यर्था । “सव्वरयेणामये”
इत्यादि विशेषणकन्दवक प्राग्वत् ॥ ६ ॥ (सेणरायाधारिणीदेवी जावममोसरणसम्मत्तमिति)
तस्यामामलकल्याया नगर्यांवेतीनामराजा, तस्य समस्तान्त पुरप्रधानाभार्या सकलगुणाधारणा
धारिणी नामदेवी । “जावसमोसरणसम्मत्त” मिति यावच्छब्दकारणात् राजवर्णकी, देवीवर्णक
समवसरणाञ्चीपपातिकगमानुसारेण तावद्वक्तव्यं यावत्समवसरण समाप्त, तथैव “तथण आमल-
कल्मपनयरीएसेणामरायाहोत्या । महयाइमवन्त मलयमन्दरमहिन्दसारे अत्तन्तविसुद्धाराय
कुलवसप्पभूए निरन्तर रायलक्खणाविराइयम्मभ्योन वहुजणा वहुमाणा पूइए सत्वगुणासमिद्धे
खत्तिए मुइए पुद्दाभिसिद्धे भाउपिउसुजाए दयपत्ते सीमच्छरे सीमन्धरे खेमच्छरे खेमन्धरे मणु-
स्सिदे जणावयपाले जणावयपुरीहिण्णे सेउकरे नरपवरे पुरीसवरे पुरिससीहे पुरिसवाग्ग्ये पुरिसआसि-
वसे पुरिसवरपीयडरीए पुरिसवरगन्धहत्थी अट्टेदित्तेचित्तं विकिन्निविपुलभवनसयणाजाणावाइयाइत्ते
धनवहुजयइवरजए आओगपओगसपउत्ते विकिद्धियपउरभत्तपाणा वहुदासीदासगोमहिंसगवेल्-
गप्पभूए पडिपुन्नजन्तकोसकोडागाराउइधरे चलवदुल्ललएव्वमिच्छे उइयकण्टय म्मलियकण्टयम्
उडियकण्टय अण्डिकण्टय उइयसत्तु निइयमत्तु मलियसत्तु निज्जियसत्तु परायियसत्तु ववगय
डुभिक्खदीसमारि भयविमुक्क खेमसिद्धम्मुभिक्ख पसन्तडित्वडमर रज्जाम्पसासेमाणेविहरइ
तम्मण सियस्सरतोधारिणीनामदेवी होत्या, सुकुमालपाणिपाया आहीणपुण्यपञ्चन्दियसरीरा

वणकजाणिकुड देवावायोग्यइ त्ते आममालवनमाहि अग्गीकवच्छइ तेह अग्गीकवृद्धेविप्रथवीसि-
ला पवच्छइ वनग्गीकवृद्धेव्यप्रथिवी सिलापहवत्तव्यतावर्णकउ वाइंसुवजिहा परिजाणिवउ खेत
नाम राजा धारिणीनामदेवीपट्टरायी स्वामी भगवत श्रीमहावीर समोसखा परिपदीवा दिवानीकली
स्वतराजापणिवादिवाआवउ यावत्सत्तिइ कीचिकनीपरिसेवाकरइइइ राजवर्णकराणीवर्णक

(पाठांतराणि) १ । उवत्तियगामेण । २ । सेउराया, तेषासेयोराय, सेणराया । ३ । सामी
मनोउड्डे, सामीसमोसट्टे, जाव समोसरण सम्मत्तम् । ४ । परिसानिग्गया, परिहाणियया । ५ । राजा,
राया । ६ । जाव पच्छवासइ, जावपच्छवासति ।

लक्ष्मणपञ्चगुणोववेया मागुम्माणपमाणपडिपुन्नसुजायसत्वगमुन्दरथी सिसिसीमागारक
 तपियइमणासुरूवा करधलपरिमियपसत्यतिवलजमन्ना कुपडलुल्लिहियपीणगणडलेहा कोसुइ
 रयथियरविमलयडिपुन्नमांसाणया सिग्गासगारचारुवेसा सधयगय हसिय भणिय चिडिय
 विलामलनियसलाननिउणञ्जुत्तीवयारकुसना सुन्दरथणञ्जघनवयणकरचरणायणलान्णविलास
 कलिया सेणवरानानडि अगुरत्ता अरिउत्ताइहे सहकरिसे रसरुनगन्धे पञ्चतिहेमाणुसपकाम
 भांगपच्चगुभवमाणाहिहरइ” । एष राजदेवी वर्गकोऽस्य व्याख्या । “महयाहिमजन्तेति”
 महाहिमवा इमजन्त चेत्यथीचरत सीमाकारीपर्यधर पर्वती मलय पर्वतविशेष मुप्रतीती
 मन्दरोमेरुमहेन्द्र शक्रादिकी देवराजस्तद्वत्सार प्रधानीमहाहिमवन्महामलयमन्दरमहेन्द्रसार ।
 तथा अत्यन्तविगुडे राजकुनञ्जम प्रमूतीऽपञ्जविगुडराजकुलवगप्रभूत । तथा “निरन्तर राय
 लक्ष्मणविराडवधामधो” इति निरन्तरमपलक्षणव्यवधानाभावेन राजलक्षणराज्यमूचकैर्लक्ष्यै-
 र्विराजितानि, अध्यामध्यानि अध्याप्रत्यध्यानि यस्य स निरन्तरराजलक्षणविराजिताध्यामध्या ।
 तथा बहुभिजनैर्बहुमानेनान्तरथा प्रीत्यापूजितो बहुमानपूजित कर्मादित्याह, “सत्वगुणसमिडे” सर्व
 शोभेऽयमार्तिभिर्गुणैः समृद्धं स्फीतं सर्वगुणसमृद्धस्ततो बहुजनबहुमानपूजितो गुणवत्सुभाय सर्वेषा-
 मपि बहुमानसम्भात् । तथा ‘स्वच्छिण’ इति स्वस्थापत्य चत्त्रिय चत्त्रादिय इति इयप्रत्यय ,
 अनेन नवभाण्डमन्दिनरवतराजकुलवगप्रभूतीपि न हीनजातीय किन्तुत्तमजातीयइत्यावेदित ।
 तथा मुदित सर्वकाल ह्यवान् प्रत्यनीकराजकृतीपद्रवासम्भवात् तदसम्भ्रजश्च प्रत्यनीकानामे-
 वाभावात्तयात्वाह, “मुद्धाभिसिक्तेप्राय” सर्वैरपि प्रत्यन्तराज्ञै प्रतापसहमानैर्नान्यथागमाकथा-
 तिरिति परिभाष्य मूढभिर्मत्तकैरभिषिक्त पूजितो मूढाभिषिक्त स्तथा मातृपितृभ्या सुजातो मातृ-
 त्रितुसुजात । अनेन समस्तगभाधानप्रभृति सम्भविदोपविकलइत्यावेदित । तथा दयाप्राप्त
 स्वभावतः शुद्धजीवद्वयत्वात्तथा सेवामागताना पूव्यापूव्वनृपाणा सीमा मयादा करोति, यथा-
 एव वक्ति तव्यमेवन्नेति सीमच्छर । तथा पूर्वपुरुषपरम्परायात् त्वदेमे प्रवर्त्तमाना सीमो
 मयादा धारयति पालयति नतु विलम्पतीति सीमन्धर । अतएव मनुष्येन्द्र तथा जनपदस्य
 पितेवजनपदपिता, कथ पितेवैत्यत आह । जनपदपालः जनपद पालयतीति जनपदपाल, स्ततो
 जनपदस्य पितेव, तथा जनपदस्य ग्रान्तिकारितया पुरोहितइव जनपदपुरोहित, तथा सेतुमार्गस्त
 करोतीति सेतुकरो मार्गदशक इति भाव । केतुश्चिह्नन्तकरोतीति केतुकरोऽह्नुत्सविधानकक्षातीति
 भाव । तथा नरेषु मनुष्येषु मध्ये प्रवरी नरप्रवर सच सामान्यमनुष्यापेक्षण्यापि त्यादतथाह ।
 “पुरिसवरे” पुरुषेषु पुरुषाभिमानीषु मध्ये वरप्रधानम् उच्चमपीरुषोपेतत्वादिति पुरुषवर ।
 यतः पुरुषसिद्धिजाप्रतिमलनतथा पुरुषसिद्ध, स्तथा पुरुषेषु व्याघ्रइव मुरतया पुरुषट्याघ्र ।
 पुनर आशीविपइव दीपविनाशनशीततया पुरुषाशीविष्य । पुरुषोवरपुखडरीकसिद्धीत्तमतया
 सुगनसरीररभूपकत्वात् पुरुषवरपुखडरीक । पुरुषोवरगन्धइस्तीचपरानसहमानात् प्रतीति

पुरुषवरगन्वहस्ती ततो भवति, पुरुषवरस्तथा आद्य समृद्धीदीप्त शरीरत्वचादेर्दीप्यमानत्वात्
 हृष्टोवाहृष्टारिमानमर्द्धनशीलत्वादतएव विचो जगत्प्रतीतो यदुक्तमाद्य इति तदेव सविस्तरमुप-
 श्रयतिच्छिष्टेष्वेत्यादि । विस्तीर्णानि विस्तारवन्ति विपुलानि प्रभूतानि भवनानि गृह्णाणि गयनानि
 आसनानि च प्रतीतानि यानानि रथादीनि वाहनानि अश्वदीनि एतैराकीर्णव्याप्तोत्क्रोको विस्तीर्ण-
 विगुलभवनगयनासनयानवाहनाकीर्ण । तथा बहुधन बहुजातरूप सुवर्णरजत च रूपे यस्य स
 बहुधनबहुजातरूपरजत । तथा आयोगप्रयोगसयुक्त आवाहन विसर्जन कुशल । तथा विद्व-
 र्दित तथाविध तथाविधविशिष्टोपकारकारितया विमृष्टमुकुटिकादिषु प्रचुर भक्षण यस्मिन् ।
 राज्यमनुशासति सविर्दितप्रचुरभक्षणान्, अनेन पुण्याधिकतया तस्मिन् राज्यमनुशासति
 दुर्भिक्षमभूदिति कथं, तथा बहूना दासीना दासाना गवा बलीवर्दाना महिषाणा गवा स्त्रीगवानो
 एडकाना च प्रभू बहूदासीदासगोमहिषगवेलक प्रभु, स्तन स्वार्थिककप्रत्यय विधानात्प्रभुक् । तथा
 प्रतिपूषानि भूतानि यन्त्रकीशकीष्टागाराणि यन्त्रगृह्णाणि कीशगृह्णाणि भाण्डागाराणि कीष्टगृह्णाणि
 धान्याना कीष्टागाराणि गृह्णाणीति भावः । आयुधगृह्णाणि च यस्य स प्रतिपूर्ण्य त्रकीशकीष्टा-
 गारायुधगृह्णाणि । तथाबल शारीरिक मानसिक च यस्यास्ति स बलवान् । दुर्बलप्रत्ययस्मिन् दुर्ब-
 लनामकारणवत्सल इति भावः । एव भूत सन् राज्य प्रशासन् विहरत्य च तिष्ठति इति योग ।
 कथं भूत राज्यमित्याह, अपहृतकण्टक इहर्द्धेभोपद्रवकारिणश्चारटा कण्टकाइव कण्टकारते अव-
 हता अवकासानासीदनेन स्यगिता यस्मिन् तत अपहृत कण्टक, तथा मलिनानुपद्रवकुत्राया मान
 स्तानिमापादिता कण्टका यत् तत् मलिनकण्टक । तथा उद्धृता स्वदेशत्याग जनेन जीवितत्या-
 जनेन वा कण्टका यत् तत् उद्धृतकण्टक । तथा नविद्यते प्रतिमल्ल कण्टको यत् तदप्रतिव्यथक ।
 तथा “उद्धृत् सत्तु” इति प्रत्ययीकाराज्ञान शब्दवर्गे अपहृता स्वावकाशमलभमानिकृता यत् तत्
 अपहृतशत्रुहृतानिहृताश्वार्याण्ये प्रतिता शब्दो यत् तन्निहृतशत्रु । तथा मल्लिनास्तन्नत सै-
 य वामापादानतोमानंम्लानिमापादिता शब्दो यत् तत् मल्लितशत्रु । तथा स्वात्त्वविनाशिन स्वदेश-
 विनाशेन जीवितनाशनेन वा उद्धृता शब्दो यत् तत् उद्धृतशत्रु । एतदेव विशेषणद्वयेन
 व्याचष्टे निजितशत्रुपराजितशत्रु । तथा व्यपगत दुर्भिक्ष दीपमारिश्च यत् तत् व्यपगत
 दुर्भिक्षदीपमारि । तथा भवेन स्वदेशीत्येन परचक्रकृतेन वा विमुक्तम् । अतएव क्षेमनिरूपद्रव-
 शिक शान्त सुमिच्छ शोभना शुभाभिजा दर्शनिनाञ्च यत् तथा सुमिच्छम् । तथा प्रशरतानि
 डिम्बानि विघ्नाडमराणि राजकुमारादिकृतविदूरा यत् तत् प्रशातडिम्बडारमरम् । देवी वर्षके
 “सुकुमालपाशिपाया” इति सुकुमारौ पाषीपाटी च यस्या सा सुकुमारपाशिपादा । तथा अहीनानि
 अन्पूनानि स्वरूपत प्रतिपूषानि लक्षणात् पञ्चापीन्द्रियाणि यस्मिन् तत्तथाविध शरीर यस्या
 सः होनप्रतिपूषपञ्चेन्द्रियरीरा । तथा लक्षणां रवितकचक्रादीनि व्यञ्जनानि मधतिलकादीनि
 गुणा सौभाग्यादयस्तीरूपपेता लक्षणाव्यञ्जानुपपेता । “उद्व्यपहृत” इति शब्दत्रय । यानि

तेण कालेण तेण समयेण ।

पृथीदरादत्र इत्यसकारलोपे उपपेता इति द्रष्टव्यम् । “मागुग्माण्यपमाण पडिणुन्नमुजात सव्वध्मा सुन्दरन्धी” इति तवमान जलद्रोणप्रमाणता कथमिति चेत् उच्यते, जलस्याति भृते कुण्डे पुरुषे स्त्रिया वा निवेगिताया यज्जलन्निस्सरतितद्यटिद्रोणप्रमाण भवति तदा स पुरुष स्त्रीवा मानप्राप्ता ध्व्यते, तथा उन्मान अर्द्धभारप्रमाणात् सा चेव तुलायामारीपित पुरुष स्त्रीवाप्यर्द्धभार तुलति तदा स उन्मानप्राप्ताभिधीयते । प्रमाणस्वागुलेनाप्टीचरशतीव्रियता ततोमानोन्मानप्रमाणे प्रतिपूर्णाभ्यनूनामुजातानि जन्मदीर्घरहितानि सव्वाणि अगानि णिग प्रभृतीनि यानि तै सुन्दरागीमानोन्मानप्रमाणप्रतिपूर्णमुजातसर्वागसुन्दरी । तथा शशिसोमाकारमरीद्राकार कान्त कमनीय प्रिय दृष्ट्यामानन्दीत्यादक दर्शन रूप यस्या सा शशिसोमाकारकान्तप्रियदर्शना, अतएव मुरुषा, तथा करतलपरिमितो मृष्टिगुह्य प्रशस्तलक्षणीपित शिवलिको वलिवयोपेती रेश्वावयोपेती बलिकोवलवा न्मधीमध्यभागी यस्या सा करतलपरिमितप्रशस्तशिवलीकवलिकमध्या । तथा कुण्डलाभ्यामुल्लिखिता स्पृष्टा गण्डलेखा कपीलविरचितमृगमदादिरेश्वा यस्या सा कुण्डलो-ल्लिखितगण्डलेखा । “कीमुडरयणिगरविमलपडिणुन्नसोमवयणा” कीमुटीकार्त्ति कीपोर्णमासी तस्या रजनोकरग्व-द्रुमादत विमल निर्भरं प्रतिपूर्णमन्यूनातिरिक्तमान सोममरीद्राकार वदन यस्या सा तथा । शृङ्गारस्य रसविशेषस्यागारमिवागार अथवा शृङ्गारीमण्डनभूषणाटीपरतप्रधान पाकार आकृतिर्यस्या सा तथा । तथाचारुवेशी नेपथ्योयस्या सा तथा, तत कर्मधारय शृङ्गारागार चारुवेशी । तथा मञ्जाता ये गतहमितभणितचेष्टितविलासा यश्च निपुणीयुक्तश्च जनपरजनान् प्रत्युपचारस्तेषु कुमला मञ्जातगतहमितभणितचेष्टितविलासललितसनापनिपुणयुक्तोपचारकुमला, तव मञ्जात नासञ्जात यद्गुणतया गृहस्येवान्तर्गमन नतु वञ्चिस्वच्छाचारितया । सगत हमित यत् कपीलविकाशमात्र मूचितनत्वदृष्टद्वामादिहमित । “कपीलकञ्चि” मिति वचनात् सगत भणित यत्समागतं प्रोज्जने मर्मभणित परिहारेण विवचिनायर्भावप्रतिपादनसगतचेष्टित यत्, कुचजघनाद्यवयवाहादनपरतयोपवेगनशयनीत्यानादि सञ्जातो विलासध्वकुलीचित्येन शृङ्गारादिकरणं, तथा सुन्दरैस्तनजघनवदनकरचरणनयनलावयवविलासे क्वलिता । अत्र विलास स्थानासनगमनप्रदिरूपरचेष्टाविशेषः । उक्तञ्च । स्थानासनगमनाना हस्त भ्रूनेत्र कर्मणाश्चैव उच्यते विनेनेण ग्लिष्टीसी विलासु स्यात् । अन्तेत्याहुर्विनासे नेत्रजीविकार तथादीकृत हावो सुश्रविकार स्यात् भावग्विचक्षममुञ्ज विलासी नेत्रजाञ्जयीविशुद्धीभु समुद्रता । (तेण कालेण तेण समयेण) एतन्ने भगवन्महावीरे जावचीन्मी दुद्धतयणातिरिसे समयतीस सव्वतयणाति मन्पत्ते चान्तसगण्य चक्रकेण आगासागण्य छत्तेण आगासमयाहि सियदारचामराहि तणदु-कालिइ-असपेयी तचउयाआरानेहेइउइ जेवइनीअवसगिभा-तआमलकधाइपधारीय

आगासफाविह मण्य स पायपीठेय सीङ्गसथेय पुरती धम्मभण्य एगडिङ्गमाणीञ्च उहसङ्गि
समगशाङ्गसीङ्गि ङ्गीसाए अङ्गिभयासाङ्गरीसीङ्गि सङ्गिसमपरिवुडे पुत्राणुपुत्तञ्च रमाणे गामाणु गाम
दूङ्गमानेसुङ्ग सुङ्गेण णिङ्गरीणे जेणेव आमलकापानयरी जेणेव अम्वसालवणेचेइए जेणेव वणसडे
जेणेव असीगवरपायवे जेणेव पुट्टविसिलापट्टए तेणेव उवागच्छइ २ आहापडिङ्ग उगुङ्ग उगियइ
इउगियइत्ता असीगवरपायवस्स आङ्ग पुट्टविसिलापट्टगमिपुरग्याभिसुङ्गे सम्पलिय कनिसत्ते सज्ज-
मेण तवसा अप्पाशभावेमाणेविहरइ । इद सुगमनवर 'जावचीसीए' इत्यव यावत्करणत 'आङ्ग
करितियगर' इत्यादिङ्ग समस्तीपि अपपातिक गृन्थप्रसिद्धी नगवद्वयकीवाच्या, सचातिगरीयानि-
ति न लिखते केवलभोगपातिकगृन्थादिवसेय । चीसीएणुडवयणातिसेससप्तत्ते इति चतुर्विंश-
हुडाना भगवानमहता वचनप्रमुखा सर्वावभापानुगत वचन । धम्मावधीकरमित्यादिना उक्त-
स्वरूपा ये आतिशेषा अतिशयास्तान् प्राञ्चतुस्त्रिगट्टवुडवचनातिशेषयोपादानमत्यन्तोपवारितया
प्राधान्यव्यापनाथ मन्ययादेहवेमत्यादयस्तेपव्वन्ते, तथाच देहविमलसुगन्ध आमयपासेयवभित्त
अरयम् । रुहिर गोखीराभनिळ्वीसपडरम्मस' मित्यादि, 'पणतीसाएसव्वयणातिसेससप्तत्ते'
पञ्चविंशत् ये सत्य वचनस्यातिशेषा अतिशयात्ता न मरप्राप्त पञ्चति शतस्यवचनातिशेष
सम्प्राप्त, ते चामीषत्यवचनानतिशेषा, सस्कारवत्त्व १, उपात्तत्व २, उपचारोपेतत्व ३, गम्भीर
शब्दत्व ४, अनुनादित्व ५, दक्षिणत्व ६, उपनीतरागतत्व ७, मत्यर्थत्व ८, अत्याहुतपूर्वापरत्व ९,
ग्रियत्त्व १०, असन्दिग्धत्व ११, अपहृतान्योत्तरत्व १२, हृदयग्राहित्व १३, देशकालाव्यतीतत्व १४,
तत्त्वानुरूपत्व १५, अपकीर्णप्रसृतत्व १६, अन्योन्यप्रगृहीतत्व १७, अभिज्ञातत्व १८, अतिरिगध-
मधुगतत्व १९, अपरमर्मवेधितत्व २०, अर्थधाम्यासानपेतत्व २१, उदारत्व २२, परनिन्नात्मोक्तर्षी-
वप्रसूक्तत्व २३, उपगतश्लाघ्यत्व २४, अनपनीतत्व २५, उत्पादितोविच्छिन्नकीतूहलत्वम् २६, अह-
तत्व २७, अनतिविलम्बित्व २८, विभ्रमविक्षेपकिलिकिञ्चित्तादिवियुक्तत्व २९, अनैकजातिसथया-
द्विचितत्व ३०, आहितविशेषत्व ३१, साकारत्व ३२, सत्वपरिगृहीतत्व ३३, अपरिखेदितत्व ३४,
अव्यवहेदितत्व ३५, 'चित्ति' तत्र सस्कारवत्त्व सस्फुटादिलक्षणयुतत्व, उदात्तत्व उच्चैर्वृत्तता,
उपचारोपेतत्वमग्राभ्यता, गम्भीरशब्दत्व मेघस्थैव, अनुनादिता प्रतिरवीपेतत्व, दक्षिणत्व सरलता,
उपनीतरागतत्व उत्पादित श्रोतृजनस्वविषय बहुमानता, एते सप्तशब्देषु अतिशया अत ऊर्ध्व-
न्वयायथा । तत्र महासर्वत्व परिपुष्टायाभिधायिता, अन्याहुतपीवापर्याय पूर्वपरिवाक्याविरोध,
विटत्व वक्तु श्लिष्टत्वमूचनात, असन्दिग्धत्व परिस्फुटार्थप्रतिपादानात्, अपहृतान्योत्तरत्व पर
दूषणाविषयता हृदयग्राहित्व टुगमस्याप्यर्थस्य परहृत्यप्रवेगकरण, देशकालाव्यतीतत्व प्रता
योचितता, तत्त्वानुरूपत्व विवक्षितवस्तुस्वरूपानुसारिता, अपकीर्णप्रसृतत्व सम्बन्धाधिकारपरि-
मिनता, अन्योन्यप्रगृहीतत्व पदाना वाक्याना वा परस्पर सापेक्षता, अभिज्ञातत्व यथाविवक्षि-
तायाभिधानशीलता, अतिरिगधमधुरत्व बुभुक्षितस्य घृतगुडादिवत्परमसुखकारिता, अपरमर्मवे-

धित्व परममानुद्धहनशीलता, अर्धधस्मास्यासानपेतत्व अर्धधर्मप्रतिबद्धता, उदारत्वमतिशिरगु
 फगुणयुक्तता अन्धस्वार्थप्रतिपादकता वा, परनिन्दास्मोक्तपतिप्रमुक्तत्व प्रतीत, उपगत-
 श्लाघत्व उक्तगुणयोगत प्राप्ताश्लाघता, अनपनीतत्व कारकावाचनलिगादिव्यत्ययरुपवचनदीपा
 पतता, उत्पादितोविच्छिन्नकौतूहलत्व श्रोतृगुणा स्तविषयेउत्पादित जनितमविच्छिन्न कौतूहल
 कौतुक येन तत्तथा तद्भावस्तत्त्व श्रोतृपुंस्त्रिविषयाद्भुतविस्मयकारितेतिभावात्, अद्धतत्वमनति
 बिलम्बित्वञ्च प्रतीत, विभ्रमविचेपकिलिकिञ्चित्तादिविद्युक्त्वमिति विभ्रमोत्पत्तुभ्रान्तिमनस्कता
 विच्छेपोवक्तु रैवाभिधेयार्थे प्रत्यनामकता किलिकिञ्चित् रायभयाभिलाषादिभावाना युगपदमकृत्
 करणम्, आदियद्वात्मदीपान्तरपरिग्रह तैविमुक्त यत्रतथा तद्भावस्तत्त्वम्, अनेकजाति
 सश्याद्विचित्रत्व सर्वभापानुव्यापित चित्ररूपता । आहितविशेषत्व श्रेयपुरुषवचनापेक्षया
 शिष्युत्पादितमतिविशेषता, साकारत्व विच्छिन्नपदवाक्यता, सत्वपरिगृहीतत्वमोज्ज्वलता, अपरि-
 छेदित्व मनायासमम्भ्रता अन्यवच्छेदित्व विवक्षिताथ सम्यक् सिद्धिवावदविविच्छिन्नवचन
 प्रममेयतेति । “आगासफालिग्रामणनि” आकागस्फटिक यदाकाशवत् अतिस्वच्छस्फटिक
 तन्मयेन । “धम्मव्रणणन्ति” धर्मचक्रवर्त्तित्वसूचकेन केतुना महेन्द्रध्वजेनेत्यर्थ । तथा “पुत्राणु
 पुत्रिञ्च रमाणे” इति पूंानुपूव्याक्रमेणेत्यथ । चरन् सञ्चरन् एतदेवाह, “गामाणु गाम दूङ्गम-
 माणे” इति ग्रामश्रानुग्रामश्च विवक्षितग्रामानन्तरग्रामो ग्रामानुग्राम त द्रवन् गच्छन् एकस्मात्
 अनन्तर ग्राममनुलङ्घयन् इत्यर्थ । अनेनाप्रतिबद्धविहारिताप्यापिता तत्राप्यौत्सुक्याभाव-
 माह । “मूङ्गमुद्देण विहरमाणे” सुख सुखेन शरीरयेदाभावेन सयमावाधाभावेन च विहारैण वा
 ग्रामान्पु विहरन् अवितिष्ठमानो “जेणेवति” प्राकृतत्वा त्साप्तम्यर्थे नृतीया, यस्मिन्नेव देशे आमल
 कल्पानगरी, यस्मिन्नेव च प्रदेशे वनपरुडी, यस्मिन्नेव देशेसांजनन्तरीक्षस्वरूप शिलापट्टक,
 “तेणामेवति” तस्मिन्नेव देशेउपागच्छति । उपागत्य च यथा प्रतिरूप यद्येचित्तं मुनिजनस्याव
 गुह्यमावाम अनुनापनापूर्वकमवगृह्णाति अथगृहश्चाशोकवरपादपस्याथ पृथिवीशिलापट्टके पूर्वा-
 भिमुखा तीर्थकृती हि भगवन्तं सदा समवसरणे पृथिवी शिलापट्टके वा देशनाये पृवर्त्ताभिमुखा
 वतिष्ठते, मपयञ्जनिपयण सयमेन तपसा चात्मान भावयन् विहरति आस्ते, तत “पर्पानि-
 गाम्भो” वाच्यं सा चैव, “तएण आमलकप्पाए नयरीए सिधाडगतिय च उक्कञ्चत्तरचत्तम्भुह
 महापइपइम् वहुजपो अन्नमन्नम्मएवनाडक्खइ । एव भासेइ एव परुवेइ एव पत्तवेइ एव
 खनु देवाणुप्पिया समणे भगवम्महावीरे जाव आगासगएण कर्त्तण नावसञ्जमेण तवसा
 अप्पाय भावे माणे विहरइ । त महाफन स्रनु देवाणुप्पियाण ताहास्वणाण अरहन्ताण नाम-
 गीयस्सविमवणया एकिमआपुण्य अभिगमण्य वन्दण नमं नअपडिपुक्कएणउक्कुवासगयाए त सय
 खनु एगस्सविआयरिवस भस्मियस्स सुवयवस्स सवणयाए किमआपुण्यविउलस्स अइस्स गइण
 याए त गइसांमोण देवाणुप्पिया समण भावम्महावीरे वन्दामी थमसांमोसक्कारोसग्गामणेमोक्

सूरियाभेदेवे, सोहम्मेकपे सूरियाभविमाणे सभाए सुहम्माए
सूरियभसिः सीहासणसि, चउहि सामाणिय साहसीहिः
चउहि अग्गमहिसीहिः सपरिवाराहि तेहि पुरिसाहि ४

लक्षण मध्याल देवयञ्चेइयम् । यज्जुवासेमी इय त इह भाव परभावय हियाए सुहाए
आणुगामियत्ताए भविस्सइ तएण आमलकल्माएनघरीए” बह्वे उग्गाभोगात्त्वाद्यीपपातिक-
गुण्योक्त सर्व्वमवसातव्य यावत्समस्तापिराजप्रभूतिका परिपत् पर्युपासीना अवतिष्ठते ॥ ४ ॥
“तेण कालेण” मित्यादिते इति प्रकृतशैलीवशात्तस्मिन्निति द्रष्टव्यम् । यस्मिन् काले भगवान्
वर्द्धमानस्वामीसाक्षाद्दिहरति तस्मिन्काले “तथा समएणन्ति” तस्मिन् समये यस्मिन्नवसरे भगवानाम्-
शालवने वैत्ये दृशना कृत्वोपरतस्तस्मिन्नवसरे इति भावः । सूयाभोनाम्नादेवी नामशब्दो ह्य
व्ययरूपोऽस्ति ततो विभक्तिलोप । ततो सोधमेसोधम्माख्येकल्पे यत् सूयांभ सूयाभनामक
विमान तस्मिन् या सभा तत्र यत् सूयाभाभिधान सिहासन ततोपविष्ट” सन्नितिमग्यते । (चउ
हिसामाणियसाहसीहि) इति समानेयुति विभवादीभवा सामानिका अध्यात्मादित्वादिकणु-
मानाधिपति सूयाभव देवसदृसद्युतिविभवादिका देवाद्भयर्थः । ते च मातृपितृगुरुपाध्याय
महत्तरवत । सूयाभदेवस्य पूजनीया” केवल विमानाधिपतित्वहीना इति सूयाभ देव स्वामिन
प्रतिपन्ना, तेषा सहस्राणि समानिकसहस्राणि ते प्रचतुर्भि प्राकृतवाच्च मृते सकारस्य दीर्घत्व
स्त्रीत्वम् । चतसृभिरगुमहिपीभि इह कृताभिषेकादेवी महिपीत्युच्यते, सा च स्वपरिवारभूताना
सवाधामपि देवीनामगुत्यग्गा अगाप्रचता महिष्यश्च अगुमहिष्यस्ताभिप्रचतमृभि । कथ भूता-
भिरिटाह । सपरिवाराभि परिवारा सइयासान्ता सपरिवारास्ताभि परिवारश्चैकैकस्या देव्या ।
सहस्र देवीना तथा तिसृभि पर्यङ्गि । तिस्रोहि विमानाधिपते सर्वस्यापि पर्यदस्तद्यथा अभ्य-
न्तर मध्यावाह्या च, तत्र या वयस्य मण्डलीस्थानीया परममित्रसहसितसहस्री सा अभ्यन्तर
प्रपत्, तथा सहापयालीचित स्वल्पमपिप्रयोजन न विदधाति अभ्यन्तरपर्यदासहपर्यालीचित,
मध्यमवाच सह हठीकुत करणायैवनिरूप्यते यद्येद क्रियतामिति सावाह्या । तथा (सत्तहि अण्-
पहि) इति अनेकानि सैन्यानि तानिचसप्त तद्यथा हयानीक गजानीक रथानीक पदात्यनीक वृष
भानीक गन्धव्वानीक नाटानीक तवाद्यानि पञ्चानीकानि सग्रामायकल्पन्ते गन्धर्व्वनाटानीकतूप

सूयाभनामदेव सोधभाकल्पनइविपइ एतलइपहिलइदेवलीकिसूयाभविमाननइविपइ सभासो
धमानइविपइ सूयाभनामइ सिहासननइविपइ च्यार सामानिक सहस्रनइसायइ च्यार अगु
महिपीपट्टराणीमायइ तेअगुमहिपीपरिवारसहितकरी ळणिपरिपदा अभ्यतरपरिपदासहित

१ । सूरियाभसि, सूरियाभसि । २ । साहसीहि, साहसीहि । ३ । अग्गमहिसीहि, अग्गमहिसीहि ।

४ । सपरिवाराहि तेहि पुरिसाहि, सपरिवाराहि परिवाराहि ।

सत्तद्भिः अग्निर्वाहिवर्द्धिः १ सोलसद्भिः आयरक्खदेव साहस्वीण २
अन्नेहिय ३ वहुद्भिः सूरियाभ विमाण वासीण ४ वेमाणीएहि ५ देव
देवीहिय ६ सद्भिः सपरिवुडे ७ मद्दयाहय ८ नट्टगीयवाइय ९ ततीतल

भोगाय ते सप्तभिरनीकैः अनीकानिस्वस्वाधिपतिव्यतिरेकेण न सम्यक् प्रयोजने समापतिते सत्युप *
कल्पन्ते ततः सप्तानीकाधिपतयोपितस्य वेदितस्य वेदितव्याः । तथाचाह, (सत्तद्भिः अग्निर्वाहिवर्द्धि-
द्भिः) षोडशभिरात्मरक्षदेवसहस्रेरिति विमानाधिपते मूयाभस्य देवस्यात्मान रक्षयन्तीत्यात्मरक्षा,
कर्मयोगित्येषु प्रत्ययः । तच्च शिरस्वाणकल्पा यथाहि शिरस्वाण शिरस्वात्रिद्विप्राणश्चक्र
भवति तथातेष्वामरक्षका गृहीतधनुर्दण्डादिप्रहरणा समन्ततः सप्तानीकाधिपतेरगृतश्चावरथा-
यिनोविमानाधिपते मूर्याभस्यदेवस्य प्राणरक्षका । देवानामपायाभावान् तेषां तथागृह्यणपुरस्सरम-
वस्थान निरर्थकमिति, “चैत्तयण ” स्थितिमावपरिपालनहेतुत्वात् प्रीतिप्रकर्षहेतुत्वाच्च, तथाहि ते
समन्ततः सवासुदित्तुगृहीतप्रहरणा ऊर्द्धस्थिता अर्वातिष्ठमाना स्वनायकशरीररक्षणपरायणा, स्वना-
यकैकनिपण्यदृष्टयः परेषामसहमानानां क्षीमसुत्पादयन्ती जनयन्ति, स्वनायकस्य पराप्तीतिमिति
एतेन नियतसंख्याका, मूर्याभस्य देवस्यपरिवारभूता देवा उक्ताये तु तस्मिन् मूर्याभेतिमानेपौरजन-
पदस्थानीया येत्वाभियोग्यादासकल्पा स्तेऽतिभूयास आस्थानमण्डल्यामपि चानियतसख्याका
इति तेषां सामान्यत उपादानमाह । (अन्नेहिय वहुद्भिःसूरियाभविमाणवासीहि देवीहि देवीहिय
सद्भिः सपरिवुडे) एते सामानिकप्रभृतिभिः सार्द्धं सपरिवृतसम्यक् नायकैकचित्काराधनपरतया परि-
वृतः । (मद्दयाहये) त्यादि, महतारवेणेतियोग, अहय इति आख्यानकप्रतिबद्धानीतिवृद्धा, अथवा
चहृतानि अव्याहृतानि अक्षतानि इति भावः । नाट्यगीतवादिदानिच तन्वी वीणा तलाहस्तताला
ताळः कसिका वुटितानि श्रेपतूयाणि तथाघनोघनसहस्रोध्वनि साधम्यात्, यीमूदेगोमहल पटुना

सातपरिपदासहित सातकटकनाथयीसाधइतकेहागधर्वनाटिकरुहायीरधीडापरयमहितपदातिर
रपम७ सोलदसद आत्मरक्खक देवतासहस्रसायद अनेरइयणइ धणइ मूयाभ विमान वासीहे
विमानसवधीइ देवइ देवीइ साधइ परवडउयकउ मीटइसब्दइ निरतरनाटिक गीत वजाठरा
वीणा हायोडा कासी वीजायणावाजिन्न मेघसब्दसरीपा मादल डाहइपुरुपेइ वजाडीजेवाजिद
तेहनदसब्देकरीसहित प्रधान भोगविवायोग्यजेइ भोगपचेद्वियनाविषयप्रतभोगवतुथकु विचरकइ

१ । सत्तद्भिः अग्निर्वाहिवर्द्धिः, सत्तद्भिः अग्निर्वाहिवर्द्धिः सत्तद्भिः अग्निर्वाहिवर्द्धिः । २ । आयरक्खदेव साहस्वीण,
आयरक्खदेवसाहस्वीहि । ३ । अन्नेहिय, अन्नेहि । ४ । वासीण, वासीहि । ५ । वेमाणीएहि
वेमाणीएहि । ६ । देव देवीहिय, देवेहि देवीहिय, देवीहि देवीहिय । ७ । सद्भिः सपरिवुडे, सिद्धि
सपरिवुडे, सद्भिः सपरिवुडे । ८ । मद्दयाहय, महता महय । ९ । नट्टगीय वाइय, षडगीयवाइय ।

तालतुडियवणा१ मुयगर२ पडुप्पवादियवरेण दिव्वाइ भोगभोगाइ
 भुञ्जमाणी३ विहरइ४ इमचण केवलकाण जम्बुहीव दीव विउलेण
 उच्चिणी५ आभोएमाणी६ पासत्तिसमण भगव महावीर७ जम्बुहीव
 दीवे भारहेवासे आमलकप्पाएनयरी८ वहिया अम्बसालवणी चेइए९

दक्षपुरुषेण प्रवादितं स्तन एतया एतानानन्देन्द्रस्तंपा यो रवस्तेन दिव्यात् दिविभवात् अतिप्रधानानी
 त्वर्थः । (भोगभोगाइ) इति भोगादीण भोगा शब्दादय स्तान् तव नपु सकताप्राकृतत्वात्, प्राकृतीश्च
 निष्प्राप्यभिचार वदाइ पाणिनि स्वप्राकृतलक्षणे निष्प्रा व्यभिचावपीति भुञ्जानीतिहरति आतेन
 क्वलनास्त किंविम प्रत्ययतया उपलभ्यमान केवलकल्प इपदपरिसमाप्त केवल केवलकल्प
 परिपृषतया क्वलमद्वयमितिभाव । जम्बवारत्नमय्या उत्तरकुम्भासिन्या उपलक्षितोद्दीपो जम्बू-
 दीपस्त जम्बूदीप जम्बूदीपाभिधान हीण, विपुलन विस्तीर्णनवधिना तस्य चि मूर्थाभरय देदस्य
 बहिरथ प्रथमा पूर्णयो वावचित्त्वंज मध्येयान हीपसमुद्रानितिभवति विस्तीर्णरत्ननाभोगयन् आभो-
 गयन् परिभावजन् पश्यति अनन सत्यप्यवधौ यदित्तैर्यात्रिययमाभोग न करीति तदा न किञ्चि
 दपि तन ज्ञानानि पश्यति चेत्यादिदित (तत्त्वसमण) मित्यादि तत्र तस्मिन् विपुलनावधिना जम्बूदीप
 त्रिपयत्रोपप्रयत्नानेति श्रमण आस्यति तपस्यति नानाविधमिति श्रमण, भग समगुणैश्वर्यादि
 लक्षणा उल्लेख, एतस्य समगुण्य रूपस्य यगम श्रिया, धर्मम्यायप्रयत्नस्यपणामभगइती
 मना भगाश्रयास्तीतिभगज्ञान, त भगवन्त मूर्खीरविक्रान्ती दीरयतिकपायीन् प्रतिविक्रामति
 र्भतिदीर । महास्वामीरत्न महावीरस्त जम्बूदीपभारतेषु आमलकवपाया नगयाश्चिराम्
 मानतनयेषु एमाकृतस्पादपस्याथ पृथ्वीगिलापदकैमप्ययं च्चनिपयथ श्रमणगणसमूहिसमपरि-
 नृतं यथा प्रतिरूपमवगुह्य गुहीता भयमेन तपसा आत्मान भावयन्त पश्यति ह्यट्टाच (इहट्टुहचिच
 माय श्रिय) इति ह्यट्टुत्पटोस्तीजुत्प इति भाव, अथवाह्यट्टोनामविशयमापनी यथा अहो भगवा-
 नाम इति नुत्पत्तोप कृतवान यथाभ्यमभूतय मया भगवानवनीकृत, तीर्पवशादेवचिचमानादितं

एह चरनी समन्तराश्याइकारे परिपुष्य जम्बूदीपप्रतइर विस्तीर्ण अवधिज्ञानइ करी ज्ञीतउद्य
 ऊउदयइइइ श्रमणस्यो भगवतेश्वर्यात्पुल्ल महावीरप्रतइ जम्बूदीपनइविपइ भरतचैवनइविपइ
 धानलहप्यानगरिइ वाइकि आमसावृवन वैज्जनइविपइ यथायोग्यपणइ साधुनइ आचरइ

१ । भोजनताम त्दियवण तनी ताल ताल तन तदियवण । २ । मुयग, मुं ग ।
 ३ । भुञ्जमा णी न भगणी । ४ । विहरइ, विहरति । ५ । उच्चिणे उच्चिणी । ६ । आभो-
 एनाथ, आभोएनाथे । ७ । महावीर, महावीरे । ८ । नदरी, रूपरी । ९ । चेइए, ऐति ।

अहापडिह्व उग्गड । उगिण्डत्ता सज्जमेण^२ तवसा अप्पाणं भावं
 माणं पासत्ति पासित्ता इदुत्तुइत्तमाणादिण^३ पीइमणे^४ परमसो
 मणासिए हरिसविसप्पमाणाइयए । विकसियवरकमणायण^५ वयणं
 पयलियवर^६ कडग तुडिय केउर^७ मउड कुडल हार विराइय वत्थपा
 लव^८ पलवमाण^९ धोलत^{११} भूसणाधर ससभूम^{१२} तुरिय चवल^{१३} सुरवरं

स्फीतीभूत दुनदुसमूढावितिवचनात् यस्य सचित्तानन्दित सुखादिदग्भनात्पाचिकीनिर्गटां तस्य
 परनिपात, मकर प्राकृतत्वादलाच्छिकस्तत पदत्रयस्यपदत्रय २ मीलनेनकर्मधारय । (पीयमणे)
 इति प्रीतिर्मनसियस्यासौप्रीतमना, भगवतिवद्भुमानपरायण इति भाव । तत क्रमेण
 वद्भुमानोत्कर्षवशात् (परमसोमणसरण) इति शोभन मनोयस्य स सुमनारतस्य भाव सोमनराय
 परम च सोमनस्य च परमसोमनस्य तत् सञ्जातमस्येति परमसोमनस्यित एतदेव व्यक्ती-
 कुर्वन्नाह । (हरिसवसविसप्पमाणाइयए) इर्षवशेन विसप्पत् वितारयायि हृदय याय स इर्ष-
 वय विसर्प्यहृदय इर्षवशादेव (वियसियवरकमलणायणे) विकसिते वरकमलवन्नयने याय स, तथा
 इर्षवशादेव शरीराइर्षेण (पयलियवरकडगन्तुडिय केउरमउडकु डल) ति प्रचलितानि वराणि
 कटकानि कलाचिकाभरणानि दुटितानि बाहुचका । केयूरार्थि बाहुभरणविशेषरूपाणि सुकुटीमौलि
 भूषण कुण्डले कर्णाभरणे यस्य स प्रचलितवरकटकदुटितकेयूरसुकुटकुण्डल । तथा हारेण
 विराजमानन रचित शोभित वचोयस्य स हारविराजमानरचितवचा । तत पूर्वपदेन कर्मधारय

अवगृहतेऽहिवानी अनुज्ञामुहीनइसजमई तपइकरी आत्माप्रति भावनायकी देपइ देपीनइ
 इर्षपामउ सतीपयामु चित्तनइविपइचानदपामइ प्रीतइ करीमनस्यलथयूईइ परमप्रकृष्टमलउ
 मनहुउ ऊडजेइनइ इर्षमलउवसइविरातारपामिउ ऊइहाउजेइनउ विकावरययाइइ वगप्रधान
 कमलसरीरवालोचनचनेमुवखजेइनउ इर्षनइवसइ हारुपाप्रधानकडापुहुचायाभण वडिणपा
 अगटमुकट काननाकु डल हारइ करी सीमतउऊइहीयजेइनउ मोतीनाभूमणलवायमाव
 हीचताजेइभूपयतेइनउधरणहारइइ उऊकपणइकतावलउ कायानइचपलपणइ देवतामाहि

१ उग्गड, उगुइदम् । २ सज्जमेण, सज्जामणम् । ३ इदुत्तुइत्तुइत्तु इत्तमाणादिण, इदुत्तुइत्तुइत्तु इत्तमाणादिण ।
 ४ पीइमणे, पीयमणम् । ५ हरिसविसप्पमाणाइयए, हरिसवसविसप्पमं योइयए, हरिसवसविसप्पमाणाइयए ।
 ६ विकसियवरकतणायण, विगसियवरकमलणायणे, वियसियवरकमलणायणे । ७ वयणे पयलियवर, पयलियवर ।
 ८ केउर केउर । ९ विराइयवत्थपालम्, विरायत रइवत्थेपीलम् । १० पलवमाण, पलवमाणे ।
 ११ धोलत, धोलत । १२ ससभूम, ससभूम । १३ ववल, ववल ।

सीहासणाउ अम्बुद्वेइ२१ पायपीठाउ पच्चीरुइइ२२ ता एगसाडिय
उत्तरासग करेता सत्तइपयाइ तित्ययराभिमुहे अणुगच्छत्ति सत्तइपया
याइ तित्यराभिमुहे३ अणुगच्छत्ता वामजाणु अचेइत्ता४ दाहिणजाणु
धरणिंतल सित्तिक्क इइ५ तिकवुत्तोमुहाण धरणिंतल सिणिवे
सित्ता० २ इसपचुन्नमइ इसिपचुणमिक्ता८ करयलपरिग्गहिय६
सिरसावत्त दसणइ १० मत्थए अज्जलि कट्टुएव वयासी नमोत्थुण'
अरिहन्ताण भगवताण'११ आदिगराण तित्यगराण' सय सबुहाण

समास । यथा प्रलम्बते इति प्रलम्ब पदकस्त प्रलम्बमान आभरणविशेष धीलन्ति च भूषणानि
धरन्तीति प्रलम्बधीलहूषणधर, सूक्ते च प्रलम्बमान पदस्य विशेषात् परतो निपात । प्राकृतत्वाद्
ईषवशादेव ससम्भूम सम्भूम इइ । विवक्षित क्रियाया बहुमानपूर्विक । प्रवृत्ति सइ सम्भु-
भोयस्य वदनस्य न मनस्य वा तत् ससम्भूम, क्रियाविशेषणमेतत् त्वरित शीघ्र चपल सम्भूमवशा-
देव व्याकुल यथा भवत्येव सुरवरोदेववरोयावत्करणात् (सीहासणाउ अम्बुद्वेइ अम्बुद्विता-
पायपीठाउपच्चीरुइइपच्चीरुइइत्तापाउयाउसुयइ सुइत्तातित्ययराभिमुइसत्तइपयाइ अणु-
प्रधामूयाभ सीहासणथउउउइ उठीनइ पादपीठाआगनिनान्हउवाजीव तेइथकीऊतरीनइ
एकसाटकपीलणिरहितउपलीउठयी तेथइकराउत्तरासगकरइकरीनइ सातआठपगलातीर्थ
करसाइसउजाइ सातआठपगला तीर्थकरसाइमउ जइनइ डावउठीइउवण ऊपाडीनइ जिमण
उठीचणप्रथवीतलइनइविपइथापीनइ एहवउ करीनइ तणिवेला मस्तक धरती तलानविपइ
थापइ थापीनइगोडासूमस्तक उ चउकरीनइ विहु हायिकरीनीपजावउमस्तकनइविपइथावर्त्तक
प्रदचणरूप विहु हायनादसइनइ मस्तक अजलीकरीनइ एहवु बीलतुहु तउ नमस्कारथाउ
अई तमणीचउसइइइइइइपूज्यनीकतेइहेत ववयादियुक्तेभगवत धर्मनीअदिनाकरणहार चतुर्विध
सधमूषणतीर्थकरनाकरणहार परीपदेविश्वानास्वयमेवप्रतिबोधपाम्या एरुपमाइउत्तम एरुपमाइ

१ अम्बुद्वेइ, अम्बुद्वेइ अम्बु द्विता । २ पायपीठा उपचोइइइ, पायपीठानेप वेत्तइति । ३ पच्चीरुइइत्ता एगला
डिय उत्तरासग केत्ता सत्तइपयाइ तित्ययराभिमुहे अणुगच्छत्ति सत्तइपयाइ तित्यराभिमुहे, पच्चीरुइइत्ता
पाउयाउ मुइ पाउयाउमइत्ता एगसाडिय उत्तरासगकरेति एगसाडिय उत्तरासकरेता सत्तइपयाइ तित्ययराभि
मुहे अणुगच्छत्ति सत्तइपयाइ तित्ययराभिमुहे, पच्चीरुइइत्ता पाउयाउमुपइमुइत्ता तित्ययराभिमुहे सत्तइ
पयाइ अणुगच्छत्ति । ४ वाम जाणु अवेइत्ता, वाम जाणु अवेति, वाम जाणु अवेइ । ५ दाहिण
जाणु, दाहिण जाणु उत्ताउयति दाहिण जाणु । ६ सित्तिक इइ, सणिहाइत्ति, समिइइ । ७ सिणिवेत्ता,
सिणिवेति मिनमेइनमिता । ८ इसचुन्नमइ इसिपचुणमिता, ईसि पत्थयमिता, ईसि पत्थुममइ
पत्थुममिता वाम जाणु अवेइ । ९ करयल परिग्गहिय, करयलपरिग्रहिय, साहरिताकरयल परिग्रहिय ।
१० सिरसावत्त दसणइ, सिरसावत्तयम् । ११ भगवताण, भगवताणम् ।

पुरिसुत्तमाण १ पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरिसवरगध
 इत्थीण लोगुत्तमाण २ लोगनाहाण ३ लोगहियाण ४ लोगपईवाण
 लोगपञ्जोगराण ५ अभयदयाण चक्खुदयाण मग्गटयाण ६ सरण
 दयाण जीवदयाण ७ बोद्धदयाण ८ धम्मदयाण धम्मदेसयाण ९ धम्म
 णायगाण धम्मसारहीण धम्मवरचाउरतवक्कवट्ठीण अप्पडिच्चय
 वरणाणदसणधराण जिणायाण १० जावयाण ११ बुद्धाण बोद्धयाण १२ मुत्ताण
 मोयगाण तिणाण तारयाण १३ सिवमयलमरुय मणत मक्खय मव्वा
 वाद्धमपुणारावत्ति सिद्धगइनामहेय वाण सपत्ताण नमो त्यण १४ सम
 णस्स भगवउ १५ महावीरस्स आइगरस्स १६ तित्थगरस्स जावसपाविउ
 कामस्स व दामिण भगवत तत्थगय इइगए पासतुमे १७ भगवतत्थ

गच्छइ अणुगच्छिती वामंजाणु अञ्चेइ उत्पाटयति दाहिय जाणुधरणितल सनिहइ
 तिक्खुत्तीसुधाण धरणितलसिनमेइनमिच्चाईसिम्पच्चुनमइपच्चुणमिच्चा कडयतुडियधम्मियाउ भुया
 उसाइरइ साइरिच्चाकरयलपरिगुहिय सिरसावत्तय मत्थए अञ्जलिक्कट्टएव वयासी नमो-
 त्युण अरइन्ताण जावसम्पत्ताण नमोत्युण समणस्स भगवतो महावीरस्य आदिगरस्स तित्थ-
 गरस्स जावसपाविउकामस्स वन्दामिण भगवन्त तत्थगय इइगए) इति परिगुह । पश्यति

सीइसमान पुरुषमाहिप्रधानपुंडरीककमल पुरुषमाहिप्रधान गधइस्तीसमान लोकमहिउत्तम
 लोकनानाय भक्तिकलोकनइहितकारी लोकचक्रदराजप्रमाथतिहादीवासमान लोकनइविपइ
 प्रकासनाकरणहार अभयदाननादातार ज्ञानरूपचउदातार मीचमार्गनादातार समस्तजीवनइ
 शरणनादेशहार सज्जरूपियाजीवतव्यनादातार परभविधर्मप्राप्तिनादातार ज्ञानदर्शनचारित्ररूप
 धर्मनादातार धर्मनादेशनानादातार धर्मनासारधीभगवत धर्मनइविपइप्रधानअनैचिहु गतिनाअत
 नाकरणहार धर्मचक्रइ वत्तइतेधर्मचरचाउर तचक्रवृत्ति किंइरइ इणइनहील्लनानापामइएइवा

१ पुरिसुत्तमाण, पुरिसोत्तमाण । २ लोगुत्तमाण, लोगोत्तमाणम् । ३ लोगनाहाण, लोगनहाणम् ।
 ४ लोगहियाण, लोगहयाण । ५ लोगपञ्जोगराण, लोगपञ्जोपगराणम् । ६ मग्गदयाण, मग्गदयाणम् ।
 ७ सरणदयाण जीव दयाण, जीवदयाण सरणदयाणम् । ८ बोद्धदयाण, बोद्धिदयाणम् । ९ धम्मदेस
 याण, धम्म देवियाणम् । १० जिणायाण, वइअइल्लउमाय जिणायाणम् । ११ जावयाण, जायागाण । १२ बोद्ध
 याण, बोद्धियाणम् । १३ तारयाण, तारगाण सब्ब नुय सब्बदरिसीयम् । १४ नमोत्युण, नमोत्युण
 खमोत्युणम् । १५ भगवउ, भगवतो । १६ आइगरस्स, आदिगरस्स । १७ इइगए पासतुमे, इइगतो पासत्तमे ।

गण१ तिकटु२ वदइ३ णमुसइ४ वदित्तानमसित्त५ इमेयारुवे६ अम्भु
त्यिए चित्तिय७ मणोगयसकप्पे८ समुप्पञ्जित्तया एवखलु समणे

मा स भगवान् तत्र गतइइ गतमिति कृत्वा वन्दते स्तौति नमस्यति कायेन मनसा च वन्दित्वा
नमस्यित्वा च भूय॑ सिद्धासनवरगतो गत्वा च पूवाभिसुखं सन्निपयण॑ "तएण तस्सेत्यादि" । ततो
नियदनानन्तरं तस्य सूर्याभस्य देवस्य अयमेतद्रूपं सकल्पसमुत्पादितं कथं भूतइत्याह ।
मनोगतं मनसिगतो व्यवस्थितोनाद्यापि वचसा प्रकाशितं स्वरूपं इति भावः पुनः कथं भूत-
इत्याह । आत्मन्यध्यात्मात्म तत्र भव अर्ध्यात्मिकं आत्मविषय इति भावः, सकल्पस्तु द्विधा
भवति कश्चित् ध्यानात्मको ऽपरश्चिन्तात्मक स्तत्राय चिन्तात्मक इति प्रतिपादनार्थमाह चिन्तित
चिन्तासञ्जातास्येति चिन्तितं चिन्तात्मक इति भावः । सोऽपि कश्चित् अभिलाषात्मको भवति
कश्चिदन्यथा तत्रायमभिलाषात्मकं स्थाया चाह प्रार्थितं प्रार्थनं प्रार्थी शिञ्जन्तत्वात् अथ प्रत्यय
प्राथं सञ्जातोस्येति प्रार्थितं अभिलाषात्मकं इति भावः किं स्वरूपइत्याह । सैय खलु इत्यादि
श्रेयं खलु निश्चितं मे मम श्रमणं भगवन्तं महावीरं वन्दितुं कारेण मनसा च प्रयण्तु कुसु-
माञ्जलि मीचनेन पूजयितुं सम्मानयितुमुचितं प्रतिपत्तिभिराराधयितुं कल्याणं कल्याणकारितानं
दत्रता देव तेलोऽप्याधिपतित्वात् चैत्यं सुप्रशतमनो हेतुत्वात् । पर्तुपासंतु सेटुत्वात् वृत्ता
इति हेतीरेव यथा वचमाणं तथा सप्रेच्छते बुध्या परिभावयति सप्रेच्छ्य च आभियोगिकान् आभि-
मुख्येन योजनं आभियोगः । प्रत्यक्षकर्मसु व्यापार्यमाणत्वं आभियोगेन जीवन्तीत्याभियोगिका ।
चेतनादेर्जीयतीति इच्छणुप्रत्ययः । आभियोगिका कर्मकरास्तान् श्रद्धापयति आकारयति
शब्दापयित्वा च तेषां सन्मुखमेवमवादीत एव खलु देवानां प्रिया इत्यादि सुगमम् । नवर

ज्ञानदर्शननाधरणहार रागहं पवयरीनाजीपणहार लोकनइपणिरागहं पजीपाडइ पीतइजीवादि
तत्त्वनाजाणं लोकनइपणिप्रतिबोधदेयं पीतइकर्मबंधकीमूकारणं बीजानइकर्मबंधकीमूकावइ
पीतइसमारसमुद्रतया बीजाजीवनइपणितारइ निरूपइव कहीयचपलनहीरागरहितं जेइस्थान
कनउअतनही कहीइ यतिहाकेहनइच्चयनहीजाअवाधापीडानही तिहायकीउपराठउ आविवउ
नही सिहगतिएइवउ जेइनउनाम एइवइस्थानकिं इनतातीयंकरपहुताइइ वलीनमस्कारथाउ
श्रमणं भगवन् महावीरभयी धर्मनाद्यादिनाकरणहारं चतुर्विधसधरूपतीर्णनाथापकं वावतसइइ
समस्तनमोत्थणुकइवउ सिद्धगतिपामवानउअभि द्राक्इजेइनिहुं वादउ कउ एइवाभगवतमिति
वादउ तिहाआमलकप्यानगरीनइवियइ हुइहासोधर्मदेवलीकिं पासउ धवादउदेपउक्षीमुभनइ
चेभगवततिहायकी इमकरीनइ वादइहायजोडइ मस्तकनमावइ वादीनइ नमस्कारकरीनइ

१ गण, गर्तं । २ तिकटु, इहगतं तिकटु । ३ वदइ, वदति । ४ णमु, वइ, णमवति । ५ नमसित्ता,
पमवता । ६ इमेयारुवे, इमेयारुवे । ७ चित्तिए, चित्तिते । ८ मणोगयसकप्पे, मणोगतेसकप्पे ।

भगव मद्भावीरे जवुद्दीवे दीवे भारहेवासे आमलकप्याए णयरीए
 वडिया अवसालवणेचेईए। अहापडिळव उग्गइ२ उगिगिइत्ता
 सजमेण' तवसा अप्पाण'३ भावेमाणे विहरत्ति तमहाफण खनु
 तहासवाण ४ अरिइताण भगव ताण नामगोयस्स५ विसवणयाए
 किमगपुण अभिगमण वटन६ मसण० पडिपुच्छण पञ्जुवासण
 वाए एगस्सवि आयरियस्स धम्मियस्स सुवणियस्स सवणयाए किम
 गपुणाविउल्लसं अट्टस्स गहणयाए तगच्छामिण समण भगव मद्भा
 वीर वदामि नमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणाण मगल
 देवय वेतिय पञ्जुवासेमि एव मेयेत्वाइहियाए सुहाण खमाए
 निस्सेसाए अणुगामियत्ताए भविस्सइ तिककट्टुएव सपेइइ एव

देवाना प्रिया ऋजव प्रीजा । त "गच्छइण"मित्यादि यस्मादेव भगवान् विहरन् वत्तं ते तत्तस्मा-
 देवानीप्रिया यूय गच्छत जम्बूदीप २ तवापि भरत वप तवाप्यामलकल्यान्नगरी तवाप्यामुशाल-
 वनं चैत्य अमण भगवन्त मद्भावीर विकृत्व स्वीन वारान् आदक्षिणप्रदक्षिण कुरुत आद-

एइएताइमरूपजेआगलिकुहीसइ आत्मानइविपइ चितित मनइविपइआप्तमकलविग्रेपधकीऊपनउ
 अनुनामकानिप्रवइ अमण भगवत मद्भावीर जवुद्दीपइ भरतचेवइ आमलकप्यानगरीइ वाहिर
 आमसालवन चैत्यनइविपइ ययायोगइसाधूनइ आचारइ रहिवानइ आजाइ गुडीनइ सयमइ तपइ
 करी आपणाआत्मानइ भावनायका विचरइइइ तेमोटउफल निरचय तीर्थकरनइ गुणइ करीसहित
 तेअरइत भगवतनउ मज्जागुणनिफन तेहनउपणिसाभलवइ करीनइअगइतिकीमलामवणेतेहस्यउ
 केइवउ वलीसाइमउ जाइवउ वादिवोसुतिप्रमाणउकरवउ प्रस्रादिकनउवलीपूकवउ सेवानइ
 करवइ एकइ पणिअर्थनउ धर्णसवधीनउ सुवचननइ साभनवउ करीतेहनउमूकहिंवउ
 वलीविस्तीर्ण अर्थनउ गुहवइ तणइकारणइहु जाउ अमण भगवत मद्भावीरनइ वादउकरनोइ
 नमस्कारकरउ मस्तऊनमावउ आटरदेउ योग्यतापणइसेवाकर कल्लाणअभुदयनूकारण
 मगलदुरितउपसमाविवानूहेतुएइवदिवपरि प्रतिमानीपरि सेवाकरउ एइभगवतवदनादिकमुहुनइ
 * जन्मातरि हितभणीपथ्याअन्ननीपरि सुखभणीयोग्यताभणीव्याधिघातकऊ पवत मोक्षभणी भवनी

१ वेइण, हेनते । २ उग्गइ, उगुइम् । ३ अप्पाणे, अप्पणे । ४ अरिइताण, अरहेताणम् । ५ भगव
 नाय नामगोयस्स, नामगोयल । ६ वटन, वेदण । ७ मसण, समंसण ।

सपेहिता आभियोगिण देवे सदावेद सदावित्ता एववयासी एव
 खलु देवाणु प्पिया समणे भगव महावीरे जवुद्धीवेदीवे भारहेवासे
 आमलकप्पाणयरी वद्धिया अवसालवणी चेइए अहापडिहव उगुह
 उगिण्हित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरत्ति तगच्छइण
 तुज्जेदेवाणु प्पिए जवुद्धीव भारह वास आमलकप्पाणयरी अवसाल
 वणी चैतिसजमण भगवमहावीर तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिण
 करेत्ता णमसइ वदित्ता णमसित्ता साइ साइ णामागोवाइ साहे
 इसहित्ता समणस्स भगवउ महावीरस्स जोयणपरिमडल जकि
 चित्ता वा पत्त वा कट्ठवा सक्करवा आसुद्धमे चोरकपूइय दुब्धि
 गध तसत्त आहुणिय २ एगते पडेइ पडित्ताणा व्वोयगणाइ मट्टिय

चिणात् दक्षिणहस्तादारभ्य प्रदक्षिणं परितोभ्राम्यती दक्षिणएव आदक्षिणं प्रदक्षिणं स्त
 कुरुत । कृत्वा च बन्दध्वं नमस्यत बन्दित्वा (नमसित्वावसाइ सा) इति खानि खानि आत्मीयानि
 नामगोत्राणि राजदन्तादिदशानान्नामशब्दस्य पूर्वनिपातं सावद्यत कथयत कथयित्वा च श्रमणस्य
 भगवतो महावीरस्य सर्वतः सवासुदिक्षु समततः सवासुदिक्षु योजनपरिमण्डल परिमाण्डल्येन
 योजनप्रमाणं यत् क्षेत्रं तत्र यन्तृणां किं निम्बादिकाष्टं वा काष्टशकल पत्रं वा निम्बाश्वत्थादि-
 पत्रजातं कचवरं वा श्लक्ष्णनृणाधूल्यादिपुञ्जरूपकथं भूतमित्याह । अशुचिं अशुचिसमाचितमवीच-
 मपविषं पूतिकुधितमतएव दुरभिगन्धं तत् सर्वर्तकवातविकुवथेनाहत्याहृत्य एकागते योजन
 परिमाण्डला क्षेत्रात् देवीयसिद्धेसेण्डयत अपनयत एडयित्वावनासुद्धकं नातिमूर्त्तिकं यथा भवति

परिपराइएइजसुखनउकारणकडइ हुसिइ इमकरीनइ एहउ विचारइ एहवउ विचारीनइ
 सेवक देवप्रति तीडावइ तीडावीनइ एहवउ बोललतउ हुतउ एमनिश्चय अहीदेवानुप्रिया
 श्रमण भगवत महावीर जवुद्धीपइ भरतचेवइ आमलकप्पा नगरीनइ वाहिरि आमसालवन
 चैत्यनइविपइ योग्य अभिगुह आजागुहीनइ सयमइ तपइकरी आत्माप्रति भावनायका
 विचरइइ तीणइकारणइ जाउ तुम्हेदेवानुप्रियाउ जवुद्धीपइ भरतचेवप्रति आमलकप्पानगरी
 प्रति आमसालवनइ चैत्यचायतनप्रति श्रमण भगवत महावीरप्रति वणिवेलाजिमणापासायकी
 माडीप्रदचयाकरीनइ वादउ नमस्कारकइउ वादीनइ नमस्कारकरीनइ पीताननामगोत्रकइउ
 कहीनइ श्रमण भगवतनउ महावीरनइ योजनप्रमाणचउपपेरमाडलालगइ जेहकाइ वणि
 अथवा पान काष्ट च काकरउ असुचिमलमुवादिकअपविष कउहीय मुडउगधतेहनउतीसर्वं

पविरल एपुसिय रयरेणु विणसण दिव्व सुरङ्गिगधोदयवासवा
सहवासित्ता विहययणद्वरय भद्वरय उवसतरय करेहकरित्ता जलज
धलज भामुरप्पभूयस्स विट्टुत्तिसस दसइ वणस्स कुसुमस्स जणु
स्सेहपमाणमेत्त उह्तिवास वासह वासित्ता कालागुरुपवरकुदरुक्का

एव सुरभिगन्धीदकवर्षं वर्षत कथ भूतमित्याह दिव्य प्रधान सुरभिगन्धीपेतत्वात्, पुन कथ भूत-
मित्याह (पविरलएपुसिय)मिति प्रकषेण यावत् रेणव' स्थगिता भवन्ति तावन्मावेण त्कर्षणेति भाव' ।
स्पर्शनानि प्रमृष्टानि घनभावे कर्षनसम्भवात् प्रमृष्टानि प्रकर्षवन्ति स्पर्शनानि मन्दस्पर्शनसम्भवे
रेणुस्यगनासम्भवात् । यस्मिन् वर्षे तत् पविरलप्रमृष्टं अतएव (रयरेणु विणसण) श्लक्ष्णतरा
रेणुपुद्गला रज्ज' । तएव स्थूलारेणव' रजासिचरेणवश्च रजारेणवस्तेषा विनाशन रजोरेणुविना-
शनम् । एवं भूतञ्च सुरभिगन्धीदकवर्षं वर्षित्वा तत् योजनपरिमण्डलं चैव निहितरज
कुरुतेति योग', निहत रजो भूय उत्थानासम्भवात् यत्र तनिहत रज । तत्र निहतत्व रजस'
च्यमात्रमुत्थानाभावेनापि सम्भवति । तत्र आह नष्टरज नष्ट सर्वथा अदृशीभूत रजो यत्र
तत् नष्टरज' । तथा भूष्ट वातीद्भूतया योजनमात्रात् दूरत' पलायित रजोयस्मात् तद्भूष्टरज ,
एतदेव एकार्थिकइत्येन प्रकटयति उपशान्तरज' प्रशान्तरज' । कुरुतकुत्वा च कुसुमस्य
जातावेकवचन कुसुमजातस्य जावत्सेधप्रमाणमात्रामोघेन सामान्येन सर्वत्र योजनपरिमण्डले चैव
वर्ष वर्षत किं विशिष्टस्य कुसुमस्येत्याह । (जलज धलज भामुरप्पभूयस्स) जलजञ्च स्थलजञ्च
जलजस्थलज जलज पद्मादि स्थलज विचकिलादि भास्वर' दीप्यमान प्रभूतमति प्रचुर, तत्र
कर्मधारय', भास्वरञ्च तत् प्रभूतञ्च भास्वरप्रभूत, जलजस्थलज च तत् भास्वरप्रभूतञ्च
जलजस्थलजभास्वरप्रभूत तस्य पुन' कथ भूतस्येत्याह । (विणठठाइस्स) वृत्तेनाधोवर्त्तिना तिष्ठ-
तीत्येव शील वृन्तस्थायि तस्य वृन्तस्थायिन वृन्तमधोभागे उपरिपवाणीत्येव स्थानशीलस्येत्यर्थ' ।
"दग्गइवन्नस्स" दग्गानामर्द्धपञ्चवर्षस्येति भाव' । इत्थं भूतस्य च कुसुमजातस्य वर्षं वर्षित्वा तत्र
योजनपरिमण्डलं चैव दिव्य प्रधान सुरवराभिगमनयोग्यकुरुतेत्यत्र आह, (कालागुरुपवरकु दुश्-

सवत्त'वाइ एकउ करी एकठठउ करीनइ एकातस्थानकइ नापउनापीनइ धणुपापीनही धयी
माटीनही विरलउघोडउ जिमरजवइसइतिमभूमिसायइयाणीफरसइउ इरणइकारणइरजगण
मउविणामणइररजतेमूत्तमसेणुतेमोटा प्रधान सुगध गधीदकपाणीतेहनीवृत्ति वरसउ वरिसानइ
इयाणीरजजेइमडलनइविपइ नाठीथैजीइथकी रजरुरिगइ उपसान्तहुइइरजजिइ विसेप
पयइरजसमा एइवउ कइ करीनइ जलजपयादिक स्थलजाइजुइ तेजवत घलां छेठाइइविट
जैइना पाचवर्षं फुलना टाचयाना उ चप्रमाणमावइ यीयनलगइवृत्तिप्रति वरिसउ कृप्यागुइ

तुरुक्कधूयमघमघेत गधुहुयाभिगम सुगधवरगविय गववट्टिभूय
 दिव्व सुरवराह्मिगमण जोगकरिच्चय कारवेह्य करिच्चाय कारीवत्ताय
 खिप्पामेव एयमाणत्तिय पच्चप्पिण्ह ताएण ते आभिउगियादेवा
 सूरियाभेण देवेणएव वुत्ता समाणा हट्टतुट्ठा जावच्चियया करयल्ल
 परिग्गच्चिय सिरसावत्त अज्जलिमत्य एकट्टुदेवोतहत्ति आयाएवित्त
 एण वयण पडिसुण्हति एवदेवोतहत्ति आयाए विणएण' वयण
 पडिसुण्हत्ता उत्तरपुरत्वियम दिसीभाग अवक्कमत्तित्ता वेउळ्विय
 समुघाएण सामोहणत्ति २त्ता सखिज्जाइ' जोयणाइ दडणिसर ति

क्कतुरक्कधूयमघमघेन्तगन्धुहुयाभिगम) कालागुरुप्रसिद्ध प्रवर प्रधानकु दुक्कक्कीडातुरुक्क सि-
 ल्हक कालागुरुश्च प्रवरकुन्दुरुक्कतुरुक्को च कालागुरुप्रवरकु दुक्ककतुरुक्को तेषा धूपययी मघ
 मघायमानो गन्धउडत्त इतस्ततो विप्रमृतस्तेनाभिराम रमणीय कालागुरुप्रवरकुन्दुरुक्कतुरुक्कधूप
 मघमघायमानगन्धीदताभिराम, तथा श्रीभनो गधो वेया ते सुगधास्ते च ते वरगधाश्च वासा
 सुगन्धवरगन्धा, स्तेया गन्ध सोऽस्यास्तीति सुगन्धवरगधगधिक, अतोऽनेकस्वरदितिइक
 प्रत्यय । अतएव गन्धवत्तभूत सौरभ्यातिशयात् गन्धद्रव्यगुडिकाकल्पमिति भाव, न केवल
 स्वय कुरुते कित्वन्वैरपि कारयते कृत्वा च कारयित्वा च पनाञ्जप्तिका चिप्रमेव श्रीध्रमेव प्रत्य-
 प्येत, यद्योक्तकार्यसम्पादनेन सफला कृत्वा निवेदयते, (तएण) मित्यादि, ततीयमिति पूर्ववत्,
 तत्राभियोगिका देवा मूयाभेन देवेन एवमुक्ता सन्तो (हट्टतुट्ठजावच्चियया) इति अत्र यावच्छब्द-
 करणात् । “हट्टतुट्ठचित्तमाणन्दियापी इमणीपरमसीमणसिया हरिसवसविसय्यमाणच्चियया” इति
 द्रष्टव्यम् । (करयनपरिगुच्चिय) मित्यादि इयोर्हस्तथोरन्वीन्यान्तरितागुलिकयो सविनयेन वचन
 मूयाभदेवम्य पतिगुणवन्ति अभ्युपगच्छन्ति अपक्रम्य च वैक्रियसमुद्घातेन वैक्रियकरणाय प्रयत्न-
 विगेषेण (समोहण) समउहन्त्य ते समवहता भवन्तीत्यर्थ । समवहताश्चात्मप्रदेशान् दूरतो विञ्चि-
 पन्ति तथा चाह (सखिज्जाइ ज्ञोयणाणि दणउ निसरिन्ति) । दणउइव दणउकहाध आयते शरीर

प्रधान कु मुदविगेषे सिल्लहारम तेहनउ धूप मघमाधयमान उद्धूत गधतीणइकरीमनीइर सुगध
 प्रधानगधइत्तेहनउ गधनीवारारूप प्रधान देवतानाइ आववना योग्यमडल करउपीतइ
 अर्नरदेवतापइकरावउ जतावल्लुज एहआज्ञासारी सुभनइ ऊपराटीसु पतिवारपल्ली तेह
 सेवकउ गिया देवता सुयाभनइ देवि एहनूकहा थकी हर्षसतोपपाग्या यावत्सब्दइचित्तमाणदि
 धाइत्यादिपाठ सर्वकच्चिउडिहुहायइकरीनीपजावउ मस्तकनइविपइआवत्त अज्जलीकरी
 इयइप्रकारे हेदेवाणुष्ठीकहुकरिउतेतिन आज्ञाइकरी विनयकरी मूयाभनात्रचनप्रति साभलइ

तज्ज्ञा रयणाण वेयराण वेरुलियाण' लोच्चियक्खाण मसार
गल्लणा' हसगम्भाण पुलयाण सोगधियाण' जोडरसाण अज
णाण अजतपुलगाण' रययराण जायरुवाण अकाण फलिहाण
रिद्धाण अहावायरेपोग्गलेपरिसाडेत्ति आहावा २ ता अहासुहमे
पोग्गले परियायत्तिय २ ता उत्तरवेउच्चियरुवविउच्चत्तित्ता ताए
उक्किट्ठाए तुरियाए चडाए चवलाए जयणाए सिद्धाए उइयाए
दिव्वाए देवगईए तिरियमसखेज्झाण दीवसमुद्दाण मव्भमव्भेण

वाहल्योजीवप्रदेशमूहस्त शरीराद् बहिः सप्येयानि योजनानि यावत् निमृजन्ति निःकासयन्ति
निमृज्ज तथा विधानात् पुद्गलानाददते एतदेव दर्शयति, तद्यथा रत्नाना कर्केतनादीना१, वज्राणा२,
वैडूर्याणा३, लोहिताक्षाणा४, मसारगल्लाना५, हसगङ्गाना६, पुलकाना७, द्योतीरत्नाना८, अज्जन-
पुलकाना११, रजताना१२, जातरूपाणा१३, अकाना१४, स्फटिकाना१५, रिष्टाना१६, योग्यान् यथा
वा दरान् परिशातयन्ति यथा मूहमान् सारान् पुद्गलान् पर्याददते, पयादाय च चिकीर्षितरूप
निर्माणार्थं द्वितीयमपि त्रार वैक्रिय समुद्घाटते न समवहन्यन्ते, समवहत्य च यथोक्ताना
रत्नादीना योग्याना यथा वादूरान् पुद्गलान् परिशातयति यथा मूहमानाददते आदाय च इप्सितानि
उत्तरवैक्रियाणि विकुर्वन्ति न तु रत्नादीना प्रायोग्या पुद्गला ऊदारिका उत्तरवैक्रियरूपयोग्याश्च
पुद्गला गुह्यावैक्रिया स्तः कथमेव मुक्तमिति उच्यते, इह रत्नादिगुह्यं सारतामावप्रतिपादनार्थं

एसजहेदेवो अम्हाए वचनअम्हे करिसउ मूर्याभिनीआत्ताइ विनयकरी वचनप्रतिसांभलीनइ
उत्तरनइपूर्ववचइ इसानकूषि भागि अपक्रमइजईनइ वैक्रिय समुद्घातइकरी वैक्रियासमुद्घातइ
करइ योजनलगइआत्मप्रदेसनपुद्गलपथइसरीरप्रमाथविस्तारइ इउविस्तारइ एतलइस्यउभाव
तिदेपाडइ आत्मानासरीरप्रदेशकीरलकक्केतदिक १ बाहिरिकाठीनइवज्ज २ सख्यातीयोजनलगइ
वेडूर्यं ३ हेठिनइउ चउदंडनइलोहिनीच ४ आकारइमसारगल्लरत्नविसेप ५ हसगम्भं ६ पुलक ७
सोगधिक् ८ जोतीरस ९ अज्जननाम १० अज्जनपुलक ११ रजतनाम १२ जातरूप १३ अक १४
स्फटिक १५ रिष्ट १६ एइसीलजातिनारत्ननायथायोग्यपथइस्वल पुद्गलनापइ वादरपीद्गल
भापीनइ यथायोग्यमूहम पुडगललेइ लेईनइ भवधारिणीयरूपयकीरनेकविक्रयरूप विकुर्वइकरी
इविथुवीनइ तेभणीदेवसवन्धागतितउतकुप्पी मननइउत्सकपथइऊतावलइ क्रीधसहितचपलतेणइ
कायानी ऊतावलि यणीतिपिगतितचपल वीजोगतिनइजीपइतेजयथातेणघणउतावलेतेसीप्पीरयजिम
अमवेइनहीतेचडागति वाइउडाडाजेइवीरजनीगतिहुइतेइवोगतितेचइसागति देवतानइयोग्यते

जेणेव जवूदीवे २ जेणेव भारहेवासे जेणेव आमलकप्पाए णयरी
जेणव अ वसालवणी चेईए जेणवसमणे भगव महावीरे तेणव
उवाउवागच्छित २ त्ता समण भगव महावीर तिव्खुत्तो आया
हिण पयाहिण करेत्ति २ ता वदइ णमसित्ता एववयासी अन्हेण
भते मुरियाभस्स देवस्स अभियोगियादेवा देवाणुप्पिया वदामो
णमस्सामो सक्कारे मोसम्मणा मोकल्लाण मगल देवय चेइय पञ्च
वोसामो देवाइसमणे भगव महावीरे तेदेवे एववयासी पोराणमय

न तु रत्नादीनामिवेति द्रष्टव्यमिति न कश्चिद्विहीय । अथवा ऊदारिका अपिते गृहीता सन्तीवैक्रिय
तया परिणमन्ते पुद्गलाना तत्तत्सामग्रीवशात्तथा तथा परिणमन् स्वभावत्वादतीपिन कश्चिद्विहीय ।
तत एवमुत्तरवैक्रियाणि रूपाणि कृत्वा तथा देवजनप्रसिद्धया उत्कृष्टया प्रगस्तविहायो
गतानामोदयात् प्रशस्तया । शीघ्रसञ्चरणात् त्वरितयात्वर सञ्जाता आस्या इति त्वरिता तथा
प्रदेशान्तराक्रममिति चपला तथा क्रीडाद्विमृष्येवमूमासवेदनात् । चण्डे च चण्डातया निरन्तर
शीघ्रत्वगुणवीगात् शीघ्रा तथा शीघ्रापरमोत्कृष्टवेगपरिणामीपिता जावनातया वातोद्भूतस्य दिग्
तव्यापिनी रजस इव या गति सा उदता तथा दिव्यया दिविदेवलीक्रे भवा दिव्या तथादेवगत्या
तिर्यग् असख्येयाना द्वीपसमुद्राणा मध्य मध्येनमध्येनेत्यर्थ । गृह गृहेण मध्य मध्येन पद
पदेन सुख सुखेनेत्यादय शब्दाश्चिरन्तन व्याकरणेण साधव । प्रतिपादिता इति नायमपप्रयोग ।
भवपतन्तीऽवपतन्त । समागच्छन्त इति भाव पूवान् द्वीपसमुद्रान् व्यतिक्रामन्तो व्यतिक्रामन्त
उल्लब्धयत इत्यर्थ । श्रेय सुगम यावत् (देवाइसमाणे) इत्यादि । देवादियोगा देवादियमयो
भगवान् महावीरस्वान् देवानेवमवादीत् पुराणेषु भव पोराणमेतत् कर्मभो देवा । चिरन्तनैरपि
देवै कृतमिद चिरन्तनात् तीर्थकरान् प्रतीतितात्पयाथ । देयमेतत् वन्दनादिक तीर्थकृद्भ्यो भो

दिव्यातिशय देवतानीगति तिरिकै असख्याता द्वीपसमुद्रनइ माहिश्यइ जिहाजवूद्वीपद्वीपतिहा
जिहा भरतवर्षचेव जिहां आमलकल्पानगरी जिहा आमसालवन चैत्ययचायतन जिहा
थमण भगवत महावीर जिहाइजसमीपइआवइ अवीनइ थमण भगवतमहावीरप्रति त्रिविवा
जिमणायासाधी माडीप्रदचथा करइकरीनइ वादइ नमस्कारकरइ एहवउवीलताहुता अन्हेहेभग
वन् मूयाभ देवनामक सेवक देवता तुन्हेदेवानुप्रियप्रति वांइउ ऊउ नमस्कारकरउ ऊउ योग्यताप
णइ सेवाकरउ ऊउ कल्याणनूहेतुरितउपसमवानूहेएहवादेवसवधि प्रतिमानापरि सेवाकरउऊउ
अहीदेवताउ एहमूआमवणकरी थमण भगवन् इहदेवप्रतिएहवउ वीलताहुयाजनु

देवा जायमेयं देवा कच्चमेयं देवा आविणमेयं देवा अत्र्भुणु गणाय
मेय देवा जपण 'भुवणवद् वाणमन्तर जोतिसिया देवा अरुते भग
वन्ते वदित्ति णमसन्ति वन्दित्ता णमुसित्ता तत्तो सातिय २ णाम
गोवाद्' साहेति त पोरणामोय देवा जाव अत्र्भणणणायामय देवा
समण्ण भगवया महावीरेण तेदेवा एववुत्तासमाणा च्छुजाव
च्चियया समण भगव वन्दति णमसन्ति वन्दित्ता उत्तरपुरत्वियं
दिसीभाग अवक्कमत्ति उत्तर २ ता वि उच्चियसमुध्वाएण समो
इणान्ति २ ता सखिज्जाद् जोयणाद् दड निस्सरन्ति तज्जा रय

देवाय तोऽभ्यनुज्ञातमेतन् सर्वरपि तीर्थकृद्भिर्भगवन्तत कर्त्तव्यामेतन् युष्मादृशा भो देवा एतदेव
व्याचष्टे करणीयमेतत् भो देवा । आचीणमेतत् भो देवा किं तदित्वाह । (जण)मित्यादि यत् षमिति
पूर्ववत् भगवन् व्यन्तरज्ज्योतिष्कवैमानिका देवा अर्हन्ती भगवतो वदन्ते नमस्यन्ति वन्दित्वा
नमस्सित्वा च पश्चात् स्वानि २ आत्मीयानि २ नामगोत्राणि कथयन्ति । ततो युष्माकमपि भो
देवा पौराणमिति यावदाचीणमेतदिति (समण्)मित्यादि सुगमय ज्वत् (संज्ञानामपेक्ष इयदारणसिया)
इत्यादि । स वक्ष्यमाणगुणो यथा नामकीनिर्दिष्टनामक कश्चित् भृतिकदारक भृतिकरोति
भृतिक कमकर तस्यदारको भृतिकदारक इयात् किं विशिष्टइत्याह । तरुण प्रवर्द्धमानवया एव
भवति । तत किमनेन विगेषणेन न आसन्नमृत्यो प्रवर्द्धमानवयस्वाभावात् नद्यासन्न मृत्यु
नद्यासन्न प्रवर्द्धमानवया भवति । न च तस्य विशिष्टसामर्थ्यसम्भव आसन्नमृत्युत्वा देवविशिष्ट
सामर्थ्य प्रतिपादनार्थश्चैष आरम्भ स्ततोऽद्यवत् विगेषणम् । अन्येतुव्याचक्षते इहयद्द्वय

साक्षीतपकायविर ततदेवताइपणिएहकार्यकीधउअहीदेवता तुम्हासपट्टपावरण अहीदेवतानउ
तुम्हारइकरिवानइयोग्यएह अहीदेवतानउ तुम्हारीकरणीएह अहीदेवताउ कल्पेतुम्हनइएह
अहीदेवताउ मइअनइअनेरइतीयं करइआत्तादीधीएह अहीदेवताउ तेहणुजेइ भुवनपती वाणमतर
जोतिपीवैमानिक अर्हन्ते भगवतप्रति वादि नमस्कारकरीनइ वादीनइ नमस्कारकरीनइ तिहारपकी
पीताना २ नामगोत्र सभलावइतेह तुम्हाक जूनू कार्य एहअहीदेवताउ यावत्सव्दइसर्वेक हिवउ
जिहालगइ अ मारीआत्तापणिआत्ता अहीदेवताउ थमण भगवतइ महावीरनइ तेहदेवता एमक
ह्यावका इपपास्या यावत्सव्दइचित्तमाणदियादिसर्वपाठकहिउ थमण भगवत प्रतिवादइ नमस्कार
करइ वादानइ नमस्कारकरीनइ उत्तर पूर्ववचइ इसानकूणि जाइ उत्तरपूर्वविचइईसानकूणिजइ
नइ विक्रियसमुदधातइ करीनइ सख्याता योजनलगइ दडसरीपउदड आत्मप्रदेमवाहरिकाठइ

समणागणं तानमनज्जुयल फलिङ्गनिम्भवाहुच्छेण टक्खेपुट्टे कुसलो
 मेहावीणीउण सिण्णोवगण एग म्हादंडं रामुत्थगिवा सिन्नागद्धत्थ
 यवा वेणुमिल्लासितियवा गच्छाय रायगण वा रायतेउरवा आराम वा
 उज्झाण वा टेउलवा सभवा पववा अतुगिय मच्चवल मसम्भतूँ ,

परस्यस्वत्वमन्वागत', ४ भ्रान्तरोत्साहवीर्ययुक्त इति भाव, (तलजमलजुयलवाहु) तलौ
 तालवृक्षो तयो र्यमल युगलसमश्रेणीक युगल तलयमलयुगल तद्वत्, अतिसरलौ पीवरी च वाहू
 यस्य स तलयमलयुगलवाहु । (लक्ष्यणपवणजङ्गणमद्दणसमत्थे) इति लक्ष्येन अतिक्रमिण प्लवनं
 मनाक पृथुतरविक्रमवति गमने जवन अतिशीघ्रं गती । प्रमहीन कठिनस्यापि वस्तुनश्चूर्णनकरणे
 समर्थ, लक्ष्यनप्लवनजवनप्रमद्दैनसमर्थ । क्वचित् "लक्ष्यणपवणजङ्गणवायामणसमत्थे" इति
 पाठः, तत्र व्यायामने व्यायामकरणे इति व्याख्येयम् । (क्रीडा) सप्तति कला पण्डितो
 दत्त । कायाणामविलम्बितकारी प्रष्टीं वाग्मीं कुम्लु । सम्यक् क्रिया परिज्ञानवान् मेधावी
 परस्परव्याहृतपूर्वापरान् सन्धानदत्त, अतएव (निपुणसिण्णोवगण) इति निपुण यथा भवति एव
 सिन्धु क्रिया तु कौशल उपगतं प्राप्नो निपुणसिन्धोपगन एक म्हान्त शलाकाहस्तक परित्य
 णादिशलाका हस्तक सखिपणादिशलाका मयीं मन्मार्ज्जनीमित्यर्थ । वा शब्दीविकल्पार्थ, (दण्ड-
 ममुत्थगि वा) इति दण्डयुक्ताना सपुंसनी समान्नी दण्ड सपुसनीता वा । (विणुमिल्लगि ग वा)
 इति वेणुवग्गस्तस्य शलाका वेणुशलाका स्ताभिनवृत्ता, वेणुशलाकिकी वेणुशलाकामयी म्मार्ज्ज-
 नी ता वा गृहीत्वा राजाभ्याणं वा राजान्तपुर वा देवकुल वा मभां वा सन्तोभ्यान्यश्रयामिति
 सभाग्राम प्रधानानां वा यथा सुखमवस्थानहेतुर्भण्डपिकाना वा प्रया वा पानीयशलां आराम वेति
 आगत्यागत्य भाग पुरुपावेरतरुणीभि सङ्घ यत्नरमन्ते क्रीडन्ति स अप्रामोन्नगरावातिदूरवर्ती
 क्रीडाश्रयस्तरुपण्ड त, (उज्झाण वे)ति कथं विलम्बितमनि प्रयोजनाभावात् यानानि यत्र तत्र
 उद्यान नगरात्प्रत्यामन्त्रवर्तीयानवाहनक्रीडागृहाद्याश्रयस्तरुपण्ड स्तद्धा अन्व्रितमचपलमम
 भ्रान्तात्तराया चापल्येसम्भुमे वा सम्यक्त्वचवराद्यप्रगमासम्भवात् निरन्तरनत्वपातरालमीचनेन
 सुनिपुण शलक्ष्यस्याप्यचीत्तस्यापसारणेन सवत सर्वासुदिक्षुसम त्तु सामर्थ्येन सप्रमाजीयत ।

कार्यविलंबकारी अग्रगामी क्रामनद्विपण्डाहु- बुद्धिवतमूक्षमविज्ञानशकरीसहित ण्डवु पुरुष
 एक मोटउ दड पु जणीइ करीसहित देडामण्डुइत्यर्थे अथवा वषानीसारवणीउद्यथा वासनीसिला
 कानी सारवणी गृहीनइ राजानाआगणप्रति अथवा राजानाथतेउरप्रति पुरुषस्थीरमङ्गिज्जति
 आरामतेप्रति नगरसमीपवत्तीयानवाइननउ आश्रयते उद्यानप्रति देहरा प्रति चयवाराजमभा
 प्रति पाणीनीपर्वत प्रति अतिक्रतावलय महरमनइकरी कायाइ चपलनही कामवद्विखलनानपामइ

निरन्तरसु निच्चल सव्वउसमन्ता समज्जेज्जा एवामेव त्तिंसिविसूरि
 धामस्स देवस्स आभिउगियादेवा सव्वट्टेवा विउत्त्वतिसव्वट्टेवाए विउ
 वित्ता समणस्स भगवउ महावीरस्स सव्वउसमन्ता समज्जेज्जा
 समणस्स भगवउ महावीरस्स सव्वउसमन्ता जोयण परिमंडल
 जकिचित्तणवा त्तेव सव्व आहुणाय २ एगवा पडेति एगते पडित्ता
 खिप्पामेवउवसमन्तिखि'त्ता दोच्चपिवेउत्त्विय समुग्घाएण समोहणति
 दोत्ता अट्ठभवलदए विउत्त्वइ सेज्जानामए भयगदारए सियातरुणो
 जावंसिप्पोवगए एग महदगवारगवा दगद्यालवा दगकलसगवा दग
 त्कूभगवागहार्यं आरामवा जीवपच्चवा अतुरियजाव सव्वउ सम्मता

(एवे मेवे)त्यादि सुगम, यावत् (खिप्पामेव पच्चुवसमन्ती)त्यादि एकान्ते तृष्णकाष्टाद्यपनीयचिप्रमेव
 शीघ्रमेव प्रत्युपगम्यन्ति सर्वर्त्तक वातविकुर्वन्थान्निवर्त्तन्ते सर्वर्त्तक वातमुपसहरतीति भाव । ततो
 (दोच्चम्पिवेउत्त्विय समुग्घाएण समोहणन्ति) इति सर्वर्त्तक वातविकुर्वन्थार्यं हि यत् वेलाहयमपि
 वेक्रियसमुद्घातेन समवहनन्तत्किलैक, इदत्वभुवार्दलकविकुर्वन्थाय द्वितीयमतउक्त द्विती-
 यमपि वार वैक्रिय समुद्घातेन समवहन्यन्ते समवहत्यन्नाभुवर्दलकानि विकुर्वन्ति वा । पानीय
 तस्य दलानि वार्दलान्यैव वार्दलकानि मेधा इत्यर्थः । आपोविभ्रतीति अभ्राणि मेधा, अभ्राण्य
 सन्त्यस्मिन्निति अभ्रमभूदिभ्रतिमन्वर्थी योऽप्रत्यय, आकाशमित्यर्थः, अभ्रं वर्दलकानि तानि
 विकुर्वन्ति आकाशे मेधान् विकुर्वन्तीत्यर्थः । (सेज्जानामएभइगदारगसिया) इत्यादि पूर्ववत्,
 यावत् "निउणसिप्पोवगएएगमइ" मित्यादि । सयथा नामकोभृतिकदारक एक महान्तन्दकवारक
 वा मृत्तिकाभयभाजनविशेषम् । (दगकुम्भय वा) इति दकघट दकस्थालक वा कंसादिमयमुदक-

अतरायरहित निश्चलपणइ सधलीदिसइविदिसइ पुजइएहवी इन्द्रात तेहयणि सूर्याभ देवता
 मेवक देवता सबत्तवायुप्रति विकुर्वइ सर्वत्तवाह्य विकुवानइ समण भगव त महावीरनइ सधलइ
 उउपपेर पूजइथमण भगव तं महावीरनइ सधलइ उउपपेर योजन भ्रमाणामंडललगइ
 जिकाइ वथ तिभज सर्वंअमुचिपदायंसवत्तवाइ एकठउ करिकरी २ एकातइ नापइ नापीनइ
 तत्काजलिज निवर्तइ तत्कालिजनिवर्त्तीनइ बीजीवेला वैक्रिय समुघातइकरी समुघातकरइ
 बीजीवेला वैक्रियसमुघातइ कपापीनउ वादलोरी विकुर्वइ तंजिम कीइएक भइसायतनउवेउउउइ
 युवान यावत्सब्दइयुगवइत्यादिकसर्वं पाठ केहिउ विभ्रानिकरीसहितएक मीउउमापीनउ वारीउ
 अथवा पापीभइउथावविसेप पापीनउकलस पापीनउघउउ एतलामाहिलूकाइक गृहीनइ आराम

पञ्च विमुक्केण दसहवणेण कुसुमेण मुक्कपुष्पपुञ्जोवधारकलिय
 कोञ्ज्हा षवासेवते मूरियाभस्स देवभिउगिया देवा पुष्पवईलिय
 विउव्वन्ति पयणुतणायन्ति पयणुभणाइत्ता जावजोयण परिमडल
 जलय थलय भासुरप्पभूयस्स विट्हाइस्स दसहवणस्स जाणुस्सेइ
 पमाणमेत्त उइ वासन्ति वासित्ता कालागुरुपवर कुदरुक्क तुरुक्क
 धूव मघमघन्त गन्धुयाभिराम सुगन्धिय गन्धवट्टिय दिव्व सुर
 वराभिगमणजोगकरेतिय कारावितिय करेत्ताका २ खिप्पामेव उव
 स मन्ति खिप्पामेव उवसमेत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव
 उवागच्छति उवागच्छेत्ता समण भगव महावीर तिक्खूत्तो जाव
 वन्दिता ननमित्ता ममणस्स भगवउ महावीरस्स अन्तियाउ अथ
 सालवणाउ चेइयाउ पडिनिक्खुमन्ति पडिनिक्खुमिहा त्ताए
 उक्किट्ठाए जाववीईवइमाणे जेणेव सोइममेकप्पे जेणेवमूरियाभे
 विमाणे जेणेव सुधम्मसभा तेणेव उवागच्छत्ति २ त्ता मूरियाभेदेव

द्वियकरयलएभइविमुक्केणति) इह मैथुनसरम्भे यत युवते) केशेषु गृह्ण स कचगृह स्तेन गृहीत
 तथा करतलात् विमुक्त सत प्रभृष्ट करतलप्रभृष्टविमुक्त , प्राकृतत्वात्पठ्यत्ययस्ततो विशेषणसमाप्त

यइमूकाणइ पाचवणइ फूलइ सु कउफूलनउपूजसमूह तल्लचणउपचारतजा तेणइकरीकनित
 सहितराज सभादिककरइ करीनइ एणइ दृष्टातइते मूयाभ देवता सेवक देवता फुलनू वादलप्रति
 विकुब्बइ विशेषइ गाजइ विसेपणइगात्रीनइ यावत्सब्दइ बाजलाकरइवीजनमाडलालगी
 जलनायदिक थलनीजाइजुइ देदीपमान घणा नीचाइइवीडजेइना पचवणानाफूलना टीचणता
 उ प्रममाणइ माडलालगइ वृष्टिकरै वृष्टिकरीनइ कृष्णागुरु प्रधान चीडगू दवग्घेय सिइलासन्
 तेहनूधूप तेणइकरीप्रममयायमान गधनउ उइ तपणउ तेणइकरीसुगध गधमनीजरइइहमडलनू
 गधनीवालीजिइवीहुइतेहवउ प्रधान देवताआविवानइवीगयमाडलउकरइवीनइ अनेगदेवपादिक
 रावइ करीनइकरावीनइ तत्कालिज निश्चय उपसमनिवचणं तत्कालिज निवर्त्तीनइ जिहा अमथ
 भगवत महावीरइइ तहा आवइ आवीनइ अमथ भगवत महावीरनइ तथवेला यावत्सब्दइ
 प्रदक्षयादेइवादिनइ नमस्कारकरीनइ अमथ भगवत महावीरना समीपथकी आथसालवन
 वेत्यथकी नीकनइ नीकलानइ तेणइ उक्कृटागति यावत्सब्द असख्यातादीपसमुद्रनइमूकतार
 जिहा सोधर्मादल्प जिहामूयाभविमान जिहा मूधम्मा सभा तिहा समीपइजाइ जइनइ मूर्याभ

करयन्तपरिगृह्य सिरसावत्त मत्थए अजलिकटू जण्णं विजण्ण
 वडावेति २ चा तमाणत्तिय पव्वप्पिणान्ति तण्णस्सिं सूरियाभेदेवे
 तेसिं आभियोगाण देवाण अन्तिए एयमड सोच्चा निसम्मइत्तुत्तु
 जावडियए पायत्ताणियाच्चिवडं देवमहावेति २ ता एववयासी
 खिप्पामेव भोदेवाणुप्पिया सूरियाभे विमाणे सभाए सुधम्माए
 मेघीधरसिय गभीर मङ्गर सह जोयणपरिमडल सुस्वरघट्ट तिक्खूत्तो
 उल्लालेमाणे २ मङ्गया २ सहेण उग्घोसेमाणे २ एव' वदाडि

स्तीन ग्रेप सुगम यावत्, (जण्ण विजण्ण वडावेन्ती) ति, जयेन वडांपयते जयत्व देव विजयस्वत्व
 देवेत्येव वडांपयन्तीत्यर्थः । तत्र जय परैरनाभिभूयमानताप्रतापवृद्धिश्च विजयस्तुपरिपाम
 सहमानानामभिभवोत्पाद, वडांपयित्वचेता पूर्वाक्तमात्रिप्तिका प्रत्यर्पयन्ति आदिष्टकार्य-
 सम्पादनेन निवेदयन्तीत्यर्थः । (तण्ण)मित्यादि । ततोषमिति पूर्ववत् स मूयाभो देवस्तेषां
 आभियोग्याति त आसमन्तात् आभिसुख्येन युज्यन्ते प्रेष्यकर्म्मसु व्यापार्यन्ते इत्याभियोग्या
 आभियोगिका इत्यर्थः एतेषामभियोग्यानां देवानामन्तिके समीपे एनमन्तरोक्तमर्थं श्रुत्वा श्रवण-
 विषय कृत्वा, श्रवणानन्तरं च निगम्य परिभाष्य (इत्तुत्तुजावडियए) इति यावच्छब्दकरणात्
 "इत्तुत्तुत्तमाणदिएपीडमणे परमसोमणसिए हरिसवसप्पमाणडियए" इति द्रष्टव्यम् । पदा-
 त्यनोक्ताधिपति देव शब्दयति शब्दयित्वा एवमवादीत् चिप्रमेव भो देवाना प्रियसभाया सुध-
 म्माया (मेघीधरसिय गभीरमङ्गरसह)मिति मेघानामोष सञ्च्यती मेघोष स्तस्यरसित गर्जितं तद्वत्
 गम्भीरो मधुरशब्दानां (जोयणपरिमण्डलन्ति) योजनं योजनप्रमाण परिमण्डल गुणप्रधानीय
 निर्देश, पारिमण्डल्यं यस्या सा योजनपरिमण्डला ता सुस्वरा सुस्वराभिधाना घटामुल्लालयन्,
 ताडयन् ताडयन्मित्यर्थः । मङ्गतार शब्देन उदघोषयन् उदघोषणा कुर्वन् एव वद आम्ना-

देवप्रति विहु जायिकरीनापजाविउ मस्तकनइआवत्तइप्रदच्चणारूप मस्तकइ अंजलीकरीनइ
 सामान्यप्रकारइवियनउ विशेषपथीवइरीनउजीपवउ एहवइजयविजयसब्देकरीवधावैवधावीनइ
 पूर्वइजेइमूयामइआभियोगीनेमंडलकरिवारूप आम्नासउपीडुतीतेराज्जासैवकउपराथीठीसूर्याभनइ
 सप्पि तिळारपळीतइ धूयाभदेव तीइ सैवकनइ देवनइएइ अर्थं प्रति सामलीनइइयैयै श्रवधारी
 नइइर्षसतोपपामउ चित्तमाडिआणियउ पायक कटकनउधयीतिइ देवप्रतितेडावइतेडावीनइ
 एहवकइत्तुत्तु तत्कालिनिश्चय अहीदेवानुमिय अहीदेववल्लभ मूयाभि विमानइसभा सुधर्मां
 नइवियइ घटवजाउउतेकेइवीकइमेघनासमूहसरीपउसगजारव गभीरउउउ मीठउ शब्दकैजेइनु
 बलीघटाकीहवाकइ योजनप्रमाणिमण्डलइइजेइनउ भलु कइइरलीइनउ सुस्वरानामघटाप्रति

आणवेइण भो सूरियाभेदेवे गच्छद्रण भो सूरियाभेदेवे जवूदीवे २
 भारहेवासे आमलकत्पाए णयरीए श्रवसालवणे चेइए समणं
 भगव महावीर अभिवन्दित्तएव तुब्भे विणभोदेवाणुप्पिया भविट्टिए

पयति भोमूया भोदेवी यथा गच्छति भो सूर्या भो देवी जवूदीप २ भारत वर्षं आमलकल्पाम्
 नगरी माम्भालवन चैत्य श्रमण भगवत महावीर वन्दितु तत्तस्मात् (तुब्भेविण)मिति
 यूयमपिणमिति पूर्ववत् । देवानां प्रिया पूर्ववत्, देवाना प्रिया सर्वहृगपरिवारादिकया सर्व-
 द्युता ययाम्भक्तिविस्फारितेन समस्तेन शरीरतेजसा सर्वबलेन समस्तेन हस्त्यादिसेन्येन
 सर्वसमुदायेन स्व स्वाभियोग्यादि समस्तपरिवारेण सव्वादरेण समस्तयावच्छक्तिमूलने
 सर्वविभूत्या समस्तस्वाभ्यन्तरवैक्रियकरणादि वाह्यरत्नादि सम्पदा सर्वविभूयया यावच्छक्ति-
 स्फारीणरगृ गारकरणेन "सव्वसम्मभेण"न्ति सर्वोत्कृष्टेन सम्भूमेण सर्वोत्कृष्टसम्भूमीनामेह-
 म्बनायकविषयवहुमानध्यापनपरा स्वनायकोपदिष्टकार्यसम्पादनाय यावच्छक्तिव्रितत्व्रिता
 प्रवृत्ति, "सव्वपुष्कवत्थान्धमल्लालध्कारण" अत्र गन्धा वासा माल्यानि पुष्पदामानि
 अलध्कारा आभरणविशेषा, ततः समाहारी हस्ततः सर्वशब्देन सह विशेषणसमास ।
 "सव्वदिव्वतुडियस्स दस्सनिताएण"मिति मव्वाणि च तानि दिव्वतुडितानि च दिव्वतुडियाणि
 सर्वदिव्वतुडितानि तेषा शब्दा सर्वतुडितशब्दा स्तेयामेकवमीलनेन यः सव्वातेन निरा-
 नन्दी महान् धीपः सर्वतुडितदिव्वशब्दसन्निनाद स्तेन अहं अल्पेज्जति सर्वशब्दी हृष्टी यथा
 अनेन सव पीत धृतमितित अहं "महताइइए" इत्यादि । महत्या यावच्छक्तिव्रिततया षड्वग्रा
 परिवारादिकया एव "महताए जुइए" इत्याद्यापि भावनीयम् । तथा महतास्फूर्त्तमतावाराणां
 प्रधानाना तुडितानामातोयाना यमकसमकमेककाल पटुभि पुरुषै प्रवादिताना धीरवस्तेन
 पतदेव विशेषणचष्टे । (सम्भवपथवपङ्कभेरिभल्लरिखरसुङ्गिहुडुवकसुरवसुङ्ग गदु-दुभिनिगधी-
 पनाइतारवेषम्) शब्दप्रतीत पथवोभापडाना पटु प्रतीत भेरीठवकावभल्लरीचर्मा
 च तदा त्रिन्तीषावलयकारा खरमुहीकाइलाहुडुवकाप्रतीता महाप्रमाणोमहलीसुरज । स एव
 लघुमुदुध्मीदुन्दुभिभेयांकारा सकटसुखी एतेषा इन्दस्तासा निर्घापो महान् ध्वानीनादित च घटा-

वषिवेला वजाडतउचकउ मीटइमीटइ सव्वइ उदधीपणाप्रतिकरतउचकउ एहवउवीलइ
 आघादेइकइ अहीदेवताउ मूयाभ देवजाइइइ अहीदेवताउ मूयाभ देव जवूदीपनइविपइ
 भरतचेवनइविपइ आमलकल्पानगरीनइविपइ आम्भालवण चैत्यनइविपइ श्रमण भगवत महा
 वीरप्रति वादवानइ अर्धितमाटइतुम्हे पणि अहीदेवानुमियाउदवताउ सघलीकट्टिविमानादि
 रूपइ यावतसव्वइसवकान्तिसर्वबलइवाजिव वाजतइपीताना पीतानापरिवारसाशिव परिवरत्रयका

जाविरवेण नियगपरिवण सञ्जिसपरिवुडा सातिजाणविमाणाइ
 दुडदासमाणा अकालपरिहीणाचेव सूरियाभस्स देवस्स अन्तिय
 दुब्भवह तण्णसे पायत्ताणियाच्चिवइं देवे सूरियाभेण देवेण
 णववुत्तो समाणे च्छजावच्चियण एव देवोतच्चित्ति आणाए विणएण
 वयण पडिसुणेति २ ता जेणेव सूरियाभे विमाणे जणेव सभा
 सुद्धम्मा मेघोघरसिय गभीरमहुसद्दा जोयणपरिमडला सुस्सरीघटा
 तेणिव उवागच्छत्ति २ ता त मेघोघरसिय गभीर महुसद्द जोय
 णपरिमडल सुस्सर घट तिक्खूत्तो उल्लालेवतेण से मेघोघरसिय
 गभीर महुसद्दाए जोयणपरिमडलाए सुस्सराघटाए तिक्खूत्तो
 उल्लालियाए समाणीए सेसूरियाभे विमाणे पासायविमान

यामिन्न वादनोत्तरकालभावी सततध्वनि स्तल्लचणोयीरवस्तेन (नियगपरिवारसञ्जिसपरिवुडा)
 इति निजक 'आत्मीय' आत्मीयो य' परिवारस्तेन साहं तव सहभावपरिवाररीति मन्तरणापि
 सम्भ्रतितत आह । सपरिवुडा सम्यक् परिवाररीत्या, परिवृता (अकालपरिहीण) ष्चे वेति
 परिहानि परिहीन कालपरिहीन कालविलम्ब इति भाव । न विद्यते कालपरिहीन यत्
 प्रादुर्भवने तदकालपरिहीन क्रियाविशेषणमेतत् । (अन्तियण दुब्भवह) अन्तिके समीपे प्रादुर्भव
 तस्य मागच्छतेति भाव । (तण्णसे) इत्यादि । (जावपडिसुणेत्ता) इति अत्र यावत्शब्दकरणात्
 "करयल परिगुच्चिय दसनह सिरसावत्त मयए अञ्जलि कट्टु एव देवोतच्चित्ति आणाए वयणे
 वयणे पडिसुणे" इति द्रष्टव्य । (तिक्खूत्तोउल्लालेइ) इति कृत्वा स्त्रीन् वारान उल्लालयति ताड-
 यति । ततोणमिति वाक्यालङ्कारे तस्यां मेघोघरसितगभीरमधुरशब्दाया योजनपरिमश्च-
 लाया सुस्वराभिधानाया संटार्यां त्रिकृत्व स्ताडिताया सत्यां यत् मूयाभ विमान तत् पासादिति

पोतानयानविमानइ वड्ढायाका कालविलवरचित्ति अतिऊतावला निश्चय मूयाभ देवनइ समीपइ
 आवउ तिह्वारयत्ती तेपायककटकनउधणी देव मूयाभ देवइ एहवउ कइयकइ हपसतोपपास्यु
 चित्तमाडिआणन्दउ एमहेदेव तुम्हाइ कच्चिउ तिमज आजाइ विनयकरी मूयाभिनूवचन साभलइ
 साभलीनइ जिहा मूयाभ विमान जिहा सभा सुधम्मा मेघनासमूहनउसब्दगर्जावउसरीप उडु
 मीठुसब्दइजेहनउ जोयनप्रमानमंडलइजेहनू सुस्सरानामघटाइ तिहाजाइ तिहाजइनेइ
 तेइ मेहनउसमूहतेहनू गजारव तेहसरीपुउडु मीठउसब्दइजेहनउ जोयणप्रमाणमंडलइइतेहनू

विम्बलूट्टा वक्ष्य सद् धट्टा पडिसुय सहस्सं सकुले जायाविद्योत्यान
 तेण तिसि सुरियाभविमाण वासीण बहुण विमाणिय देवाणय
 देवीणय एगतरति पमत्यनिच्च पमत्त विसय सुहम्,च्छिवाण सुस्सर
 घटारव विउलवोल पडिवोहणं कए समाणयोसण कोउहल दिण
 कणं एगग्गचित्त उवउ त्त माणसाणमेण पयत्या णियाहिवई देवे

कुटेपु वये चापतिता शब्दा शब्दवगाथा पुद्गलस्तेभ्य समुत्थलितानि यानि घण्टाप्रतिश्रुत
 शतसङ्ख्याणि घण्टाप्रति शब्दलक्षणे तै सकुलमपि जातमभूत् किमुक्त भवति, घण्टायां मङ्गता
 प्रयत्नेन ताडिताया ये त्रिनिर्गता शब्दपुद्गला स्तप्रतिघातवशतः, सर्वासुदिक्षु च दिव्यानुभावत
 समुच्छलितै प्रतिशब्दै सकलमपि विमानमेकयोजनलक्षमानमपि विधिरितमुपजाय इति । एतेन
 दादशभ्यो योजनेभ्य समागतं शब्द शीवगाधो भवति न परत तत कथमेकव ताडिताया
 घण्टाया सर्वत्र तत् शब्दश्रुति रूपजायते इति यच्चोच्यते तदप्राकृतमवसेयम्, सर्वत्र दिव्यानु-
 भावत स्तथा रूपप्रतिरूप प्रतिशब्दोच्छलने यथोक्तदीपासम्भवात् । (तएष) मित्यादि ततोष्मिति
 पूर्ववत्तेषा मूर्धाभविमानवासिना बहुना वैमानिकदेवाना देवीनां च एकान्ते न सर्वात्मनारती
 रमणे प्रसक्ता एकान्तरतिप्रसक्ता, अतएव नित्य सर्व काल प्रसक्ता नित्यप्रसक्ता कस्मादिति
 चेदत आह । (विसयसुहसुच्छियत्ति) विषयसुखेषु मूर्च्छिता अश्रुपपवा विषयसुखमूर्च्छिता स्तोती
 नित्यप्रसक्ता स्तत पदत्रयस्य पदद्वयमीलनेन विशेषणसमाप्तः । तेषा (सूसर घटारव विउलवोल
 तुरिय च वलपडिवोहणे) इति सुस्वराभिधानाया घण्टाया रवस्य य सर्वासुदिक्षु विदिक्षु च प्रति-
 शब्दो हलनेन विपुल सकलविमानव्यापितया विस्तीर्णावोल कीलाहल स्तेन त्वरित शीघ्र चपत्त
 प्रतिबोधनेन कृते सति (घोसणकोऊहलदिन्नएगगुरतिचित्तउवउत्तमाणसाणमि) ति कीह्वगाम-

सुस्वरानामघटाप्रति वणिवेलावजाडइ तिह्वारपकीतिह मेषसमूहनासब्दसरपीउ उ डउ मीठउ
 सब्दइइ जेहनउ योन्नतपरिमाण ममलइइजेहनउ सुस्वरानामघटानइ त्रणिवेला वंजाडीयकी
 तेह मूयाभ विमाननइवियइ प्रासादरूप विमान तेहनानिकूटसिखरतीहनउ विषयपरयां सब्दना
 पुद्गल तेहयकीऊपनाघटानापडिहृदा मङ्गल तेणइपडिहृदइकरीविमान सकुलव्यापउथकइ
 वदिरउ हुतउहुउ तिह्वारपकी तेह मूर्धाभ विमान वासीनइ घणानइ विमानिक देवनइ देवीनइ
 संवया प्रकारिरमणनइवियइ प्रासक्तइइणिकारणइ सर्वकालइ विषयनाजेह मुपतेणइकरी मूर्च्छित
 एहवादेवतानइ सुस्वर घटानउ सब्दविस्तीर्ण कीलाहल तेणइकरीप्रतिबोधज्ञान कीधइथकइ
 म्म ननइउघोपमत्तेहनु कीनूहल तेहनइवियइदीमुउइइकान वएइ इहु तइथकइउ घोपणानइ
 मामलवइएकामुचित्तयएइ उपयोगवत मनइइजेहनातेहदेवतानइ पायककटकनउ धयी देवतेइ

तसि घटारव' सिणिसन्तसि मह्वामह्वयासद्वेण' उग्घोसेमाणे एव
 ववासी इदसणात्त भवन्तो मूरियाभ विमाणवासिणे बहवे वेमाणिया
 देवादेवीउय मूरियाभ वयणहिय सुहृत्य अणवेइण मूरियाभेदेवे
 गच्छन्ण' भो मूरियाभेदेवे जवूहीव भारहवास आमलकप्प नयरि
 अवसालवण' चेइय समण भगव महावीर अभिवदित्तए त तुम्हे
 विण' देवाणुप्पिया सत्विट्ठीए जावअकालए लिहणाचेव मूरियाभस्स
 देवस्स अतिय पुवन्नभवहत्तएण से मूरियाविमाणस्ससिणो बह्व
 वेमाणिया देवाय देवीउपायत्ताणिया हिवइंस्स देवस्स अन्तिए

घोषण भद्रिण्यतीत्येव घोषणे कुतूहलेन दत्ती कर्णुं धैर्येन घोषणकुतूहलदत्तकथा । तथा एकाग्र-
 घोषणा श्रवणेक विषय चित्त येषां ते एकाग्रचित्ता । एकाग्रचित्तत्वेऽपि कदाचिदनुपवीग
 स्यादत आह, उपयुक्तमानसा स्तत' पूर्वपदेन विमोषणसमास' तथा पदात्यनीकाधिपति देव
 स्तस्मिन् घटारव'ण (निसन्ति पस'तसी)ति नितर'शान्त निशान्ती ऽत्यतिमन्दभूतस्तत प्रकपेय
 सजात्मना शान्त' प्रशान्त स्ततच्छिन्नप्ररूढ इत्यादाविव विमोषणसमास स्तस्मिन् महतर शब्देन
 उद्घोषयन्नेव मत्रादीत् (इदसुणन्तु) इत्यादि हन्तेति ह्ये उक्तञ्च हन्त ह्येऽनुकम्पाया
 मित्यादि विहय'स्वस्वामिनादिऽटवात् । श्रीम'महावीरवन्दनार्थं च समारंभात् शृण्वन्तु
 भवन्ती बहव मूयाभविमानवामिनी वैमानिकदेवादेव्यश्च मूर्याभविमानपते वचन हित
 सुखाय चेत्यर्थ' तत्र हित जन्मान्तरेपि कलशायावह' तथाविध कुशल सुख तस्मिन् भवे निरुप-
 द्रवता आज्ञापयति भो देवाना प्रिया मूर्याभो देवो यथा गच्छति भो मूया भो देवो जम्बूद्वीप
 द्वीपमित्यादि तदेव यावदन्तिके प्रादुर्भवन् । (तएणते) इत्यादि तत स्ते मूर्याभविमानवासिनी
 बहवो वैमानिका देवा देव्यश्च पदात्यनीकाधिपते देवस्य समीपे एतमनन्तरोदितमध' श्रुत्वा
 घटानइसब्दइ इत्यधइसमर्थक मोटइ मोटइ सब्दइ उदघोषणाकरतउयकउ एहवउवीलतउहुतउ
 ह्यइ करी साभलुतुम्हे अहीमूयाभ विमान वासीउ धर्यावैमानिक देवता देविउ मूयाभ देवन् वचन
 हितनइ सुखनइ अथि आज्ञादेइरूइ मूयाभ देव जाइरूइ अहीदेवताउ भो अभीआमवण मूयाभ
 दउ जम्बूद्वीपप्रति भगतचेवप्रति आमलकप्पानगरीप्रति आमसालवन चैत्यप्रति श्रमण भगवत महावीर
 नइ वादवानइ अर्थितेमाटइ तुम्हेपणिदेवानूप्रियाउ सघलीअट्टिपरिवरा विलवरहितअतिजतावला
 निश्चय मूयाभ देवनइ समीपइ प्रगटथाउआवउ तिह्वारपशी तेइमूयाभ विमान वासी धणी वैमा
 निददेवता देवागनापायकटकना धयीनइ देवनइसमीपइ एइअर्थप्रतिसाभलीनइ हिययचवधारीनइ
 ह्यसतीपपामु चित्तआणदयकी केतलाएक देवताभगवतनिवादावा नमिसा कीइक देवता पूजवान

एयमद्द सोच्चा निसमा इदुतुदुजाव हियया अप्पेगइया देवावदण
 वत्तियाए अप्पेगइया देवाब्भयणावत्तियाए अप्पेगइयादेवा सक्कार
 वत्तियाए एवसम्माण वत्तियाए कोउहलवत्तियाए असुयाइ सुग्गे
 स्सामी सुयाइ अट्टाइ हेऊइ कारणाइ वागरणाइ पुच्चिस्सामी
 अप्पेगतिथा अट्टविण वुवहेऊ अप्पेगतिथा सूरियाभस्स देवस्स
 वयणमणु अत्तेमाणा अप्पेगइया अन्नमन्नमणु अत्तेमाणे
 अप्पेगइया जिणभत्तरागेण अप्पेगइया धम्मोत्ति अप्पेगइया जीय
 मेवति सत्विटीए जाव अकालपरिहीणा चैव सूरियाभस्स देवस्स
 अतिय पाउवभवन्ति तण्णन्ते सूरियाभेदेवे ते सूरियाभत्तिमाणा
 वासिणो वड्ढे वेमाणियादेवाय देवीउय अकालपरिहीणा एव अतिय

(इदुतुदुजावहियया) इति यावन् करणात्, “इदुतुदुचित्तमाणादियापीइमणा प्ररमसोमणसिया
 इरिसवसविसण्णमाणाहियया” इति परिगुह् । (अप्पेगइया वदखवत्तिय)मिति । अपि मग्गावनाया-
 मेकका केचनवन्दनप्रत्यय वन्दनसमिवाद्यन प्रगस्तकाय वाष्मन प्रवृत्तिरूप तत्प्रत्यय तन्मया
 भगवत् श्रीमन्महावीरस्य कर्त्तव्यमित्येव निमित्त, अप्येकका पूजनप्रत्यय पूजन गन्धमाल्यादिभि
 समभ्यञ्जन, अप्येकका सत्कारप्रत्यय सत्कारस्तुत्यादि गुणीन्नतिकरण, अप्येकका सम्मानी
 मानस प्रीतिविशेष अप्येकका कुतूहलजिनभक्तिरागेण कुतूहलेन कोतुकेन कीदृशी भगवान्
 मन्त्रं सबदर्शि श्रीमन्महावीर इत्येव रूपेण योजिने भगवति वहमानस्वामिनि भक्तिरागी
 भक्तिपूर्वकीजनुरागत्तेन, अप्येके मूयाभस्य देवस्य वचनमान्या मनुवत्तमाना, अप्येकका
 पशुतपुत्रमना कथतानिस्वर्गमोक्षप्रसाधनकानि वचासि शीष्याम इति बुद्दग, अप्येकका श्रुतानि
 पूवमाकण्ठितानि यानि शशिकृतानि जातानि तानि इदानीं नि शशिकृतानि करिष्याम इति बुद्दग,
 अप्येकका जीतमेतत्, कल्पप इति कृत्वा (सत्विटीए) इत्यादि प्राग्गत । (तएण) मित्यादि,

मित्त कीइकदेव सत्कारनिमित्तद्रगुणप्रगष्टकरिवानइयर्थिइ एमजि कीइकसमाननिमित्तवमननी
 प्रीति केतलाएकक्रीचइलनमित्तइभगवकेइवाकइ एइवु कइतु केतलाएकजायाइकइअमेपूर्वइभग
 वतवचनसांभलीनयी तेइचाजसांभलीसइ सांभलइ अर्थ अवयवतिरेकीहेतु कारणतेयुक्तिमात्र परइ
 पूइउअवतेइनुउत्तर तंयाकरणपूकीसइ केतलाएक सांभलइअर्थनूनिश्चयकरित्तेइनइनमित्तइ
 केतलाएकदेवता मूयाभ देवनइ वचनप्रतिमानतायका कीइक देवता माहामाइइ वचनमानतायका
 कीइक देवता तीर्थस्करनीभक्तिरागइ केतलाएकदेवता केवलधर्मनइनमित्तइ कीइकदेवता जीव
 नाजीवनमित्तइपावरेसाचवाकइ अर्थिसधलीचरुति परिवरजायका अतिकतावला निश्चय मूयाभ

पाञ्चभवमाणापासाति पासित्ता इदृतुष्ट जावद्वियण आभियोगिय
 देव सद्वावेति सद्वावेत्ता एववयासी खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया
 अण्णिं ख भमय स निविद्ध लीलाद्विय साल्लिभञ्जि आग इहामिय
 उसभ तुरग णरविद्धग वालग किन्नर रुह सरभ चमरकुञ्जर वणल्लय
 पञ्चमल्लयभञ्जिचित्त ख भुवाग वरवयरवेद्वया परिगयाभिराम विञ्ज्जा
 हर जमल्ल जुयल्ल जतजुत्तपिव अच्चासइस्स मात्तिणीय रुवगसइस्स
 कल्लिय भिसिमाण २ चक्खू लोयणल्लेस सुहफास ससिरीयल्लय

(अण्णगद्धभमयसन्निविद्ध)मिति अनेकेषु स्तम्भगतेषु सन्निविष्ट (लीलाद्वियसाल्लिभञ्जियाग)मिति
 लीलया स्थिता लीलास्थिता । अनेन तासा पुत्तलिकाना सांभायमावेदयति, लीलस्थिता साल्लि-
 भञ्जिका पुत्तनिका यत् तत्तया, (इहामिय उसभतुरगनरमगरविद्धगवाल्लगकिन्नररुहसरभचमर
 कुञ्जरवणल्लयपञ्चमल्लयभञ्जिचित्त)मिति इहा मृगा वृका व्याला स्वापदभुञ्जगा इहामृगश्टपभ
 तुरगनरमगरविद्धगवाल्लकिन्नररुहसरभचमरकुञ्जरवनल्लयापञ्चलताना भक्त्ता विक्रिच्याच्चित्रमा
 लक्ष्मीयत् तत्तया । तथा स्तम्भोद्भूतया स्तम्भोपरिवर्त्ति न्या वज्जरत्नमव्यावृदिकया परिगत सति
 सत यदभिराम तत् स्तम्भोद्भूतवज्जुवेदिकापरिगताभिरामम् । (विञ्ज्जाहरजमल्लजुयल्लजन्तजुत्त
 पिव) इति । विद्याधरयो यत् यमलयुगल समर्थश्रीक इन्द्र विद्याधरयमलयुगल तच्च तत्
 यन्त्रञ्च सवरिण्यु पुरुषप्रतिमाइयरूप तेन युक्तं तदिव तथा अचिया किरणाना महम्मैमालिनीय
 परिवारणीय अचिसइक्षमालिनीय तथा रूपकसइक्षकलितं भिसमानन्ति दीप्यमान भिद्धिसमान
 भतिप्रयत्न देदीप्यमानम् । (चक्खुल्लनीयणं सन्ति) च्चु कर्तृलोकनेलिगतीव दशनीयत्वातिप्रयात
 श्लेष्यतीव यत् तत्तया, (सुहफास)न्ति शुभ कीमल्ल स्पर्शयस्य तत्तया । सश्रीकानि मग्गीभकानि

देवतइ समीपइ आवइ तिष्ठारपक्षी तंइ मूजभ देव तैमूयाभ विमान वासी घणा विमानिक देवता
 देवागना अविज्जातावनामघक्षीच्छडिपरवरगधक्षी चापयइ समीपइ आव्यावका मूयाभदेवदेवदेवइ
 देधीनइ हर्षं मत्तोपपाम्यु चित्तमाइआणन्दु सबक देवप्रति तंडावइ तंडावीनइ णहुवोलेत्तुहुउ
 तत्कालि अहोदेवानुमिय एहवउ एकविमानरचिउ तैकहवउकइ घणा य भतासतनइविषी थापि
 उरुइ लीलाइरहीएतलइ सांभाय सइतपूतलीइइनेहविमाननइविपइ वरघडा वृपभ घोटा
 मनुष्य पक्षी सप किन्नरदेवता मृग अष्टापद चमरीगाइ इस्ती वनलताअगोकलतादिक पञ्चलतावा
 कमल्लतादिक एहवीभातिकरीविचिउकइजेह विमानपभऊपरिकमल्लनीवज्जुमयीवेदिकाउपत्त्यासिरी
 तैवइकरीसइत एहवउ यत्तु अभिराममनीहरइत्यर्थं विद्याधरजउ यमल्लसमर्थं णिइ रइउ
 युगलजोडिउ एहवउजेयवयौग्यतीणइकरीसइतनहुइमे जालकारजाओइवालताइएवपत्तिमा

घटावलिय २ महुरमणहर' सुभक्त दरिसिणिज्भ णिउणोचिय
 मिसिमिसन्त रयणघटिया जाला परिखित्त जोयण सयसहस्सा
 वित्तियण दिव्वगमणसज्भ सिग्घगमण दिव्व जाण विमाण विउ
 व्वेह २ ता खिप्पामेव एवमाणत्तिय पच्चपिणाडि तण्णसं आभि
 उगिएट्टेवे मूरियाभेण टेवेण एववुत्तत्तमाणे हट्टेजावहियए करयल
 परिगहिए जावपडिसुणेइ जावपडिसुणेत्ता उत्तर पुरत्थिमदिसीभाग
 अक्कगत्ति अत्तेउत्तियसमुग्घाएण समोहणइत्ता सखेज्भाइ
 जोयणोइ जावअहावायरेपोग्गले परिसाडेत्ति अहावाहरत्ता अहा

रूपणि रूपकाणि यत्त तत् (सथीकरूपघटावलि वलिय महुरमणहरसर)मिति घटावलेषघटापक्के-
 वातवशेन चलिताया कम्पिताया मधुरस्तोव प्रियो मनोहरिमनोनिवृत्तिकर स्वरोयत्त तत्तथा
 चलितग्रन्थस्य विशेष्यात्परनिपात प्राकृतत्वात्, शुभ यद्योदित वा सुलक्षणोपेतत्वात् कान्त कमनीय
 अतएव दशनीय, तथा (निष्कणोविवियमिसिमिसतमणिरयण घटिया जालपरिखित्त)मिति निष्कणमिति
 निष्कणक्रियमोवियत्तियचितानिमिसिमिसतत्ति देदीप्यमानानि मणिरत्नानि यत्त घटिकाजाले
 तत्तथा तेन घटिकाजालेन चुद्रघटिकसमूहेन परिसामस्त्येन चिप्प व्याप्त यत्तत्तथा । योजन
 शतसहस्रविस्तीण योजनलक्षविस्तार दिव्य प्रधान गमनसथ गमनप्रवण शीघ्रगमननामधेय
 (ज्ञाणविमाण)न्ति यानरूप वाहनरूप विमान यानविमान श्रेय प्रागवत् । (तस्सण)मित्यादि तस्सण

रूप तेषइसरीसहितइत्यर्थं किरणनासहस्रइकरीसीभउ रूपनइनहस्रकरीकलिकयुक्त अतिसय
 करीदेदीप्यमानइइ अतिशयकरीदेपवानइयोगितापथोथकीनिवइ आलिपनलेतउजयनथी कीमल
 करिसइइजेहनउ सीभाइकरीसहितरूपइइजेहनइ घटानीर्थे णिवाइकरीलत्रावीतेहयकीउपनउ
 मधुरथोवमइआवहादकारीमनोहरमननइसुखकारीस्वरजेहनइविपइ वारतत्यग्ग धलक्षणइमहितइइ
 वाइवायोग्यइइ देइवायोग्यइइ ड्हाहीरपणइनीपजावु विनयोग्य देदीप्यमान मणिरत्नतीनगइही
 घटिका तंइनुनाल समूहतेणइपरिखित्तव्याप्तसइइ योजन लक्ष विस्तारपणइ प्रधानवालवाअर्थ इ
 मद्यकीधउ सीधुग मनएइवउ इइजेहनु देवसवधी वाहनरूप विमानप्रति विकुत्तनीपजीवउ
 विकुर्वीनइ तत्कालि निश्चय एय अज्ञासुअनइऊपरवीसुपु तिह्वारपहीतेह सेवक देवता सुवाभइ
 देवइ एइवुकइउथइइ इपसतोपप्राप्त चित्तमाहियाणट्ट बिहुरइइइकरीनीपजावीप्रदक्षयारूप
 अजलीमस्तकए भूयभिनुवचनसामभइ वचनसामलीनइ उत्तर पूर्ववचइ इसानकूणि भाग जाइ
 जइनइ वैजियसमुद्घातइकरीवैक्रिसमुद्घातकरइकरीनइ सघयाता जोयनलगइ पूर्वनीपरि

मुद्गमे षोडशे २ त्ता दोच्चपि वेत्तव्यसमुग्धाएणं समोहणं त्ति २
 त्ता अण्णिं ख भ सयसत्तिविद्ध जाणविमाणं वित्तव्यं पवत्तोयावि
 होत्थाततेणं से आभिउगेदेवे तस्सदिव्वस्स जाणविमाणं स्स तदिसि
 तिसोवाणं पडिपववणं वित्तव्वं तज्जा पुरित्थिमेणं दाह्णिणेणं
 उत्तरेणं तेसिणं तिसोमाणं पडिरुवगाणं अयमेयावुवेवणावसे
 पणत्ते तज्जा वित्तिरामयाणं म्मा रिद्धामया पत्तिट्ठाणा वेरुत्तिया
 मया ख भासुवणरूपमया फलिया वोहियक्खमत्तीउ सूतीतो
 वत्तिरामयासन्धी णाणामणिमया आलवणो अवलवणं वाहाउ

मिति पूर्ववत् दिव्यस्य यानविमानस्य (तिदिशि) इति तिस्रोदिशः समाहृतास्त्रिदिक्तस्मिन् त्रिदिशि
 तत्र (तिस्रोवाणं पडिरूपणं) इति त्रीणि एकैकस्या दिशि एकैकस्य भावात् त्रिसोपानं प्रतिरूपकाणि
 प्रतिविशिष्टं रूपं येषां तानि प्रति रूपकाणित्वयाणां सोपानानां समाहारं त्रिसोपानानि च तानि
 च प्रतिरूपकाणि चेति विशेषणसमासं विशेषणस्यावपरनिपातः । प्राकृतत्वात् (तिसिणं) मित्यादि
 तेषां च त्रिसोपानप्रतिरूपकाणां मयमेतद्रूपोपलक्षणस्वरूपी वर्णावासी वणक निवेशः प्रज्ञप्तः ।
 तद्यथा । वज्रं मया वज्ररत्नमया नेमा नेमभूमिकात् ऊर्द्धनिगच्छन्तं प्रदर्शयः । रिष्टमयानि प्रति-
 ष्टानानि त्रिसोपानमूलप्रदेशा, वैडूर्यमया स्तम्भा सुवणरूपमयानि फलकानि त्रिसोपानागभू-
 तानि लोहितान्धमया सूचयः फलकद्वयं सम्बन्धविघटनभावहेतुपादकास्थानीयाः । वज्रमया वज्र-
 रत्नपूरिता सन्धयः फलकद्वयापान्तरालप्रदेशः । नानामणिमयानि अवलम्ब्यते इति अवलम्ब-
 नानि, अवतरता सुचरता वा लम्बनहेतुभूता, अवलम्बनवाहाती विनिगता केचिदवयवाः (अवलम्ब्य

आत्मप्रदेशं सोलजातिरत्ननात्रादरपुद्गलनापद्मयथायोग्यपण्डं वादरपुद्गलनापीनइ यथायोग्यपण्डं
 मुद्गमं पुद्गललेइनइ वीजीविला वैक्रियसमुद्घातइकरी समुद्घातकरइ नमुद्घातकरीनइ अनिक
 धभना सतनइविपइथापु एइविधानविमानचालयानाविमानप्रतिइ विजुविनीपजावानइ अर्थइ
 प्रवर्त्ततउत्तुउ त्तिह्वारपकीतइ संवक देव तेहनइदेवसन्नधीयान विमानइ वणदेसइ वणिक तरवाना
 पाउडीयाएकैकदसइएकेकु इत्यर्थं प्रतिरूपवसिरूपइजेइना विजुवइनीपजावइ तेकहवइ पूर्वं
 दसिइ दक्षिणदसिइ उत्तरदसिइ तेइ वणिपाउडीयानउ प्रतिरूप एहथागलितेकहीसइवणकविशेष
 कहिउ तेकहइइ वज्ररत्नमयीनियमभूमिधकीउ चानीकलताप्रदेशनियमकहीइ रत्नरमयी प्रति
 ष्टानापाउ डीयानामूलप्रदेशं वैडूर्यरत्नमयी धामासुवणं रूपमय पाउडीयापाटिया लोहिताच
 रत्नमयामुचीएतलइपाटीयाचिघटनइनहीतेइने अथ इमूचीतेपाउया वज्ररत्नइकरीविह्वुपाटीआनीम
 धिजडोइइ अनैकप्रकार मणिमय आलवनचडता ऊतरताविह्वुपाटीअलवणानइ अर्थं आथयनीभाति

पासाइया जावपडिखवा तेसिण तिसोमाण पडिखवगाणं पुरत्तो
 तोरणे विउव्वइ तोसिण तोरणाण णाणामणिमएसु ख भेसु
 उवणिविट्ठ सन्निविट्ठा विवइ मुत्तन्तरोएववित्ता विवइतागुरुवेइया
 इहा मिय उसभ तुरग णर मगर विहग वालग किन्नर रुह सरभ
 चमर कुजर वणल्लय पउमल्लय भत्तिचित्ता विवइतागुरुवेइया ख भु
 गगयवइर वेतियापरिगयाभिरामो विज्झाहर जमल जूयल जतसत्ता

वाहाउयत्ति) अवलम्बनवाहाइच नानामणिमय्य । अवलम्बनवाहानाम उभयी पाइयोरवलम्ब-
 नाश्रयभूताभित्तय (पासाइयाउ) इत्यादि पदचतुष्टय प्राग्वत । (तिसिण)मित्यादि तेषाणमिति
 वाक्यालङ्कारे विसीपानप्रतिरूपकाणा पुरत प्रत्येक तीरण प्रज्ञप्त तेषा च तीरणानामयमेतद्रूपी-
 वर्णावासी वणकनिवेश, प्रज्ञप्त स्तथथा (तीरणाणाणामणिमया) इत्यादि, क्वचिदेव पाठ
 "तिसिण तिसोवाण पडिखवगाणं पुरतो तीरणे विउव्वइ तीरणाणाणामणिमया" इत्यादि ।
 मणयश्चन्द्रकान्ताद्याविविधमणिमयानि तीरणानि नानामणिमयेषु स्तम्भेषु उपविष्टानि सामीप्येन
 स्थितानि तानि च कदाचित्त्वलानि । अथवा अपदपतितानि वा शक्येरनुतत आह सम्यक निश्चल
 तथा अपदपरिहारेण च निविष्टानि ततो विशेषणसमास, उपनिविष्टसन्निविष्टानि, (विविहमुत्त-
 न्तरो वविया) इति विविधाविविधविक्रित्तिकलिता मुक्ता मुक्ताफलानि अन्तरति अन्तराशब्दोऽगृहीत
 वीप्सोपि सामथ्याद्दीप्साभयति अन्तरारूपीपचितानि यावता यव तानि तथा । (विविहितारी
 वचिया) इति विविधस्तारारूपैस्तारिकारूपैरुपचितानि, तीरणेषु हि शोभायं तारिका निवध्यन्ते
 इति प्रतीत लोकेपीतिविविधतारारूपीपचितानि । "जावपडिखवा" इति यावत्करणात्(इहामियउ
 सभतुरगनरमगरविहगवाल्लगकिन्नररुहसरभचमरकुजरवणल्लयपउमल्लयभत्तिचित्ता । खभुगयव-
 रवेइया परिगयाभिरामोविज्झाहर जमलजुगलजन्तनुत्तावि वा) एव नामस्तम्भद्वयसन्निविष्टानि

अलवणनीवाहिरनीसरताप्रादसअवलेवणवाहीकहातैकेहीपणिमणिमयरत्नइप्रसन्नकरी देयवायीगय
 इइ वसिष्टरूपइतेइनइ पाउडीयानइ आगलि तीरणप्रति विकुवइ तेहनउ तीरणना अनेक
 प्रकारणो मणिमय धामानइविपइ समीयइरइइया किवारइयसीपइइनहीएइवा अनेकप्रकारइती
 तइकलित मुक्ताफलतेइआतरइरआरोप्याइइजिहा अनेकप्रकारइ तारामारूपतेणइकरीसहितइइ
 वरगडा वृषभ घोडा मनुष्य मगरमत्स पक्षी सपनीजाति देव मृग अटापद चमरीगाइ इस्ती
 वनलताअशोकादि पद्मलताकमलिना एइनीभातिकरीतेहतीरणविचित्रइइ थ भयकीनीकलीऊपरि
 वज्रमयी वेदिकाऊयलासिरी तेणइकरीव्याप्तएइवुथकु मनीहर विद्याधरनु समथेणि रइउ तुगल

विवध अस्वी सहस्रमालिणा रुवग सहस्र कलिया भिसमाणा
 चक्रवृत्तलक्षणनेसा मुहफासाससिरीयरुवा पासाइया जावपडिरुवा
 तैसिण तौरणाणं उप्पि वहवे अट्ट मगलगापन्नता तज्जा सोत्थि
 सिरिवत्थ णन्टियावत्त वड्डमाणय भद्दासण कलस मत्थ दप्पणा
 तैसिचण तौरणाण उप्पि वहवे किएह चामरञ्भए जावमुकिल्ल
 चामरञ्भए अच्छेसणहं रुपपट्टे वयरामयदडे जालयामलगन्धिए
 सुरम्मे पासादीए दरिसणिज्जा अभिरुवे विउव्वइ तैसिण तौरणाण

चौरणानि व्यवस्थितानि यथा विद्याधरयमलयुगलयन्त्रयुक्तानीव प्रतिभासन्ते इति । (अस्वीसहस्र
 मालणीया रुवगसहस्रकलियाभिसिमाणोभिन्भिसिमाणाच्चक्रवृत्तलीयणलिसामुहफासा ससिरीय रुवा
 पासाइया दरिसणिज्जा अभिरुवा) इति परिग्रहः, क्वचिदेतत्साचाल्लिखितमपि दृश्यते । (तैसि
 तौरणाण उप्पि)मित्यादि । सुगम नवर "जावपडिरुवा" इति धावच्छब्दकरणात् "घट्टामट्टानीरया
 निम्मला निप्पट्टा निक्कळ्ळड कायाससरीया सउज्जणीया पासाइया दरिसणिज्जा अभिरुवा"
 इति दृष्टव्यम् । (तैसिण)मित्यादि तेषां तौरणानामुपरिवहव कृष्णचामरयुक्ता ध्वजा । कृष्ण-
 चामरध्वजा एव बहवो नीलचामरध्वजा लोहितचामरध्वजा हालिद्रचामरध्वजा, शुक्लचामर-
 ध्वजा । कथं भूता एते सर्वपीत्यत आह, (अच्छा) आकाशस्फटिकवदतिनिमला श्लक्ष्णी
 म्बन्धुपुद्गलस्कन्धनिम्मापिता रूपपट्टा इति रूपी रूपमयी वज्रमयस्य दण्डस्योपरिपट्टी येषां
 ते रूपपट्टा । (वड्डरदण्डा) इति वज्री वज्ररत्नमयो दण्डो रूपपट्टमध्यवत्ती येषां ते वज्रदण्डा ।
 तथा जलजानामिव जलजकुसुमानां पद्मादीनामिवामलो न तु कुद्रव्यगन्धसन्मिथो यो गन्धः
 स जलजामलगन्धः, स विद्यते येषां ते जलजामलगन्धिका । अतएव सुरम्यां पासादीया इत्यादि
 विगेषणं चतुष्टयं प्राग्वत् । (तैसिण)मित्यादि तेषां तौरणानामुपरिवह्वूनिकृत्वातिक्त्वाणि कृत्वात्

योडउ एहवुयवयोगतिथिकरीसहितं अनेक किरणनासहस्रतेणइकरीसोभतातौरणकइ रूपनइ
 सहस्रइ करी युक्तकइ देदीप्यमानकइ लोचननइ जाणीआलिगनलताकइ सुकमालफरिइजेइनु
 सोभाइ करीसहितरूपजेइना वितन्नइप्रमत्तकरइकइ देववाजीगयकइ विगिष्टरूपकइ तेइ तौरण
 नइ उपरि घणा आठर मगलीक कट्टा तेइहइकइ साथा १ थीवक २ नदावत्त ३ सरावसपुट ४
 भद्रामण ५ कलस ६ मत्सयुगम ७ आरीसु तेइनइ वली चौरणनइ उपरि घणा कालाचामरधजा
 यावतशब्दइचामरध्वजा ४ नीलाचामरध्वजा ४ ध्वेतचामरध्वनाकइ रत्ताचामरध्वजाइपात निमल
 कइरुचमपूइतइकरीनिम्पनके दडइ रुपानापाटाकइ वज्र रत्नमयदडकइ कमलसरीपुगधकइजेइनु
 रमणीकइ चित्तनइप्रसन्नकरइकइ देववायोग्यकइ भलुरुपकइ एहवातौरणाविकुवइ तेइ तौरण

उप्य वहवे कृत्तात्ति कृत्ते घटाजूयले पडागादिपडागे उप्यलहृत्यते
 कुमहणलिण सुभग सोगन्धिय षोडरीय महाषोडरीय सत्तपत्तसहस्स
 पत्त हृत्ययते सव्वरयणामए अत्थे जावपडिह्वे वेउव्वइ तएणसे
 आभिउगिएदेवे तस्स जाणविमाणस्स अन्तो वहुसमरमणिञ्ज भूमि
 भाग विउव्वन्ति सेजहानामए आलिगपुक्खरेइ सुयगपुशकरोति सर
 यलेइवा करतलेइवा चदमडलेइवा मूरमडलेइवा आयसमडइलेइवा

लोके प्रमिद्धा त एकमख्यकात अतिशायीति क्वाणि उपयधोभागेन द्विसप्त्यानि विसप्त्यानि वा
 क्वातिक्वाणि । वद्ध पताकाभ्यो लोकप्रसिद्धाभ्योतिशयान्यो दीर्घत्वेन विस्तारेण च पताका ,
 बहूनि घण्टायुगलानि बहूनि चामरयुगलानि बहव उत्पलहस्ता उत्पलाच्च जलजकुसुम समूह-
 विशपा एव बहव पद्महस्तका नलिनहस्तका सुभगहस्तका सोगन्धिकहस्तका पुण्डरीक-
 हस्तका शतपत्रहस्तका सहस्रपत्रहस्तका, पद्मादिविभागव्याख्यान प्राग्वत्, एते च क्वाति
 इवादय । सव्वरत्नमया अच्चा आकाशस्फटिकवदति निम्मला यावत्करणात् 'सपहालपद्दा
 घट्टामद्धानीरया निम्मला निपक्का निक्कळ्ळडक्काया सप्पभोसस्सिरीया सउज्ज्भीया पासाइया दरि
 सणिज्जा अभिह्ववा" इति परिगृह्ण । (तस्सण)मित्यादि तस्यणमिति पूर्ववत्, दिव्यस्य ध्यानविमानस्य
 अन्तर्मध्ये बहुसम सन रमणीयो बहुरमणीयो भूमिभाग । प्रज्ञप्त कि विशिष्टइत्याह (सेजहा-
 नामए) इत्यादि । तत सकललोकप्रसिद्ध यथा इति दृष्टान्तोपदेशनेनामिति शिष्या मन्वणेए इति
 वाक्यालङ्कारे (आलिगपुक्खरेइ) वेति । आलिग्यो सुरजनामा वाद्यविशेष स्तस्य पुष्कर चम्प
 पुलक तत्किलाल्यन्तसममिति तेनीपमाक्रियते इति शब्दा सवापि स्वोपमाभूतवस्तुपरिसमाप्ति
 यीतका वा शब्दा समुच्चये मृदध्नी लोकाप्रतीतो महलस्तस्य पुष्कर मृदद्यपुष्कर परिपूर्ण
 पानीयेन भूततडाका सरस्तस्य तलसुपरितनी भाग । सरतल करतल प्रतीत च द्रमण्डल
 मूयमण्डल च यद्यपि तत्ववृत्त्याउत्तानीकृताइ कपित्याकार पीठप्रासादापेक्षया वृत्ता लेखमिति
 तद्वती दृश्यमानो भागोनसमतल स्तथापि प्रतिभासते समतल इति तदुपादानम् । आदशमण्डल

नेइ ऊपरि घणा ह्वऊपरिवघटानाजीडाहइपताकाउपरिपताका उत्पलकमलनासमूह चइ
 विक्रासीकु मद नलिनकमल सुभगकमळ सोगधिककमल पु डरीककमल महापु डरीककमल
 सत्तकपत्रकमल सहस्रपत्रकमल तेहनासमूह सरत्नमयइइ निमलइइ सुच्चमपुद्गलइ नीपजावु
 भनुरूपकइ एइवाविकुवइ तिह्वारपडि सेवक देव तेह विमानविमाननइ माहि घणु समरमणीक
 भुमिनुभागप्रति विकुवइनीपजावइ तेह यथादृष्टातइ मुरजवाजिब्रवसेपतेइनुचमपूक वज्राडिवानु
 टाममादलनुचमरूडउ भरियातनावमउज्जमलुभाग हायनीहर्थे ली चदमानुमडलजेइवु समु इइ

उरुभचम्मेद्रवा वराहचम्मेद्रवा सीहचम्मेद्रवा वधचम्मेद्रवा दाविय
चम्मेद्रवा अणागसतकुकीलगसहस्सवितए आवड पव्वावडसेठिपसे
ठिसोत्थियसावत्थिय पूसमाणव वद्धमाण गमत्यडामकरडा जारा
माराफुल्लावलि पउमपत्त सागरतरगवसन्तलय पउमलयभत्ति
चित्तेहि सच्छाएहि सप्पभेहि समरीएहि सउज्झोविएहि णाणा

सुप्रसिद्ध (उरुभचम्मेद्रवे)त्यादि, अथ सर्वत्रापि “अण्गंसकुकीलग सहस्सवितते” इति विशेषण योगा
उरुभुज्जरणवृषभवराहसिंहव्याघ्रकृगला प्रतीता । “हीपीचित्रक” इत्येषा प्रत्येक चम्मे अनेके
शकुप्रमाणे कीलकसहस्रै महद्भि हि कीलकै स्ताडित प्राये मध्यचा समभवति तथा रूपताडा
सम्भवादत शकुगृहणं वितत विततीकृत ताडितमिति भावः । यथात्यन्त बहुसम भवति तथा
तस्यापि यानविमानस्यान्त बहुसमो भूमिभाग, पुन कथ भूतइत्याह (णाणाविह पञ्चवणे हि
मणीहि उवसोभित्ता) नानाविधा जातिभेदा नानाप्रकारा ये पञ्चवर्णमणयस्तै रूपशोभित कथ
भूतैरित्याह । (आवडे)त्यादि आवर्त्तादीनि मणीना लक्षणानि तत्रावर्त्तं प्रतीत एकस्यावत्तस्य
प्रत्यभिमुख आवत्त प्रत्यावर्त्तं श्रेणिक स्तथाविध विन्दुजातादे पक्ति स्तस्याश्च श्रेणि स्वस्तिक
प्रतीत, सीवस्तिक पुष्पमाणवी लक्षणविशेषी लोकात्प्रत्येतव्यी वर्द्धमानक सरावसपुटम्मतस्य
काण्डकमकरकाण्डके प्रतीते जारमारावपि लक्षणविशेषी सम्यग्मणि लक्षणवेदनती लोकाद्वेदितव्यी
पुष्पावलिपद्मप्रवसागरतरग्वावासन्तीपद्मलता सुप्रतीता स्तासा भक्त्या विच्छित्या चिवमा लेखो
येषु ते आवर्त्तं प्रत्यावर्त्तं श्रेणिप्रथं शिस्वस्तिकसीवस्तिकपुष्पमाणववड मानकमतस्यकाण्डक मकर-
काण्डकजारमारपुष्पावलिपद्मप्रवसागरतरग्वावासन्तीपद्मलताभक्तिचिवा स्तै किमुक्त भवत्या
वत्तादिलक्षणोपेतै, तथा सहायै सती शोभना ह्याया निम्नलस्वरूपा येषा ते सहाया । तथा
सती शोभना प्रभा कान्ति येषा ते सप्रभा तै । (समरीएहि) इति समरीचिकै बंदिनिगितकिरण

जे हवुं मूयनुमाडलु आरीसानुजेहवुमंडलहुइ अथ गयेडानुचम वराहन्नउचम सीहनुचमवाघनुचम
चातरानुचम वार अंगुलप्रमाणसकुकहीइ अनेकसकूपमाणइखालानइसहस्रै करीतेह पूजाक्तचमविहु
दसइभूमिमायइ यतइहुइ पक्षेजे हवुचमनुकपलुभागदीसइतेहिउउ हसानउमाहिल भूमिनुभागइ
पाचवणरतइकरीभूमिनाचूरमाजडगंइइतेहरलमाहिरेपाविहुपडाइइतेमणिकइवाइइ आवडतेसमी
श्रेणियत्वावडतेकुसायीउ पराठीश्रेणिएपमेटीतेश्रेणिय्यानीक लीअनेरीश्रेणिसोधत्थिय सायावउसो
वस्तिकनदावत्त क्लिपूसमाणचलक्षणविशेष सरावलानुसपुट मत्सानाइडापगरनांइडा तारामारलना
लक्षणविशेषअयवावनस्पतीविशेष फूलनाश्रेणि कमलपत्र समुद्रनातरग वासतीलता पद्मलताएहनी
भातिकरी तेहरलविचितकइ धलीरलकेहवाइइतेजिकारीसहितकइ कातिकारीसहितकइ वाहरिली

विह पच वणणेहि मणीहि उवसोमिए तज्जहा किएहेहिणीलेहि
लोहिएहि ह्यालिद्वेहिं मुक्किल्लेहियतत्यण जेतोकिपहामणी तेसिण
मणीण इमेया रुवे वणवासो पणत्ते सेज्जहानामए जीमूत्ततिवा
अजणीतिवा ख जणोतिवा कज्जलेइवा गवलेइवा गवलगोलिलिया
इवा भमरेइवा भमरावलियातिवा भमरपत्त गसारेइवा जवूफलेइवा
अदारिद्वेइवा पुरपुट्तेइवा गतेइवा गयकलभएवा किएहसप्पेतिवा

जालसहिते सोद्योते वडि व्यवस्थितप्रत्यासन्नवस्तुस्तीमप्रकाशकरी द्योतसहिते रेव भूतैनाना-
जातीये पञ्चवर्णं मणिभिरू पशोभित स्तानेव पञ्चवर्णानाह । (तज्जहा) । (कएहे) इत्यादि । “सुगम
तत्त्वण” मित्यादि । तत्र तेषा पञ्चवर्णाना मणीना मध्यममिति वाक्यालङ्कारे ये ती कृष्णामण्य
वे कृष्णमण्य इत्येव सिद्धे ये इति वचन भाषाक्रमाय तेषामण्यमिति पूर्ववत् अयमनन्तर मुद्दिश्य
मान एतद्दृष्योऽनन्तरमेववचमाण्यस्वरूपी वणावासी वर्णकनिवेश प्रज्ञप्त । तद्यथा । (सेज्जहा-
नामए) इत्यादि । स यथानामजीमूत इति जीमूतो जलाहक स वेह प्रावृट्प्रारम्भसमये जलभृती
वेदितव्य । तस्यैव प्रायोऽतिकालिमसम्भवात् इति शब्द उपमाभूतवस्तुना मपरिसमाप्ति
द्योतक । वा शब्दउपमानान्तरापेक्षया समुच्चये एव सबब अञ्जन सोवीराञ्जन रत्नविशेषो
वाखजन दीपमल्लिकामल । कज्जल दीपमिस्रापतित, मसी, तदेव कज्जल तामुभाजनादिपु
सामग्रीविशेषण धौलेतमसी गुलिका धौलीतकज्जलगुटिका अचचित मसी इति वा मसी गुलिया
इति न इश्यते गवल माहिपशु ग तदपिचोपरितनत्वग्भागापसारणे द्रष्टव्यम् । तत्रैव विशि-
ष्टस्य कालिस्त सम्भवात्, तथा च तस्यैव माहिपशु ग निविडतर सारनिर्वर्तता गुटिका भूमइ
प्रतीत, भुमरावली भुमरपत्ति भुमरपत्तया सार भुमरपत्तातर्गुती विशिष्ट कालिमोपचित
प्रदेम जम्बूफल प्रवीत आदारिष्ट कोमल काक, पुरपुष्ट कीकिल गजो गज्जकलभश्च
प्रतीत कृष्णसप्प कृष्णवर्ण सपजाति विशेष कृष्णकेसर कृष्णवकुल, आकाशस्थिगजल शरदि-

कल्याणकिरञ्जालजहना समीपरहिं वस्तनइ प्रकाशकरइइइएहवउ चनेकप्रकारइ पाचवणइ
मणीकरीमहित विमानु मधीभूमिभागसोभतु इइ हिवेतेमणिनापाचवणदपाडैइइ कालररनइनील
रत्नइ रातइरत्नइ पीतरत्नइ धुलइरचिबिकरी तेषाचवणमणिसाहि तेह कालीमणि तेहनु
मणिनु एह प्रागलिज्जहीसइतेहवु वणकविसेपकडितेह यथाहरटातइ नासइतिकीमलामवणे
आसाटनुतरउजेहवु मेहकालुइइइइतिमसब्बइ उपमानइ अर्थवाससुद्वयाय इ सोवीराजनरत्नविसेप
दीपताजनमल नीयसमुखानामयि महिपशु गजेहवुउपहुलइ अथवा महिपशुगनुजेहवु मणीहुइ
नेइवु भमरपुइ अथवा भमरणीयि नीयापडीनु माहिलुजेहवुपदेसहुइजवूहीपवृचनु फलनीनु

किण्वहकोसारदवा आगासधिगालेदवा जिण्वहासोणदवा किण्वहकणवीर
 दवा किण्वहवधूजीवेदवा भवेद्वारिसेरुवे सिवाणोद्वणद्वणे समद्वे
 तेण किण्वहमणीएत्तो इद्वतराए चेवपियतराएचेव कततराएचेव मणा
 मत्तराएचेव मणुणतराएचेव वणोणयणत्ता जेतेणीलामणी तेसिण्
 मणीण इमेवांरुवे वणावासेपणत्ते सेज्जहानामए स यतिवा भग
 पत्तेइवा सुपदवा सुयपिच्छेइवा चासेइवा चासपिच्छेइवा नीत्ता

मेघ विनिर्मुक्तमाकाशक्षय इति कृष्णमतीव प्रतिभातीति तदुपादानं कृष्णाशोकं कृष्णकणवीर
 कृष्णवन्धुजीवा अशोककणवीर वन्धुजीववृचभेदा अशोकादयो हि पञ्चमथा भवन्ति तत श्रेय
 वर्णञ्जुदासायं कृष्णगृह्य एतावत्युक्त्वा रावानिब्रशिय्य पृच्छति । (भवं एयांरुवे) इति भवेत्
 मणीना कृष्णोवर्ण एतद्रूपो जीमूतादिरूपं सुरिराहनायमर्थं समथं, नायमर्थं उपपन्नीयद्वुत
 एव भूत् कृष्णोवर्णांमणीनामिति यथैव तद्वि किमर्थं जीमूतादीनां दृष्टात्तत्वेनीपादानमत आह,
 कपन्थमुपमात्मात्मेतत् उदितं इ अमथ आयुष्मन् धावता पुनस्ते कृष्णमणय इति जीमूतादेरिष्ट
 तरकाएव कृष्णो न वर्णो न अभीप्सिततरकाएव तत्र किञ्चिदकान्तमपि केपाचिदिष्टतम भवति ।
 ततोऽकान्तता विवच्छित्यथमाह । कान्ततरकाएव अतिस्निग्धमनीहारिकालिमोपचितं तथा
 जीमूतादे कमनीयतरका अतएव मनीञ्जतरकाएव मनसा ज्ञायते ऽनुकूलतया स्वप्रवृत्ति विषयी
 क्रियते इति मनीञ्ज मनीनुकूलं तत प्रकपविवक्षायान्तरपप्रत्यय । तत्र मनीञ्जतरमपि किञ्चि
 न्मध्यम भवेत् तत सर्वोत्कपप्रतिपादनायमाह (मनआए तरकाएव) द्रष्टृणा मनासि आप्नुवति
 आत्मवगता नयन्तीति मन आपस्तत प्रकपविवक्षया तस्य प्रत्यय । प्राकृतत्वात्त्वपकारस्य
 मकारेमषामतरा इति भवति । तथा (तत्तयण)मित्यादि, तत्र तेषां मणीना मध्ये घेते नीलामणय
 स्तेषामयमेतद्रूपो वणावासी वर्णं कनिवेश, प्रज्जप्त स्तयथा (सेज्जहानामए) इत्यादि । स यथा
 नामभूत्वा कीटविशेषः । पत्तमलं भूत्वापत्र तस्यैव भूत्वाभिधानस्य कीटविशेषस्य पत्तम

आराडीउ'फल अथवा कीकिला इस्ती सहस्तीनु बालक कालउ सप्यं कानु'वहुकुलवृच अकायनु
 पडमेवडमृकितसरकालसवधाजेइवु हुइ कालोअशोकवृच कालूकणयर कानुवधजाव वृचवेद्येप
 सिप्यगुरुनडपूइइइएइवुसपइकालामणि कदाचित्तगुरुजइइइइएअथय नही एतलइडमनेही ते
 कालामणि एहपूनीकवणयकी कालावणुजअधणुजवाहवीर्योग्यइइ अतिसयिकरीप्रीतिजपजायं
 इइनिश्चय अतिस्निग्धपणइमनीहरइइ देपणहारनामुइ नधणुवसकरइइइनिश्चय धणुनमनीअजे
 धनुकूलपणइतेमणिगुधवानइ मनप्रतिकरइअणइकरीवुएइवाकथा तेइनीलामणी तेइमणिनु
 एइनुआगनिकहास्यइतेइवु वणकउसेप कइउ तेइयथादृष्टातइ भिगीरीउजइकु जाउ अइय ।

इवा नीलगुलियाइवा सामापतिवा उच्चतएतिवा वणरातीतिवा
 हलहरवसणोतिवा मोरगावाइवा पारेवगीवातिवा अयसिकुसुमेतिवा
 वाणकुसुमेतिवा अज्जणेकेसियकुसुमेइवा नीलूप्लइवा नीलासोगेइ
 वा नीलवधूजीवेइवा नीलकणवीरेइवा भवेयारुवे सियाणी इगाट्टे
 समट्टे तेण णीलामणीपत्तोइट्टतराचेव जाववणोण तत्थण जेतेलो
 हियामणी तेसिण इमेयाह्वेवणावासो पयणत्ते सेज्जहाणामए
 उरभरुहरेइवा ससरुहरेइवा नररुहरेइवा वराहरुहरेइवा वन्दि

शुक' कोर' शुकपिच्छ शुकस्य पत्रञ्चाप' पत्रिविशेष', चापपत्र चापपत्र नीली प्रतीताणीली भेदे
 नीलीच्छेद', नीलीगुलिका गुलिका द्रव्यगुटिका श्यामाकी धान्यविशेष', उच्चन्त गोदतराग
 वनराजीप्रतीता, हलधरो वलदेव मत्स्य वसन तच्च किल नील भवति स दैवतथा स्वभावतता,
 हलधरस्य नीलवत्त परिधानात् मयूरग्रीवा पारावतग्रीवा अतसीकुसुमवणवृक्ष कुसुमानि प्रती-
 तानि । इतकञ्च' वञ्चित् "इन्दनीलेइवा मद्धानीलेइवा सरगतेति वा" इति दृश्यते तत्र द्र
 नीलमरकतारतनविशेषा' प्रतीता' अज्जनकेशिका वनस्पतिविशेष स्तस्य कुसुममज्जनकेशिका कुसुमम्
 नीलीत्पल कुवलय नीलागोककणवीर नीलवन्धुजीवा अशोकादिवृक्षविशेषा (भवे एयाह्वे)
 इत्यादि प्राग्वत् व्याख्येयम् । तथा (तत्थण)मित्यादि, तत्र तेषा मणीणां मध्ये चेते लोहितता
 मण्यस्तेषामयमेतद्रूपोवर्णवास' पत्रप्त' । तदथा (सेज्जहानामए) इत्यादि तद्यथा । नाम
 शशकधिरमुरभुजरणस्तस्य धिर वराह' सूकरस्तस्य धिर महिपरुधिरञ्च प्रतीतम् । एतानि
 हि किलशेषधिरभ्यो लोहितवर्णात्कटानि भवन्ति तत एतेषामुपादानं बालेन्द्रगोपक' सद्यो
 जातेन्द्रगोपक' सहि प्रवृद्ध' सतीपत्याडुकी रक्षो भवति । ततो बालगृह्य इन्द्रगोपकः प्रथम
 प्रावृट्कालभ्रवी कीटविशेष' बान् दिवाकर' प्रथमसुहृच्छन् मूर्य' सन्ध्याभुरागो वर्षासु सन्ध्या

भिगोरीयानीपापडीतेहवीहुइजेहवुरुहुहुइ मूडानीपाप नीलचासपची नीलचासनीपाप नालीगुली
 गुलीनीगुटिकागुली सामुधान्यवसेप दतराग वननीर्थेणि अथवाबलिभइनाजेइवावस्वनीलासुइ
 मोरपचीनाग्रीवा पारेवानीग्रीवा अलसीनाफूल वाणवृक्षवसेपतेहनाफूल अज्जनकेसिकावनपतीत्र
 शेष नीलीत्पलकमल नालुअसीकवृक्ष नालूवधुजीववृक्षवसेप नीलकणयरवृक्ष सियाणूइहुइ
 नीलामणिणइवारूपैकटाचित सुरुकइइरुनइइइअर्थ' समर्थइमनही तेह नीलामणिपूर्वात्नीला
 वणयकीषणुजवाहवायीग्यहइ यावतशब्दइएकातवर्णइकरीतिहापाचवर्णमणिमहिजेह तारामणि
 तेहमणितुजेहव आगलिकहीसइतेहववर्ण'कविशेषकहिचतेह तेह यथाहटातइ वोकडावुहलोही
 अथवा समान्त्रधलोही मनुष्यनुलोही वराहनु लोही बालइइगोपसुमीलउजाव जगतउमूर्य

गोर्वे इवा वालदिवाकरेतिवा स'वभ्ररागेइवा गुजधरागेतिवा जामु
 णकुसुमेइवा किमुयकुसमेतिवा पालियाकुसमेतिवा जातच्चिगुलेतिवा
 सिलपव्वालेतिवा पवालकुरेइवालोहिखमणीतिवालखारसगेइवाकिम
 राग कवलेइवा चीणपिट्टरासीतिवा रतूपलेइवा रत्तासोगेइवा रत्तकण
 वीरेतिवा रत्तवधुजीवेइवा भवेयारुवेसियानोइणष्टे समष्टेतेण लोहिया
 मणीएत्तो इट्टयराचेव जाववणेण पणणात्ता तत्थण' जेतेहान्तिद्वा मणी
 तेसिण मणीण इमेयारुवे वन्नावासे पणणात्ते सेजहानामए चपेइ
 वा चपगच्छतीइवा हान्तिदाइवा हलिद्वाभेदेतिवा हलिद्वायलियाइवा
 हरियालियाइवा हरियालभेदेतिवा हरियालगुलियाइवा चउरेतिवा

समयभावी अभ्रराग, गुञ्जा लोकप्रतीता तस्याइरागो गुञ्जाइराग गुञ्जाया हि अर्द्धम-
 त्तिरिक्त भवति । अर्द्धं चाति कृष्णमिति गुञ्जाइ'गुञ्ज जपाकुसुमकिशुककुसुमपारिजात
 कुसुमजात्यदिशुलिका लोकप्रसिद्धा । शिलाप्रवाल प्रवालनामारत्नविशेष, प्रवालाकुरस्यैव
 रत्नविशेषस्य प्रवालस्याकुर । स हि तत्प्रथमीदृशत्वेनात्यन्तरक्ती भवति तत स्तदुपादानम् भवति ।
 लोहिताचमणिनामारत्नविशेष । लाचारसक्तमिरागरक्तकम्मलचीनपिट्टराशिरक्तीत्पलरक्ताशोकक
 षणीरवन्धुजीवा प्रतीता । (भवे एयारुवे) इत्यादि प्राग्वन्, (तथण) मित्यादि तत्र तेषा
 मणीना मध्ये ये हरिद्रामण्यस्तेषा मेतद्रूपोवणावास' मन्त्रप्त स्तद्यथा (सेजहानामए) इत्यादि स
 यथानामचम्पक सामान्यत' सुवर्णचम्पकीवृक्ष' चम्पकच्छलीसुवर्णचम्पकत्वक् चम्पकभेद, सुवर्ण
 चम्पकच्छेद' हरिद्रा प्रतीता हरिद्राच्छेदो हरिद्राच्छेद' । हरिद्रागुटिका हरिद्रासारनिवर्षितागुटिका
 हरितालिका पृथिवीविकाररूपप्रतीता हरिताडिकाभेदी हरितालिकाच्छेद' हरितालिकागुटिका
 हरितालिकासारनिवर्षिता गुलिका चिकुरीय गन्धद्रव्यविशेष' चिकुराभ्ररागः । चिकुरसयोग

मध्यानुआभनउनुरागजेइवुहुइ आधीविणीठीनुर ग जामूनफूल फलास नाफूल पालिकावनस्पती
 नाफूल मुहडिगली थिलारूपप्रवालरत्नविशेष जगताप्रवालानाअकूरा लोहिताप्यमणिरत्नविशेष
 नापनुरसक्तमिडर ग्युहुइजेइवउकवल सिटूरनउ पुज रक्तीत्पलकमल रानुअमीकवृक्ष रातउकण
 यरवृक्ष रातउवधुजीववृक्षवसेष सिप्यपुंइइकदाचिचतारामणिपइवैरूपइगुसकइइ नहीएअथ
 ममथं तेइ तारामणि पूर्वीकतारामणिधकीपणिघमाजइइ निश्रचय कातइइ वर्णइकरीकछा
 तेइ पाचवणमणिमाहि जेइ तेइ पालामणि तेइनु मणिनु पइआगनिकहीइतेइवु वथकवशेष
 कइउ तेइ यथाइप्टातइ सुवर्ण'घापुवृक्षवसेष सुअथवासुवर्ण'चापानीकालि हलिइ हलिइन

पुडाणवातगरपुडाणवापलापुडाणवा चीयपुडाणवादमगायुपुडाणवा
 कुकुमपुडाणवा चदण पुडाणवा उसारपुडाणवा मरुयापुडाणवा जाइ
 पुजणवा जूहियापुडाणवा गहाणमल्लियपुडाणवा केयइपुडाणवा
 पाडलिपुडाणवा णोमालियापुडाणवा अग्ररुपुडाणवा लवगपुडा
 णवा कपूरपुडाणवा वासपुडाणवा अणुवायसि उन्निज्जमाणाणवा
 कोटिसमाणाणवानिभिदिज्जमाणाणवा भिदिज्जमाणाणवा रुविज्ज
 माणाणवा उक्करिज्जमाणाणवा विक्खरिज्जमाणाणवा परिभाइ
 ज्जमाणाणवाभडातोवा भडसाइरिज्जमाणाणवा उरालामणुणामण

एकस्य पुटस्य प्राची न तादृशी गन्ध आयाति द्रव्यस्याल्पत्वात् ततो बहुवचन नगरमपि गन्ध-
 द्रव्य एला प्रतीता वीय गन्धप्रद्रव्य चम्पकदमनककु कुम चन्दनोशीरमरुकजातीयूधिका मल्लिका
 स्तानमल्लिकाकेतकीपाटलीनवमालिकाऽगुरुलवङ्गकुसुम वासकपूरारिष्य प्रतीतानि । नवर
 मुशीर वीरुषीमूलम स्नानमल्लिका स्नानयोग्यामल्लिकाविशेषा । एतेषा पुटानामनुवाते
 आध्यायकविविधितपुरुषाणामनुकूल वाते वाति सति उद्भिद्यमानाना मुद्घाटयमानानावा शब्द सर्व
 वापि समुच्चये (कुट्टिज्जमाणाणवा) इति इह पुटे ,परिमितानि कोष्टादीनि गन्धद्रव्याणि तान्यपि
 परिश्रेये परिमाणोपचारात् कोष्टपुटादीनीत्युच्यते तेषा कुडरमानानाम दुष्खलेस्तुडरमानाना (भयडे-
 ज्जमाणाणवा) इति श्लक्ष्णखण्डक्रियमाणाणा एतच्च विशेषणद्वय कोष्टादि द्रव्याणामवसेय
 तेषामेव प्राय कुट्टनश्लक्ष्णखण्डीकरणसम्भवात् न तु यूधिकादीना (उक्किरिज्जमाणाण वा)
 इति क्षुरिकादिभि कोष्टादिपुटाना कोष्टादिद्रव्याणा वा उरकीयमाणाणा (विक्खरिज्जमाणाण
 वा) इति विकीर्यमाणाणा मितस्ततो विप्रकीर्यमाणाणां (परिभुज्जमाणाण वा) परिभोगाय उप-
 युज्जमानानां त्वचित् "परिभाइज्जमाणाण वा" इति पाठ स्तत्र परिभाज्योमानाना पार्श्ववर्तिर्यौ
 मनाक् मनाक् दीयमानाना (भयडाउभयडसाइरिज्जमाणाण वा) इति भयडात् स्थानादेकामादृत्यत

कहीस्यइतेहवउ गध कङ्गु तइ यथाहृष्टातइनामइतिसप्यामवणे कूटगधद्रव्यतेहनीपुडा वृडा त
 गरगधद्रव्यतेहनीपुडर सूयानापुडादमणानापुडाकेसरिनापु डाचदननापु डावालानापुडामरुयाफूल
 जाइफूलनापुडाजूहीफूलनापुडास्तानमालानीफूलनापुडाकेतकीनापुडाअयवालवगनापुडा पाडलफू
 पुडाकपूरनापुडा णवमालतीफूलनापुडा आगरनापुडासुकठिकेसरिनवणतेहनापुडा अनकूलियापर
 वातइयकइ एहगधभराडावाडाउघडाकाकीतीहुनइ एहपूवोक्कगधद्रव्यजपलइलालीनइपडीताहुइ
 घणु,जमेवाताहुइ साम्यान्याप्रकारइमेवाताहुइ सूक्ष्मपडकरीवाहु उपलायकावूरिकादकइउपाता
 इइ पिभीराताहुइ सरीरनइविपइभोगीवाताहुइ माहीमाहिदेवराताहुइ एवठामडाधी बीजइ

इरा धाणमणोनिवृत्तिकरा सव्वतोसमता अभिनिस्सवन्ति भवेयाह्वे
 मिया णोतिण्ठे समट्ठे तेसिण मणीण एत्तोइद्वयराचैवगन्धेण पपणत्ता
 तेसिण मणीणं इमेवाह्वे फासे पणत्ते सेज्जहानामए आडणोतिवारुए
 इवा वूरेइवा णवणीण्ठवा इसगव्भतलिइवा सिरीसकुसम निचएतिवा
 वालकुसमपत्तरासीतिवा भवेवाह्वे सिपाणोइण्ठे समट्ठे तेण मणी
 इत्तोइद्वयराचेव जावफासेण पपणत्ता ततेणसे आभिउगिए टेवे तस्स
 जाणविमाणस्स बहुमव्भसभागे तत्थण महेग पेट्याधरमडव विउ

भाण्ड भाजनातर सक्रियमाणाणा उदारा स्फारास्ते चामनोज्ञा अपि स्फुरत आह मनोज्ञा
 मनोऽनुकूना स्तच्च मनोज्ञत्व कुतइत्याह, मनोइरा मनोइरन्ति आत्मवत्स नयन्तीति मनो-
 इरा यत स्ततो विप्रकीर्यमाणाना मनोइरत्व कुतइत्याह । ध्यायमनोनिवृत्तिकरा एव भूता
 सर्वत सव्वासुदिक्षु समतत सामस्त्येन गन्धा अभिनिस्सरन्ति जिघृतामभिमुख निस्सरन्ति क्वचित्
 (अभिनिस्सवन्ती)ति पाठ । तत्रापि सएवार्थो नवरमभित मवन्तीति शब्दसंस्कार एवमुक्ते
 मिय्य पृकति (भवे एयाह्वेसिया) श्यादेतत् यथा भवेदेतद्रूपस्तेषां मणीना गध (मूरिआइथो
 इण्ठे समट्ठे) इत्यादि प्राग्वत् ॥४॥ (तेसिण) मित्यादि तेषापणमिति पूर्ववत् मणीनामयमेतद्रूप
 स्पर्म । मज्जप्त स्तयथा (सेज्जहानामए) इत्यादि तद्यथा अजिनकं चर्ममय वरत्त रूप प्रतीत
 वूरोवनस्पति विशेष । नवनीतं सच्चय इंसगव्भतूली शिरीषकुसुमनिचयश्च प्रतीत । (वाल
 कुसुमपत्तरासीइ) वेति बालानि अचिरकालजातानि यानि कुमुदपत्राणि तेषा रागि बालकुमुद-
 पत्ररागि, क्वचिद्बाल कुमुदपत्ररागिरिति भाव । (भवे एयाह्वे) इत्यादि प्राग्वत् ॥४॥ (तएण)
 मित्यादि । तत स आभियोगिको देव स्तस्य दिव्यस्य यानविमानस्य बहुमध्यदेशभागे अथ

ठामडइषीभीताइइ प्रधानमनोज्ञ मनोइरनासिकानइमनि सुखकारिया सघनइचिइ दसि लंबागध
 नीकले मिय्यपूछेइइतेइमणिनागधएइवापुता कदाचित् गुरुकइइइ ममर्धनही तेइमुनिनु पूर्वाइ
 गधयकीवणु जवाह्ववायोग्यगधिकरी कथा तेइ मणिनु आगलिकइहीस्यइतेइवु फरिसकइउ तेइ
 यथाइप्यातइइमयायु नर्म अथवाकुं गालु उ वूरोवनस्पती मांखण इम गधनुलिका मिरमडावुचना
 फूतनु ममूइ कु साफूलतथापवतेइनु समूइ मिय्यपूछेइइतेइमणिनु फरिसणइवु इइ कदाचित् गुरु
 कइइइतेइएयर्थ समय तेइ मणिनाफरिस पूर्वाइपरिसयकीवणु जत्राजवायोग्य यावत्गण्डेवणु
 जकात फरिसकरी कथा तिष्ठारपही तेइ मवक देव तेइनइ यान विमानइ धणु मध्यभागप्रदस
 नइविपइ ण्हा मोदुएक प्रे चा धरमंडपर गमडपमति विकुवइनीपजायइ तेइप्रेचामडपकइइवुइइ
 प

वृद्ध अणोग खभ सय सन्निविद्ध अद्भुतगयसुकयवयरवेडया तोरण
 वररचितय सालिभजियाग सुसिलिद्ध विसद्ध लद्धसत्रिय पसत्य वेरुनिय
 विमलख भ णाणामणि कणगरयण खचिय उज्ज्वल बहुसमसुविभक्त
 देसभाग इच्छामिग उसभ तुरय णर मगर विहग वालग किन्नर रुद्र
 सरभ चमर कुजर वणलय पञ्चमलय भक्तिचित्तक वणामणि रवण

मदत प्रे चागृहमण्डप विकुर्वति कथ भूतमित्याह । अनेकस्तम्भ शतसन्निविष्ट तथा अभ्युद्गता
 अभ्युत्कटा सुकृता सुप्टुनिष्पादिता वरवेदिकानि तोरणानि वररचिता शालिभञ्जिकाश्च
 यत्र तत् अभ्युद्गतसुकृतवरवेदिकातीरणवररचितशालिभञ्जिकाक । तथा सुश्लिष्टा विशि-
 ष्टालुष्टसंस्थिता मनीषसस्थाना, प्रशस्ता प्रशस्तवास्तुलक्षणोपेता वैदूर्यविमलरत्नभा
 वैदूर्यरत्नमया विमला स्तम्भा यत्र तत् सुश्लिष्टविशिष्टालुष्टसंस्थितप्रशस्तवैदूर्यविमलरत्नभ
 यया नानामणय खचिता यत्र भूमिभागे स नानामणिसंचित । सुस्रादिदर्शनात् कातरय
 पाञ्चिक परनिपात । नानामणिसंचित उज्वली बहुसमी अत्यन्त सम सुविभक्ता भूमिभागा
 यत्र तत् नानामणिसंचितोज्ज्वल बहुसमसुविभक्तभूमिभागम् । तथा इहा मृगा वृका षट्पभा वृषभा
 म्पुरगनरमकरविहगा प्रतीता व्याला स्वापदभुजगा किन्नरा व्यन्तरविशेषा हरत्रीमृगा,
 सरभा आटव्या महाक्राया पशव चमरा आटव्यागाव कुञ्जरा दन्तिन वनलता अशो-
 कादिलता पद्मलता पद्मिन्या एतासा भक्तग विक्रिया चित्रमालेशो यत्र तत्, इहा मृगशृपभ
 तुरगनरमकरविहगव्यालकिन्नरहरसरभचमरकुञ्जरवनलतापद्मलताभक्तिचित्र । तथा स्तम्भा
 इतया स्तम्भीपरिवर्तिन्या वज्ररत्नमय्या वेदिकया परिगत सत् यदभिराम तत् स्तम्भीकृतवज्र-
 वेदिकापरिगताभिराम । “वज्जाह रजमलयुगलजन्तलुच पिव थ च्चसइस्स मालिणीय” मिति
 विथाधरन्तीति विथाधरा विशिष्टविद्याशक्तिमन्त तेषा जमलि युगलानि समानशीलानि इ द्वानि
 तेषा यन्त्राणि प्रपञ्चविशेषास्तेयुंक्तमिव अर्चिषा मणिरत्नप्रभाज्वालाना सङ्खैर्मालिनीय परिवार-

धभना सतनाविपद् रञ्जि उरुइ अतिरमणीकपथीयकाजीयणहारनईस मुस्यइरही भलइकारीमरइ
 नगपजावीवज्ररत्नमयाहारमू डिलपलीवेदिकावरडोइ तोरणनइविप्रेप्रधान रचीतइड पूतलीनेइ
 विमानइविपद् जाणीइभूमिकामाहिथीजग्यारमइभूमिसाद्यइरुडीपरिआलशीरचिया भलामनीज
 सस्थानकेजेइनु वास्तुलक्षणइसहित वैदूर्यरत्नसय निमलथाभाइइजेइप्रे चामडपि अनेकप्रका
 र्नीमणिस्रद्रकातादिक सुवण रत्नककतनादि तेषइकरीरथचित्र उज्जलु घणु मसुरुसुविहृत्वउ
 भुमिनुपदेसइनेइप्रे चामडपनइविपद् वरगडा वृषभ घोडा मनुप मगर मरस पक्षी सय देवता
 नृग अष्टापद चमरीगाइ इस्ती वनलताअशीकलतादिक पञ्चनता कमलनी एहीनाभीतिकरी

भूमियाग गणाविह पचवण घटापडाग परिमडिग्गया सिद्धरधवल
मरीयकवय विणिमुय तल्लाउल्लोइयमहिंय गोसीसरत्तचटगाट्टूर
टिन्नपचगुलितल उवविय चटणकलस चन्दणघडसुकयतोरण पडि
दुवारदेसभाग आसत्तोसत्तविउल वट्टवग्घारिय मल्लदामकलाव पच

णीय किमुक्त भवति, एव नाम अत्युद्धतैर्मणिरत्नप्रभा ज्ञानैराकलितमवभाति, यथानूनमि न
स्वाभाविक किन्तु विगिष्टविद्याशक्तिमत्पुरुष प्रपञ्चप्रभावितमिति (रुवगमहम्म कलितमिभिसिमाण
मिन्मिसिमाण' चक्खुल्लोयणलेस सुहफास सिस्सिरीयरुव)मिति प्राग्गत, वचचिदेतन दृश्यते ।
(कञ्चणमणिरयण भूमियाग)मिति काञ्चनञ्च मणयश्च रत्नानि च काञ्चनमणिरत्नानि तेषा
तन्मयीसुपिका गिखर यस्य तत्तथा । तथा नानाविधाभि नानाप्रकाराभि घट्टाभि पताकाभिश्च
परिसामस्येन मण्डितमगुशिखर यस्य तन्नानाविधपञ्चवर्णघट्टापताकापरिमण्डितागु
शिखरम् । चपल चलञ्चिकचिकाप्रमानत्वात् । मरीचिकवच किरणजालपरिच्छेप विनिर्मुञ्चन् ।
(नाउल्लोइय महिय)मिति लाइय नामा यद्भूमिर्गोमियादिना उपलेपन उल्लाइय कुडयाना मालय
च सेटिकादिभि सन्मृष्टीकरणम् । लाउल्लोइयाभ्यामिव महित पूजित लाउल्लोइयमहिंयम् ।
तथा गोशीघेण गोशीपनामकचन्दनेन सरसरत्तचन्दनेन च ददरण वहलीन चपेटाकारण वा
दत्ता पञ्चागुलय स्तलाहस्तका यत्र तत् गोशीपरत्तचन्दनददरत्तपञ्चागुलितल । तथा
उपचिता निवेशिता चन्दनकलया मध्यालकलया यत्र तत् उपचितचन्दनकलगम् । (चटन
घडसुकय तीरणपडिदुवार देसभाग)मिति । चन्दनघट्टेचन्दनकलगे सुकृतानि सुपुकृतानि
श्रीभितानीतितात्पयाथ । यानि तीरणानि तानि चन्दनघट्टसुकृतानि २ तीरणानि प्रति "दुवार
देसभाग" द्वारदेशभागे यत्र तत् चन्दनघट्टसुकृततीरणप्रतिहारभाग, तथा (आसत्तो सत्तविउल-
वट्टवग्घारियमल्लदामकलाव)मिति आश्रवाड अधोभूमिसक्त आसत्तो भूमौ लग्न इत्यर्थ ।
ऊर्ध्वसक्त उत्सक्त उल्लोवतेल उपरिमस्वइ इत्यर्थ । विपुलो विस्तीर्ण वृत्तो वर्तुल "वग्घारिय"
इति प्रलम्बितो माल्यदामकलाप पुष्पमानासमूहो यत्र तत् आमत्तोसक्तविपुलवृत्तप्रलम्बित

विचिवरुद्धेज्जेमि चामपडपइ सुवण मणि रत्नसयईशिखरजेहनु अनेकप्रकारइ पचवण इ घटाइ
अनइयजाइसविसेपण मडितशिंसिखरनु अगुजेहनु मिखरकडधउ लु जेहनु किरणजालप्रति
मू कनुकइ वाणइकरीभुमिनु लीपउ भातिनइऊपलइमालखडीइकरीधुलवुतेणइकरीपूजिउ गोशीप
रत्तचटन करीचपेटाकारि दीधाकइहापजेहनु विपिधापाइइ विकुर्वी चदननाकलममगनकलस
जिहा चदनकलमइ करीसीभनकीधा तीरणतेहइइ द्वारनादेशभागनइविपइजिहा हे विभूमिलाग
ऊपरिचदइवाधउविस्तीण वतुललंयायमान फूलमकइइ फूलमालाजिहा पचवण नालु सुगध

वर्णा सरस सुरभिमुक्क पुष्प पूजोवयारकलिय कालागुरुपवर कदरुक्क
 तुरुक्क धू वसधमघत गधु धू याभिराम सुगधवरगधिय गधवद्विमृय दिव्व'
 तुडिय सद्दसन्तिनाय अत्यरगण सधस पद्वण पासादीय दरिसणिज्झ
 जावपडिछव तस्सण पेत्था धरमडवस्स बहुसमरमणिज्झ भूमिभाग
 विउव्वत्ति जावमणीण फासो तस्सण पेत्था धरमडवस्स उल्लोय
 विउव्वद् पउमलयभत्ति चित्त जावपडिछव तस्सण' बहुसमरमणि
 ज्झस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभाण एत्यण एगवइरामय आक्खा

माल्यदामकलाप । तथा पञ्चवयेन सरसेन सशयेन सुरभिषामुक्तेन चित्तेन पुष्पपुञ्जनचये
 नीपचारेण पूजया कलित पञ्चवयसरससुरभिमुक्तेपुष्पपुञ्जीपचारकलिते । (कालागुरुपवर कुन्द
 रुक्कतुरुक्कधुवमधमधिनत्त गन्धुद्द याभिरामं सुगन्ध वरगन्ध गन्धियं गन्धवद्दि भूय)मिति प्रागवत्,
 तथा अप्परीगणाना सव्व' समुदाय स्तेन सम्यक् रमणीयतया विकीण व्याप्त मप्परीगणमध
 विकीणं, तथा दिव्याना तुटितानामातीद्यानां वेशुवीणामुदम्मादीना ये शब्दा स्ते सम्प्रथदिनम्
 सम्यक् श्रीवमनोहारितया प्रकपेण नादितशब्दवत् दिव्यतुटितशब्दसम्प्रथदितम् । (अच्छ
 जावपडिछव)मिति । यावच्छब्दकरणात् "अच्छ सयह लयहं घट्ट मट्ट नीरय निम्मलं निप्पक
 निक्ककडच्छाय सप्पम समीरीय सउज्जी अपासाइय दरिसणिज्झं अमिक्कव पडिछव"मित द्रष्ट-
 व्य, एतच्च प्रागवत् व्याख्येयम् । (तस्सण)मित्यादि तस्यथमिति प्रागवत् । प्रेक्षागृहमपडपर्यान्त
 मध्ये स बहुसमरमणीय भूमिभाग विकुर्व'ति तद्यथा । "पालिगपुष्कर"मिति चेत्यादिन् देवता तद्-
 क्तव्य यावन्मणिस्यग्र मूवपर्यन्त । तथा चाह (जावमणीण फासो) इति, (तस्सण)मित्यादि तस्यथ-
 मिति पूर्व'वत् । प्रेक्षा गृहमपडपर्यन्त उल्लोकमपरिभाग विकुर्व'न्ति पद्मलता भक्ति चित्त,(जावपडि-
 छव)मितियावच्छब्दकरणात् "अच्छ सयह"मित्यादि विशेषणकदम्बकपरिगृह' । (तस्सण)मित्यादि ।
 तस्य बहुसमरमणीयस्य भूमिभागस्य बहुमध्यदेशभागे अथणमिति पूर्ववत्, एक मद्धान्त मच-

भूमिजपरि मूक फुलनु समुद्गतलक्षणउथचारपूजातेषुइकरीयुक्कइ कृष्णागुरुप्रधान गुदवसेध
 सिलहारस तेहनुधुप तेणइकरीमधमघायमान गधनुउत्कट्टपणू तेणइ करीमनोहरि सुगंधप्रधान
 गधतेषुइकरीयुक्कवन्तइइ कृष्णागुरुनीवातीरूपकइ देवसवधीवाजिज्वना सव्ववत् तेणइकरीधणुसव्व
 वत्कइ अप्पसरगणनु समुदाय तेणइकरीव्याप्तछे चित्तनइप्रसन्नकरइइ जीइवायोयकइ भनु
 रूपकइजेनुइ तेहनु प्रेक्षा धरमडपनु धणु समुरमणीक भुमिनुभागपदेशप्रति विकुर्व'नीपजावी
 पाचवर्णइमणिसुकमाल गरिसवतरननाजेहावुरसाजडग' तहाइइ प्रेक्षाधर मडपणइ उपली
 भूमिचट्टुआरूप विकुर्व'नीपजावी तेह अनेकरूपपद्मलतानीभातिकरी विचित्रइइ यावत्सव्वइ

डग विउव्वत्ति तस्सण अक्खाडयस्स बहुमम्मदेसभागे एत्थण
 महेग मण्णिपेठिय वेउव्विइ अट्टजोयणाइ आयामे विक्ख भेण
 चत्तारि जोयणाइ वाइल्लेण सव्वमणिमय अत्यजाव पडिक्ख
 तीसेण मण्णिपीडियाए उवर एत्थण महेग सीहासण विउव्वइ
 सीहासणस्स इमेयाक्खे वणावासे पयणत्ते तज्जा मतवण्णिज्जाण
 मया चक्कल्ला खयमया सीहा सोवागियापाया णाणामणिमयाइ
 पायसीसगाइ ज्वूणयमयाइ गत्ताइ वयरामयासधी णाणामणिमए
 विउव्वेण सीहासणे ईहामिय उसभ तुरग णर मगर विहग व्याल
 किन्नर रुह सरभ चमर कुजर वगालय पट्टमल्लय भत्तिचित्त सारसारो

पाद विकुर्वन्ति । तस्य च अत्रपाठकस्य ब्रह्म मध्यदेशभागे तत्र एकाम्महतीम् मणिपीठिकाम्
 विकुर्वन्ति । अष्टौ योजनान्वायामविष्कम्भाभ्यां चत्वारि योजनानि बाहुल्येन उत्त्वेस्तेनेति
 भावः । कथं भूतां ता विकुर्वन्तीत्यत आह । (सर्वं मणिमयीं) यावत्कारणादच्छामित्यादि विज्ञे-
 पयसमूहपरिगृह, स्तस्याप्रच मणिपीठिकाया उपरि अत्र महदेक सिंहासन विकुर्वन्ति तस्य च
 सिंहासनस्य अयमेतद्रूपोवर्णावासः प्रज्ञप्तः । तद्यथा । तपनीयमया चक्कला रजतमया
 सिंहायैरुपशोभित तत सिंहासन मुच्यते, सीवणिका सुवर्णमया पादा । नानामणिमयानि
 पादशीपकाणि पादानासुपरितना अवयवविशेषा, जाम्बूनदमयानि गात्राणि वज्रमया वज्ररत्ना
 पूरिता सन्धयो गात्राणा सन्धिमेला नानामणिमय वेद्यम् । तद्युतम् । (सिंघं सीहासणे)
 इत्यादि तत् सिंहासनमीहामृगशयभतुरगनरमकरव्यालककिन्नररुसरभचमरवनलतापद्मलता-
 भक्तिचित्रम् । (सारसारो वचियसणिरयणपायवीठ)मिति सारसारै प्रधानै मणिरत्नै रुपचितेन पाद

देषवायोग्यभलुरूप तेहनइ धणु रमणीकनइभूमिभागनइ धणुउ मध्यप्रदेशनइविपइ इहा
 एकवज्रमय. आम्हाडुचुसावइसवायाम विकुर्वं तैह अम्हाडानइ धणु मध्यप्रदेशभागइ एहा मोटु
 एक मणि पीठउजलु विकुर्वंइ तैहमणिपीठआठयौयनलगि लांवपणइ पुहुलपणइ स्यार जोयन
 जाडप्रणइ समस्त मणिमयइ निर्मलइ जावत्सब्दइ भलुरूपकै तैह मणि पाठिकानइ ऊपरि
 इहा मोटु एक सिंहासनप्रति विकुवइ तैहसिंहासननु आगलिकहिमइ वर्षकवशेफ कछिउ
 तैहइइइइ तपनीय रत्नसुवर्णमय चाकूलाइ यायानु हेठलु भागरूपामय साहा जेणइ सोभिते
 सिंहासनइ हुवै सोभाना स्यारदपाया अनेकमणिमय पायानामस्तककै ज्वूनदसुवर्णमय गात्रकैइस
 उपलाइत्यर्थं वज्रकरीइसऊपलानासधियडीइ अनेकमणिमयविस्त्वेवाणकइ जेणइसिंहासन
 वशीजतेह सिंहासन वरगडा वृषभ घोडा मनुष्य मगरमत्स पक्षी सर्प देवता मृग अष्टापदजाव

वचिय मणिरयगापायपीठे अत्यरय मउयमसूरुग नवत्तयकुसत्त लिख्व
 सीङ्ग केसरपवत्ययाभिरामे सुविरत्तिय रयत्ताणो उववियखोमदु
 गल्लेपट्टपडिवायणोरत्त सुयसवूडे सुरम्भे आइण गळयभूय गावणीय
 तूल फासमउए पासादीए तस्सण सीङ्गासणस्स उवरि एत्थण
 मदेग विजयदुस विउव्वति सेणविजयदुस विउव्वति सेणविजयदुस
 सेतसख ककुट्ट दगरय अमय मच्चिप फेणु पुज्जसन्निगास सव्वरयणा
 मय अत्थसण्ह पासादीय दरिसणिज्जे अभिरुव पडिछव तस्सण

पीठेन सह यत्तत्तया प्राकृतत्वाच्च पदोपन्यासव्यत्ययः । (अक्षरयमउममूरुगनवतय कुसन्तलिख्वकेसर
 पवत्व्याभिरामे) इति । आमूरकमाकादक मृदुयस्य ममूरकस्य तत् आमूरकरमृदुविशेषणस्य पर
 निपात । प्राकृतत्वात् नवात्वच् येषा ते नवात्वच् । कुशान्तादभेपर्यन्ता नवात्वच्श्च ते कुशान्ताश्च
 नवक्कुशान्ता प्रत्यत्वग्दभपर्यन्तरूपाणि लिख्वानि कोमलानि नमनशीलानि च केसरणि मध्ये
 यस्य मयूरकस्य तत् नवात्वक् शान्तलिख्व केसर आमूरक मृदुनाममूरकेण नवात्वक्कुशान्तलिख्व
 केसरेण प्रत्यवमृतमाकादितं सत् यत् अभिराम तत्तथा विशेषणपूर्वापरनिपातो यादृच्छिकः
 प्राकृतत्वात् । (आइणगळय भूय नवनीय तूलफासे) इति पूर्ववत् । तथा सुविरचित रजस्वाण-
 मुपरि यस्य तत् सुविरचितरजस्वाण "उयवियखोमदुगुल्लपट्ट पडिच्छयण"मिति । उयविय परिक-
 मितं यत् चीम दुक्कल कापासिक वस्त्र परिक्षादन रजस्वाणस्योपरिद्वितीयमाच्छादन यस्य तत्तथा ।
 तत् "उपरिरत्त सुथसवत्तं" रक्ताशुकेनातिरमणीयेन रक्तेन वस्त्रेण सवृतमाच्छादितं मतएव सुरम्भ ।
 (पासाइए दरिसणिज्जे अभिरुवे पडिछवे) इति प्राग्वत्, (तस्सण)मित्यादि तस्य सिंहासनस्योपरि

चमरीगाइ हस्ती वणलता अशीकाटिक पणलताकमल्लिनी एहनीभातिकरीविचिवळइ सारमाइ
 जिसारमउवितथीग्यमणीरत्नमइवाणकरीवणळइ मणिचट्टकातादिरत्नकेतनादितेहनीपट्टपीठकत्त
 रवानापाउडीयाकै आकादनकै सुकमाल ममूराउजिहातेकह्वुळइ नवीनकै त्वचाइजेहनी
 एहवी डागभनकै इडानीपरिकोमलनममशीतल सीङ्गकेसरीसरीपादसीयावट्टइजेहनाइदवमूरा
 इकरीआकाण्यउथकु तिसिंहासनरुडापरिमनीइरळइ रचित्तकैआकादन वस्त्रादिजाडुदुकमायूजेइ
 कप्पासिक प्रतिष्ठादनजिहाएतलइरजस्वानकपरिवाजुकपीसीकवस्त्राकिउळइ तैहजपरिरातइ
 वस्त्रइकरीनुपपेरतेहसिंहासनवीटउळइ रमणीकळइ कमायूचम रूइनुगानूउ वनसती मापथ
 अक्कतूल एहनाफरिससरीपुसिंहासनसुकमालकळइ चित्तनइप्रसनकरइकैजीइवायीग्यळइ तैहनइ
 सिंहासननइ उपरि इहा मीटुएक विजयवस्त्रवदु विकुव्वइ विजयवस्त्र स्वेतधुनु सखप्रसिद्ध अक
 रत्न कुन्दलफूलविसेय पाथीनाकथीया अमृतमधुइ तैहनीफीथनुपुज्जेहसरीपुपुज्जेहसरीपु

सीहासणस्स उवरि विजयस्सय वड्डमब्भदेस भाए एत्थण वयराय
 मय अकुम विउव्वति तेसिवण' वयरामयसि अकुससि कूभिक्क
 मुत्तादाम विउव्वति सेण कूभिक्कमुत्तादामे अन्नेहि चउहि तदड्डुव्वतण
 माणमेतेहि अहकूभिक्कहि' मुत्तादामेहि सब्बउसमन्ता परिखित्ते
 तेण दामातवणिञ्जलं वूसगा सुवणणपयरग मडियग णाणामणि
 रयण विवह हारहहार उवसीहिइय समुदया ईसअणमणमसयता
 पुव्वावर दाहिणत्तरी गएहि वाएहि मदाहि' एइज्जमाणाण वेटि

उल्लोके अथ अस्मिन् स्थाने महदेक विजयदूप्य वस्त्रविशेष' आह च जीवाभिगममूलटीकाकृतं
 विजयदूप्य वस्त्रविशेष इति त कुर्वन्ति स्वशक्त्या निष्पादयन्ति कथं भूत इत्याह, शब्देन्दुक
 कुन्ददक रजोऽमृतमधितर्फेन पु साज्जेन्निकास सखप्रतीत' । कुन्देति कुन्दकुसुमन्दक रज उदक
 कथाः। अमृतस्य क्षीरोदधिजलस्यमधितस्य य' फेनपुञ्जीडिपडीरोक्करतस्तस्मिन्काशन्तत्समप्रभ पुन
 कथंभूतमित्याह, (सव्यवर्णामय) सर्वात्मना रत्नमय' "अच्छ सपह पासाइय" मित्यादि विशेषण जाल
 प्राग्वत्, (तस्सण) मित्यादि तस्य सिंहासनस्योपरितनस्य विजयदूप्यस्य वड्डु मध्यदेशभागे अत्र
 महान्तमेक वज्रमय वज्ररत्नमय अकुशमकुशाकार मुक्तादामावलवनाश्रय त्रिकुव्वन्ति, तस्मिञ्च
 वज्रमये अकुमे महदेक कुम्भाग् भगधदेशप्रसिद्ध कुम्भपरिणाममुक्तादाम विकुव्वति (सिण)मित्यादि
 तत् कुम्भाग् मुक्तादामअन्यैश्चतुर्भि' कुम्भाग् कुम्भपरिमाणै मुक्तादामभिस्तदहोचचव्व प्रमाण-
 मात्रै सब्वत' सर्वासु दिक्षु समतत सामस्येन सम्परिचिप्त व्याप्त (तेण दामा)इत्यादि तानि
 पञ्चापि दामाणि (तवणिञ्जल वूसगास्तपनीयमया लम्बूसगा) आभरणविशेषरूपा अग्रभागे
 येषां प्रलम्बमानानां तानि तथा । तथा नानामणिरत्ने नानामणिरत्नमये विविधे विंचिक्के द्वारे
 रत्नहारश्च उपयोमित' सामस्येन शोभित' समुदायो येषां तानि तथा । तथा इपत मनाक् अन्योन्य
 परस्पर अस्मिन्प्राप्तानि असलरत्नानि पूव्वापरदक्षिणोत्तरागतै मन्दाय इति मन्दर एध्यमानानि
 विजयवस्त्रस्वित्कै अथवामध्याक्षरसमद्रनीफेयसरीसूस्वित्कइ समस्तरत्नमयकइ निमलकै मूक्षमपुद्गल
 नीपकैकइचित्ततप्रसन्नकरैकै योइवायोग्यकइ मनोन्नरूपकै देणहहारनारूपतेमाहिप्रतिवतकइ तेइ
 नइ सिंहासननइ ऊपरि विजयवसनइ धण्ण मध्यदेशभागइ तिहां वज्रमय आकडु विकुव्वंइ तेइ
 वज्रमय अकुससैविषय कु भप्रमाणइ भगधदेशप्रसिद्ध विकुर्वत तेइमूलगु कु भप्रमाणइ मीतीदाम
 अन्नेरइ विड्डुइ मूलगामोतीयकीअहंउवप्रमाणमावइ अड' कु भप्रमाणइ चिड्डु मीतीदामइ
 सधलइचिड्डुसि वीडुकइएतलइविविपकमोठुमीतिचिड्डुसइद्व्यारमीतीनीमालाअकुमइवलगाडी
 कीतेइ पांचइदामनइ तारीसुवर्षमयलवूसगाफूमतीकइ सुवणणीपानडी तेणइकरीमडितकइ

जन्तुमाणाण पक्षस्वमाणाण पक्षभूमाणाण उरालेण मण्णुणेण मण्णरेण
 कमण मण्णिवुत्तिकरेण सट्टेण तपए सँसव्वउसमता आपूग्माणे
 सिरीण अतीव उवसोभेमाणे तिट्ठ ति तएण सँ आभिउगिए देवे तस्स
 सीहासणस्स अवरुत्तरेण उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थणं मूरियाभस्स
 देवस्स चउणइ सामाणिय साहसीण चत्तारिभद्दासणसाहस्सीण
 चत्ताभिद्दासणसाहस्सीण विउव्वन्ति तस्सण सीहासणस्स पुरित्थि
 मेणं मूरियाभस्स देवस्स चउणइ अगुमहिसीण, चत्तारि भद्दासण
 सहस्साइ विउव्वइ तस्सण सीहासणस्स दाह्णिणपुरित्थिमेण

कपमानानि भृगामीक्ष्णाविक्लेदे द्विप्राक्तमवादेरित्यविक्लेदे द्विवंचन यथा पचति पचतीत्यत्र
 पत्रमुत्तरवापि ईषत्कम्पनवशादेव प्रकर्षत इतस्ततो मनाक् चलनेन सम्बमानानि तत परस्पर
 सम्पक्कवशत पइणडमाष्ठी पइणडमाष्ठा इति शब्दायमानानि उदारेण स्फारेण शब्देनेति योग,
 स च स्फार शब्दी मन प्रतिकूलोपि भवति । तत आइ मनोच्चेन मनोऽनुकूलिन तच्च मनोनु-
 कूलव लेगतो स्यादत आइ मनोहारेण मनासि श्रोतुया इरति एकान्तेनात्मवशन्नयतीति
 मनोहारीलहादेराकृति गणत्वादच प्रत्यय । तेन तदपि मनोहरत्व कुतइत्याइ । कथमनोनिर्वृष्टि
 करेण निमित्तकारणहेतुपु सव्वासा विभक्तीनां प्रयोदर्शनमिति वचनात् जेती नृतीया ततोऽयमघ ।
 प्रतिस्तीतकरण्यो मनसश्च निवृत्तिक सुखोत्पादक स्ततो मनोहर स्तेन इत्यम्भूतेन शब्देन तान्
 प्रत्यामन्नान् सर्वतो दिक्षु समततो विदिक्षु आपूरयति आपूरयन्ति शब्द तस्य साविद रूप
 शतएव धिया शोभया शतीव उपशोभमानानि उपशोभमानानि तिष्ठन्ति । (तएणमि)त्यादि, तत
 स आभिवागिक्की देवस्तस्य सिंहासनस्य अवरुत्तरेण वायव्यकोणेत्यर्थं । उत्तरेण उत्तरस्या
 (उत्तरपुरत्थिमेण)इशान्या अत एतासु तिम्युप दिक्षु मूर्वाभस्य देवस्य चतुष्णा सामानिकसइहाषा
 धारयानि चत्वारि भद्रासनसइहाषि विकुब्बति पूर्वस्या चतुष्णामगुमहिपीणां सपरिवाराणा
 अनकप्रकारइ मणि रत्नमय विविधप्रकारइ हारशट्टारसरुअडं हारनवसहु तीणइकरीसीमितइइ
 मनुचयपरिकरजेइदामनउ कारकतेइपाचइसमाहोमाहिलागानधीकाइकवेगलांइइपूर्वं दक्षिण
 उत्तरनइथावइ आवइ वायरइकरी मटपणइ कपायमानइइहालतो वसेपणइइहालताइइ
 धारधारइलंजायमानइ वायरइकरीमाहोमाहिसघटीइकैतइवी उयनइप्रधानसब्इकरी मनोच्च
 अन्कुनइ श्रोतानामतनइ इरतउ काननइ मननइ सुख करतइ सब्इकरी तेइटुकडाप्रदेस
 प्रतिमउलइ दिमइदिमनइ पूरनायकीतइदाम सोभाइकरी अत्यर्चंइ साभायमानयका रइइइइ
 निहारपशीतेइ सेवइ देव वैइ सिंहासननइ कोयव्यकूषइ इमानकनइ तिहां मूर्वाभ देवता

मूरियाभस्सदेवस्स अन्धितरपरिसाए अट्टदेवसाहसीण अट्टमहासण
 साहस्सीउ विउव्वइ एव दाह्णिणेण मज्झम परिसाएदसणइ देव
 साहसीण दसमहासणसाहस्सीउ विउव्वति दाह्णिणपव्वत्थिमेण
 वाहिरपरिसाए वारसणइ देवसाहस्सीण वारसमहासण' साह
 स्सीण विउव्वति पवत्थिमेण सत्तणइ अणियाहिवईण सत्त
 महासण साहस्सीउ विउव्वति तस्सण सिंहासणस्स चउदिसि'
 एत्थण मूरियाभस्स देवस्स सोलसणइ आयरक्खदेवसाहस्सीण
 सीलस महासण साहस्सीउ विउव्वति तज्जा पुरित्थिमेण चत्तारि
 साहस्सीउ विउव्वति दाह्णिणेण चत्तारि साहस्सीउ पव्वत्थिमेण
 चत्तारि साहस्सीउ उत्तरेण चत्तारि साहस्सीउ तस्स दिवस्स

चत्वारि भद्रासनसहस्राणि दक्षिणपूर्वस्यामभ्यन्तरपर्यटोऽष्टाना देवसहस्राणा योग्यानि अष्टौ
 भद्रासनसहस्राणि दक्षिणस्या मध्यमपपदोदग्गाना देवसहस्राणा योग्यानि दशभद्रासनसहस्राणि
 दक्षिणापरस्या नैऋतकोणे इत्यर्थः । बाह्यपपदो द्वादशाना देवसहस्राणा द्वादशभद्रासनसह-
 स्राणि पश्चिमायां सप्तानामनीकाधिपतीना सप्तभद्रासनानि विकुर्वति तदनन्तरं तस्य सिद्धासनस्य
 चतसृषु दिक्षु अथ सामानिकादि देवभद्रासनाना पृष्ठत सूर्याभस्य देवस्य सम्बन्धिना षोडशाना
 मात्सरक्षदेवसहस्राणा योग्यानि षोडशभद्रासनसहस्राणि विकुर्वति । तद्यथा चत्वारिभद्रासनसह-
 स्राणि पूर्वस्या चत्वारि दक्षिणतश्चत्वारि पश्चिमाया ष्चत्वारि उत्तरत सवसप्यया सप्ताधिकानि
 चतुःपञ्चाशत्सहस्राणि ५४००० भद्रासनाना विकुर्वति । (तस्मणद्विवरसे)ऽद्यादि तस्यथमिति पूर्ववत्

च्यार सामानिक सहस्रदेवताना च्यारभद्रासन सहस्र विकुव्वइ तेइ सिद्धासननइ पूर्वदसि मूयाभ
 देवना च्यार अग्गुमहिपीनापरिवारसहितना च्यार भद्रासन सहस्र विकुव्वइ तेइमूयाभना सिद्धा
 सणनइ अग्निक्खणि मूयाभ देवना अभ्यतरपरपदानइविपइ आठसहस्रदेवताना आठभद्रासन
 सहस्र विकुव्वइ एमज दक्षणादसिइ मध्यपरपदानइविपइ दम देवसहस्रना दसभद्रासन सहस्र
 विकुव्वइ नैरितिकूणि वाह्यपरपदानइविपइ वार देवना सहस्रना वारभद्रासन सहस्र विकुव्वइ
 पस्सिमदसि सात कटकनाधणी सातभद्रासन सहस्रना विकुव्वइ तेइ सिद्धासननइ चिहुदिसइ
 इहा मूरियाभ देवना सोलसहस्र आत्सरजक देवता सोल भद्रासन सहस्र नीपजावइ तंक्कइइइ
 पूवदसिइ च्यारसहस्रभद्रासण नीपजावइ दक्षिणदसिइ च्यारसहस्रभद्रासननीपजावइ पस्सिम
 दसिइ च्यारि सहस्र भद्रासन उत्तरदसिइ च्यारसहस्रभद्रासणनीपजावइ तेइदेवसवधीयानविमान

.जाणविमाणस्स इमेयारूवे वणणावासे पयणत्ते सेज्जहानामए अइ
 रुग्घस्सवा हेमतिय वलियस्स वा खयरिगालाणवा रत्तिपञ्चल्लि
 याण जासुसुमणावणस्स वा किसुयवणस्स वा पारियायवणस्स वा
 सव्वउ समता सकुसुमित्यस्स भवेयारूवे सियाणो तिणट्ठे समट्ठे
 तस्सण दिव्वस्स जाणविमाणस्स इत्तोइट्ठयराचेव जाववण्ण
 पयणत्ते गधोफासोय जहामणीण तण्ण से आभिउ गिए देवे
 त दिव्व जाण विमाण विउव्वइं विउव्वित्ता जेणोव सूरियाभे

दिव्यस्य यानविमानस्यायमनन्तरं वक्ष्यमाणस्वरूपी वणावासी वणकनिवेशं प्रज्ञप्तः, तद्यथा
 (सेज्जहानामए) इत्यादि, स यथानाम अचिरोद्गतस्य ज्ञणमात्रमुद्गतस्य हैमन्तिकस्य शिशिरकाल
 भाविनी बालभूयस्य महात्यन्तमारक्तो भवति दीप्यमाश्रित्युपादानं वा शब्दाः सर्वेपि ममुत्तये "खा
 दिरागाराणि वारत्ति"मिति सप्तम्यथे द्वितीयां प्राकृतत्वात् यथा "उयविणयततिह्लेपूरैमसिसिरइहे-
 गए मुरैकत्तारत्ति सुडे पाणियमहासउणयाण"मित्यत्र ततीयमर्थं रावौ प्रज्वलिताना जपा कुसुम-
 वनस्य वा किगुकवनस्य वा पारिजातवनस्य वा सवतः सव्वासुदिच्च समन्तं सामस्येन सकुसुमितरय
 सम्यक कुसुमितस्य, अत्रान्तरे शिष्यं पृच्छति यादृग्भूप एतेषा वण (भवेयारूवेसिया)इति स्यात्क
 घञ्चिह्नवेदेतद्रूप स्तस्य दिव्यस्य यानविमानस्य वणं सूरिराह (नोइणट्ठे समट्ठे तस्सण दिव्वस्स
 नाणविमाणस्स एत्तोइट्ठयराचेव कन्तताराएचेव मणुन्नतरागेचेव मणामतरागेचेव वत्ते पयणत्ते)
 इति प्राग्बत व्याख्येय, (गधो फासा जहामणीण)मिति गन्धं स्पशश्च यथा प्राग्मणीनामुक्तस्तथा
 वक्तव्यं । स चेव "तस्सण दिव्वस्स जाणविमाणस्स इमेयारूवे गन्धेपयणत्ते तज्जहा सेज्जहानामए
 कौहपुडाणं नगरपुडाया वा" इत्यादि, (तण्ण से आभियोगिए देवे) इत्यादि, यावत्करणात्

नउ आगलिकहीसइतेहनु वणकवग्नेप कण्णउ तेयथाहट्टातइ नामएहेसिष्य तत्कालनुउगुरातउ
 अथवापचातरेसीतकालसवधीपीसमाससवधी बालभूयजेहवुरातुहुइतेहबु अथवासइरनाअग्गरा
 रात्रिप्रइलताजेइवातारादेदीप्यमानहुइ अथवाजामूचचनुवर्णजेहवुरातउहुइ अथवापलास सफूलनु
 वनजेहबुहुइ पारिजातकरपवृचनूवनजेहबुहुइ एहपूर्वाक्तवनसधइ दसिवदसि अथवासम्यग
 प्रकारइफूलाहुइतेहनुजेहवुरातुवणविमाननुवणकदाचित्तं गुरुकहेक्के नहीए अथ समथएतलैचही
 तेइ प्रधानं यानविमाननुवणं पूर्वोक्तं मूयादिकवर्णथकीतेहविमाननुवर्णधणुजं वाहवावीरय
 मनोहरवर्णइकरी कण्णउ तेहविमाननुगधफरिसजेहनुवूवइ मणुनुकहिउइइकीहपुडपीवाइत्यादिक
 वहुवुविमाननुपणिजाणवु तिद्धारपही सेवक देव तेहप्रधानं यान विमानप्रति नीपजावइ नीप

देवतेषोव उवागच्छद् रत्ता सूरियाभेदेव करयत्नपरिगेहिय जावपत्वि ।
 गति तएणसे सूरियाभे देवे आभिउगस्स देवस्स अतिय एवमद्द
 मोच्चाणिसम्म हद्दतुद्दा जावहियए दिव जिणदाभिगमण जोग
 उत्तरवेउव्विय ह्व विउव्वद्द चउहि अग्गमहिसीहि सपरिवारा
 ण हि दोहि अणिएहि तज्जा गंधच्चाणीयएणय नट्टाणीएणय
 सद्द स परिवुडे तदिव्व जाण विमाण अणुपयाहिणी करेमाणे
 पुरत्थिमिल्लेण तिसोमाण पडिह्वएण दुरुहद्द दुरुहद्द दुरुहत्वा
 जेणेवसीहासणे तेणेव उवागच्छद् सीहासणवरगए पुरित्याभिमुहे
 सणिसणणे तएण तस्स सूरियाभस्स देवस्स चत्तारि सामाणिय

“करयत्न परिगहिय दसनहसिरसायत्त मत्थए अञ्जलि कट्टु जएण विजएण वडा वे इवडा
 वेत्ताए यमाणत्तिय ’मिति द्रष्टव्यम्, (तएण से सूरियाभे देवे) इत्यादि दिव्य प्रधान जितेन्द्रस्य
 भगवतो वड मानस्वामिनोऽभिगम मायाभिमुख गमनाय योग्यमुचित जितेन्द्राभिगमनयोग्यमुत्तरवै-
 क्रियरूपविकुञ्च वि विकुञ्चि त्वाचतिमुभिरग्रमहिपीभि सपरिवाराभिदाभ्यामनीकाभ्या तद्यथा,
 गन्धवानीकेन नाटयानीकेन च साङ्गं तत्र सहभाव स्वस्वामिभावमन्तरेणापि दृष्टो यथा समानगुण
 विभवयो द्वयो र्मिंबयो रत स्वस्वामिभावप्रकटनार्थमाह । (सम्परिवुडे) सम्यक् आराधकभाव
 विभ्राण्यै परिवृत, तत दिव्य यानविमानमनुप्रदक्षिणी कुर्वन् पूर्व तोरथानुकूल्येन प्रदक्षिणी
 कुर्वन् पूर्व ण तोरणेन अनुप्रविशति प्रविशन् पूर्व ण विसीपानप्रतिरूपकेण प्रनिविशितरूपेण
 विसीपानेन तत् यानविमान (न्दुरुहद्द) इति शरीरिति आरुह्यच (जेणे) विति यस्मिन्नेव देशे तस्या
 मणिपीठिकाया उपरिसिहासन ततोपागच्छति, उपागत्यच सिहासनवरगतं सन पूवाभिमुख
 सन्निपन्ना सम्यक् सकलसैवकजनचमत्कारकारिण्या उपवेशनस्थित्युपविष्टः । (तएण)मित्यादि,

नावीनद् जिहा सूर्याभ देवहद्द तिहा जाइजाइनद् मूयाभ देवप्रति विहु हाधिकरीमस्तकइप्रद
 च्छावचक्ररीयात्रनुसब्दमस्तकइअजलीउडाविमानसबधीआजाउपराठीमूपइ तिह्वारपछी मूयाभ
 देव सैवक देवनद् समीपइएहअर्थप्रतिइसाभलीनद् हिवयचवधारीनद् ह्यसतोपपामु चिसनद्
 आशदपउ तिह्वारपछीतेह्मूयाभपोतइप्रधानजिनेइवड मानसामिपासिजाइवायोग्य भवधारणी
 यरूपयकीअनेह्वैक्रिय रूपप्रतिनीपजावैनीपजावीनद् च्वार अग्रमहिपी पिरिवारसाधि अनद्
 विहु कसाधि तेकहइह्वै गधर्वकटकइ १ नाटिककटकइ साधिइ परिवुरगु तेप्रधानदेवसबधीयान
 विमानप्रति जिमणइपासयकीप्रदक्षणा करतुयकु पूर्वनद् भलइपाउड्ढाधारइपइ चटइ चटीनइ

‘साहस्सीड त दिव्व’ जाण विमाण अणुपयाणी करेमाणा कारवे
 माणा उत्तरिल्लेण तिसोमाण पडिह्व’ एण दुरुहित्ता पत्तेय’
 पत्तेय पुव्वणत्वेहि भद्दासणेहि निसीयति अवसेसाण देवाय
 देवीउय तदिव्व जाणविमाण जावदाहिणल्लेण तिसोमाण पडि
 ह्वएण दुरुहति दुरुहित्ता पत्तेयर पुव्वणत्वेहि’ भद्दाणेहि निसी
 यति तएण तस्स सूयाभस्स देवस्स त दिव्व जाणविमाण दुरु
 ठस्स समाणस्स अट्ठ मगलगा पुरत्तो अहाणुपुव्वीए सपत्थिया
 तज्जा मोत्थिय सिरिवत्थ जावदप्पणतयाण तरचण पुएणकलस
 भिगार दिव्वाय छत्त पडागा चासराय दरिसणरइया आलोए दर

तत स्तस्य सूर्याभस्य देवस्य चत्वारि सामानिकदेवसहस्राणि तत् दिव्य यानविमानमनुप्रदक्षिषी
 कुर्वन्ति उत्तरेण तिसोपानप्रतिरूपकेणारोहन्ति, (पुव्वणत्वे हि) इत्यादि, अत्र सप्तम्यर्थे तृतीया
 पूव्वन्यस्तेषु भद्रासनेषु निपीदन्ति । अत्रिशेषा अभ्यन्तपर्यदादयो देवा देव्यश्च दक्षिणेन तिसो-
 पानप्रतिरूपकेणा रोहन्ति आरुह्य च स्वेषु भद्रासनेषु निपीदन्ति, (तएण)मित्यादि तत स्तस्य
 सूर्याभस्य देवस्य तत् दिव्य यान विमानमारूढस्य पुरतोऽष्टौ अष्टमञ्जलकानि यथानुपूर्वा वक्ष्य-
 माणापाठक्रमेणैत्यर्थः । सम्प्रस्थितानि तद्यथा (सीत्थिय’ सिरिवत्थे)त्यादि पूर्वं स्वस्तिकादनन्तर
 श्रीवत्स इत्यादि । तदनन्तर पूर्वाकलशभृगारदिव्यातपत्रपताका सचामरा कथ भूता
 इत्याह । दशनरतिका दशने अवलोकने रति यासु ता दशनरतिका । इह दशनरतिकमपि
 किञ्चिदालोकदशनीय न भवत्यमञ्जलत्वात् यथा गभवती युवतिरत आह । आलोके बहि
 प्रस्थानसमयभप्रविनि दशनीया द्रष्टु योग्या मञ्जल्यत्वात्, अन्येत्वाद्दु रालोके दशनीयान पुन

जिहा मिहासनकइ तिहा जाइ सिहासनप्रति पामुधकु पूर्वदसइ मखकरी वइठउ तिहारपकी
 तेइ मूयाभ देवनइ च्यार सामाणिक देवता सहस्र तेइ प्रधान यान विमानप्रति पगथी करतीहुथी
 करावमाहुया उत्तरनइपाउडीइयइ भलइ पाऊडीयारइयइ चटीनइ प्रत्येकइ प्रत्येकइजन्जुइ
 पर्वथापइ भद्रासणइ वइसइ सपथाकता देववली देवीतेइप्रधान यानविमाणप्रति प्रदक्षणा देइ
 ण्चिणनइ पाउडाइयइ चटइ चटीनइ प्रत्येकइप्रत्येकइज्जुइ पुर्वइ थापइ भद्रासणइ वइसइ ति
 हारा पकी तंइ सूरियाभ देवनइ तेइप्रधान यान विमानप्रति वूडगायकानइ आइआठ मगलिकन
 आगलियकाथ अनुक्रमि वली तेकहेइइ सायीउ १ श्रीवइ २ जावत्सन्डेपाठमगलीक आरीना
 लगइ तिहारपकी चवलीनइअथिइ णंइसान्दवाक्यालकार पूर्वाकलस भृगार प्रधान कव ध्वजा

सिणया वाउद्भूयविजय वैजयतीव उसियपडा गगणतन्नमणु ल्लिहती
 पुरउ अज्ञाणुपुब्बीए सपत्थियातयगातर चण वेरुल्लिय भिसत विमल
 दडपनव कोरटमल्लदामो वसोभिय चदमडल्लनिभीसिमूसिय विमल
 मायवत्त पवरसीहासणाच मणिरयणभत्तिचित्त' सपायपीठ सपी
 उया ज्ञोयस्समावत्त वहुकिकरामरपरिग्गहिये पुरत्तो अज्ञाणुपुब्बीए
 सपत्थिय तयाणतरचण वड्डरामयवट्ट लद्धमट्टिय सुसिल्लिह परिघट्टमट्ट

रत्तुच्चा आलोकदशनीया । तथा वातोडूता विजयसूचिका वैजयन्ती विजयवैजयन्ती च
 धरतुता ऊर्द्धीकृता गगनतल मवरतलमनुलिपन्ती अभिलष्यन्ती पुरतो यथानुपूर्व्यां समस्थिता
 (तत्रान्तरं चया,मित्यादि तदनन्तरं च (वेरुल्लियभिसत विमलदण्ड)मिति । वैदूर्यां वैदूर्यरत्नमयो-
 भाषन्ती तीप्यमानो विमलो निम्मलो इण्डी यस्य तत्तथा(पलम्बुकीरन्टमल्लदामोव सोहिय)मिति ।
 प्रलम्बते इति प्रलम्बतेन प्रलम्बमानेन कोरएटमाल्यदाम्ना कोरएटपुप्पमालया उपशीमित प्रलम्ब
 कोरएटमारुदामीषणोमित चन्द्रमण्डलनिभं दीपया शीभया वर्तुल्लनया च चन्द्रमण्डलाकार
 समुत्सृत सम्यक् ऊर्द्धीकृत विमलमातपत्र, तथा प्रवरसिंहासनमणिरानै भक्ताविहित्या चित्र यत्
 तत् मणिरत्नभक्तिचित्र, सह पाटपीठवस्य तत् सपादपीठ तत् (सपादया जोगसमानुच्च)मिति
 पाटकागोम । पाटुकाडितय तस्य समायोजन समायुक्तं सह पाटुकायोगसमायुक्तं यस्य
 तत्तथा । (बहुकिंकरामरपरिग्गहिये)मिति । उद्भूमि किकरै किकरकल्पे रमरै परिगृहीतु पुरतो
 यथानुपूर्व्यां समस्थितं गदनतर (भवडरामयवट्टल्लसिण्ठयमुसिल्लिहपरिघट्टमट्टसुपडडिण) इति
 वज्रमयीवज्ररत्नमय' तथा वृत्त वर्तुल लण्ड मनोज्ञ स्थित सस्थानमाकारो यस्य स वृत्तलट
 मस्थितं इत्या सुग्लिण्ट' मुग्गलेपापन्नावयवी ममुण इत्यर्थ' । परिण्ट इव परिघुण्ट' खगगानया
 पायाणप्रतिभावत् मूण्ट इव मूण्ट' मुकुमारआयाथापायाणप्रतिमेय सुप्रतिष्ठितो नतु तियक्यतिततया

चामरतेकेहवाङ्ग जेजइदीवइरतिउपजइ वरयीनमय मगलीकभाटइयीगइवायोग्य वा इकरी
 किम्पिनविजय विजयती उचीकरी ध्वजाआकासलगे उल्लघताद्यकी आचलि अनुक्रमि चाली
 तिधारपकीइवभागलियाचुनेकेइवु इइ विडूर्यरत्नमय देदीप्यमान निमंन दडइइजेइनु लजायमान
 कोरटफुल्ल मालाइकरीसोभायमानइइ तेजइअनुइवतुल्लपयइइवट्टमडलसरीपूइइउउ' कीधुइइ निमेल
 इव एइइवउपरिधगु प्रधान सिंहासनइइ मणिरत्ननीभातिआरीविचिइइ पादपीठपाउडीइकरी
 सज्जित पाटुका विकपरियाप्युइइचापडीइत्यर्थे प्रयाइकिकररूप देवताइ'गुडिउइइ आगलिधकी
 अनुक्रमिद एइइ' सिंहासन वानउ' तिधारपइइ' महेन्द्रध्वजआगमइवातु तेकेइइइइ वज्ररत्नमय
 वाटनुमनोज्ञ कइइरइइउ अत्यतसुकमालखंरमायाइ' पायाप्रतिमानापरिधसुसुकमालसुनु' घटइकरीउ

मुपतिष्ठ पविसिद्धे अणोग वर पचवर्षाकुडभीसहस्रस्त परिमाडिया
भिरामेवा उहूय विजय वेजयती ऊस्सियपडागाच्छ ताडच्छत्त कलिए
तु मे गगणतल मणु निहित सिहरे जोयणसहस्रमुसिय महतिमहा
लण मद्दिदहए पुरउ अहाणणुपुव्वाए सपत्थिए तयाण'तरचण'
सखुव नेवत्य हत्य परिकच्छिया मुसजा सव्वालकारभूसिया महया
मडचडगर पहकरेण पच अणियाहिवदणो पुरतो अहाणुपुव्वाए सप
त्थिया तयाणातरचण सुरियाभ विमाणवासिणो वहवे वैसाणिया
देवायदेवीउयसविट्ठीए जावरवेण सूरियाभदेव पुरउ पासउय अग

वक्रस्त एतेषा पदाना पदद्वय २ मीलनेन कम्मधारय' अतएव शेषध्वजेभ्यो विभिष्टीऽतिशाथी तथा
अनेकानि अनेकसख्यकानि वराणि प्रधानानि पञ्चवषानि कुडभीसहस्राणि उतृत्तानि यत् सो
ऽनेकवरपञ्चवषकुडभीसहस्रोत्तमुत् क्लान्तस्य परनिपात सुखादिदर्शनात् । वातोद्भूतविजयवै-
जयन्ती पनाकाह्व्रातिह्वकलितस्तुष्णोऽत्युच्चो योजनसहस्रप्रमाणो च्छायत्वात्, तथा गगनतलम
म्बरतलमनुलिखन शिखरमगुभागो यस्य स तथा, योजनसहस्रमुत्तृतोऽतएव (महदमहालए) इति
अतिशयेन महान् महेन्द्रध्वज । पुरतीयथानुपूव्या सम्प्रस्थितस्तदनन्तर (सुरुवनैवधपरिक-
च्छिया) इति सुरुपनेपथ्य परिकञ्चित परिगृहीत येस्ते तथा, तथा सुधु' अतिशयेन सद्या' परिपूर्ण-
स्वसामग्रीसमायुक्ततया प्रगुणीभूता' सव्वालकारविभूषिता (महतामडचडगरपहकरेणन्ति) महता
अतिशयेन भटचटकरपहकरेण' चटकरप्रधानभटसमूहेन पचअनीकानि पञ्चानीकाधिपतय पुरतो
यथानुपूव्या सम्प्रस्थिता स्तदनन्तरञ्च सूर्याभविमानवासिणो वहवी वैमानिका देवा देव्यश्च सवध्या-
यावत करणात् । "सव्वनुइएसव्व वलीण" मित्यादि परिगृह्ण, सूर्याभ देव पुरत' पार्श्वती मागु त

पु वाकु नही बीजाध्वजाप्रणु जभलु प्रधान पाचवर्षाइनानाध्वजानीसहस्र' तयाडकरीमडितयकुमहेइ
ध्वजजमनीहरकइ वाइकरीकपावी विजय वैजयती ऊ चीकरीपाताकअनइ ह्वकपरि ह्वतेयाड
करीमहेइध्वजमहितकइ अतिव चउ आकाशतलप्रति उल्लघतउहइअग शिखरजेइनु' योजन
सहस्रपरिमाणुउ चु घणु जजु चु महेइध्वज आगलि अनुक्रमइ चाल्यु तिहारपकीइ पाचकटक
नाधणीआगलधी चाल्या तेहेइवाहइसरीपाइ पहिरिवेस समुहइकरी काहयाहइ पीतानीसामग्रीइ
करीसज्जजाइहइ विभूषितकइमसस्त'अलकारइमोटइ विस्तारसहितधुणा तिणइपरिवर'यायका पाच
कटकइस्तीर घोडा २ रयइ पायकउ वृषभइ तेइनाधणी आगलियकी अनुक्रमइ चाल्या तिहार
पकी सूरियाभ विमानवासी घणा वैमानिक देवता देवा सघलीकडि सर्वबलइ वाजिववागतइ

तोयं समणुगच्छति तएणसे मूरियाभेदेवे पवाणिया परिखित्तेण' वय
 गर्मयलदृसट्टिएण जाव जीयण सच्चस्समूसिएण मच्चयतिमच्चानएण
 मच्चिददहएण पुरउ यकट्टिभक्तमाणेया २ चउच्चि सामाणिय सच्चस्सेच्चि
 जावसोत्तसच्चि आयरक्खदेवसाहस्सीच्चि अन्नेच्चिय वच्चूच्चि मूरियाभ
 विमाण वासीच्चि वेमाणिएच्चि देवेच्चि देवीच्चियसच्चि सपुग्गिबुद्धे सच्चि
 ट्टिए जावरवेण सोधम्मस्सकप्पस्समच्चम्मच्चकेण तदिव्व टवज्जुइं टिव्व
 देवाणुभाव उवदसेमाणं पडिजागरेमाणं जेणं वसोच्चम्मकप्पस्स
 उत्तरिल्ले निज्जाणमग्गे तेषां वउवागच्छइ २ ता जीयणसयसच्च

पृष्टत समनुगच्छति । (तएण)मित्यादि तत स मूयाभोदेव स्तेन पञ्चानीकप्ररिचित्तन यथोक्त
 विशेयणविशिष्टेन महेन्द्रध्वजेन पुरते प्रकृष्यमाणेन चतुर्भिः सामानिकसङ्घस्यै चतमूर्भिः सपरि-
 वाराभिरगुमह्मिपीभिः स्तिमूर्भिः पर्यङ्गि सप्तभि रनीकाधिपतिभि पीडशभि रात्तरत्तदेवमहम्मै-
 रन्यैश्च बहुभि मूयाभविमानवासिभि वैमानिकै देवै देवीभिश्च साङ्गं सपरिवृतं । सत्वध्यासत्व-
 द्युत्या धावत्करणात् "सत्वबलेणसत्वसमुदएण सत्वादरेण सत्वविभूसाए सत्वविभूइए सत्व
 सम्मनेण सत्वपुण्यवरयगन्ध मल्लालकारेण सत्वदिव्वतुडिव सटसन्निनाएण महताइटीए
 महतानुइए महयावलेण महयासमुदयेण महयावरतुडियजम गसमपट्टप्पवाइउरवेण सख-
 पणवपडइभेरिभल्लरिखर मुच्चिडुक्क मुरवमुइआ इन्दुमिनिधोसनाइ यरवेण" मिति परिगृह्य
 ते सोधम्मस्य कल्पस्य मथ्येन तान्दिव्यान्देवदिन्दिव्या देवद्युतिन्देवानुभूति उपदशयन्, "उवला
 निमाणो उवलालेमाणे" इति उपलालयन् लीनया उपभु जान इति भावः । येनैव सोधम्मस्य
 कल्पस्य उत्तराह्नेनियाणमार्गां निगमनमग स्तेनैवपाश्र्वतो ऽपागच्छति, "ताएउ किडाएउ"

मूयाभदेवनइ आगलियकी विहु पासयकी पवियकी जाइइइ तिह्वारपकि मूयाभ देव पांचकटक
 नइइणी वाटुयकुवज्जरनमयमनोच्चआकारइइजेहनु'तेहनेयावन्सच्चजेहनुसर्वेमानिहेह्वजवर्णंतु
 इइतेइउ सच्चस्योजनप्रमाणइ उ चउ धणु'ज मोटइ महइइ ध्वजि आगलियकी किकर रदवइ
 ऊफडीयइ चिहु सामानिकसङ्घइदेवइ यावत्सच्चिइअगुमह्मिपीचारपरिपदासातकटकनाधणीसील
 सच्च आत्तरत्तकदेवतानामहम्म अनेरइ धणइ मूयाभ विमान वासीइ वैमानिक देवइ देवीइ
 साथइ परिपरयकउ सधनीकहिसवचलिइ वाञ्छित्वागतइ सोधर्म देवलीकमाहि'थइनि तेइ
 प्रधानदेव तेहदेवनिकाति प्रधान देवतु सामथयणुदेपाडेतुथकु सत्तिसभावातीथकइ जेह
 सोधमादेवनोंकनु ऊतरतउ ऊतरवानु मार्गुं तिहा जाइ जाइनइ योजननापप्रमाणइ ऊपरकम
 चइकरी ईठउ ऊतरइइइ धणइपथनइअतिक्रमवइ तेषइ देवसवधीइउत्कृटीगतइ जावत्

स्मेहि विगृहेहि उवयमाणोहिय विईवयमाणोहिय ताएउकिट्टाण
जाव तिरियमसखेज्झाण टीवसमुद्दाण मज्झ मज्झेण चउवयमाणो
२ जेणो वनदी सरवरदेदीवे जेणो व दाहिगिज्जेपुरित्थिमिज्जे रतिकरगप
व्वए तेणो व उवागच्छइ २ तद्विव्वदेव्विट्ठि जावदेवाणु भाव पडिसाइरे
माणो २ पडिसखे देसाण जेणो व जवुहीवेदीवे जेणो व आमलकप्पा
नयरीजेणो व अवसालवणो चितिते जेणव समणो भगव महावीरे तेणो व
उवागच्छइ रत्ता समण भगव महावीरतेणो दिव्वेण जाण विमाणो ण
तिक्खूत्तो आयाहिण पयाहिण करेइ रत्ता समणस्स भगवउ महा
वीरस्स उत्तर पुरित्थिमे दिसीभागे तद्विव्व जाणविमाण इसिचउरगुल

इत्यादि पूर्ववत्, यावत् दिव्ययादेवगत्या योजनशतसहस्रिकै योजनलक्षप्रमाणै विंगृहे । क्रमे-
रवपतन् अष्टस्तादवतरन् व्यतिव्रजश्रवगच्छश्च तियगसख्येयाना हीपसमुद्राणा मध्यमध्येन (जेणो-
वत्ति)यस्मिन्नेव प्रदेशे नदीश्वरो हीपो यस्मिन्नेव च प्रदेशे तस्मिन्नदीश्वरेहीपे दक्षिणपूर्वा-
ग्नेयकोणवर्ती रतिकरनामापर्वतं तस्मिन्नुपागच्छति उपागत्य च तादिव्या देवैर्देवैर्देवैर्देव्य
देवानुभाव शने शनै प्रतिसहरन् प्रतिसहरन् एतदेवपयायेण व्याचष्टे प्रतिसचिपन् प्रतिसचि-
पन् यस्मिन् प्रदेशे जम्बूहीपोहीप स्तव च जम्बूहीपे यस्मिन् प्रदेशे भरतवप तग्मश्च भरतवपे
यस्मिन् प्रदेशे आमलकल्यानगरी तस्याश्च आमलकल्पाया नगया वहि यस्मिन् प्रदेशे आमृशाल-
वनं चेत्य तस्मिश्च चैत्यं यस्मिन्प्रदेशे थमणो भगवान महावीर, (तेणो) वेति तत्रोपागच्छति सवध
तृतीया सप्तम्यये द्रष्टव्या प्राकृतत्वात् । उपागत्य च थमण भगवन्त महावीर तेनैव प्रागुक्त
स्वरूपेण दिव्येन यानविमानेन सच्च विकृत रथोन् चारान् आदक्षिणप्रदक्षिणी करोति आदक्षिण
प्रदक्षिणीकृत्य च थमणस्य भगवतो महावीरस्यापेक्षया उत्तरपूर्वादिग्भाग स्तमपक्रामति गच्छति
अपक्रम्य च तत् दिव्यं यानविमानमीपत एतदेव प्रकटयति चतुरगुल चतुर्भरगुलैरित्यथ ।

सब्दइ तुरियापइत्यादिकसर्वपाठकहिउ तिरिहाअसख्याता हीपसमुद्रइ माई माई अतिक्रम
तऊ २ जिहाआवधुनदीसरवरदीप जिहा दक्षिणइ पूर्वइ अग्निक्षूणवत्ती रतिकरपवत् तिहाजाई
जइनइ तेहप्रधान देवनीकडिप्रतिदेवनीउज्जति देवतु सामथपणु संकीचतुधकळ सचेपनु
धकउ २ जिहा जवुहीप जिहा आमलकप्पा नगरी जिहा आमृशालवनं चैत्ययचायतन जिहा
थमण भगवत् महावीर तिहा जाइ जइनइ थमण भगवत् महावीरप्रति तेणइ प्रधान यान
विमानइकरी वणिवेला जिमणइपासइयकी माभाप्रदक्षिणा करइकरीनइ थमण भगवंत महावीर
नइ उत्तर पूर्वदिचइ इसानकूणु तेहप्रधान यान विमानप्रतिकाइ क चारअगुला थसप्राप्तएत

मसपत्त धरणिगतलसिववेड ववित्ता चउहि अग्गमहिंसीहि सपरिवारा
 हि दोहिय अणियाहि तज्जा गधवाणितेणाय गाट्टाणितेणाय सद्धि
 सपरिवुडे ताउ दिव्वाउ जाणाविमाणाउ पुरित्थिमिल्लेण तिसोमाणा
 पडिह्वएणा पच्चोरुभतिरत्ता तएणा तस्स मूरियाभस्स देवस्स
 चत्तारि सामाणियसाहस्सीउ ताउ दिव्वाउ जाणाविमाणाउ उत्तरि
 ल्लेणा तिसोमाणा पडिह्वएणा पच्चोरुभति आवसम्मादेवाय दीवीउ
 यताउ दिव्वाउ जाणाविमाणाउ दाह्णिणिल्लेणा तिसोमाणा पडिह्व
 एणा पच्चोरुभति तएणा से मूरियाभेदेवे चउहि अग्गमहिंसीहि जाव
 सोलसद्धि आयरक्खदेवसाहस्सीहि अन्नेहिवि वहुद्धिमूरियाभ विमा
 णावासीहि वेमाणाएहि देवेहि देवीहिण सद्धिसपरिवुडे सचिटाए
 जावणाएणा जेयौव समणे भगव महावीरे तेयौव उवागच्छति रत्ता
 समण भगव महावीर तिक्खूत्तो आयाहिणं पयाहिण करेइ र
 ता वटइ गमसति वदित्ता गमसित्ता एववयासी अइन्नभते मूरियाभे

असम्माप्त सत् धरणिगतले स्थापयति स्थापयित्वा चतमृभिरग्गमहिंसीभि, सपरिवाराभि हाभ्या मनी-
 काभ्या तथा गन्धव्वानीकेन नाट्यानीकेन च साहं सपरिवृत्त स्तस्मात् दिव्यात् यानविमानात्
 पूर्व्वेण तिसोपानप्रतिरूपके प्रत्यवतरति । चत्वारि सामानिकदेवसहस्राण्युत्तरेण श्रेया दक्षिणेन

लङ्'उ'वु प्रथविनद्विपद्म थापद्म थापीनद्म च्यार अग्गमहिंसी परिवारसाथि विहू कटकसाथइ
 तिकेइ माधर्म कटकइ नाटिककटइ साथिपरवरउत्थकु तेइ प्रधान यान विमानघकी पूर्व्वंनइ
 पाउडीइकरी प्रतिरूपथकु ऊत्तरइ ऊत्तरीनइ तिवारपक्की तेइ मूयाभ देवना च्यार मइस
 सामानिकदेवता तेइ प्रधान यान विमानघकी उत्तरनइ पाउडीथइ उत्तरनइतेप थाकता देवता
 देवी तेइ प्रधान यान विमानघकी दक्षिणइपाउडीइ थइ ऊत्तरनइ तिद्धारपक्की तेइ मूयाभ
 देवता च्यार अग्गमहिंसीइ यावत्सन्निविधिपरिपदाइसातकटकसीलसइसइ आत्तरकइ देवता
 साथि अनेरइपणि थथि मूयाभ विमानवासीइ विमानिकइ देवइ देवाइ साथि परिवरउत्सथ
 लीकइ सर्व्वलइ सर्व्ववाजिबवागतइ थकइ जिहा थमूण भगव त महावीरकइ तइ आवइ आ
 द्विनइ थमण भगव त महावीरप्रति वणिवे ला जिमथापासाथो प्रदक्षथा करइकरीनइ वा दइ नम
 स्कारकरइ वादी नमस्कारकरीनइ इमवीनुतु हु हे भगव त मूयाभ देवनुमदेवानूमियप्रतिस्तु चव्व
 वादउत्तु यावत्सब्बइकल्लाथमंगलदेवथलमिपाठ कइतु सेवाकरउत्तु हे मूरियाभ एहवु आम

देवे देवाणुष्विय व दामि जावपञ्भुवासामि मूरियाभाइं समणं
 भगव महावीरं मूरियाभ देव एव वयासी पोरणमेव मूरियाभा
 जीयमेव मूरियाभा किच्छमेव मूरियाभा करणिञ्भमेव मूरियाभा
 आविण मेव मूरियाभा अञ्भणुगणायमेव मूरियाभाजण भवणवइ
 वाणमतर जोइस वे माणिय देवा अरहते भगव ते वटति नमस ति
 तउपच्छा साइ २ नामगोवाइ साइति त पोरणमेव मूरियाभा जाव
 अञ्भणुगणायमेव मूरियाभा तएण मूरियाभे देवे समणेण भगवया
 एव वुत्ते समाणे इइ जावसमण भगव महावीर व दइं नमस ति
 वदित्ता णमसित्ता णच्चासन्ने नाइदुरे मूमूममाणे णमममाणे अभि
 मुहे विणएण पज्जलिउडे यपञ्भुवासति तएण समणे भगव मइ

(तएण) मित्यादि वन्दामि नमसामि (जावपञ्भुवा सामी)त्यत्र यावच्छट्करणात् "मत्कारिभ
 कल्नाय मभाल देवय चेइय पञ्भुवासिंमि" इति परिगृह्ण । तत (मूरियाभाइ) इत्यादि सूयाभात्
 आदिमुष्य पयुर्पोसकतया यय स सूयाभादि ममानी भगवान् महावीर स्त सूयाभ देव मेव
 मवादीत्, (पोरणमेव)मित्यादि प्राग्वत्, (नच्चासन्नेनाइ) इत्यादि नात्यान्नी इतिनिङ्कोरे ऽवगृह्ण
 परिहारात्, नात्यासन्ने वा स्थाने वक्तमान इति गम्यम् । (नाइदुरे) इति न नैवातिटुरी इतिविप्र
 कृष्टोऽनीधित्व परिहारात् नातिदुरे वा (मुसूममाणे) इति भगवइचनानि श्रोतुमिच्छन्, (अभिमुहे)
 इति भगवत् लक्ष्मीकृत्यमुखमस्येति अभिमुखी भावत सम्मुखइत्यर्थः । विनयेन हेतुना (पज्जलि
 उडे) इति प्रकृष्ट प्रधानी ललाटतटपटितत्वेन अञ्चनि हस्तन्यामविशेष कृती येन स प्राउजलि
 कृत मुखदिदग्गनात् क्वातस्य परनिषात् पयुपास्ते सेवते (तएण समणे भगव मित्यादि तत

वणकरी श्रमण भगवत् महावीर सूयाभ देवप्रतिपमवीलताङ्गया जूनउ एह कार्यनिरतरदेवता
 पखिण्ण कावकीधउ हे सूयाभ तुमार एह आचरण हे सूयाभ तुम्हार ण्ण कत्तव्य करिपायीय
 हे सूयाभ तुम्हारो एह करणी हे सूयाभ तुमइ एह आचीर्णकल्पनाय हे सूयाभ अमइननारइ
 तीयकरइपणि अनुजाएइ आनादीधी हे सूयाभ तेहरयउ तइ भवनपतीन्धतर यीतिधी वैमानिक
 देव अरत्त भगवत्तइ वाद नमस्कारकरइ तिवारपकी पीतानार नामगोवनइ समलावइ
 तेहजनूणइकाय हे सूयाभ यावत्तसब्बकइइ जीयमेयइरयादिक पाठक हि सुजिहा आज्ञा दीधी
 हे सूयाभ तिहारपकी तेइ सूयाभ देवश्रमणइ भगवत्तइ इमकहीउ इपपासु ण अणियइयकु
 श्रमण भगवत् महावीरप्रति वादइ नमस्कारकरइ वादीनइ नमस्कारकरीनइ अतिइकइनही

वीरे मूरियाभस्स देवस्स तीसेय महइ महालियाए परिसाए जाव
धम्म परिकहेइ परिता जामेव दिसपाउज्झूया तामेव दिसिम्पडिगया
तएणसे मूरियाभेदेवे समणस्स भगवउ महावीरस्स अतिए धम्म
मोच्चानि मम्मइइतुइ जावहियए उट्टाए उट्टेत्तरत्ता समण भगव
महावीर वटइ गममतिरत्ता एववयासी अहन्न भन्ते मूरियाभेदेवेकि

अमर्था भगवान् महावीर' मूर्वाभिस्य देवस्य श्वेतस्य रात्री धारणीप्रमुखाणा च देवीना तस्याश्च
(मृहइमहालियाए) इति अतिशयेन मइत्या इति (परिसाए) इति ऋपय त्रिकालदग्नि रतीपा
पपन् तस्या अवध्याजिनपपद इत्यथ । मुनिपपदोक्तानुष्टानानुष्टावि साधुपपत्, "जति
परिसाए" इति यतन्ते उत्तरगुणेषु विशेषत इति यतथी विचिक्कद्रव्याद्युभिगुहाद्युपेता साधवतपा
पपदो यतिपपद, "विदुरपरिसाए" इति विहृत्परिपदो अनेकविज्ञानपपदो देवपपद चक्रियपपद
इत्वाकुपपद कोरव्यपपद कथ भूताया इत्याह, (अणो गसवाए) इति अनेकानि पुत्रपाणा शतानि
मख्यया वस्या सा अनेकगता तस्या, "अणो गवन्दाण" इति अनेकानि वृन्दानि यस्या सा तथा
तस्या, "अणो गसव वन्दपरिवाराए" इति अनेकशतान्यनेकशतसख्यानि वृन्दानि परिवारी यस्या
सा तथा, तस्या "महइमहालियाए परिसाए" अतिशयेन महत्या' पपद । "उइवले" इति उघेन
प्रवाहेन वल यस्य नतु कथयती वल्लहानिरुपजायते इति भाव । एव "जहाउववाइण तहा-
भणियव्व"मिति एव यथा उपपातिके गुण्ये तथा वक्तव्य "तत्त्वेव अइवले ममावले अपरिमिय वल
विरियते यमाइप्पक तिजुत्ते सारइनवधणिय महुर गम्भीरकु व निगघीसदु दुभिसरेउरेवित्थडाए
कपठेवडियाए सिरेसमावत्ताए अणो गग्गयाण अमम्मणाए फुडविसवमहुरगम्भीरगाहियाए
सव्वभासाणुगामिणीए सव्वमसवविमोयणीण अपुणरुत्ताए मरस्सीए जीयथनीहारिणा मरेण
अइमागहाण भासाए अरिहा धम्म परिकहेइ तज्जहा, अत्थिलीए अत्थिअलीए अत्थिअजीवे
अत्थिअजीवे"त्यादि ताव "द्याएत्तएणम् सामहइ महालिया परिसा समणस्स भगवतो महा-
वीरस्स अतिए धम्म मोच्चानिसम्म इइतुइसमण भगव महावीर तिखुत्तो आयाहिय पयाहिय

अतिवेगलीनही भगवतना वचनवाइतुथकु नमस्कारकरतुथकु साहम जीतुथकु विनयकरतुथकु
विहूहायाजोडी सेवाकरइकेतिहारपडी यमण भगवतमहावीर मूयाभदेवनइतेहणणउमोटीपरिपदा
नइविपइधर्मकथा कइइ, परिपदाजंइत्तिसिधीप्रगटहुइहु ती तेकेहीजदसिप्रतिज पराठागइ तिवा
रपकीसेइ मूयाभ देवइअमण भगवत महावीरनइ समीपइ धम्मप्रतिइ मांभनीनइ हियवे अवधारी
नइहरपमतीपपान्यु चित्तमाहिआणदु उठवइ करीनइ उठीनइ यमण भगवत महावीरनइ वाटइ
नमस्कारकरइ मादीनइ इमयोलेतुइतुइ हे भगवतमूयाभ देवस्य भली अमव्य सम्यगहाटी

भवसिद्धि ए किञ्च भवसिद्धि ए सम्मदिष्टी मित्यादिष्टी परित्तससारिण्डि
 अणत ससारिण सुलवोद्धि ए दुलभवोद्धि ए अराद्धते विराद्धते चरिमे अच
 रिमे सूरियाभाण समणे भगव महावीरे सूरियाभदेव एववदासीसूरिया

करेइकरेता । वन्दइ नमसइरत्ता, एव वयासी, सुयक्खाएण भन्ते निगुन्थे पावयणेनरिथण केइ
 समणेमाइणे वा एरिसधम्ममाइक्खत्तए एव वइत्ता जामेवदिसपाउब्भूता तामेवदिसपडिगया ।
 तएणसेपराया समणस्स भगवतो महावीरस्स अतिए धम्म सोव्वानिसम्म इइतुइचित्तमाणदिए
 जावहरिसवसविसप्पमाण्हियए समण भगव महावीर वन्दइ नमसइ वन्दिता नमसित्ता पसि-
 णाइ पुच्छइ पुच्छित्ता अद्दाइ परियाएइ परियाइत्ता । उट्टाए उट्टेइ उट्टित्ता समण ॥ ११ ॥
 महावीर वन्दइ नमसइ एव वयासी सुयक्खाएण भन्ते निगुन्थे पावयणे जावपरिसधम्म
 माइक्खत्तए एव वइत्ता इत्थि दुरुइइ । दुरुइत्ता समणस्स भगवतो महावीरस्स अतिए धम्म
 अम्बसालवणाउ चेइयाउ पडिनिक्खमित्ता जामेवदिसमाउब्भूते तामेवदिसपडिगतं इति ॥ १२ ॥
 प्राय सकलप्रणि सुगमं नवर यामेवदिसप्रवलम्ब्य किमुक्क भवति । यतो दिशं सकलमाण
 प्रादुर्भूतसमवसरणे समागत स्तामेव दिस प्रतिगत । सम्प्रति सूर्यांभो देवो धम्मसिद्धन्त
 अत्रणतो ज्ञातप्रभूतरससारविराग स्वविषय भव्यत्वादिक पिपृच्छिपु र्यंत्करोति तदा ॥ १३ ॥
 (तएण) मित्याइ, (भवसिद्धि) इति भवे सिद्धि र्यंस्यासी भवसिद्धिकी भव्यइत्यर्थ । भवेत्ये
 कश्चित्त्सम्यक् इति भवति कश्चित्सम्यक् इति स्तत आत्मन सम्यग्दृष्टित्व मिश्रचयाय पृच्छति
 परीतससारिको ऽनन्तससारिक, परीत्तपरिमित स चासो ससारश्च परीत्तससार । संज्ञा
 स्तीति परीतससारिको ऽतोऽनेकखरादितिक प्रत्यय, एवमनन्तश्चासी ससारश्चानन्तससार
 सोऽस्यास्तीत्यनन्तससारिक परीत्तससारिकीपि कश्चित् सुलभवोधिकी भवति यथा एतस्मि
 भद्रादिका कश्चिदुलभवोधिकी यथा पुरीहितपुवजोव स्तत पृच्छत सुलभावीधि भवान्ते जिन
 धर्मप्रप्ति र्यंस्यासो सुलभवोधिक । एव दुर्लभवोधिक सुलभवोधिकीपि कश्चिद्वीधि तद्वत्
 विराधयति, तत पृच्छति आराधयति सम्यक् पालयति बोधिमित्याराधक स्तद्विपरीतो विरा
 धक आराधकोपि कश्चिद्वमोक्षगामी न भवति, तत पृच्छति चरमो ऽचरमीवा अनन्तरभावीभवी
 यस्यासो चरम । अमुदिभ्य इति मत्वर्थी योऽप्रत्यय स्तद्विपरीतोऽचरम । एवमुक्ते सूर्यासा
 यमणा भगवान् महावीरस्त सूर्याभ देवमेव भवादीत् भी सूर्याभ त्व भवसिद्धिकी नाम भवसिद्धि ।

कइमिथ्याहृष्टी उच्छमसारीकइअनससारी सुलभवोधिजिनधर्मनीप्राप्तियोडीकइ कइधर्मनीप्राप्त
 दोइली दंजिनधमनुआराधक कइविराधक देवनुकेइलुभवएइजतेकइमवणभवइइतेअ हेसूर्याभ
 एइनुधामवणकरीयमणभगवत महावीसूर्याभ देवप्रति एमवीलताहूया हे सूर्याभ तुमे भव्यइ

भातु मण भवसिद्धिणो जावचरिमे नोयचरिमे तएणसे मूरियाभ
 देवे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समणे ङट्टतुट्ट चित्तमाण
 टिणं परसोमणसिए समण भगव महावीर वटिति नमसति ०
 ता एय वदासी तुज्जेण भते सव्व जाणह सव्व पासह सव्वकाल
 जाणह सव्व कालपासह सव्वेभावे जाणह सव्वे भावे पासह जाण
 तिण देवाणुप्पिया ममपूव्विवा पत्यावाममेयारुवि टिव्व देवजूट्ट

यावत्करणात् "सम्मदिद्वीपरित्तससारिणो अणन्तससारिण सुलभवोहिण नोडुलभवोहिण आरा-
 हएनी विराडए" इति परिगृह । (तुम्हेण भन्ते तुम्हे) इति, यूयणमिति वाक्यालङ्कारे भदन्त
 सत्र केवलवेदसा जानीय सव केवलदर्शनेन पश्यथ अनेन द्रव्यपरिगृह, तत्र सव्वशब्दी देश-
 कारत्वेपि वसन्ते यथास्य सर्वम्यापि ग्रामस्थायमधिपति रिति मचराचरविषयज्ञानदर्शनप्रतिपादनार्थे
 माह । (सव्वतो जाणहपामह) सवत् सर्वत्र दिक्षु विदिक्षु ऊर्ध्वमधोलीकोऽलीको चेति भाव ।
 अर्थात् पश्यथ च अनेन चैवपरिगृह । तत्र सव्वद्रव्यसर्वत्रचेतविषयवार्त्तमानिकमात्रमपि ज्ञान
 इति तत्तमानञ्च जानीय पश्यथ । एतेन कालपरिगृह स्तत्र कश्चित् सव्वद्रव्यचेत सव काल
 विषयमपि ज्ञान सर्वपयायविषय न सम्भावयेत् यथा मीमांसाकादिरत आह । सव्वान भावान्
 प्रतिद्रव्यमात्मीयान् परकीयाश्च केवलवेदसा जानीय, केवलदर्शनेन पश्यथ । अथ
 भवत् दर्शनविषया न भवन्ति, तत्र सव्वे भावे पासह इति । नैषदोष उत्कलित
 इति तं भावा दर्शनानुपातइकरीवै (मुत्कलितरूपतया भवन्त्येव तथा चोक्त निर्विशेष
 गृहो दर्शनमुच्यते, इति तत्तीर्णतिण)मितिपूर्ववत् । देवाना प्रिया पूर्वमपि अनन्तर
 प्रियमाननायविधि पश्चादपि च उपदर्शमाननायविधि कृत्तरकाल मम एतदृपा दिव्या

तद्वीश्रमय यावत्तुशब्दप्रथमबीलगाखवीनुचरिम इह नही अचरिमभवनघणाघथा तिह्वारपकी
 तंइयुयाम देवश्रमणइ भगवंतइ महावीरनइ णमऊही थकइ हए सतीपपुसुं चित्तमाहिं आणदिउ
 विमेषपणइमनभलु ययु श्रमण भगवतइ महावीर प्रति वादइ नमस्कारकरइ इमवीले तुम्हे हे
 भगवत सवइव्यजाणुऊड केवलज्ञानि सर्वद्रव्य देपुकु केवलदर्शनइ सवअतीतअनागतवर्त्तमानकाल
 नैजाणु इउकेवलज्ञान सव कालदेपुऊड केवल [दर्शनइ सर्वे भाववस्तुनापयाय जाणुकुसवभाव
 वस्तपयाय देपुकु जाणुकु कला हे देवानुप्रिया माहइ पूर्वकालगयु अनइपाकनुभविष्यकाल
 अनवत्तमानकालनुतु माहिणइवु हीमरुपइजेह प्रधानदेवनीइद्विविमानरूप, प्रधानदेवनी
 यीतिक्रातिदेवनीसामयपणउ प्रधान लोभु परंमु एत प्रत्याइयु तपइजाणुइवाहउऊड हे

दिव्य देवाणुभाव लङ्घ पत्त अभिसमन्नागय त इच्छामिण' देवाणु
 प्प्रियाण भक्तिपुव्व ग गोयममायाण समणाण निग्गधाण दिव्व
 देविद्धि दिव्व देवज्जइ दिव्व देवाणुभाव दिव्व वत्तीसइवइ णट्ट
 विइ उवदसित्त ते तयेण समणं भगव महावीरे सूरियाभेण
 देवेण एव बुत्तोमाणे सूरियाभस्स देवस्स एयमइ नोआठाइ
 नोपरियाणाति तुसणीए स चिद्धत्ति ततेणसे सूरियाभेदेवे समण
 भगव महावीर दोच्चपि तच्चपि एव वयासी तुभेण भतेसव्वजाण
 इउवदसित्तए त्तिककट्टु समण भगव महावीर तिक्खूत्तो आया
 इण प्रयाइण करेइ २ ता वन्दइ नमसति वे उव्विय समूग्घाएण

देवद्युति दिव्य देवानुभाव लब्ध देशान्तरमपि किञ्चित् भवति तत आइ, प्राप्त प्राप्तमपि ।
 किञ्चिदन्तरायवशादनात्मवश भवति तत आइ । अभिसमन्वागत तत (इच्छामिण)मित्यादि
 इच्छामिणमिति पूर्ववत्, देवाना प्रियाणा पुरतो भक्तिपूर्वक वहुमानपुरस्सर गीतमादीना
 श्रमणाना निगुन्यानीदेव्या देवार्द्धं दिव्या देवद्युति दिव्यं देवानुभावमुपदर्शयितु इति शत
 प्रकार नाटयविधि नाटयविधानमुपदर्शयितुमिति, (तएण)मित्यादि । तत्र श्रमणो भगवान् महावीर
 मूयाभेण देवेन एवमुक्तं सन् मूयाभस्य देवस्य एतमनन्तं गृह्णति । नाद्रियतेन तदर्थकरणाया-
 दरपरो भवति नापि परिजानाति अनुमन्यते स्वतोवीतरागत्वात् । गीतमादीनाञ्च नाटय
 विधि स्वाध्यायादिविघातकारित्वात् केवल तूष्णीवी
 वारमुक्तं सन् भगवानेव मेव तिष्ठति (तएण) मि
 मोनमेव भगवत उचित न पुन किमपि वक्तुं केवल मया भक्तिरात्मीयोपदर्शनीयेति प्रमोदाति-
 श्रयती जायते, जातपुलकं सन् मूयाभी देव' श्रमण भगवन्त महावीर वन्दते स्तोति नगस्यति
 देवानुप्रिय तुम्हारीभक्तिपूर्वक अनङ्गगीतमादिक श्रमण तपस्वीनै निगु घतेहनइ प्रधान देवनीक्खि
 प्रधान देवनीकाति प्रधान देवतानु सामर्थ्यणु प्रधान क्वीसवइ नाटकविधिप्रति देपाडु वाडु
 तिहारपक्की श्रमण भगवत महावीर मूयाभइ देवइ एमकहियकइ मूयाभदेवता एइवा वचनप्रति
 तदरनदेइ आजापणिनदेइ चणबोलायकारहेजउनाटिकनी आजादेइभगव तनुसाव धलीगइ निघे
 थइतु मूयाभनीक्किभाजइ इणइ कारणअणबोलारहियापक्के मूयाभइविचारुजे साधुन विविधनघेध
 करिवु तेमाटइभगव तबोलतानयीमित्थयानकिसाधुनइमोर्निये य जगनाथनुगुगतइ कइविमज्ज आ
 नीनइ भगवतइइ तेतानक्किकरइतिहारपक्कीतेह मूयाभदेव श्रमण भगव तमहावीरप्रतिइ विवे ला
 इणिये ला एमबोलउ तुमेहेभगव त सव जाणउपूर्ववत्शब्दइपाकनु पाठसर्वं कहिनुताटिकदेपाडवु

समोद्घाति २ ता स'खिज्भाद्र' जोयणाद् उच्चदडनिस्सरद् २ ता
 अहाम् इमे दोच्चपि वे'उव्वियसमग्घाएण जाव बहुसमरमणिज्भ
 भूमिभाग विउव्वद् संजहानामते आत्तिगपुक्खरेतिवा जावमणीण
 फामो तस्सण बहुसमरमणिज्भस्स भूमिभागस्स बहुमज्भदेसभागे
 पेत्याघरमडवे विउव्वद् अगोगख भ सयसनिविट्ट वणणउ अतो
 बहुसमरमणिज्भ भूमिभाग विउव्वद् उल्लोच अक्खाडग मणिपे
 टिय विउव्वद् तीसेण मणिपेटियाए उवरि सीहसण सपरिवार
 जावदामो चिट्ठति तएणसे मूरियाभेदेवे समणस्स भगवउ महा
 वीरस्स आलोए पणामकरेति २ ता अणुजाणउमे भगव तिकडू
 सीहसणवरण तित्थयराभिमुडे सन्निसन्ने तएणसे मूरियाभेदेवे

उत्तरपुरित्थम दिसीभाग मित्यादि सुगम नवर बहुसमभूमिवर्णनम ।
 मण्णिपीठिकासिंहासन तदुपवुल्लोचकुणमुक्तादामवयानि च प्राग्बत्
 मूरियाण (तएण)मित्यादि । तत' मूर्याभो देव स्तीर्यकरस्य भगवत आलोकि प्रणाम करोति ।
 'स जानन् भगवान् मामित्यनु' 'गग्ना कृत्वा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 पन्न' (तएण)मित्यादि । 'तत' मूर्याभो' देव स्तत्प्रथमतया तस्य नाटयविधे प्रथमताया दक्षिण

वुक्क सकरी थमण भगव त ते'गवोर'इति वषिवे ला जिमणयायासायीमाडाप्रदक्षणाकरइ करीनइ
 वादइ नमस्कारकर' 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 उ बु दड जाडइ 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 वै क्रियए'मुद्रयातइकर' 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 मणीव' भूमि' 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 जेहवीपु' 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 भागइ षण्ण' 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 वण कविमानव तमाचि टुकडु षण्ण' 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 प्रेचाघरमा' 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 परिचारिमा' 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 रइइकि' 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि
 ज्ञायजे' 'गग्ना' कृतवा सिंहासनवरगत' सन् तीर्यकरा'भमुख' सनि

उभयायण दुहृतो सविल्लियग्रणियत्याण' आविद्ध तिलयामेलाण
 पिणद्धगेविज्भेकिवूयाण उप्पीलियचित्तपट्टपरियर सप्पेणगावत्तर
 इयसगय पल्लव वत्थत चित्तविन्नल्लग नियसणाण एगावलि कठ
 रइय सोभत वत्थपडिहत्थ भूसणाण अट्टसयणट्टसज्जाण देव
 कुमाराण णिगच्छइ तयाण तरत्तण णाणासणिजावपीवर पल्लव
 वाम भुयपसारैइ तउ सरिसयाण' सरित्तयाण सरिव्वयाण सरिस
 लावपण ऋवजोवणगुणोववेयाण एगाभरणवसण गहिय निज्जो

(दृहृतो सविल्लियग्रणियत्याणति)* द्विधाती इयो पाश्वयी सविल्लितानि अग्रणि यस्य तत्
 द्विधात सविल्लिताग्रण्य स्त सामथ्यादुत्तर येस्ते तथा तेपा तथा (उप्पीलिय चित्तपट्टपरियरसफेण
 गावत्तर इयसंगयपल्लववत्थन्तचित्तविन्नल्लगनियसणाण)मिति उत्पीडित अत्यन्तावद्ध शिचत्रपट्टो
 विचित्रवणपट्टरूप परिकरो येस्ते तथा यस्मिन्नावर्त्तेनैव फेनविनिर्गमो भवति स फेनका
 वर्त्तेन रचिता । सगतानाटप्रविधावुपपन्ना' प्रलम्बा वस्त्रान्ता यस्य निवसनस्य तत्तथा तत् चित
 वण विल्ललग देदीप्यमान' निवसन परिधान येपां ते तथा तत पूर्वपदेन विशेषेण समास स्तेपा,
 (एगावलि कण्ठरइय सोभन्त वच्छपडिहत्थभूसणाण)मिति एकावलि यां कण्ठे रचिता तथा' सोभमान
 वजो येपा ते तथा पडिहत्थ शब्दोदेश्य । १ परिपूर्ण' वाचक' पडिहत्थानि पूर्णानि भूयणानि
 येपा ते तथा । तत पूर्वपदेन कर्मधारय स्तेपा (नट्टसज्जाण) नृत्ये सथा प्रयुणीभूता नृतसथा
 स्तेपां, तदनन्तरञ्च यथोक्तविशेषविशिष्टवाम भुज' प्रसारयति, तस्मात् वामभुजात् अष्टगत
 देवकुमारिकाणा विनिगच्छति । कथ भूतमित्याह । (सरिसयाण' सरित्तयाण सरिव्वयाण
 सरिसलावपण ऋव जोवण गुणोववेयाण एगाभरणवसणगहिय निज्जोइयम् । दुहृतो सविल्लिय

कंभूकजेण' अत्यत दुहृद्विचि' कंभूकजिपट्टभनइतेइनु परिकरकृद्धानवभागजेइथा जेइयावत्त'
 नइ जाइवइयावपुणेनवीकलइतेइसाफेनकावत्त' कइयइतेणइस्युफेनकावत्त' इ रच्याएतलइफेण
 रूपइभातिरच्या' संगतप्रलवकइनिनाटकतइअधोग्यकीधाप्रदेदीप्यमालइजेइना कुइवाइइएइ
 बुवस्तचिवांसहितइर परिइणउइइजेइनइ एकावचीइर कठइथापउतेणइकरी शोभायमान
 इइवस्तस्युलजेइनु परिपूर्णभूयणकइजेइरनइ एकमूआठनाटिकनइअयइ सज्जयया एइवादे ११५५
 नीकलइ तिइरपक्षीवली अनेकमणिरत्नजडितकडावइरपी परिरीकइपूर्ववत् रथुल दी कण्डवा-
 भुजपसारइतीथंइवीडवीभुजथकी१०८ देवकुमारीनाकलइतेकेइवी आकारइसरीपील ददर वाद-
 यवावर्णइइनेइनु मयलीनीसरिपीधयइइ सरिपुइइ लावययकानि आकास दीचि ४४, लघुददरकी
 द्विकगुणइकरीसहितइइ सरीयाआभरणवस्त गृहाइइ उपगरणजेइ विइपागत कलशिकाना

तीया दुहृतो सविलियगगनियत्याण आविद्धतिलया मेलयाण पिण्ड
 गेविज्ज कचूयाण णाणामणि कणगरयणभूसण विराईयगमंगाण अट्टे
 सय नट्टसज्जाण देवकुमारियाण' णिगच्छइ ततेणसे सूरियाभेदेवे
 अट्टसय सखाण विउव्वति अट्टसय सखवाययाण विउव्वइ अट्टसय
 सगाण विउव्वइ अट्टसयसिखगवाययाण विउव्वइ अट्टसय सखि
 याण विउव्वइ अट्टसय सखिवाययाण विउव्वइ अट्टसय खरमुहीण
 विउव्वइ अट्टसय खरमुहीवाययाण विउव्वइ अट्टसय पेयाण
 अट्टसय पेयावाययाण विउव्वति अट्टसय परिपरियाण विउ

गनियत्याण)मिति पूर्ववत् । (आविद्धतिलयामेलाण)मिति आविद्धतिलक आमेलश्च शेखरकौ-
 यकाभिस्ता आविद्धतिलकामेला स्तासा (पिण्डगेविज्ज कचुकाय)मिति नट्टसज्जैवेयक ग्रीवाभरण
 कञ्चुकश्चयकाभि स्तया तासा । (णाणामणिकणगरयण भूसणविराईयगमंगाण)मिति नानाविधानि
 मणिकनकरत्नानि येषु भूषणेषु तानि नानामणिकनकरत्ने भूषणैर्विराजितान्यगमरगानि यासान्ता
 स्तथा तासा । "चन्द्राणयाणञ्चन्दहसमनिडालाणञ्चन्द्राहियसोमदसणाण उक्काए उज्झीवेमा
 णीण"मिति सुगम । "सिञ्जाराकार चाह्वेसाण"हसिय भणियं चिद्धिय विलासललिय सुलाव
 निउणञ्चुत्तीववार कुमुलाण गहिया उज्जाण नट्टसज्जाण"मिति पूर्ववत्, (तएणसे सूरियाभेदेवे)
 इत्यादि । तत सूयाभो देवीऽष्टशत शब्दाना विकुवति अष्टशत शब्दवादकाना मष्टशत
 शृङ्गाया मष्टशत शृङ्गावादकाना १, अष्टशत शब्दिकाना मष्टशत शब्दिकावादकाना ऋव ।
 शब्दभेजात्यन्तरात्मकशब्दिका तस्या हि स्वरो मनाक् तीक्ष्णो भवति नतु शब्दवदति गभीर २,
 तथा अष्टशत खरमुखीना काहलानामष्टशत खरमुखी वादकाना ३, अष्टशत पेयाणा पेयानाम्
 महती काहला अष्टशत पेयावादकाना ४, अष्टशत पिरिपिरिकाना कौलिकपुटानइमुख
 वायविशेषरूपाया मष्टशत पिरिपिरिवादकाना ५, अष्टशत पणवानापणवो भायडपट्टीवा

डान्हना कथं थापु ऋद्धकसरीयवरत्तजैयइ आरापु ऋद्धललाटतिलक आनइआमेलकमरतकइ
 मडरजेथीइनइ चयमजयइ बाधुइइग्रीवाभरणअनइ कचुकजेथीइ अनैकप्रकारइमनि रत्नइ
 —री विराजीतकै अगीपागजेहना एकसुआठ नाटकनइअर्थसजयइ देवकुमरी नीकलइ
 रिपुइइ^१ तंइ सूयाभ देवएकसुआठसखनइ विकुवइनीपजावइ एकसुआठसखनावजाडणहार
 प्राभरण वस्त^२ एकसुआठसीगनइ विकुवइ १०८सिगनावजाडणहारनइ विकुवइ १०८ नाम्हा
 इउत्तरीयवावजे^३ वावइ १०८ मखिकानावाचकरइ विकुवइ १०८ खरमुखीकहली विकुवइ १०८
 करइ १०८मीटाकाहली १०८ पेयावावादकनइ करइ १०८ कीलियावडा

'अष्टगत' पञ्चवादकानां ६, अष्टगत पटञ्जाना मष्टगत पटञ्जवादकानां ७, अष्टगत
 भम्भानां भम्भाण्डका अष्टगत भम्भावादकानां ८, अष्टगत हीरम्भाया हीरम्भा महाढक्का
 अष्टगत हीरम्भावादकानां ९, अष्टगत मेरीणा ढक्काकृतिवाद्यविशेषरूपाणां मष्टगत मेरी
 वादकानां १०, अष्टगत भल्लरीणा भल्लरीणामचम्माविनडा विस्तीर्णवलयकारा अष्टगत
 भल्लरी वादकानां ११, अष्टगत इन्द्रभीना अष्टगत इन्द्रभिवादकानां इन्द्रभिर्भाकारा
 सकटमुखीदेवातोद्यविशेष १२, अष्टगतमुरुजीना महाप्रमाणो मर्दली मुरुजी अष्टगत मुरुज
 वादकानां १३, अष्टगत मृदञ्जाना लघुमदलः मृदञ्जो अष्टगत मृदञ्जीवादकानां १४, अष्टगत
 नन्दीमृदञ्जाना नन्दीमृदञ्जो नामएकत*सकीर्णां ऽयत्र विस्मृती मुरुज विशेष । अष्टगत
 नन्दीमृदञ्जावादकानां १५, अष्टगत मालिञ्जानामालिगोमुरुजवाद्यविशेष एवाष्टगतमा
 लिगवादकानां १६, अष्टगत कुस्तुञ्जाना कुस्तुञ्जचमचनइपुटी वाद्यविशेष अष्टगत
 कुस्तुञ्जवादकानां १७, अष्टगत गोमुखीना गोमुखी लोकीतोवसेया अष्टगत गोमुखीवादकानां १८,
 अष्टगत मदलानां मदल चभयत सम अष्टगत मर्दलवादकानां १९, अष्टगत विपञ्चीना
 विपञ्ची त्रितवीवीणा अष्टगत विपञ्चीवादकानां २०, अष्टगत वल्लकीना वल्लकी सामाचती
 वीणा अष्टगत वल्लकीवादकानां २१, अष्टगत भ्रमरीणा अष्टगत भ्रमरीवादकानां २२, अष्टगत
 भ्रमरीणा मष्टगत भ्रमरीवादकानां २३, अष्टगत परवादिनीना परवादिस्वतवीवीणा अष्ट-
 गत परिवादिनीवादकानां २४, अष्टगत चर्च्चसाना अष्टगत चर्च्चसावादकानां २५, अष्टगत
 सुषोपाना अष्टगत सुषोपावादकानां २६, अष्टगत नन्दीषोपाना अष्टगत नन्दीषोपावादकानां
 २७, अष्टगत महतीना अष्टगत महतीवादकानां २८, अष्टगत कच्छभीना मष्टगत कच्छभी
 वादकानां २९, अष्टगत चित्रवीणाना अष्टगत चित्रवीणावादकानां ३०, अष्टगत मामीदाना
 मष्टगत मामीदवादकानां ३१, अष्टगत डण्डानामष्टगत डण्डावादकानां ३२, अष्टगत
 नकुलाना अष्टगत नकुलवादकानां ३३, अष्टगत तूणानामष्टगत तूणावादकानां ३४,
 अष्टगत तुम्बवीणाना तुम्बयुक्तावीणाया अद्य कल्पप्रसिद्धा अष्टगत तुम्बवीणावादकानां
 ३५, अष्टगत मुकुन्दाना मुकुन्दी मुरुजी वाद्यविशेषो योऽतिलीन प्रायो वाद्यते अष्टगत
 मुकुन्दवादकानां ३६, हुडुक्काना मष्टगत हुडुक्कावादकानां ३७, हुडुक्काप्रतीता अष्टगत
 विचिकीनामष्टगत विचिकीवादकानां ३८, अष्टगत करटीनामष्टगत करटीवादकानां ३९,
 करटीप्रतीता अष्टगत डिण्डिमानामष्टगत डिण्डिमवादकानां ४०, प्रथम प्रस्तावना स्तवक
 पञ्चविंशत डिण्डिम अष्टगत किण्ठितानामष्टगत किण्ठितवादकानां ४१, अष्टगत कण्डवा
 नामष्टगत कण्डवावादकानां ४२, कण्डवाकरटिका अष्टगत ददरकानामष्टगत ददर वाद-
 कानां ४३, ददरक प्रतीत अष्टगत ददरकानामष्टगत ददरिकावादकानां ४४, लघुददरकी
 ददरिका अष्टगत कुसुम्बराया अष्टगत कुसुम्बरवादकानां ४५, अष्टगत कलशिकाना

वति एवमाहियाण एगोणवण अयोञ्भाविहाणाइ' विउव्वति
 विउव्वीत्ता तेवह्वेदेवकुमाराय देवकुमारीया तोयसद्दावेई ततेण
 तेवह्वे देवकुमारी देवकुमारीउय सूरियाभेण देवेण सद्दाविया
 समणे हट्टतुट्टजावहियया जेणेव सूरियाभेदेवे तेणेव उवागच्छइ
 उवागच्छित्ता तेणेव सूरियाभ देव करयल परिगहिय जाववद्दावेइ
 २ ता एववयासी सटसतुमेदेवाणुप्पिया ज अम्हेहिकायव्व तएणसे
 सूरियाभेदेवे त व्हवेदेवकुमारीय देवकुमारीतोय एववयासी गत्य

मष्टगत कलशिकावादकाना ४६, अष्टगत तलानामष्टगत कलशिवादकाना ४७, अष्टगत ताला-
 नामष्टगत तालवादकाना ४८, अष्टगत कास्यतालानामष्टगत कास्यतालवादकाना ४९, अष्ट-
 गत रिष्मिसिकानामष्टगत रिष्मिसिकावादकाना ५०, अष्टगत वशानामष्टगत वशगत मष्पारि-
 काना अष्टगत म गरिकावादकाना ५१, अष्टगत शुशुमारिकानामष्टगत शुशुमारिकावादकाना
 ५२, अष्टगत वशानामष्टगत वशवादकाना ५३, अष्टगत वालीवामष्टगत वालीवादकाना
 ५४, वालीतूणविशेष सच्चि मुखे दत्त्वा वाचते, अष्टगत वेणुनामष्टगत वेणुवादकाना ५५,
 अष्टगत' परिलीनामष्टगत परिलीवादकाना ५६, अष्टगत वडकानामष्टगत वडवाद-
 काना वधकस्तूणविशेष ५७, आव्याख्याता सुभेदा लोक्तु' प्रतीतव्या । एवमादीनि
 वदून्यातोद्धानि अतोद्यवादकाश्च विकुवति सवसख्यया तु मूलभेदापेक्षया अतोद्य भेदापेक्षया
 अतोद्य भेदाएकोनपचाशत शेषा स्तुभेदा एतेप्वेवान्तभवति । यथा वशातोद्य विधाने वाली
 वेणुपिरलीवस्वगाइ इति यथाचाह । एव"माइयाइ एगूणपव अतोद्यविहणाइ तिउव्व"इति ।
 विकुव्वित्वावतात् स्वय विकुर्वितान् देवकुमारान् देवकुमारिकाश्च शब्दयति, ते च शब्दिता
 हट्टतुट्टानन्दितचित्ता सूयाभसमीपमागच्छन्ति आगत्य च करतलपरिगृहीत दशनस्व
 गिरस्थावत्त' मस्तके अञ्जलि कृत्वा जयेन विजयेन वडापयित्वा एवमवादिपु सन्दिशन्तु
 देवाना प्रिया यदस्माभि' कर्त्तव्य तत' स मूर्यांभो देवस्तान् देवकुमारान् देवकुमारिकाश्च एव
 पुडइ जहुबाजिब विशेष करइ इमइत्यादि एकीउणपचासवाजिवनाभेदप्रति करइ करीनइ
 तेहघणा देवकुमर देवकुमरिपति सूयाभ देवप्रति तेह्जारपक्कि तेहघणा देवकुमर देवकुमरी सूयाभ
 देवइ तेडगा यका इपसतोपपाम्याच्चित्तमाहिआणदी जिहा मूर्यांभ देवक्कइ तिहा आवइ आवीनइ
 तिह्जारपक्की मूयाभ देवप्रति हायजोडीमस्तकइ चहुडी वडावीनइ एमवीलताहुया आत्तादउ हे
 देवानुप्रिय जेहकार्यंआमनिकहिबुहुइ तेकहु तिह्जारपक्कीतेहमूर्यांभदेव तेह घणादेवकुमार देव
 कुमरीपति एमवील्यु जाउ तुम्हे अहीदेवानुप्रियउ शसण भगवत महावीरपति त्रिखिवेला

इण तुज्ज्मे देवाणुप्पिया समणा भगव महावीर तिक्वूत्तो आयाहिणं
 पयाहिण करेह २ चा वदह णमसह वदिता नमसित्ता गोमाइयाण
 समणाण निग्गधाण तदिव्व देवद्धि देवजुइं देवाणुभाव टिव्व वत्तीसह
 वह्व नट्टविह उवटसेह उवदसित्ता खिप्पामेव एवमाणत्तिय पव्वपिणह
 ततेण तेवह्वे देवकुमारा देवकुमारीतोय मूर्घियाभेण देवेण एव
 वुत्ता समाणा इट्टतुट्ठ करयत्त जाव पडिमुणेति जेणेव समणे भगव
 महावीरे तेणेव उवागच्छति २ चा समण भगव महावीर जाव
 णससित्ता जेणेवभोयमाया समणा निग्गधा तेणेव निग्गच्छति ततेण
 ते वह्वे देवकुमारी देवकुमारीतोय असमासेव समोसरणकरेति
 समासेवसमोसरणकरेत्ता समासेवपतीवध ति समासेव पताते नम

मवादीत गच्छत्वय्य देवाना प्रिया श्रमण भगवन्त महावीर त्रिकृत्व आदक्षिणप्रदक्षिणं कुर्वन्त
 कृत्वा वन्दन्त नमस्यन्त वन्दित्वा नमस्यित्वा गीतमादीनां श्रमणानां निगुन्धानां ता देवजनप्रसिद्धा
 दिव्या देवद्धि दिव्या देवद्युति दिव्य देवानुभाव दिव्यं हावि शद्धि नाट्यविधिमुपदर्शयत उप-
 दर्शय च एतामाज्ञापिका क्षिप्रमेव प्रत्यर्पयता (तएण) मित्यादि । तत स्ते वह्वी देवकुमारा
 देवकुमारिकाश्च सुधाभेन देवेन एवमुक्ता सन्ती ह्येता यावत्प्रतिशृण्वन्ति आश्रुपगच्छन्तीत्यर्थे ।
 प्रतिश्रुत्य च यत्र श्रमणी भगवान् महावीर स्तवीपागच्छन्ति, उपागत्य च श्रमण भगवन्तं महा-
 वीर त्रिकृत्व आदक्षिणप्रदक्षिणी कुर्वन्ति कृत्वा च वन्दन्ते नमस्यन्ति वन्दित्वा नमसित्वा च
 यस्मिन्प्रदेशे गीतमादय श्रमणा स्तत्र समकालमेव एककालमेव समवसरन्ति मिलन्तीत्यर्थः ।
 समवमृत्यु च समकमेव एककालमेव अवनमन्ति अधी नीचा भवन्ति । अवनम्य च समकमेव

जिमग्गधासाथीमाडीप्रदक्षिण करउ करीनइ वदइ नमस्कारकरउ वादीनइ नमस्कारकरीनइ
 गोतिमादिकनइ श्रमणइ निग्ग धनइ तंइप्रधानइ देवनीच्छद्विपरिवाररूप देवनीकाति देवन्तु
 सामद्यपणउ प्रधान ववीसवइ नाटकविधि देपाडउ देपाडीनइ शीघ्रजएम एह आजात्तपराठी
 मुभनइ सु पउ तिह्वारपङ्गीतेह घणा देवकुमार देवकुमारी मूयाभइ देवनइ एमकघ्णाघकी हप
 मतोपपाम्या चित्रमाहिआणदाहायजीडी मस्तकिचहुडीमूयाभनुवचनश्रंगीकारकरइ जिहा श्रमण
 भगवत महावीरइइ तिहाजाइ जइनइ श्रमण भगवत महावीरप्रति वादइनमस्कारकरइ जिहा
 गीतमादिक श्रमण निग्ग थइइ तिहा जाइ तंइ घणा देवकुमार देवकुमारीवसमूचपे समकालइ
 यनासरणकरइ एकठामिलइ समकालइ समीसरणकरीनइ समकालइ पंक्तिशेषिवाधइपंक्तिशेषि

सति २ ता समासेव उवणमति २ ता समासेव उणममिस २त्ता
 एवसहितिए २ ता मेव उणमिच्ता एवसहितामेव नमसति सच्चि
 त्तामेव उवणमति २ ता धिमियामेव उणममति २ ता सगयामेव
 उणममति २ समासेव आयोदृविद्याणादं गिगहति समासेवयवाद्
 सुपगाइसु पणच्छिसु किते उरेण मदसिरेण तार कठेणव तारति
 विहति समयरेयगरइय गुजाचककुहरोवगूढ तिट्टाणकरण सुद्ध

उन्नसन्ति । ऊर्ध्वमवतिष्ठते इति भावः । तदनन्तरं चैव क्रमेण सहितसगतम्, स्तिमित
 चावनमनमुन्नमनञ्च वाच्यम् । अमीपाञ्च सहितादीनां भेदः सम्यक्श्लोपेतनाट्योपाध्याया
 दवगन्तव्यः । ततः स्तिमित समकमुन्नम्य समकमेव प्रसरन्ति प्रसृत्य च समकमेव यथायोगमातोय
 विधानानि गृह्णन्ति । गृहीत्वा च समकमेव प्रगीतवन्तः, समकमेव प्रवर्चितवन्तः किंति
 इत्यादि । केचित् देवकुमारा देवकुमारिकाश्च एव प्रगीता अप्यभवन्ति योगः कथमित्याह ।
 (उरेण मन्द) मिति । सर्वत्र सप्तम्यथे तृतीया उरसि मन्द यथा भवति एवं प्रतीता । (सिरेण
 तार कण्ठेष्वतार) मिति शब्देन यथा वल्लचर्षोपेत किमुक्तं भवति उरसि प्रथमतो गीतमुच्चिष्यते
 उतत्तपेकाले च गीत मन्द भवति । “आदिमिउसारम्भता” इति वचनात् अन्यथा गीतगुणचित्तं
 स्तत उक्तसुरसि मन्दमिति ततो गायता मूर्धानमभिध्नन् स्वर उच्चैस्तरो भवति स्थानकञ्च द्वितीय
 तृतीय वा समधिरोहति । ततः गिरसितारमित्युक्तं गिरसश्च प्रतिनिवृत्तं सन्न स्वरं कण्ठे मुलति
 मुलश्चाति मधुरो भवति । (समयरेयगरइय) मिति । (गुञ्जाचष्क कुहरोव गूढं) गुञ्जन गुञ्जा-
 प्रधानानि यानि अचक्राणि शब्दमागुप्रतिकूलानि कुहराणि तेषूपगूढं गुञ्जाचक्रकुहरोपगूढं

बाधेनइ समकालइ पक्तिरवियायका नमस्कारकरिकरीनइ समकाल नीचायइमस्तकनीवाकरीइ
 करीनइ समकालइ उ चायइमस्तकु उचाकरइसमकालइ उ चायईनइ एमजसायइजनीचायईनइ
 निश्चइ निचीयइनइ एमजसायइ जविश्चइ नमस्कारकरइकरीनइ सायइ जकु चायाइ थईनइ
 स्तनितानिश्चलयकाबीजीचेष्टादीलीनइ नीचायइउचायइ मगलीएकठामिलीनइ नमइ उक्तमइ
 समकालइ वाज्जिननाउंणपचासभेदप्रति गूहइ समकालइ वाज्जि वजाडताहूया समकालइ
 जमाताहुया सायिइजनावताहूया किमतेगताहुयाहियानइविषय मदस्वरहूइमगतकइ ताराकंठइ
 पण्थिताराहुइ एतलइ गीतप्रारभकाले प्रथममदहुइ पकइगायधारनइ मस्तकइस्वरइथातउ
 उस्वेस्वरहुइतीमाटेइ मस्तकै तारकही पळे मस्तकथी ऊपरावउ स्वरवलनुथकु कठै धोलनापामै
 मधुरहुइतंमाटे कतैपणितारमाटु एहवु भेदविहु भेदगीत विहुसातकरै विचतळे गु जतइकरी
 प्रधानअचक्रसदमागु नइ अनैकूपडकदैना सहस्रनइविषइ उगूढकइरचित् कइ एतलइ प्रे चा

सकुहरगुञ्जत वस ततीतलताललयगर्हसुसंपञ्चत महुर सम सुललितं
मणोहर मिञ्चरिभित पयसचार सुरइ सुनति वरं चारुव दिव्व नट्ट

किमुक्त भवति । तेषा देवकुनाराषा देवकुमारिकाषा च तस्मिन् प्रेचागृहमण्डपे गायता गीत तेषु प्रेचागृहमण्डपसत्कीपु च कुहरेषु स्वानि रूपाणि प्रतिशब्दसङ्घषायुरथापयद्वर्त्तति इति (रत्न) मिति रत्न इत्यत् गेयरागान रत्नेन गीत गीयते तत् रत्नमिति तद्विधाप्रसिद्ध "तत्तीयकरण सुह" इति वीणस्थानानि उर प्रभृतीनि तेषु करणेषु क्रियथा शुद्ध विस्थानकरण-शुद्ध तथा उरशुद्ध कण्ठशुद्ध शिरो विशुद्धञ्च तत्र यदि उरसि स्वर स्वभूमिकानुसारेण विशालो भवति तत उरोविशुद्ध, सएव यदि कण्ठे वर्त्तती भवति अस्पष्टितश्च तत् कण्ठविशुद्ध, यदि पुन शिर प्राप्तं सन् सानुनासिको भवति तत शिरोविशुद्ध, यदि वा यत उरकण्ठशिरोभि श्लेष्मणा अव्याकुलितै विशुद्धि गीयते तत् उरकण्ठशिरोविशुद्धत्वात् विस्थानकरणविशुद्धम् । तथा सुकुहरी गुञ्जन् यो वशी ये च तन्वीतलताललयगुञ्जा स्तेषु सुष्टु अतिशयेन सम्प्रयुक्त स कुहर गुञ्जद शतवीतलताललयगुञ्जसुसम्प्रयुक्त किमुक्त भवति स कुहरे वशे गुञ्जति तन्वराञ्च वाद्यमानाया यत वगतन्वीस्वरेणाविरुद्धं तत्, स कुहर गुञ्जद शतन्वीसुसम्प्रयुक्त तथा परस्परद्वन्द्वस्तलस्वरानुवर्त्ति यत् तलसुसम्प्रयुक्तं तत् सुरजक श्रिकादीनामातोद्यानामाह-ताना योध्वनिपादोच्चेपीयश्च नृत्य तानचञ्का, पादोच्चेप स्तेन सम तत् तालसुसम्प्रयुक्तं तथा गृष्मभयो दारुभयो दन्तमयोऽध्मलिकीशिक स्तेनाहतायो स्तवरा स्वरप्रकारीलय स्तमनुरत् गेय लयसुसम्प्रयुक्तं तथाय प्रथम वशतन्वरादिभि स्वरीगृहीत स्तन्मार्गानुसारिगुञ्ज सुसम्प्रयुक्तं तथा (महुर) मिति, मधुस्वरेण गीयमान मधुर कीकिलासुतवत् तथा (सम) मिति तलवशस्वरादि-समनुगत सम सललियन्ति यत् स्वरधीलनाप्रकारेण ललतीव सङ्घ ललितेन ललनेन वच ते इति । श्राव्हेन्द्रियस्य शब्दस्पगनमतीवसूक्ष्मसुत्पादयति सुकुमारमिव च प्रतिभासते तत सललमिति, अतएव मनोहरपुन कथं भूतमित्याह (मिञ्चरिभितपदसचार) तत्र मृदु मृदुनास्वरेण युक्तीनिष्टुरेण तथा यत्र स्वरो ऽचरेषु धीलनास्वरविशेषेषु च सञ्चरन रथातीव प्रतिभासते सपदसञ्चारो रिभित उच्यते, मृदु रिभित पदेषु गेयति वहेषु सञ्चारो यत्र गेये तत मृदुरिभितपदसञ्चार तथा (सुरइ) इति श्रीभनारति यस्मिन् श्रीतृणा तत् सुरति तथा श्रीभनानतिरवनामी ऽवसानो यस्मिन् तत् सुनति तथा वर प्रधान चारुविशिष्टचश्चिामोपेत, रूप स्वरूप यस्य तत वरचाक्षरूप धरभडपनडविषद पडकदानासङ्घनद हूडीडतङ्गहू तद गीतरागनिविषद अनुरक्तपुरुषपनद गादं इतरेरक्तकधीप हृदयमस्तक कठण्विह्व नडविषद करणाक्रियादकरीविरुद्ध तेकिमहृदयनडविषद स्वरपोतानी भूमिकानू सारइ विमारइ विसालङ्घुइतडरीविमूह तेहज स्वरकठननडविषद फीटइ नही ते कठविमूहमस्तक पुङ्गनुषकु श्लेष्मादिकदुषणइ दुपितननडुइक वंस वीथाहाथाजोडीका

सज्जमेय पगेयाविहोत्या किते उर्द्धमताण सक्खाण सग्गण संख्याण
 खरमुहाण परिपरियाण आहम्म ताण पणवाण पडिहाण अफालि
 ज्जतीण भभाण होरभाण तालिज्जतीण भेरीण भल्लरीण दुन्दु
 भीण आलवताण मुरवराण नदिमुद्रगाण उत्तालिज्जताण आलिग
 ण्ह तुवीण गोमुहीण मद्दलाणमुच्छिज्जताण वीणाण विपवीण
 वल्लकीण कुट्टिज्जतीण कच्छभीण चित्तवीणाण सारिज्जतीण
 वधीसाण सुघोसाण फुरिज्जतीण भामरीण वव्भामरीण परिवायणाण
 विप्पतीण तुणाण तुवविणाण अमोडिज्जतीण आमोडिभ भाण
 णउरालाण मुत्थिज्जतीण मुगदाण हुडकीण चिचिक्खाण वाइज्ज
 ताण करडाण डिडिमाण किणियाण कडवाण उत्ताडिज्जताण

द्विज्य प्रधान नृत्तसद्य गैय प्रतीता अप्यभवन, (किं ते) इत्यादि किञ्चते देवकुमारा देवकुमारिकाश्च
 प्रगीतवन्तः, प्रवर्त्तितवर्त्तितश्च (उड्डमन्ताण सखाण) मित्यादि । अत्र सर्वत्रापि परटी सप्तम्यर्थे
 ततीऽयमर्थो यथावोगमुद्गायमनादिपु शब्दादिषु इह शब्दशृगर्श्रिका खरमुहीपेया पिरिपिरी
 काष्ठा वादनमुद्गानमिति प्रसिद्ध पणवपट्टाना मामोटनम्, भम्भा होरम्भाणा मास्फालनम् । भेरी
 भल्लरी दुन्दुभीना ताडनम् । मुरज्जमृदया नन्दीमृदयानामालपन आलिग्य कुस्तुम्बगीमुखी
 मद्दलानामुत्ताडन वीणा विपञ्ची वल्लकीना मूकन भामरी परिवादनीना स्पन्दन वधीसा सुघो
 पा नन्दिघोषाणा सारण मद्दती कक्षपीति ववीणाना कुहाना, आमोटकण्डानकुलानामामोटनम् ।
 तूणतुम्बवीणाना स्पर्शन मुत्कुन्दहुडुक्का चित्चिकीना मूर्खनम् । करटा डिण्डिमकिणिक कड
 सीएहीतुस्सरम् प्रकारतेलयगुहतेलयसरीषु वाजिब्रनइ अनूसरनगीतसप्रयुक्त वापारितकड
 वलीमीहुक्कड तालवसेपरवरपूठिगायवु धीलनासहितकड श्रीतानामननइहरतुकड स्वरोकरीसहित
 अत्रपरदनुसचारकैज्जनु श्रीतानइरतेजपजावइक्कड सीभइक्कडघणु ज भलु रूपकडज्जिहनु टिव
 सबधी नाटकनइविपइ सखधयुएइवु गीत वसेयपणइगाताणुवा वलीतेहहूउहूउ मुखनइफू कीनइ
 वजाडवउ सखनइर सागनइरसक्खिकानइर खरमुहीनइपरिपरायानइएवल्लनइ सुखइ वजाडवू
 इणवउ पणचनइर टीलनइर आस्फालिचउ भभानइ होरभानव ताडडु भेरीनइ भालरनइ
 डुदभी धीहु वोलवउ मुरवरवाजिब्रनइ नदिमुखनैनाहनु मादल विसेयपणइताडिबु आलिगन
 तु बीनइ गोमुपीनै मादलनइ मूकनू वीणानइ विपचीनइ वल्लकानइ कूटवउ कच्छभानइ
 चिचिक्खानइ सारिवउ वधासर्वाजिब्रवसेपनइ सुघोपानइ फीटिवउ भामरीनइ व्भमरीनइ
 व्भामरोनइ परिवादिनीनइ फरिसवु नुणानइतुव वीणानइ धीडउ सरोजनु आमोटभभानइ

द्विरियाणं कूड्वागा कलिसियागा मडियाणा आताडिञ्भताणा
तन्नागां तालाणा कसतालाणा धडिञ्भताणा गिरिसियाणा लत्तिरियाणा
मगिरियाणा सुसमारियाणा फुमिञ्भताणा वसाणा चालीया वेणूणा
परिलीया पव्वगाणा तत्तेपणासे दिव्वेणट्टे दिव्वेणीए दिव्वे वाइए एव
अम्भुए सिगरे उराल्ले मणुणेगिवा मणहरंणट्टे मणहरे गीए मणहरे
वाइए उप्पिञ्जलभूए कइकइभूए दिव्वे देवरमणो पव्वत्ते आविहोत्था

वाना वादनम्, दर्दर दर्दरिका कुसुम्बरकलसिका मङ्कानामुत्ताडनम् । तलताल कसतालानाम्
ताडन गिरिसिकालत्तिकामकरिकाभिगुमारिकाना धट्टन, वगवेणुचालीपिरलीवधगाणा फुञ्चन
मत उक्त "उद्दुमन्ताण सख्खाप"मित्यादि । (तएणसे दिव्वे गाए) इत्यादि यतएव प्रगीतवन्त
इत्यादि । ततोषमिति पूर्ववत् तत् दिव्य गीत दिव्य वादित दिव्य नृत्यमभूत्तदिति योग ।
लिङ्ग नामप्रधान एव (मम्भुएगीए अम्भुएवाइए अम्भुएनडे अम्भुत्तु)माइचयंकारिशृष्णारेवाइए,
(सिगरेणट्टे) शृ गार शृ गाररसीपेतवात् अथवा शृ गार नामालङ्कृत मुच्यते, तत्र यदन्यास्य
विशेषकरणेनालकृतामिव गीत वादननृत्य वा तत् शृ गारमिति (उराल्लेगीए उराल्लेवाइए उराल्ले
णट्टे) उदार स्फार परिपूर्णगुणोपेतत्वात् ननु क्वचिदपि हीन, (मणुणेगीए मणुणेवाइए मणु
णेणट्टे) मनोज्ञ मनोनुकूल द्रष्टृणा श्रोतृणाञ्च मनोनिवृत्तिकरमिति भावः, तत्र मनोनिवृत्तिक-
रत्वं सामान्यतोपि स्यादतः प्रकृपविशेषप्रतिपादनार्थमाह । (मणहर) इति (मणहरेगीए मणहरेवाइए
मणहरणट्टे) मनोहर्षिते, आत्मवश नयति तद्विधामप्यति चमत्कारकारितयेति मनोहर सेतदेवाह
(उप्पिञ्जलमाकुलक उप्पिञ्जलभूते) आकुलके भूते किमुक्त भवति मङ्किकदेवानामप्यतिशयि
तथा परमोच्चोभोत्यादकत्वेन सकलदेशासुरमनुजसमूहचित्ताक्षेपकारीति, (कइकइभूते) इति
कइकइत्यनुकरणे कइकइति भूत प्राप्त कइकइभूत किमुक्त भवति । निरन्तर तत्तद्विशेष
दर्शनतः समुचलितप्रमोदभरपरवशसकलदिग्गजक्रवालवसिंभो चक्रजनकृतप्रगसावचनबोलकीला
इत्युत्कृष्टाभूतमिति अतएव दिव्य देवरमणमपि देवानामपि रमण क्रीडन प्रवृत्त मभूत

नकुलनइ पूकवउ मुकदवाजिवनइ हु उकनइ चिचिकनइ वजाडिवउ करडनइ दडिमनइ
मणिकानइ कडवनइ वसेप पणइ ताडिउ दर्दर कुस्तवरुनइ कलिसिकानइ मडिकानइ माइ
माइ आण्णत्तु षाथोडानइ तालनइ कसतालनइ घटवउ गिरिसिकानइ लत्तिरिकानइ
मगिरिकानइ सुसमारिकानइ फु कउ वसनइ चालीलइ वेणुनइ परिलीयइ पवत्तंनइ
तेहवाजिवधका तेहप्रधाननाटिक प्रधानगीत प्रधानवाचिबहुउ आश्वंकारी गीतमतइमुहनु
शृ गाररसिकरीसहितनइ स्कारपरिपूर्णगुणसहित देणुहारनाथोतानाएइवाजितनाभेदलीकपीया

तएषाते बह्वे देवकुमाराय देवकुमारीउय समणस्स भगवउ महा
वीरस्स सोत्थि सिरिवत्थ नदियावत्त वड्ढमाण भद्दासण कलस मत्थ
दप्पण मगल भत्तिचित्त णाम दिव्व णट्टदिव्व उवदसेति १ ततो णाते
वह्वे देवकुमाराय देवकुमारीयातोय समासेव समोसरणा करेति समो
सरणा करेत्ता तचेव भाणियव्व जावटिव्वे देवरमणे पव्वत्ते आविहोत्था
ततेणाते वह्वेदेवकुमाराय देवकुमारीयातोय समणस्स भगवउ महा
वीरस्स आवम पच्चावड सेठिपसेठिय सोच्छिय सोवत्थिय पूसमाणग

॥ क ॥ (तएषाते देवकुमाराय) इत्यादि । तत स्ते बह्वो देवकुमारा देवकुमारिकाश्च
श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य पुरतो गीतमादिश्रमणाना स्वस्तिकश्रीवत्सनन्द्यावत्त'वड्ढ'मानक
भद्रासनकलशमत्स्यदप्यणरूपाणा मष्टाना मगलकाना भक्त्या विक्षिप्त्या चिवमालेखनमाकारा-
भियानयो र्धस्मिन स स्वस्तिकश्रीवत्सनन्द्यावत्त'वड्ढ'मानकभद्रासनकलशमत्स्यदप्यणमगलभक्ति-
चित्त । एव सर्वत्रापि व्युत्पत्तिमात्र यथायोग परिभावनियम् । सम्यग्भावानुक्तुं न
शक्यते यतीमीषा नाटयविधीना सम्यक् स्वरूपप्रतिपादन पूर्वान्तगते नाटयविधिप्राभृते तच्चेदानीं
व्यवहृन्मिति प्रथम दिव्य नाटयविधिसुपदर्शयति १ । ततो द्वितीय नाटयविधिसुपदर्शयितु
कामो भूयोपि प्रागुक्तप्रकारेण समकसमवसरणादिकं कुवन्ति तथा चाह । (तएषाते वह्वे
देवकुमारा देवकुमारीउयसमकमेव समोसरणा करन्ति) इत्यादि । प्रागुक्त तदेव तावदक्तव्य
यावत् (दिव्ये देवरमणे पव्वत्ते आविहोत्था) इति (तएषा)मित्यादि तत स्ते बह्वो देवकुमारा
देवकुमारिकाश्च श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य पुरतो गीतमादीना श्रमणाना आवत्त'प्रत्यावत्त'

णिवा मननइवसिद्ध करणुएहवु पादिक मनोहर गीत मनोहर वाजिवहुतउहू उ महर्द्धिकदेवनइ
नऊपजाववइ आदवइपरनैचोथ्याकुलव्याकुलहुतउहू उ भगवतनाविसेपदर्शनयकौऊपनुप्रमोद
प्रधान देवनुरमवु प्रवत्त उ हू उ तिह्वारपक्कि तेह धणा देव देवकुमार देवकुमारी श्रमण भगवत
महावीर आगलि साथीयानइरूपइ १ श्रीवक्कर नदीयत्त ३ सिरावसपुट्ट भद्दासण ४ कलस ५
मत्सगुम्भ ० दप्यणआरीमउ ८ एहआठमगलीक भित्तिविचित्त एणइणामइ प्रधान नाटिकविडिनइ
प्रथमनाटकदेपाउइ तिह्वारपक्कइ तेह धणा देवकुमार देवकुमारी समकालइ समोसरणा करइ
एकठामिलि समीसरणाकरीनइ तिमजपुवलीपरिइ वाजिव गीतकहवा जेहालगइ प्रधान देवरमण
देवकुमारीउयउ प्रवत्त'तउ ह्योउ तिह्वारपक्कीतेह धणा देवकुमार देवकुमारी श्रमण भगवत
महावीर आगलि दक्षिणावत्त'रूपइ आवत्त' प्रत्यावत्त'उत्तरावत्त' श्रेणितेसमी श्रेणितेउपराठी
एणइरूपइमाथीया सीवन्तिकलउणवउपे पममाणवल्लखवगेय मत्तनाइडा मगरनाइडा मण्णिना

मथंडा मकरडा जारामारा पुन्नावलि पउमत्त सागरतरग वणलय
 पउमलय भत्तिचित्त' णामदिव्व णट्टविह उवदसेइए एवक्वेविवया
 णट्टविहीए समोसरणादिए सावत्त व्वया जाव देवरमणे पव्वत्ते
 आविहोत्था ततेणते वद्धवे देवकुमाराय देवकुमारीयातोय समणस्स
 भगवउ महावीरस्स इंहामिय उसभ तुरग णर मगर विहग वालग
 क्किणणर रुक् सरभ चमर कुजर वणलय पउमलय भत्तिचित्त
 णाम दिव्व णट्ट विह उवदसेइ ३ एगउवक दुइउवक एगतोखूह
 दुइतोखूह एगउववकवाल दुइउववकवाल णाम दिव्व णट्टविहउव
 दसेइ ४ चदावलिपविभत्ति मूरावलिपविभत्ति च हसावलिपविभत्ति च
 एगावलिपविभत्ति च चारावलियपविभत्ति च कण्णगावलिपविभत्ति

श्रेणिप्रश्रेणि खस्तिक्कपुप्यमाणववर्द्धमानकमत्स्याडकमकराणडकजारमारपुप्पावलिपद्मपत्तसागरतरग
 वासन्तीलतापद्मलताभक्तिचित्रनामद्वितीय नाट्यविधिसुपादर्शयन्ति २ । तदनन्तर नृतीय नाट्य-
 विधिमुपदशयितु भूय स्तथैव समवसरणादिक कुर्वन्ति एव समवसरणादिकरणविधि रिके
 कस्मिन्नाट्यविधी प्रत्येक तावदक्लव्या याव(देवरमणे पव्वत्ते आविहोत्था) तत इहामृगवृत्तपभ
 तुरगनरमकरविहगव्यालकिन्नररुक्सरभचमरकुञ्जरवनलतापद्मलताभक्तिचित्रनाम नृतीय दिव्य
 नाट्यविधिमुपदशयन्ति ३ । तदनन्तर भूयोपि समवसरणा विधिकरणानन्तरमेकत ३चक्र एक-
 त्तत्रचक्रवालद्विधातश्चक्रवालचक्राई चक्रवाल नाम चतुर्थ दिव्य नाट्यविधिमुपदर्शयन्ति ४ । तद-
 नन्तर मुक्त्वविधि पुरसर चन्द्रावलिप्रविभक्तिमूर्धावलिप्रविभक्तिवलयावलिप्रविभक्तिहसावलि
 प्रविभक्तिपकावलि प्रविभक्तितारादिप्रविभक्तिमुक्तावलिप्रविभक्तिनकावलिप्रविभक्तिरनावलिप्रवि-
 मलपण्णवैसपाकाकहइइइइजलचरजीववशेषणइफूलनीपक्ति कमलनीपापडी समूद्रनाकल्लील यशी
 कादिलता पद्मलताएहवीभातिकरीविचित्र इगौनामेप्रधान नाट्यविधि देपाडइडिती नाट पमज
 अकेकिइ नाटकविडिइ समीसरणादिकएगठउमिलतु वालित गौतएहसर्वचक्रत्र्यताकहरी जिह्रा
 लगइ देवनुसमरवु प्रवत्तनु हुउ तिह्वारपक्की तेहघणादेवकुमर देवकुमारी श्रमथ भगवत महावीर
 चागलि वरगडानइरूपइ वृपभघोडुमण्युय पक्षा सय्य किन्नरदेवतामृग अचपदचमरीगाइ इस्ती
 अगाकादिवनलता पद्मलताएपीपरि भातिविचित्र एणैठामै प्रधान नाटिकविधि देपडइ वीजुनाटक
 वलीतिमजवजाडाए एकैपासइवाक् विहुपासेवाक् एकइपासइ अकुसनइ आकारइ ७ विहु पासइ
 अकुसाकरइ ८ एकइपासइ चक्राकरइ वलयाकारइ विहु पासइ चक्राकरइ वलयाकारइ चक्रवाल
 नामप्रधान नाटकविधिदेपाडइदुयउनाटक वलातिमलचद्रपत्तिनाभातितेणइभू पइ तिमजमूर्धपत्ति

च रयणावलिमुत्तरवलिया वलियपविभक्ति णाम दिव्वं णट्टविह उव
 टसेइ ५ चदागमणपविभक्तिं च मूरागमणपविभक्ति च ६ आगमणा
 गमणपविभक्ति णाम दिव्वं णट्टविह उवटसेति ७ चदावरणपविभक्ति च
 मूरावणपविभक्ति च आवरणावरणपविभक्ति णामदिव्वं णट्टविह उव
 दसेइ ८ चदत्यमणपविभक्ति च मूरत्यमणपविभक्तिं च अत्यमणत्थ
 मणपविभक्ति च णाम दिव्वं णट्टविह उवदसेइ ९ चदमडलपविभ
 क्ति च मूरमडलपविभक्ति च नागमडलपविभक्ति च जक्खमडल
 पविभक्ति च भूयमडलपविभक्ति च रक्खसमहोरग गधव्वमडल
 पविभक्ति मडलपविभक्ति च णाम दिव्वं णट्टविह उवदसेति १०

भक्त्यानिनयात्मकमावलिप्रविभक्तिनामपञ्चमनाटयविधिमुपदर्शयन्ति ५ । तदनन्तरं सुक्तक्रमेण
 चन्द्रोद्गमप्रविभक्तिसूर्योद्गमप्रविभक्तियुक्तं स्तम्भमनीद्गमनप्रविभक्ति नामषट् नाटयविधिमुपदर्शयन्ति
 ६ । तत उक्तप्रकारेण चन्द्रागमनप्रविभक्तियुक्तमागमनप्रविभक्तिनाम सप्तमं नाटयविधि
 मुपदर्शयन्ति ७ । तदनन्तरं सुक्तक्रमेण चन्द्रावरणप्रविभक्तिसूयावरणप्रविभक्तियुक्तमावराणा-
 वरणप्रविभक्तिनामकं षष्ठमं नाटयविधि उपदर्शयन्ति ८ । तत उक्तक्रमेणैव चन्द्रास्तमयन् प्रवि
 भक्तिसूयास्तमयनप्रविभक्तियुक्तमस्तमयन्प्रविभक्तिनामकं नवमं नाटयविधि ९ । तत उक्त-
 प्रकारेण चन्द्रमण्डलप्रविभक्तिसूर्यमण्डलप्रविभक्तिनागमण्डलप्रविभक्तियक्ष्मण्डलप्रविभक्तिभूत
 मण्डलप्रविभक्तियुक्तमण्डलप्रविभक्तिनामकं दशमं दिव्यं नाटयविधिं १० । तदनन्तरं उक्त-

नीभाति हसपपीनपक्तितेणइरूपइ एकावलीहारतेणइरूपइ तारानीपक्तिनेरूपइ कनकावली
 हारनीपक्ति रनावलीहार मुक्तावलीहारतेणइरूपइ नाटकआवलीप्रवेभक्ति नामप्रधान नाटक
 विधिदेपाडइनाटक पाचमउ जिमचद्रमाआवतइतेणइरूपि मूयआवतइतेणइरूपि आगमनाप्रवि
 भक्ति नामप्रधान नाटकविधि देपाडइनाटकसातमउ ७ चद्रमानउजिमतउहुइतेणइ आचरण
 गुहणहु रूप जिममूयनुगुहणहुइतेणइरूपइ आचरण आचरणप्रविभक्ति नामप्रधान नाटकविधि
 देपाडइ नाटकआठसु ८ चद्रमातिमआयमतउहुइतेणइरूपइ मुरअस्तमनरूपइ अस्तमन प्रवि
 भक्ति नामप्रधान नाटकविधिदेपाडइनाटनूर्मुं ९ घणाचद्रमानू मांडलुजिहवु हुइएमज सूर्यमडल
 रूपइ नागभवनपतीदेवतेहनइमडलुरुपइ जज्यतरदेवतेहनमडल भूतव्यतरदेवतेहनमडल
 गजस महोरगदेव गधवएहसवव्यतरदेवतेहनइ मडलइ मडलप्रविभक्ति नामप्रधान नाटकविधि
 देपीडइ नाटकदसमु १० वृषभनुललितगतिविक्रमचालवृतेणइ रूपइ साइनुललितगतिचालवु धीडा

उसभललियविककत सीङ्गललियविकत इयविल्लविय गयविल्लवियं
 मतूङ्गलविल्लसिय मत्तगयविल्लसिय दुयविल्लविय णाम दिव्व णट्ट विङ्ग
 उवदसेइ ११ मगडुङ्गिपविभत्तिच सागरपविभत्तिच नागरपविभत्ति
 च सागरनागरपविभत्ति च णाम दिव्व णट्ट विङ्ग उवदसेइ १२
 णदापविभत्ति च चदापविभत्ति च णादाचदापविभत्ति च णाम दिव्व
 णट्टविङ्ग उवदसेइ १३ मत्थडापविभत्ति च मगरडापविभत्ति च जारा
 पविभत्तिच मारापविभत्तिच मत्थडा मगरडा जारामारापविभत्तिच
 णाम दिव्व णट्टविङ्ग उवदसेइ १४ कत्तिककारपविभत्ति च खत्तिखकार
 पविभत्तिच गत्तिगकारपविभत्ति च घत्तिघकारपविभत्तिच ङत्तिङकार
 पविभत्ति च ककार खकार गकार घकार ङकार पविभत्ति च णम

क्रमेण षट्पभमण्डलप्रविभक्तिंसिहमण्डलप्रविभक्तिइयविल्लम्बितगयविल्लम्बियइयविल्लसियगज-
 विल्लसितमत्तइयविल्लसितमत्तगजविल्लसितमत्तइयविल्लम्बितमत्तगजविल्लम्बितम् । विल्लम्बि-
 ताभिनय द्रुतविल्लम्बित नामएकादश नाट्यविधि ११ । तदनन्तर सागरप्रविभक्तिनागरप्रवि-
 भक्त्यभिनयात्मक सागरनागरप्रविभक्तिनाम द्वादश नाट्यविधि १२ । ततो नन्दाप्रविभक्तिचम्पा-
 प्रविभक्त्यात्मक नन्दाचम्पाप्रविभक्ति नाम त्रयोदश नाट्यविधि १३ । ततो मत्स्याण्डकप्रविभक्ति
 मकराण्डकप्रविभक्तिजाराप्रविभक्तिमाराप्रविभक्तियुक्त मत्स्याण्डकजारापविभक्तिनामचतुर्दश
 प्रविभक्तिनाट्यविधि १४ । तदनन्तर क्रमेण ज इति ककार प्रविभक्ति, ख इति खकार
 प्रविभक्ति, ग इति गकार प्रविभक्ति, घ इति घकार प्रविभक्ति, ङ इति ङकार प्रविभक्ति,

नाविल्लविगति एमजगजविल्लवित मस्तघोडानाविलासगतिरेणरूपपइ मस्तगजनीविलासगति दुति
 विल्लवित नामप्रधाननाटकविधि देपाडइनाटकइविङ्गयारमु१ गाडलीनीउडनीचाकारइनगरनइ
 रूपइ सेमु द्रनइआकारइ नागरनइरूपइ सागरनागरप्रतिभक्तिनाम१२प्रनामप्रधाननाटकविधिदेपाड
 बामुनदावत्त भातइ चद्रामनिर्भं तनामप्रधान णदाचदापविभक्तिनामनाटकविधिदेपाडइनाटक
 तंगु मच्छनाइ डानइ रूपइ मगरनाइ डा जाराजलचरजीवसेपमाराजलचरजीवसेप मत्सना
 इ डा मगरनाइ डा जारा मारा प्रविभक्ति नामप्रधान नाटकविधि देपाडइनाटक १४ ककार
 श्वररूपइ नाटकएमज खकाररूपइ नाटक गकारनइरूपइनाटक घकारनइरूपइनाटक ङ
 कारनइरूपइनाटक ककार खकार गकार घकार ङकारप्रविभक्ति नामप्रधान नाटकविधि देपाडइ
 नाटकपरु एमज वकारु वग, जाणिवु चकारङ्कारजकारभकारजकार एइ पाच अचर रूपइ

दिव्व णट्टविह उवटसेइ १५ एव चकारवगोवि १६ टकारवगोवि १७
 तवगोवि १८ पवगोवि १९ असोयपल्लवपविभत्ति च अवपल्लव
 पविभत्ति च जवूपल्लवपविभत्ति चकोसवपल्लवपविभत्ति च पल्लव
 पविभत्ति च णाम दिव्व नट्टविह २० पउमलयापविभत्ति च नागलया
 पविभत्ति च जावसमेलयापविभत्ति च णाम दिव्व णट्टविह उवट
 सेइ २१ टुयणट्टविह उवटसेति २२ विलविय णामणट्टविह २३ इय
 विलविय णाम णट्टविह २४ अचिय २५ रिभिय २६ अचियरिभिय २७

रित्येव क्रमभावि ककारादि प्रविभक्ति रभित्यात्मक ककार खकार गकार घकार ङकार प्रविभक्ति
 नामक पञ्चदश दिव्य नाटगविधि १५ । एव चकार ककार जकार भकार ञकार प्रविभक्ति
 नामक षोडश दिव्य नाटगविधि १६ । टकार ठकार डकार ढकार णकार प्रविभक्तिनामक सप्त-
 दश दिव्य नाटगविधि १७ । तकार थकार दकार धकार नकार प्रविभक्तिनामक अष्टादश
 नाटगविधि १८ । पकार फकार वकार भकार मकार प्रविभक्तिनामकमेकीनविशतितम दिव्य
 नाटगविधि १९ । ततोऽशोकपल्लवप्रविभक्त्यामुपल्लवप्रविभक्ति जम्बूपल्लवप्रविभक्तिकीशम्बपल्लव
 प्रविभक्तरभिनयात्मक पल्लवप्रविभक्तिनामक विशतितम दिव्य नाटगविधि २० । तदनन्तर पद्म
 लताप्रविभक्तिनागलताप्रविभक्तिअशोकलताप्रविभक्तिभुतलताप्रविभक्तिवनलताप्रविभक्तिवासन्तीलता
 प्रविभक्तिकुन्दलताप्रविभक्त्यतिमुक्तकलताप्रविभक्तिश्यामलताप्रविभक्तरभिनयात्मक लताप्रविभक्ति
 नाममेकविशतितम दिव्य नाटगविधि २१ । तदनन्तरोद्गत द्वाविशतितम नाटगविधि २२ । ततो
 विलम्बित नामतयोविशतितम २३ । इतविलम्बित नाम चतुर्विंशतितम २४ । अचित्त नामपञ्च
 विशतितम २५ । रभित नाम षट्शतितम २६ । अचित्तरभित नामसप्तविशतितम २७ । आरभट्ट

नाटकं सीलमउ टकारठकारडकारढकारणकाररूपइ नाटकसतरमु तवगं तकारथकार टकारेधकार
 नकाररूपइनाटिक १८ रमु पवगं पकारफकारवकारभकारमकाररूपइनाटिकउगणीसमउ अमोक्
 पन्नवनावुच्चनिरुपपिनवापत्तपल्लवकहीइ आत्रानीपल्लवनइरूपइ जम्बुवृक्षपल्लवनइरूपइ
 कोमब्रवृक्षनापल्लवनइरूपइ पल्लवप्रविभक्तिनाम नाटकविधिदेयाइनाटिकवीसमु २० पद्मलतानइ
 रूपइ नामलतानइ रूपइ यावतवब्दइ अशोकलताचपकलताकु दलताश्यामलता एणइरूपइनाटक
 वताविभक्ति नामप्रधान नाटकविधि टयाडइनाटकएकवीसमु २१ दूतऊतावुलु ताववु तिथूत
 नाटिकवावीसमु २२ मुडलइ नाचवु विलवित नामनाटिकत्रिधिवेवीसमु २३ पच्चिनु ऊतावुलु पइ
 इऊडइरनाचवु प्रतविलम्बितनामनाटिकविधि २४ अचित्तनाम २५ रिभितनाम २६ अचित्तरिभित
 नाम २७ आरभट्ट २८ भवीन २९ आरभडसीलनाम ३० उलु उरपतवु निपतवुहेवुपइवु तिरिक्कुड

आरभइ २८ भसोल २९ आरभइभसोल ३० उप्पय णिवय
परिणवय पसत्तसकुचिय पसारिय रयारवत्तिय भत्त सभत णाम
टिव्व णट्टविद्धि उवदसेति ३१ ततेणाते वद्धवे देवकुमाराय देवकुमारी
तोय समासेव समोसरणा करेति जावदिब्बे टवरमणे पव्वत्तीयावि
होत्या तण्णते वद्धवे देवकुमाराय देवकुमारीतोय समणस्स भगवउ
महावीरस्स पुव्वभवचरिय णिवद्ध देवलोचरियणिवद्ध चवणचरिय
णिवद्ध च सहर चरियणिवद्धच जम्मणचरिय णिवद्धच अभिसेयचरिय
णिवद्धच बालभावचरियणिवद्धच कामभोगचरिय णिवद्धच मणचरिय
णिवद्धच तवचरणचरिय णिवद्ध च तित्तिय पवत्तणचरिय णिवद्ध च
परिणिव्वाणचरियणिवद्ध च चरम तरिय णिवद्ध च णाम दिव्व णट्ट
विद्ध उवदसेइ ३२ ततेणा ते वद्धवे देवकुमाराय देवकुमारीउय चउ

नामअष्ट विगत्तितम २५ भसोल नामएकीनवि शत्तम २६ । आरभइभसोल नाम वि शत्तम ३० ।
तदनन्तर मुत्पातनिपात पसत्त सकुचितपसारित रिवकारचित भान्तमम्भान्त नामएकीवि शत्तम
दिव्य नाटगविधि मुपदगवति ३१ । तदनन्तर च श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य चमरपूवमनुष्यभर
चरमव्यवन चरमगर्भसहरणचरमभरतचेत्तावसप्पिणीतीयकरजन्माभिपेकचरमवालभावचरमयीवन
चरमकामभोगचरमनि क्रमणचरमतएत्तरणचरमज्ञानोत्पादचरमतीर्थप्रवत्त नचरमपरिनिर्वागनि
वड । चरमचरमनिवड नामइवि शत्तम दिव्य नाटगविधिमुपदगवति ३२ । (तएण) मित्वाटि ।
तदनन्तर वद्धवी देवकुमारा देवकुमारिकाश्च नाटगविधिपरिममाप्तिमगलभूतं चतुर्विध वाद

कूटारपडवउ सकीचवउ तिरिक्ककूटापडवु' जाइवु आविवु कानपणु म मभट्टापणु एणइनामि
प्रधान नाटकविधि देपाडइनाटकशमु तिद्धारपकीतिह धया देवकुमार देवकुमारी सायइज
समोसरण करइएकठामिली वाज्जिवगीत सर्वकप्रधान देवनुग्मणु प्रवत्त चउ हुया तिद्धारपकी
तइ धया देवकुमार देवकुमारी श्रमण भगवंतमहावीरनउ पूर्वभवनइराजानुभवतेइनुचरिवत्तणइ
करीनिवडसहित इमजदेवलोकादसमइजेणसूवरिपइहु तातेणइ चरितइसहिततिहायकीजिमचउ
एहवइचरितनिवड देवाणदानीकुपथकीहरणेमेथीइसहराएइचरीव जन्मचरिवइ छपनदिसकुमारी
नाकरणी महेनइविपइचउसठिइट्टिजन्माभिपेकजिमकीधु बालभावीकीडाचगित कामभोगचरिव
निमपडिलापूवीइइएहवउचरिव टाजामहीत्सवचरिवइ सहित नपूजिमकीधुएहवइ चरितनइ
निवड केवलनानउपनु तीयप्रत्तावु वत्तुविधसंयजिमथापएएहवु चरिव जिममोहूचपुताइ ट्रादिक

विह वाउत्त वायति तज्ज्ञा तत वितत घणा भुसिर ततेण तेवह्वे
 देवकुमाराय देवकुमारीतोय चउव्विह गेय गायति तज्ज्ञा उक्खित्त
 पथत्त' मदाय रोदयावसाण च तत्तेण ते वह्वे देवकुमाराय देव
 कुमारीतोय चउव्विह णट्टविह उवदसेति तज्ज्ञा अचिय १ रिभिय
 २ आरभड ३ भसोल्लत्त ४ ततेण ते वह्वे देवकुमाराय देवकुमारी
 तोय चउव्विह अभिणाय अभिणवति तज्ज्ञा दिट्ठतिय पाडियतिय
 सामतोवाणियायय अतोमज्भावसाणिय ततेण ते वह्वे देवकुमाराय
 देवकुमारीतोय गोयमादियाण समणेण णिगु घाण दिव्व देवट्टि'

यति तद्यथा । तत मृदभापट्टहादिवितत वीणादिघन कसिकादि शुपिर शञ्जकाह्लादि ।
 तदनन्तरं चतुर्विध गीत गायन्ति तद्यथा उत्तिष्ठन्त प्रथमतः समारभ्यमाणं पादात्त पादवृद्ध
 वृडादि चतभागरूपपादबद्धमिति भावः । (मन्दाय)मिति मध्यभागे मूकनादि गुणोपेततया मन्द
 मन्दं धीलनात्मक रोचितावसानमिति रोचितं यथोचितलक्षणोपेततया भावित सत्यापितमिति
 यावत् अथवसानं यस्य तत रोचितावसान, ततोष्णमित्यादि तत श्चतुर्विध नत्त विधिसुपदशयन्ति
 तद्यथा अञ्चितमित्यादि । (तएण)मित्यादि । तत श्चतुर्विधमभिनय मभिनयन्ति तद्यथा ।
 दाष्टान्तिक प्रात्यन्तिक सामान्यतो विनिपात लोकमध्यावसानिकमिति एते नत्त विधयोऽभिनय
 विधयश्च नाट्यकुशलभ्यो वेदितव्याः । (तएणं)ते वह्वे देवकुमारा देवकुमारीउय) इत्यादि
 उपसंहारमूव सुगमम नवर, एकभूते इति एकभूत अनेकीभूत एकात्त्व प्राप्त इत्यर्थः । "नियग-
 परियालसद्धि सपरिवुडे" इति निजकपरिचारेण साहं सपरिवृत "भन्ते"त्ति भयवंगीयमेत्यादि ।

देवद निवाणमहीत्सवकीधु एह्वु चरिव भगवतनुक्केहलइचरिवइ निवइ चरम चरिवनिवइ नाम
 प्रधान नाटकविध देपाडइनाटकवतीसमु ३२ तिग्हारपक्षी तेहघणा देवकुमार देवकुमारी चिहू
 प्रकारइ वाजिव वजाडइ तेकइइइइ मादलपट्टहादि वीणादि तेकासकादि तिह्वारपक्षी तेहघणा
 देवकुमार देवकुमारी चिहूप्रकारइ गीत गातीसुयी तेकइइइइ प्रथमप्रारभलक्केइमध्यभागोमूर्ख
 नदिइकरीविहू चरणइवाधउ गुणइकरीयीलनीरुपययील्लत्तचणइ करीसहितपयीथकीरोचिताव
 सोनहुइइइइइइइइइइइ तिह्वारपक्षी तेह घणा देवकुमार देवकुमारी चिहू प्रकारि नाटकविधि
 नाटकविधि देपाडेक्के तेकहेक्के अचित अ चि तादियद ४ दिडि तादियद ४ एवपद आठनाटकग्र थ
 रिसितर थार भडइ भसोल ४ तिह्वारपक्षी तेहघणा देवकुमार देवकुमारी तिहू प्रकारइ अभिनय
 मस्कृतादिपइभापाइ वीलदेपाडइ तेकइइइइ इट्टातिकर प्रात्यतिकर सामतोपनिपातिकइ लोक
 मध्यावसानक तिह्वारपक्षी तेहघणा देवकुमार देवकुमारी गीतमादिकनइ थमथनइ निर्गुथनइ

भन्तवामन्वस्यपुरम्सर भगवान् गौतम शम्भं भगवन्तं महावीरं वदन्ति नमस्यति वन्दित्वा
 नमसित्वा एव वक्ष्यमाणकारिण्य श्वातीन्, पुनस्तकान्तरेतिदं वचनान्तरं इत्यते । "तेषां कालेषु
 तेषु समेषु समेषु भगवतो महावीरस्य चैव" अन्तर्वासी इत्यादि अथ ज्ञाप्या । तस्मिन्
 काले तस्मिन् समये शब्दी वाक्यासङ्काराधीं शम्भस्य भगवता महावीरस्य प्रेष्ट इति प्रथम
 अन्तर्वासी सिध्य । अनेन पदद्वयेन तस्य सकलसधाधिपतित्वमावेदयति । इन्द्रभूतिरिति
 मातृपितृकृते नामधेयं तस्मिन् प्राकृतत्वात् विभक्तिपरिधामेन नाम्नेति द्रष्टव्यमेव न्यत्रापि
 यथायोग्यं भवनीयम् । अन्तर्वासी च किं जिज्ञासाया आवकापि स्यादत स्तदायश्काञ्च
 च्छेदार्थमाह । अन्तर्वासी न विद्यत अन्तर्वासीस्यैव नगरा अथञ्चविगीतगोत्रोपि सम्भाव्यतात
 आह गौतमगोत्रेण गौतमाह्वयगोत्रमन्वित इत्यर्थे । अथच तत्कालोचितेण परिधानाद्येद्यया
 न्यूनताधिकारोपि स्यादत आह, सप्तोत्सध सप्तहस्तप्रमाणशरीरोक्षुयोऽयवेत्यं भूतानस्यहीनोपि
 यथ्येतातस्तदाय कापनोदायमाह । (समचतुरस्रमठायमविप) इति समाशरीरस्यस्यारखोक्तप्रमा-
 णाविस वादिन्याश्चतथाऽत्रयो यस्य तत् समचतुरस्रपरिचय चतुर्दिग्बभागोपलक्षिता शरीरा
 इत्यत द्रष्टव्या । अन्येताहु समा अन्तर्वासीस्य तस्योप्यययो यस्य तत् समचतुरस्रम् । तच्च
 तत् मर्यादाश्च संस्थाननाकार वामदक्षिणान्वीरन्तरम् । आसनस्य ललाटी परिभागाय
 अन्तर वामरज्यस्य वानजानुनश्चान्तरम् । वामरज्यस्य दक्षिणजानुनश्चान्तरमिति । अप
 र्देवाशुर्विस्तारोत्सधयो समवात्, समचतुरस्रम् । तच्च तत् संस्थान संस्थाननाकार गतं मरिचयो
 यवस्थिता य म तथा "आवउद्गाण उद्देह" इति याजु करवात् "वज्रजि सह मध्यखेकक्षग
 पुनगतिवमप्यङ्गोरे उगुतवे दित्ततवे तत्तवे महाभवे उरान धीरे धीरगुणे धीरतवासी धीर
 भोरेवासोऽ उटसरीरे मधत्त विपुनते अनेम चउटसपुन्वी चउथाशोवगण सव्यक्षरसपिषवाइ
 समसम नगवतो महावीरस्य अदूरसान्तं उद्देह ज्ञाषु अही" मिरब्भाष काङ्क्षोराय सन्नमेथ
 तदसा अथाब्भात् माव मावे विहरद । तर्थासं भगव गीयसंज्ञाय सद्दे जाय ममएजाय काङ्क्षेन
 प्रथमसन्ने संज्ञाय सप्त संज्ञायकोक्तने समुप्यस्यसंसेय समुप्यस्यकोक्तने उद्देह उद्देह
 इति द्रष्टव्यम् तत्र नारी उ मुभ यती मर्जटवन्ध अपम स्तदुपरिवेष्टनपद् । कीनिका
 अस्थि च यस्यापि मंदकमस्थि एव रूप मङ्गनं तस्य य तथा कनकस्य सुवस्य पुनकीनवभ्रताय
 वानिद्वयः कषापहर्कं रवाहप तथा पद्मगुण्णेन पयकसरावयुच्यते । अथयवे समुदायोपचारात्
 यथा देवदत्तस्य इत्यागुण्णोऽवयवोपि देवदत्त । तथा च देवदत्तस्य इत्यागुण्णोऽवयवोपि देवदत्त
 स्युद्धो मया देवदत्त इति कनकपुलकनिर्जपवत् । पद्मवत्त्वया गौर म कनकपुनकनिर्जप
 पद्मगौर अथवा कनकस्य य पुनकी द्रववत्त सति बिन्दुस्तस्य निकषो वदत सहस्र । कनक
 कनिर्जप तथा पद्मगुण्णोऽवयवोपि देवदत्त, तत यदयस्य कामंधारय समास, अथ च विभिष्ट
 अथर्थात् तस्मिन् यथा तत आह "उगुतवे" इति अगमपुण्य तपोऽनमनादि यस्य म तथा यदन्तेन

प्रकृतेन पु सा न शक्यते चिन्तयितुमपि मनसा विविधेन तपसा युक्त इत्यर्थं , तथा दीप्त ज्ञानवन्तं
मान दहनइव कम्बनगहनइहनमनर्थं स्तथा ज्वलित तपो धर्मध्यानादि यस्य स तथा, "तत्त-
तवे" इति, तप्त तपोयेन स तप्ततथा एव हि तेन तप्ततप्त येन सव्याप्यपि अशुभानि कर्माणि
भस्मसप्तकृतानीति, "महातवे" इति महान् प्रगल्भ प्रधानम् अथवा उरावो भीष्म । उरगादि
विशेषण विशिष्टतप करणत पाश्वस्थानामल्पसत्वानामतिभयानक इति भावः, तथा घोरौ
निर्मुक्त परीषहीन्द्रियादि रिपुगण विनाशनमधिकृत्य निर्दय इति यावत् तथा घोरा अन्यैर्दुर्नुचरा
गुणादयो यस्य सघोरगुणः । तथा घोरस्तपोभि स्तपस्वी घोरस्तपस्वी "घोरव भवेत्वासी" इति घोर
दारुणमल्पसत्वेर्दुर्नुचरत्वात् । नृपचर्यं यत् तव वस्तु शील यस्य स तथा । "उकूट सरीरे"
इति उकूटमुज्जितमिव उज्जित सस्कार परित्यागान् शरीर येन स उकूट शरीर "मखिच विवस
तेउलेसे" इति सच्चिदा शरीरान्तर्गतत्वेन अस्त्रतद्व्यता विपुला विस्तीर्णा अनेक योजनप्रमाण
चेवाश्रित वस्तुदहन समर्थत्वात्, तैजोलेश्या विशिष्ट तपोजन्य लब्ध विशेषप्रभातेजोज्वाना
यस्य स तथा "उदसपुञ्जी" इति चतुर्हंसपुञ्जाणि वियन्ते यस्य तेनैव तेषां रचितत्वात् अमी
चतुर्हंसपूर्वी अनेन तस्य श्रुत केवलतामाह सचावधिघानादिविकलोपि स्यादत आह च "उत्ताथो
वगए" मतिश्रुतावधिमनः पर्यय ज्ञानरूप ज्ञानचतुष्टय समन्वित, उक्तविशेषणइय युक्तीपि कश्चि-
न्नसमग्रश्रुतविषयव्यापिज्ञानो भवति, चतुर्हंसपूर्वविदामपि पङ्गानेपतित्वेन समन्वित
आह, सत्वाचर सन्निपाता अक्षराया सन्निपाता मयोगा अक्षरसन्निपाताश्च सत्वाचर सविष्ण-
पातास्ते यस्य ज्ञेयाः स तथा-किमुक्त भवति, या काचित् जगतिपदानुपूर्वी वाक्यानुपूर्वी वा
सम्भवति ता सर्वा अपि जानातीति, एव गुणविशिष्टो भगवान् विनयरामिरिव साक्षादिति
कृत्वा शिष्याचारत्वाच्च श्रमयस्य भगवतो महावीरस्यादूरसामन्ते विहरतीति योय । तत्र
दूर विप्रकृष्ट सामन्त सन्निकृष्ट तत्प्रतिषेधाद् दूरसामन्त ततो नानिदूरे नातिनिकटे इत्यर्थः ।
किं विशिष्टं सन् तत्र विहरतीत्यत आह "ऊढ जाणू अहोसिरे" ऊढ जानुनीयया सा वूर्द्धजानु ।
अथ शिरोनोर्दन्तिर्बद्धा विचिप्नइष्टि किन्तु नियतो भूभागनियमितदृष्टिरित्यर्थः । "आणकी-
होवराए" इति ध्यान धर्मध्यान शुक्लध्यान च । तदेव कीष्टकुमूलोध्यान स्तमुपगतोध्यान
कीष्टीपगतो यथा हि कीष्टके धान्य प्रचिप्तम् विप्रमृत भवति एव भगवानपि ध्यानतोऽविप्र
कीष्टेन्द्रियान्तकरणवृत्तिरित्यर्थः । सयमेन पञ्चाश्वनिरोधादिलक्षणेन तपसा अनशनदिना
च शब्दोव समुच्चयार्थोऽनुप्लवो द्रष्टव्यः । सयमतपोगगण मनयो प्रधानमीर्षागतादृयापनाद्य
प्राधान्यं च सयसय न च कम्मजानुपादान हेतुत्वेन तपसश्च पुराणकर्मनिर्हरा हेतुत्वेन तथा हि
अभिनव कम्मजानुपादानात् पुराणकम्मक्षयणाच्च जाइते सकलकर्मक्षय लक्षणे मीच । ततो
भवति सयम तपसोमीच प्रतिप्राधान्यमिति "अप्याण भावे माणे विहरइ" इति आत्मान वासयन्
तिपन्ति "तएण"मित्यादि ततो ध्यानकीष्टीपगतविहरणे तदनन्तर अमिति वाक्यालङ्कारे

देवजुत्त दिव देवणुभाव दिव्व वत्तीसइवइ नाइय उवदसित्ता
 समण भगव महावीर तिक्वूत्तो आयाहिणा पयाहिण करेइ करेत्ता
 वटइ नमसइ वदित्ता णमसित्ता जेणोव मूरियाभेदेवे तेणोव उवागच्छ
 ति २ त्तामूरियाभेदेव करियल परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थएयज
 लिकटू जएणा विजण्णं वहावेति वहावेत्ता एवमात्तिय पच्चपिण्णति
 तएणाम्मे मूरियाभेदेवे त दिव्व दिवइ देवजुइ दिव्व देवाणुभाव पडिसा
 हरेत्ता खुणेण जातेएगीयभूए ततेणामे मूरियाभेदेवे समण भगव

भगवान् गीतमो "जाइसइ" इत्यादि । जातश्रद्धादिविग्रेषणविशिष्टं सन् उत्तिष्ठतीति योग ।
 तत्र जातप्रवृत्ता श्रद्धा ईच्छा वक्ष्यमाणार्थतत्वावगम प्रति यस्यासौ जातश्रद्ध । तथा जात
 समयो यस्य स जातसमयः, समयो नाम अनवधारितार्थज्ञान स चैव इत्य नामास्य दिव्या
 देवद्वि विमृता अभवदिदानीं सास्त्रवर्तति तथा जायकुतूहली इति । जात कुतूहल यस्य स जात-
 कुतूहल जातोत्सुक्य इत्यर्थः । यथा कथममुमर्थं भगवान् प्रतिरूपयिष्यति । तथा "उप्पएण
 सइ" इति उत्पन्ना प्राग्भूता मतीभूता श्रद्धा यस्यासौ उत्पन्नश्रद्ध । अथ जातश्रद्धाइत्ये
 तदेवास्तु किमथमुत्पन्नश्रद्ध इति । प्रवृत्तश्रद्धत्वेनैवोत्पन्नश्रद्धत्वस्य लब्धत्वात् । न हि अनुत्-
 पन्नाश्रद्धा प्रवर्त्तते इति अवीच्यते हेतुत्वं प्रदर्शनार्थं तथा हि कथं प्रवृत्तश्रद्धोच्यते । इति
 हेतुत्वं दग्धन चीपयनं, तस्य काव्यालक्षकारत्वान् यथा प्रवृत्तदीपा प्रवृत्तभास्करा प्रकाशश्च द्वा
 वुधे विभावरीमित्यव अथ हि यद्यपि प्रवृत्तदीपादित्वादेवाप्रवृत्तभास्करत्वमवगत तथाप्य
 प्रवृत्तभास्करत्वं प्रवृत्तदीप्तत्वादेहतु स्तोयोपन्यस्तमिति सम्यक् "उप्पएण सइ उत्पणससये" इति
 प्राग्बत् तथा "सजायसइ" इत्यादि पदवच्च प्राग्बत् नवरमिह सम शब्दं प्रकपादि वत नीवेदि
 तव्यः "उहाए उट्टेइ" इति । उत्पानमुत्था ऊढं वत्त न तथा उत्तिष्ठति इइउट्टेइइइत्युक्त क्रिया-
 रम्भ मात्रमपि प्रतीयेत यथा वक्तुमुत्तिष्ठते तत स्तदव्यवच्छेदाद्यसुधाद्येत्युक्त "उत्थया उत्थाय
 जेणेवे"त्यादि यस्मिन् दिग्भागे श्रमणो भगवान् महावीरो वर्त्तते तेणोवेति तस्मिन्नेव दिग्भागे

प्रधान देवनीच्छद्वि देवनियुत्तिकातिप्रधान देवनुसामर्थपणु देवसवधी वलीसवइ नाटक देपाडीनइ
 धमण भगवत महावीरनइ, वयिवेला दक्षिणपामाथीमाडिप्रदक्षणाकरइ करीनइ वाटइ नमस्कार
 करइ वाणीनइ नमस्कारकरीने जिहा मूयाभ देव तिहाजाइ तिहाजइनइ मूयाभ देवप्रति विइहा
 यिकरीनीपनावुमस्तकइ थावत्तं प्रदक्षिणाहूप मस्तकइ अजलीकरी जय विजयकडीवधावइ पूर्वाक्त
 नाटकनीथात्ता ऊपराठीमुपइ तिहारपडी तेह मूयाभ देव तेहदेवसवधी देवनी च्छद्वि देवनीज्जूति
 कातिप्रधान देवनुसामर्थपणु ऊपराठूनइ चषमात्रमाहिइउ एकजुत अनेकहुइनइ एक हुउ तिहा

महावीर तिव्खूत्तो धायाच्चिण' पयाच्चिण करेइ वदइ णमंसति
 वदिता नमसित्ता नियगपरिवालसिद्ध सपरिवुडे तमेव दिव्व जाणे
 विमाण दुसुद्धिता जामेवदिस पाउज्झूया तामेवदिसपडिगया भतेति
 भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसति २ एववयासी
 मूरियाभस्सण भते देवस्स एसा दिव्वा देवट्ठी दिव्वा देवजुत्ती दिव्वे
 देवाणुभावे कच्चिगतेकच्चि अणुपविट्ठे गोयमा सरीर गते सरीर अणु
 पविट्ठे सेकेणट्ठेण भते एव वूव्वेइ सरीर गते सरीर अणुपविट्ठे गोयमा
 सेज्जहाणामए कुटागारसाले सिया दुद्धतो गुत्तलित्ता गुत्तदुवारा .

उपागत्य च थमम्बं विकृत्वा स्त्रीन् वारान् आदच्छिप्रदच्छिणीकृत्य वन्दते नमस्यति वन्दिता
 नमस्यित्वा एव मवादीत् । (मूरियाभस्सण भन्ते) इत्यादि (कच्चिआए) इतैक्कगत । अन्तरप्रवेश
 भावेपि दृष्ट यथाभित्तौ गता भूलिरिति एषोपि दिव्यानुभावे यद्येव क्वचित् प्रत्यासन्नं प्रदेम
 गतं स्यादत दृश्येत न चासौ दृश्यन्ते ततो भूय पृच्छति । (कच्चि अणुप्पविट्ठे) इति क्वानुप्रविष्ट
 क्वानुलीन इति भावः । भगवानाह गौतमशरीरं गतं शरीरमनुप्रविष्टं पुनः पृच्छति (सेकेणट्ठे ष)
 मित्यादि । अथ केनाथेन केनहेतुनाभदन्तएव मुच्यते शरीरं गतं शरीरमनुप्रविष्टो भग-
 वानाह गौतम (सिज्जहानामए) इत्यादि कूटं ह्येव पर्वतशिखरस्थैवाकारो यस्याः सा कूटाकारा यस्या
 उपरि आच्छादनं शिखराकारं सा कूटाकारेति भावः । कूटाकारा चासौ शाला च कूटाकार शाला
 यदिवा कूटाकारेण शिखराकृत्योपलक्षिता शाला कूटाकार शालायास्यात् (दुद्धतो गुत्तित्ता) इति
 बहिरतश्च गोमयादिना लिप्ता बहिः प्राकारवृत्ता गुप्तद्वारा द्वारस्थगनात् यदि गुप्तागुप्तद्वारा केया
 चित् द्वाराणां स्थगितत्वा केपाञ्चिच्चस्थगितत्वादिति निवाता वायोरप्रवेशान् । किल महत्
 गृहं निवातं प्रायो न भवति । तत आह निवातगम्भीरानिवाता सती विशाला इत्यथः । तत

रपञ्जी तेहवी मूर्याभदेव थमण भगवत महावीरप्रति वणिवेला दच्चिणपासाथीमाडीप्रदच्चिथा करइ
 वादइ नमस्कारकरइ वादीनइ नमस्कारकरीनइ पीतानइपरिवारसाथइ परवरुज्जुकुं तेचीज प्रधान
 याव विमानइ कइमीइ जेइदसियी प्रगट्ठूचआव्युहूच तेह्दिदिसि प्रतिऊपराठउयु हे पूज्यएइवी
 संबोधनकरी भगवत गौतमस्वामि थमण भगवंत महावीरप्रति वादइ नमस्कारकरइ नमस्कार
 करीनइ इमकीलतुहूच मूर्याभनी हे पूज्यदेवनी एइ प्रधान देवनिवट्ठि प्रधान देवनीज्जुत्तिकानि
 प्रधानदेवनुमामर्थपणु कइ किहा प्रवेशकीधु भगवतकइइइहेगौतम सरीरमाहि गयुं सरीरमाहि
 प्रवेशकीधु तेहकेइइकारणइ हे पूज्यइमकहीइइइ सरीरमाहि गयु सरीरमाहिप्रवेशकीधउ
 भगवतकइइइहेगौतम तेह यथादटांतइ कूटनइयाकरइसालीमीटीत्यथ पूपा वुप वेरकटइकरी

णिवाया णिवायगभीरा तीसेण कूडागारसालाए अदूरसामते एत्थण
 महेण जणसमूहे चिद्धं ततेणसे जहाणसमूहे एगमह अब्भवइलवा
 गवा वासवइलवा महावाय वाएज्जमाण पासति पासित्ताण कूडा
 गारसाल अतो २ अणुपविसित्ताण चिद्धं सेतेणहेण गोयमा एव
 चूव्वरि सरीर अणुपविद्धे कइण भते मूरियाभस्स देवस्स मूरियाभे
 णाम विमाणे पएणत्ते गोयमा जव्वहीवे २ मदरस्स पच्चयस्स
 टाहिणेण इमासेरयणप्पभाए पुठवीण वहुसमरमणिज्जभातो भूमि
 भागातो उट्ट चदिम सूरिय गहगण णक्खत्त तारावुवाण वहुहि
 जोयणसयाइ एव सहस्साइ सयसहस्साइ वहुउ जोयणकोडितो

स्तस्या कूटाकारगालावा अदूरसामन्ते नातिदूरे निकटे वा प्रदेशे महान् एकोऽन्यत्रो जन
 सन् इति स्थितिः, स च एक महत् अभूत् कूर्पु वादल मभुवादल धारानिपातरहित सम्भाव्य वष
 मार्लममित्यर्थे, वर्षप्रधान वादलकवर्ष कुर्वन् वादलक महावात(वाएज्जमाण)मिति आयन्त गच्छत
 पश्यति दृष्ट्वा च त कूडागारसालान्ति पट्टागर्थे द्वितीया तस्या कूटाकारगालाया अन्तर ततो
 ऽनुप्रविशति तिष्ठति, एव मूयाभस्यापि देवस्य सा तथा विशाला दिव्या देवद्युतिदिव्योदेवानुभावः
 शरीरसन्प्रविष्ट । (तए पट्टेण)मित्यादि अनेन प्रकारेण गीतम एवमुच्यते मूरियाभस्येत्यादि ।
 भूया गीतम पुच्छति (कइण भन्ते) इत्यादि, क्वमूयाभस्य देवस्य मूयाभ विमान प्रज्जत्त भगवा-
 नाइ, गीतम अस्मिन् जम्बूद्वीपे वो मन्दरपवत स्तस्य दक्षिणतोऽस्या रत्नप्रभाया पृथिव्या बहु-
 समरमथीयात् भूमिभागादूह चन्द्रमूर्यगुहजन्तवताराकपाषामपि पुरतो बहूनि योजनगतानि ततो
 बुद्धा, बहु बहुतरोत्प्लवनन बहूनि योजनसहस्राण्येव मेव बहूनि योजनसहस्राणि एवमेव च

वाटीहूइवाणइ लीपीहूइ कमाटइ करीमाहिवायनुप्रवेशनहूइ हारटांकाहूइ निर्वातयकीमाहिचडी
 हूइ तेइ कूडागारसालायकी अतिवेगनु नही अतिटुकहुनही इहा एकमोटच मनुष्यनूसमूहटीलउ
 रइइइइ तिष्ठापथी तेइजनसमूहे एकमोटु आभलाइपवादलु वृष्टिरहितवादलु अथवा वरिसतु
 वागनु महावायप्रतिआवउ धनु देपइ दीपिनइ कूडागारसाल माहि माहि पीइसीनइ रइइ
 तइ तिथइकारणे हे गीतमा एकहोइ सरीरमाहिगयु सरीरमाहिप्रवेशकीधू किष्ठा हे पुज्य
 मूर्यभिनउ देवनु मूर्याभ नाम विमान कछु भगवतकइइइइ हे गीतम जव्वहीपमाहि मेहनइ
 पञ्चतनइ दाक्षिणदसइ एहतेइरत्नप्रभानउ पृथवीनउ धणउ समरमथीक भूमिनउभाग तेइ
 पक्कीउउ इमा मूर्य गुहगण अइपासागुइ नचवधठावीस ताराकपइ आगलि धया जोयननासइ

बहूउ जोयण सहस्स कोडाउ उठ दूरवातीवाइत्ता एत्थणं सोइम्मं
 णाम कप्पे पणणते पातीण पडीणाएयायते उदीण दाहिण वित्थिणे
 अइचदसट्ठाण सधित्तं अच्चिमालि भासससि वणाभे असखे ज्झातो
 जोयणकोडीकोडीजपरिखवेण तत्थण सोइम्माण देवाण वत्तीस
 विमाणावास सयसहस्साइ भवतीतिमक्खाय तेण विमाणा सव्व
 रयणामया अत्था ज्ञाव पडिक्खा तेसिण विमाणाण वहुमज्झ
 देसभाग पचवडिसया पणणत्ता तज्जा असोगवडिसते सत्ते वणण

बद्धीर्योजनकीटीकूड दूरमुत्प्लुत्य अथ साङ्गरघुप्रमाणे प्रदेशे सोधर्मनामकल्प प्रज्ञप्त स च
 प्राचीनी पाठीनायत पूवापरायत इत्यर्थ । उदग्दक्षिणविस्तीर्णोऽहं चन्द्र सस्थानसस्थितौ दो द्वि
 सोधर्मेशानदेवलोकी समुदितौ परिपूर्णचन्द्रमण्डलसस्थानसस्थितौ तयोश्चमेरोर्दक्षिणवर्त्ती सोधर्म
 कल्प उत्तरवर्त्तोऽश्मानकल्प स्ततो भवति । सोधर्मकल्पोऽहं चन्द्रसस्थानसस्थित । (अच्चिमाली)
 इति अच्चानिकिरणानि तेषा माला अर्चिमाला अस्यास्तीति अचिमाली किरणमाला सकुलइत्यथ ।
 असह्येया योजनकीटिरायामविष्कम्भेणन्ति आयामश्च विष्कम्भश्चायामविष्कम्भ समाहारी
 दन्दस्तेन आयामेव विष्कम्भेनेवेत्यर्थं, असह्येया योजनकीटीकीटी परिच्छेपेण परिधिना "सध्वरय-
 णामए" इति सवात्मना रत्नमय "जावकूवे" इति यावत्करणात् "अथे सपहे धहे महे" इत्यादि
 विगेषणकदम्बकपरिगुह (तत्थण)मित्यादि, तत्र सोधर्म कल्पे द्वानि शदिमानशतसहस्राणि
 भवन्ति इत्याख्यात मया शेषेश्च तीर्थकृद्भि (तेण विमाणा)मित्यादि । तानि च विमानानि सूवे
 पुत्र प्राकृतत्वात्, सवरत्नमयानि सामस्त्येन रत्नमयानि अर्क्षानि आकाशस्फटिकवदतिनिर्मलानि
 यवापि यावत्करणात् "सपहा लयहा धडामहानीरइ" इत्यादि विगेषणजात द्रष्टव्यम् । तच्च
 प्रागेवानेकगो व्याख्यात (तिसिण)मित्यादि, तेषा विमानाना बहु मध्यदेशभागे तयोदश प्रस्तटे
 सर्वेवापि विमानावतसकाना स्वस्वकल्पचरमप्रस्तटवर्त्तित्वान् पञ्चावतमका प्रज्ञप्ता एतद्यथा
 अशोकावतंसकी शोकावतंसक नाम स च पूर्वस्या दिशि ततो दक्षिणस्या सप्तपर्षावतमक, पश्चि
 कडा इमजोयननासहस्र योजननालाप घणा योजननकौडि घणा योजननीलाप काडिप्रति
 उचु वेगलु मु कीनइ सोधर्म नामकल्पदेवलीक कहुँउ इइ तेहसोधर्मादेवलीकपूर्वपक्षी लाव
 पणइउत्तरनइदक्षिणइविणयुहुपणि अइ चद्रसस्थान आकारइकइ किरणनइ समूहइ करीत्यात्
 कइ असह्यता योजननीकीडाकीडि परिच्छेपइपरइइकइ तिहा सोधर्म देवना ववीसविमान रूप
 आवासनालापएतलडवतीसनासविमानकइ भगवतकहइइमन्कध्यातेह विमानसमत्तरत्नमयकइ
 निमसकइधडारासटांग्गै विशिष्टरूपकइ तेह विमानइ धणउ मध्यदेशभागइ पाचविमानावत

वडिसए चंपगवडिसते चूथगवडिसए मज्जे सोहम्मवडिसए तेगा
 वडिसगा सव्वरयणामया अत्या जावपडिक्खा तस्सणा सोहम्मवडि
 सगस्स मज्जाविमाणस्स पुरित्थिमेणा तिरियमसखेज्जाद्द जोयणाद्द
 सल्हासहस्साद्द वाईवद्द वद्द चाएत्थणा मूरियाभस्स देवस्स मूरि
 याभे णाम विमाणे पणणत्ते अद्दतेरस जोयण सयसहस्साद्द आयाम
 विक्खभेण उप्पणालासचयसहस्साद्द वावयण सहस्साद्द अडयाल
 आडजोयण सत्तेपरिक्खवेण सेणा एगेणा पागारेणा सव्वउ समंता
 सपरिखित्ते सेणा पगारे तिरिय जोयण सयाद्द उट्ट उच्चत्तेण
 मूलेएग जोयणासय विक्खभेण मज्जेव पणणास जोयणाद्द विक्ख

भाया चम्पकावतसक उचरस्या वृतावतसकी मध्ये सीधर्मावतसक स्ते च पञ्चापि विमानावतसका
 सवरत्नमया (अत्या जावपडिक्खा) इति यावत्कारणादत्रापि “सण्हा घट्टामट्टा” इत्यादि विशेषण
 ज्ञातमवगन्तव्यम् । तस्य च सीधर्मावतसकस्य पूर्वस्यां दिशि तिर्यक् असफ्येयानि योजनगत
 सहस्राणिष्यन्ति ब्रज्यातिक्रम्याव मूयाभस्य देवस्य मूयाभ नाम विमान पत्रप्लम्, अद्दवयीदश
 येपा तानि अद्दवयीदशानि साठानि षाडशेत्यथ, योजनगतसहस्राणि आयामविक्कभेन च
 एकीनचत्वारिंशत् योजनगतसहस्राणि द्विपञ्चाशत्सहस्राणि अष्टी च योजनगतानि अष्टात्वारिं-
 शानि अष्टीचत्वारिंशदधिकानि । ३२५२८८८ किञ्चिद्विशेषाधिकानि परिच्छेपेन परिधिना, इदञ्च
 परिच्छेपपरिमाणं “विक्कभवग्गदहगुणकरणीवट्टस्सु परिरउहोद्द” इति करणवशात्त्वं स्वयमानं
 तव्य सुगमत्वात् (सिण्णणेण)मित्यादि तत् विमानमेकेन प्रकारेण सर्वत सर्वासु दिक्षु समन्तत
 सामस्येन परिच्छिन्न (सिण्ण पागारे) इत्यादि, स प्राकारस्त्रीणियोजनगतान्युद्द मुच्चस्वेन मूले एक
 योजनगत विक्कभेन मध्यभागे पञ्चाशत् मूलादारभ्य मध्यभाग यावत् योजनयोजने योजन

सकवीजाविमानीअपेचाइमुकुटप्रायकद्धा तेकइइइइ असीकावन सक सप्तपणी१ वतसकर
 चपकावनसकर आमवतसक एहचिहू वचइ सीधर्मावतसक तेहपाचइअ वतसकविमान समस्त
 रत्नमयकइ निर्मलकइ घठारामाठाराकइ असाधारणरूपकइ तइ सीधर्मावतसकनइ मज्जाविमान
 नइ पूर्वइतरिक्ख अस्पयाता योजननी लावइ अतिक्रमाइग्रिक ईर्हा मूयाभनउ देवनु मूयाभ
 नाम विमान कण्ठउ तेहविमानमाटावारवार लास्रयोजनइ लबपणइ अनइ पुहुलपणइ एगुण
 चालीसलाप वावययसहस्र अठतालीसअधिकआठसइ योजन परिच्छेपइ परिधइइतेह विमान
 एकइ गटइ करी सवलइ चउपपेर धीटउ छउ तेह गट वणिसइ योजन उचु उ चपणइइण

भेण उप्पि मणुवसिजोयणाद् विक्खभेण मूलेवित्थिणे मज्झे सखित्ते
 उप्पतणुते गोपुत्थसद्दाया सठिए सव्वरयणामए अत्थे जावपडिक्खे सेण
 पागारेण णाणाविहं पचवण्णेहि कविसीसतेहि उवसोभिते तज्जा
 किएहेहि णीलेहि लोहितेहि हानिदेहि सुकिल्लेहि कविसीसपहि
 तेणकविसेसगाजोयण आयामेण अट्टजोयण विक्ख भेण देसूण जोयण
 उट्ट उच्चत्तेण सव्वमणिमया अत्याजावपाह्खुवा मूरियाभस्सण विमा
 णस्स एगमेगाए वाहाए दारसहसहस्स भवतीतिमक्खाय तेण दारा
 पचजोयणसयाद् उट्ट उच्चत्तेण अठाइज्जाइ जोयणसयाद्

त्रिभागस्य विष्कम्भतस्तुटितत्वात् उपरिमस्तके पञ्चविंशति योजनानि विष्कम्भेन मध्यभागा
 दारभ्योपरितनमस्तक यावत् योजने योजनपट्भागस्य विष्कम्भतोहीयमान तथा लभ्यमानत्वात्
 अतएव मूले विस्तीर्णा मध्यसच्चित्रा पञ्चाशती योजनाना तुटितत्वात्, उपरितनुक पञ्चविंशति
 योजनमात्रविस्तारात्मकत्वात् अतएव गोपुच्छसस्थान मस्थित (सव्वरयणामए अत्थे) इत्यादि
 विशेषणजात प्राग्वत् । (सिष्पागारे) इत्यादि स प्राकारे (णाणाविहं पञ्चवण्णे) इति, नानाविधानि
 च तानि पञ्चवणानि च नानाविधपञ्चवणानि तै नानाविधत्व च पञ्चवणापेक्षया द्रष्टव्यम् ।
 कृष्णादिवण्यतारतम्यापेक्षया वा । पञ्चवणत्वमेव प्रकटयति (किएहे हि) इत्यादि । (तेण कविसेसगा)
 इत्यादि । तानि कपिशिर्पकाणि । प्रत्येकं योजनआयामेन अट्ट योजनविष्कम्भेन देसेन
 योजनमुच्चैस्तर (सव्वरयणामया) इत्यादि विशेषणजात प्राग्वत् (मूरियाभस्सण) मित्यादि एकैकस्या
 वाहाया दारसहस्रमिति सवसख्यया चत्वारि दारसहस्राणि तानि च दाराणि प्रत्येक पञ्चशत-
 योजनान्युहं उच्चैस्तरैर्न अहं तृतीयानि योजनगतानि विष्कम्भत ताचइयचेवैत्ति, अहं तृतीयान्देव

तेहगट मूल एक सु योजणं पुहूलु मध्यभागाद् पचासी योजन पिहूलपणइ ऊपरि पक्खीसमि
 योजन पिहूलपणइ नेगमूटाइ विस्तीर्णपहूलउ मध्यइ पातलउ ऊपरिघणु जपातलु गायनीपु क्खनइ
 मस्थानइसस्थितवइ समस्तसुवर्णमयइइ निमलइइघताउउमठारउ भलु रुपइइ तेइ गठ अनेक
 प्रकारनइ पंचवणमणिमय कीसीसइकरी सीमितइइ तेकइइइइ कालइ नीलइ रातइ पीलइ
 म्वेतवर्णइमणिनइ कीसीसइकरीतेइगठसीभइइइ तेण कीसीसा एक जोयन लावपणइ अइजोयन
 पहूलपणइ काइकउणु जोजन क चा ऊचपणइ समस्तमणिमयइइनिमंलइ घटारांमठारांइइ
 विगिष्टइइ मूर्याभनइ विमाननइ एकेकीइ पूर्वाइसिइ द्वारिरसहस्रघोपिज्जे एतलइचिडू दसिमिजी
 च्यारसहस्रघोपिज्जेतीर्थ करइकइउ तेइ दार पांचसयजोयण उ चा उचपणइ अठाइ जोयनसय

विक्रमभेण तावदय पवेसेण सेया वरकणग मृपिभि यागा ईजा मिय
उसभ तुरग णर मगर विहग वालग कियणर रुव सरभ चमर कुजर
वणलय पउमलय भत्तिचित्ता ख'भुग्गयवयरवेइया परिगयाभिरामा
विज्जाहर जमलजुयल जतजुत्ताविव अच्चिसइस्समालिणीया रुव
गसइस्सकलिया भिसमाणा भिब्भिसमाणा चक्खूलोयणलेसामुह
फासाससिरीयरूवा वणोदाराण तेसितोइ तज्जा वडरामयाणेमा
रिद्धामया प्रतिहाणा वैरुलियामयाखयरखभा जायरूवोवविय पवर

योजनशतानि प्रवेशत । (सेया)इत्यादि तानि च द्वाराणि सखाण्यपि श्वेतानि श्वेतवर्णयेतानि
बाहुइयेन। करत्नमयत्वात्, (वरकणगमृभियागा) इति वरकनका वरकनकमयी स्तूपिका शिखर
येषा तानि तथा । (इजाभिगउसभतुरगणरमगरविहगवालगकियणररुवसरभचमरकुजरवखलय
पउमलयभत्तिचित्तासमुरगयवरवेइया परिगयाभिरामा विज्जाहरजमलजुयलजन्तजुत्ताविव
अच्चिसइस्स मालिणीयारूवगसइस्स कलियाभिसमाणाभिब्भिसमाणा चक्खुल्लोयणलेसामुहफासा
ससिरीयरूवा) इति विशेषणजात यानविमानवद्वायनीयम् । (वणोदाराणतेसितो) इति तेषा
द्वाराणां वर्णं स्वरूपव्यावर्णनमयं भवति । तमेव कथयति (तज्जे)त्यादि तद्यथा (वडरामयाणेमा)
इति नेमानामद्वाराणां भूमिभागा दूर्ह'न्निक्कामन्ता' प्रदेशास्ते सत्वे वज्रमयावज्जरत्नमया, वज्र
शब्दस्य दीर्घत्वं प्राकृतत्वात् एवमन्यथापि द्रष्टव्यम् । रिष्टमयानि रिष्टरत्नमयानि प्रतिस्थानानि
मूलपादा', (वैरुलियमया खम्भा) इति वैदूर्यरत्नमया स्तम्भा' । (जायरूवोववियपवर पउचवयण

पिहूलपणइ तैतलउ ज प्रवेशअडीसयजोयननुप्रवेश स्वैतप्रधानकनकमयी सिखरकइजेहद्वारनां
वलीतेद्वारकेहवाकइ परगडा वृषभ अश्रव मनुप्य मगरमइ पखी सर्प देवता मृग अष्टापद चमरी
गाइ हस्ती अश्वीकादिवेनलता पद्मलता एषीभीतिकरीविचित्रकइ धमकपरिवर्त्ति'नि प्रधानवज्र
मइवैदिकायाभा उपलासिरा तथाइकरीसहितमनीहरकइ विद्याधरनु यपयुगलसमश्रिणि रचित
जोडउ पइवु यवयोग तेषइकरीजाषीइसहितजनीउत्तं चलकार किरणनइसइस्समीभताकइ
रूपनइसइस्सइ युक्तकइ दीप्यमानकइ विशेषपणइ देदीप्यमानकइ सस्नेहपणइजीवानीग्यपणा
यकीजाषीइनेवनइआलगनलेतानधी सुकमालफरिसतेहनउ सीभावतरूपकइजेहनी वर्णकदानउ
तंवनु कइ तैकइइकइ तंइद्वारनइवज्रमयीनामकैभूमिभागधीउचीनीकलती प्रदेशतेनामकइयइ
रिष्टरत्नमय प्रतिष्ठानकै मूलपायाइइत्यर्थं वैदूर्यरत्नमय मनीहरयाभाके सुवर्णइकरीउचितयूक्त
प्रधान पाचवर्णं मणिचंद्रकातादिरत्नमुकूर्तनादि तेषइकरीवाधउकुदिमतनु भूमिनउ जेइनुइस
तलइनु पूणाउटली कृष्णनतिकप्रमाणइकइ, ससीयासथानीपरिगोमालीवाउडलातेहीपिण तैतला

पञ्चवर्णा मणिरयण कुट्टिमतला इसन्भमया एजूया गौमेज्भमया
 इट कीला लोहियक्खमई दारचेडाउ जोई रसामयाउत्तरगा वे
 लिया मया कवाडा लोहियक्खमतीतीरणासुतीतो वड्ढरामया सधी
 णाणामणिमया समुग्गा वड्ढरामया अग्गलाअग्गलपासाय वड्ढरामयी
 तो आवत्तणपेठियाउ अकुत्तरपासगा शिरतरीय घणकवाडा भित्ती
 मुचेव भित्तिगुलिया छप्पणत्तिगुलियाहोन्ति गोमाणसियात्तिया

मणिरयण कुट्टिमतला) जातरूपेण सुवर्णेनीपवितै युं कै प्रवरै प्रधानै पञ्चवर्णैर्मणिभिश्च द्र
 कान्तादिभिरत्ने कर्कतेनादिभि कुट्टिमतल वड्ढभूमितल येपा ते तथा । (इसगःभमया) इसग-
 भाख्यरत्नमया एलुकादेरल्प, (गौमेज्भमया इन्दकीला) इति गौमेज्भकरत्नमया इन्द्रकीला,
 लोहिताख्यरत्नमयो(दारचेडाउ)इति दारशाखा (जोडरसामयाउत्तरग्गा) इति द्वारयो परितिर्य
 ग्यवस्थित मष्णमुत्तरग्गा तानि योतीरसाख्यरत्नात्मकानि लोहिताख्यमयी लोहिताख्यरत्नात्मिका
 सूचय, फलकइयसम्बन्धविषटनाभावहेतुपादुकास्थानीया (वड्ढरामयासन्धी) वज्रमया सन्धय, सन्धि
 मेला फलकाना किसुत्त भवति, वज्ररत्नापूरिता फलकाना सन्धय, (शाणामणिमया समुग्गाया)
 इति, समुद्दकाइव समुद्दका श्रुतिकागृहाणि तानि नामयानि, (वड्ढरामया अग्गला अग्गलपासाय)
 अगुंला प्रतीता, अगुंला प्रामादायवार्गलानियम्यन्ते आह च जीवभिगमूलटीकाकारो अगुंला
 प्रासादोपवागु लानियम्यन्तेइये एव वज्ररत्नमया (वड्ढरामयीतो आवत्तणपेठियाउ) इति आवत्तन
 पीठकानामयवेन्द्रकीलका, उक्तञ्च विजयहारचिन्ताया जीवभिगमूलटीकाकारेण आवत्तन
 पीठिकायवेन्द्रकीलकी भवतीति, (अक्कुत्तरपासगा) इति अक्का अक्करत्नमया उत्तरपाश्वे येषा
 दाराणा तानि अक्कीत्तरपाश्वेकानि (शिरन्तरीयघणकवाडा) इति निर्गुता अन्तरिकालवन्तररूपा
 येपा ते निरन्तरिका अतएव धनानि अन्तरिकाधनाकपाटा येषा दाराणा तानि निरन्तरकधन कपा-
 टानि (भित्तिसुचेव भित्तिगुलियाछप्पणत्तिहोन्ति) इति तेषा दाराणा प्रत्येक मुभयो पाश्वेयो
 भित्तिदु भित्तिगुलिया पीठकस्थानीयास्ति पटपञ्चायत्तबिक् प्रमाणा भवन्ति(गोमाणसिया त्तिया)

गत्भरत्नमयदेहलीकइ गौमेज्भकरत्नमयइद्र केलिकलालउकइ लोहितारयत्नमय बारसाखकैजीती
 रत्नमय उत्तर गाकइ दारकपरितिरिकउपापुकाष्ट उत्तरगकइ वैदुयारत्नमय कमाठकइ लोहि
 नाख्यरत्नमयतीरणाकइ लोहिताख्यरत्नमय साधीआनीसधिजडाके अनेकप्रकारमणिमय सपुद्दलक
 चूलिकानूगुह वज्ररत्नमय भोगलकइ वज्रमय भोगललापासाजिहाभीगलयापाइ वज्रमयी आवत्त
 नपीठिकाजेइसाहिउलालउकइसइ अकरत्नमयद्वारनाविहूपासा पाटीयानाहिइरचित घणनिचछ
 अभगकमाडजेहना तेइद्वारनइविहू पासइभीतिनइविहूनिश्चय भित्तिगुलिकापीठकारथानीयाप

शाणामणिरयणवालरुवगलीलद्विय सालिभजियागा वडरामया कूडा
रदया मया उस्सेहा सव्वतवणिज्जमया उल्लोया शाणामणिरयण
जालपजर मणिवस लोहियक्ख गडिवसगरदय भोमा अकामया
पक्खापक्खवाहाउ जोडरसमया वसावसक वेलुया रययामइए पट्टियाउ

इति । तावन्मावा पट्टपञ्चागतविकसख्याका इत्यथ, (शाणामणिरयण वालरुवगलीलद्विय
सालिभजियागा) इति इदं द्वारविशेषणमेव नानामणिरत्नानि नानामणिरत्नमयानि व्यालरुप-
काणि लीलास्थितशालिभजिकाश्च लीलास्थितपुत्रिकाश्च येषु तानि तथा (वडरा मया कूडा
रदया मया उस्सेहा) इति कूडीमाडभाग, उच्छ्रय शिखर आइ च जीवाभिगममूलटीकाकृत्
कूडीमाडभागउच्छ्रय शिखरमिति नवरमत्र शिखराणि तेषामेव माडभागानां मन्वन्धीनि वेदित
व्यानि द्वारशिखराणामुक्तात्वात् वक्ष्यमाणत्वाच्च (सवतवणिज्जमया उल्लोया) उल्लोका उपरि-
भागाः सर्वतपनीयमया सवात्मना तपनीयरूपसुवर्णविशेषमया, (शाणामणिरयण जालपञ्ज-
रमणि वसगरययभोम्मा) इति मणयो मणिमया वशा येषु तानि मणिमयवशकानि लोहितारुष्यानि
लोहितारुष्यमया प्रतिवशायेषु तानि लोहितारुष्यप्रतिवशकानि रजता रजतमयी भूमियेषा ताञ्चि
रजतभूमानि प्रकृतत्वात् समासान्तं मणिवशकानि, लोहितारुष्य प्रतिवशकानि रजतभूमानि नाना-
मणिरत्नानि नानामणिरत्नमयानि जालपञ्जराणि गवाचापरपयाणि येषु तानि तथा पदानामन्य-
द्योपनिपातं प्राकृतत्वात् । (अक्कामया पक्खापक्खवाहाउ) इति । अञ्जोरत्नविशेष स्तनमयापेचा
स्तदेकदेशभूता पञ्चवाहवोपि तदेकदेशभूताएवाकमया, आइव जीवाभिगम मूलटीकाकृत् अक्क
मया पचास्तदेकदेशभूता एव पञ्चवाहवोपि द्रष्टव्य इति, (जोडरसमया वसावसकवेलुया) इति
ज्योतीरसं नाम रत्न तन्मया वशा महान्तं पृष्टवशा । (वसकवेलुयाय) इति महता वशपृष्टा
वशाना मुभयत स्तियग्ं स्याप्यमाना वशा कवेलुकानि प्रतीतानि । (रययामइए पट्टियाउ) इति

जवणरूपनसख्याइ अनैकप्रकारिमणिरत्नमय स्वापदनु जगनाख्यअन्नइलाइरइइइ पूतलीजिहा
रनइवियइ वजुरत्नमयमडेभागइइ रुपामलमाडला सिखरइइ समस्ततारानुवणमय उल्लोचुपरि
भागइच्छ्रयानैठामि अनैकप्रकारना मणि रत्नमय जाल गवाचइइ मणिमय वस लोहितारत्न
मय प्रतिवशनावासतेणइकरीरचितइइ मेडानुभूमिभागइइ अकरत्नमय मायापतइआठसरना वाइ
रिनीसरताविभागजातीसरत्नमयमेडीऊपला वासमीटावलीअनइमीटावामनैविडू पासइतिरिकास्था
पीतेइवग अनैकवलउ तेइपणिजातीसरत्नमयरूपामयी पट्टिककानइठामि सुवणमयी अवघाटनीपा
नाळीनीइकाइगुपाइतेइ वजुरत्नमय आवघाटनीऊपरिपुच्छणीनिवडतराआठादवानइइठइ मूत्तमनु
अइठामि सर्वस्वेतरूपामय्यु कुनीनइ ऊपरिकवेलु जिहऊपरि तलइपु जीइअ करत्नमय अनइमूवय

जायरुवमतीतो उहाडणीउ वडरामईउ उवरिपुच्छणीउ, सव्व
 सेयरयया मएपत्यायण अकामग्ग कणग कूडतवणिज्जभूमियागा सेवा
 सखतल विमल षिम्मल दधिघण गोखीर फेयरययणिगरप्पगासा
 तिलगरयणइच्चदच्चित्ता णाणामणि दामालकिया अतोवच्चिवसएहा तव
 णिज्ज भवालुया पत्थडा मुहफासा सस्सिरायरुवा पासार्इयादरिसणिज्जा

रजत मञ्ज पट्टिकाना वशामुपरिकण्ठास्थानीया (जायरुवमइउ उहाडणीउ) जातरूप सुवर्ण-
 विशेष स्तन्मय्य (उहाडणीउ) अवघाटित्य, आच्छादन हेतु कण्ठीपरिस्थाप्यमाना महाप्रमाथ
 क्लिन्मस्वानीया । (वडरामईउ उवरिपुच्छणीउ) इति वज्रमयो वज्ररत्नात्मिका अवघाटिनी-
 नामुपरिपुच्छिन्यानिवडितराच्छादनहेतु श्लक्ष्णतर तृणविशेष स्थानीया, उक्तञ्च । जीवाभिगममूल
 टीकाकारेण "उहाडणीहारगह्व मद्युतु सुल्लकन्तु पुच्छनी" इति, (सिएरयणामएलायं) इति
 सव्ववेत रजतमय पुच्छनीनामुपरिकवेल्लुकानामध (अकामगा) अक्कमय (कणगकूडतवणिज्ज
 भूमियागा) अक्कमयानि वाहुल्येन रत्नमयानि पञ्चवाहादीनामरत्नात्मकत्वात्, कनकानि कनकम
 यानि कूटानि महान्तशिखराणि येषां तानि कनककूटानि तपनीया स्तपनीयस्त्वपिकानितत पद-
 वप्रत्यापि कम्मधारय, एतेन यत् प्राक् सामान्यत उत्त्वित्त "सियावरकणगभूमियागा" इति तदेव
 प्रयञ्चतीभावितमिति सम्प्रति तदेकश्च तत्वमुपसंहारव्याजेन भूय उपदर्शयति । (सिया)श्वेतानि
 श्वेतत्वमेवोपमया दृढयति (सम्भ्रतल विमल षिम्मल दधिघणगोखीरफेयरययणि गरप्पमासा)इति
 विमल विगतमल यत सम्भ्रतल सम्भ्रस्थोपरितनोभागी यश्च निम्मलोदधिघन घनीभूत दधिगो
 खीरफेनो रजतनिकरश्च तद्वत् प्रकाश प्रतिभासो येषां तानि तथा (तिलगरयणइच्चन्दच्चित्ता) इति
 तिलकरत्नानि पुष्यविशेषास्तैरईचन्द्रैश्च चित्राणि नानारूपाणि तिलकरत्नाडं चन्द्रचित्राणि क्वचित्
 "सम्भ्रतल विमलषिम्मलदधिघणगोखीरफेयरययणियरप्पगासइच्चन्दच्चित्ता" इति पाठः । तत्र पूर्ववत्
 पृथक् व्युत्पत्तिकृत्वा पश्चात्पदद्वयस्य कम्मधारय, (णाणामणिदामा लच्छिकया) इति नानामण्यो
 नानामणिमयानि दमानि मालास्तैरलङ्कृतानि नानामणिदामालङ्कृतानि अन्तर्वहिश्रच श्लक्ष्णानि
 श्लक्ष्णपुद्गलस्कन्धनिमापितानि (तवणिज्जभवालुयापत्थडा) इति तपनीया स्तपनीयमप्योया वालुका
 सिक्कता सासा प्रस्तट प्रस्तरोयेषु तानि तथा । (मुहफासा) इति सुख सुख हेतुस्पर्शयिषु तानि
 मय कृत्सपरकइतारासुवणमधुमिका स्वैतजेहवु सखऊपलुभागहुइ मलरहित तेषीनिर्मलदही
 नादडवा गोखीरनउ केण तथारूपानीरासिएहवु तेषीलिनुप्रकासरुपइइ तिलकतथारत्नमय अई
 चद्रतेणइकरी चित्रितइइ अनेकप्रकार मणिमयीमालातणइकरीतिहपोलिअलकृतसोमितइइ तेष
 पोनिमाहिअनइवाहरिसथासूचमुद्गलइनामनीह्येणुसुकमालसतेजइ तपनीयसुवर्णमयीवेल्लु तिहा
 पोत्तिनीभूमिइपाथरीइइ मुकमालपरिसजेइनुहैसोभावतरूपकैजेइना चित्तनइ प्रसन्नजोइवाकरइ

अभिरुवा पडिरुवा तेसिण दाराण उभउपासे दुइउ णिसीइया
 सोलस २ चटणकलस परिवाडीतो पणत्ता उतेण चटणकलसा वर
 कमलपइइयाणा मुरभिवरवारिपडिपुणो चटणकयचच्चगा आविइ
 कठेगुणोय पउमप्यलपिइयाणा सव्वरयणामया अत्था जावपडिरुवा
 मइया २ इद्रकुभसमणो पणत्ता समणाउसो तेसिण दाराण उभउसे
 दुइउ णिसीइयाए सोलसणागदतपरिवाडाउ पणत्ता तेण णामटता
 मुत्तजालतरुस्सिय हेमजालगवक्खजाल खिखिणी जालपरिखित्ता

मुखस्वगानि, सयीकरूपाणि प्रसादीयानीत्यादि प्राग्वत, (तिसिण)मित्यादि तेषा दाराणां प्रत्येकमुभयो पार्श्वयोरेकैकनैपेधिकीभावेन (दुइतो) इति द्विधातो द्विप्रकारायां नैपेधिक्यां नैपेधिकी निपीदन स्थानमाह, च जीवाभिगममूलटीकाकुत् नैपेधिकी निपीदनस्थानमिति प्रत्येक पीडशचन्दनकलश परिपाटय' प्रज्ञप्ता । ते च (चन्दयकलसा वरकमलपइइयाणा) इति वर प्रधान यत् कमल तत प्रतिष्ठान माधारो येषां ते वरकमलप्रतिष्ठाना' । तथा सुरभिवरवारिप्रतिपूणा श्चन्दनकृत चचाका' चन्दनकृतीपरगा' (आविइ) इति (गुणा) इति, आविइ आरोपित' कथंते गुणो रक्तमूलरूपो येषां ते आविइकथंतेगुणा', कथंते कालवत सप्तम्या अलुकु' (पउमप्यलपिइयाणा इति पइमुत्पलञ्च यथावीग पिधान येषां ते पञ्चीत्पलत्पिधाना', (सव्वरयणामया अत्थासयइ लयइ) इत्यादि यावत् (पडिरुवगा) इति विशेषण कदम्बक प्राग्वत्, (मइया) इति अतिशयेन महान्ती महेन्द्रकुम्भसमाना कुम्भानामिन्द्र इन्द्रकुम्भी राजदन्तादि दशनादि इन्द्रशब्दस्य पूर्वनिपात, महार्चवासी इन्द्रकुम्भश्च तस्य समाना महेंद्रकुम्भसमाना महाकलश' प्रमाथा' प्रज्ञप्ता हे श्रमण हे आयुष्मन् (तिसिण दाराण)मित्यादि तेषा दाराणा प्रत्येक मुभयो पार्श्वयोरेकैकनैपेधिकीभावेन या द्विधा नैपेधिकीतस्या प्रत्येक पीडशनागदन्तपरिपाटय' प्रज्ञप्ता नागदन्ता अष्कुटका' । ते च (णागदन्ता मुत्तजालन्तरुस्सिय हेमजाल गवक्खजाल खिखिणीजाल परिखित्ता) इति मुक्तजालाना अन्तरिपु यानि उत्सृतानि लम्बमानानि हेमजालानि सुवर्णमयदामसमूहा यानि च गवाचाकृति रत्नविशेष माना समूहा यानि च किष्किणीघण्टाजालानि चुद्रघण्टासमूहास्तौ परिचिप्ता' । सर्वतो व्याप्ता,

इदं योग्यं मनोहररूपकै मनोहररूपकैकाप्रतिबिम्बकइ जेइहारमहिपारतेइ हारनइ विभू'ने पेधकीकइमवनाठामटलानिविपि सोलसइ २ च दनचवितकलसनी परिपाटीउत्ते डिश्रेणिकइ भगवत नइकहीइ च दनकलसकइइइवाप्रधान कमलनावइसणाइइजेइना सुगध प्रधान पाणीइप्रति पूणचइस्याभरणाइ च दननाशाटाइइदीधा आरोप्यउ कइकठनइविपइ रत्नमूपवजेइकमलनाटा कणाइइ समस्तरत्नमयइइ घटाइ मठाराकै विसप्तरूपकइ मीटामीटा इद्रकु भसमानमहाकलस

अब्रुग्गया अभिणिसिद्धा तिरियमुसपग्गहिया अहेपणगह्वरुवा
 एणगह्वमवाणसविया सव्ववद्दरामया अच्चा जाव पडिस्वा गयदत
 समाणा पणत्ता समाणाउसो तेसिण णागदत एसु वड्ढवे कियणमु
 च्छद्द वद्दाम्मारिय मल्लदामकलावा णील लोहिय च्छालिद्द सुक्खिल्ल
 सुत्तवग्मारिय मल्लदामकलाव तेण दाम तवणिज्जमल वूसगा सुवण
 पयरग मडिया णाणाविद्द मणिरयण विविद्द हारह्वहार
 उवसोहिय समुदया जाव सिरीए आतीव उवसोभेमाणे च्छिदन्ति

(अब्रुग्गया) इति अभिमुखमुद्रता अभ्युद्रता अग्रिमभागे मनाक् उन्नता इति भावः । (अभि
 णिसिद्धा) इति अभिमुख बहिरभागाभिमुख निमुष्टा निर्गता अभिनिमुष्टा, (तिरिय सुसम्पग्गहिया)
 इति तिर्यक् भित्तिप्रदेशे सुष्टु अतिशयेन सम्यक् मनागप्यचलनेन परिगृहीता सुसम्परिगृहीता ।
 (अहेपणगह्वरुवा) इति अधो अधस्तनयत् पन्नगस्य सर्पस्यार्थं तस्यैव रूपाकारी येषां ते
 अधपणगाह्वरुवदति सरला दीर्घाश्चेति भावः, एतदेव व्याचष्टे पन्नगाह्वरुसंस्थानसरिथता अध
 पन्नगाह्वरुसंस्थाना (सव्ववद्दरा मया) सर्वात्मना वज्जमया । (अच्चा सण्हा) इत्यारभ्य (जावपडि
 रुवा) इति विशेषणं ज्ञातं प्राग्वत् । (महया) इति अतिशयेन महन्ती गजदन्तसमाना गजदन्ता-
 कारा प्रज्ञप्ता हे आयुष्मन् (तिसिण णागदन्तएसु) इत्यादि तेषु नागदन्तकेषु वड्ढव कृप्यास्तत्र (वद्दा
 वग्मारिय) इति अवलम्बिता माल्यदामकलापा पुष्पमालासमूहा वड्ढवी नीलस्तवावलम्बितमाल्य-
 दामकलापा, एव लोहितहालिद्रशुकल स्तत्र वद्दा अपि वाच्या, (तिण दामा) इत्यादि, तानि
 दामानि (तवणिज्जमल वूसगा) इति तपनीय स्तपनीयमयो लम्बूसगोदाम्नाभिमग्नभागे मण्डन-
 विशेषो येषां तानि तथा जावलम्बूसकानि (सुवणपयरगमण्डिया) इति प्राग्वत् सामस्येन सुवण-
 प्रतदेशे सुवणपयवकेषु मण्डितानि सुवणप्रतरमण्डितानि । (णाणाविद्दमणिरयण विविद्दहारह्वहार
 उवसोहिय समुदया) इति तानारूपाणां मणोनाञ्च रत्नानाञ्च ये विविधा विचित्रवर्णा हारा अष्टादश
 सारिका अर्द्धहारा नवसारिकास्तै रूपाशीभित समुदायी येषां तानि तथा (जावसिरीए अतीव
 उवसोभेमाणे च्छिदन्ति) इति अत्र यावत्कारणादेव या विमानवर्णने व्याख्यातमिति न भूयी

प्रमाणदकक्षा हे श्रमणोपासआडयावत तेहनइ दारनइ विहू पासइविहू नैपिधिकीनइविपइ
 विसवानइडामि मोलइ ऊपरीठउ नागदत आकाडा तेहनी परिपाटीपक्की कडी तेह नागदता
 मोतीनीजानइविपइउच्छितलवायमानएहवा सुवणमयमालानी समूहवलीगवाचनइआकारइ रत्न
 वसेपमालासमूह वलीकिकिषीनाहनी धूसरीनासमूहतेयइउउ पयेरव्यातकइ कांडकउचाकइ स-
 खनीकलाइइ तिरिआभातिप्रदेशनइविपइइडीपरिरह्याइइ एतलइहलनानधी हेठलउसपनु अर्द्ध

तेसिषाणागदताया उवरि अगणातो सोलस २ णागदतपरिवाडीउ पणत्ता
 त्ताउ तेण णागदता तच्चेव मइया णागदतसमाणा पणत्ता समाणा
 उसो तेसुणा णागदत एसु वइवे खयमया सिक्का पणत्ता तेसुणा
 खययामएसु सिक्कएसु वइवे वेडल्लियामइतो धूवघडीतो कालागुरु
 पवरवरकुटुरुक्क धूवमघमघेत्त गधधूयाभिरामातो सुगधवरगधियातो
 गधवट्टिभूतातो उरालेण मणुण्णेषणा मणोचरेणा धाणमणणिव्वुइ
 करेण गधेण तेपट्टे सव्वउ समता आपूरेमाणोउ २ अतीव २
 सिरीए जावच्चिद्वति तेसिषा दाराणा उभउपासे दुइतो णिसीइयाए
 सोलस २ सालिइ भजिया परिवाडीउ पणत्ता उणा सालिभजि
 यातो लीलद्वियाउ सुपइद्वियाउ सुअलकियाउ णाणाविहरागवस
 णाउ णाणामल्लपिणद्धातो मुट्टिगिज्जु सुमभाउ आमेलग

व्याख्यायते (तेसिषा णागदन्ताण)मित्यादि तेषा नागदन्तकानामुपरिप्रत्येकमन्या योडपनाग
 दन्तपरिपाटय प्रज्ञप्ता स्ते च नागदन्ता यावरकरणात् "मुत्तजालन्तरुसिय हेमजालगववस
 जालसिक्कस्सिक्कणी घण्टाजालपरिखेत्ता" इत्यादि प्रागुक्तं सर्वं द्रष्टव्यं यावद्दजदन्तसमाना
 प्रज्ञप्ता हे श्रमण हे आयुप्पन् (तेसुण णागदन्तएसु) इत्यादि, तेषु नागदन्तकेषु बहूनि रजत
 मयानि सिक्ककानि प्रज्ञप्तानि तेषु च रजतमयेषु सिक्ककेषु बहवो बहुरोवैडूयमयो वैडूर्य
 रत्तात्मिका धूपघटिका (कालागुरुपवरकुटुरुक्कधूवमघमघेन्ते)त्यादि प्राग्वत, नवर (षाण्णणिव्वुइ
 करेण)मिति धाण्णिन्द्रियमनोनिवृत्तिकरेण (तेसिषा)मित्यादि तेषां दाराणा प्रत्येकं मुभयो पार्श्वयो-
 रैकेकं नेपेधिकीभावेन द्विधाता द्विप्रकारायां नेपेधिक्यां योडभरगालभञ्जिकापरिपाटय प्रज्ञप्ता,
 ताश्च गालभञ्जिका लीलया ललिताभ्यनिवेशरूपया स्थिता लीलास्थिता, (सुपइद्वियाउ) इति
 सुट्टु मनोज्ञतया प्रतिष्ठिता सुप्रतिष्ठिता, (सुअलकियाउ) सुट्टु अतिशयेन रमणीयताया
 अलङ्कृता स्वन्कृता (षाणाविहरागवसणाउ) इति नानाविधो नानाप्रकारो रागी येषां तानि
 नानाविधरागाणि तानि वसनानि वस्त्राणि यासां ता स्तथा(षाणामल्लपिणद्धातो)इति, नानारूपाणि
 माल्यानि पुष्पाणि पिनद्राति आविद्वानि यासां ता नानामाल्याविनद्धाकलातस्य परनिपात ।
 सुस्त्रादिदर्शनाच्च (मुट्टिगिज्जुसुमभाउ) इति । सुट्टुग्राह्यं सुट्टु शोभन मध्य मध्यभागो यासां ता
 तेइनीसरलीनइलावाइइ परि अतिएणइकारणइसपाइ मस्थानइ रइयाइइ समस्तवज्जरत्नमयइइ
 निमेलके घटागमठाराके भल्लु रूपके इस्तीनात्तप्रमाणइ कइया हेयमण थाउपावतीतेइ नागटतइ
 विपइ घणा कालनइमूदनइवाधालवायमान फलना समइ वलगाउयाइइ एमजनीलइ मूनि

जमल जूयल वद्विय अब्भुणायपीणरइय सडियपीवर पयोहराउ रत्ता
वगाउ असियकेसिउ मिउ विसय पसत्यलक्खणसंवेल्लियग्गसिरि
याउ इंसि असोगवरपायवे समुद्वियाउ वामइत्थगच्चियगसालाउ
इंसि अब्बत्थिकडक्ख चिद्विएल्लूसेमाणीउ विव चक्खूलोयण लेसाच्चि
अण्णमणा खिउभमाणीउ विवपुठविपरिणामाउ सासयभाव मुव

स्तथा (आमेलजमलजूयलवद्विय अब्भुणायपीणरइय सपिठयपीवरपयोहराउ) पीन पीवर रचित
सस्थित सस्थानम यकाभ्यान्ती पीनरचितसस्थानी आमेलक आपीड शेषरक इत्यर्थः । तस्य
यमलयुगल समश्रेणीक यत युगल तदत वर्त्तिती वद्वस्वभावानुपचितकपिठनभावाविति भावः ।
अभ्युन्नतो पीनरचितसस्थानी च पयोधरी यासा ता स्तथा (रत्तावग्गाउ) इति रत्तोऽपाभोनयनोपा-
न्तरूपो यासा ता स्तथा, (अमियकेसिउ) इति असिता कृष्णाकेशा यासा ता अशितकेशा । एतदेव
सविशेषमाचष्टे । (मिउविसयपसत्यलक्खण संवेल्लियग्गसिरियाउ) मृदव कोमला विशदा निर्मला
प्रगस्तानि शोभनानि अस्फुटितामृत्व प्रतीतानि लक्षणानि येषां ते प्रशस्तलक्षणा संवेल्लिता सवृत
मगु येषां ते संवेल्लितागुा गिरजा केशा यासा ता मृदुविशदप्रशस्तसलक्षणसंवेल्लितागु
गिरजा, (इंसि असोगवरपायवेसमुद्वियाउ) इपत् मनाक् अशीकरपादपे समुपस्थिता, आश्रिता
इपदशीकरपादपसमुपस्थिता स्तथा वामइस्तेन गृहीतमय शालाया शाखाया अर्थादशोक
पादपस्य यकाभिस्ता वामइस्तगृहीताशाला, (इंसि अब्बत्थिकडक्खचिद्विए ल्लूसेमाणीउ वि)वेति
इयत मनाक अब्बत्थिक् चलित मच्चि येषु कटाचरूपेषु चेरितेषु तैर्मुप्यन्त्यइव सुरज नानाम-
नासि, (चक्खूलोयणलेसा चि अण्णमण्णसिउभमाणीउ विव)अन्नमन्न परस्पर चक्षुषा लोकनेनाव
लोकनेन ये लेसा सश्लेषास्तै स्त्रियमानाएव किमुक्क भवति, एव नामत स्तियग् वलिताच्चि
कटाचै परस्पर मवलीकमाना अवतिष्ठन्ति यथा नून परस्पर सौभाग्या सहनत स्तियग् चलि
ताच्चि कटाचै परस्पर स्त्रियन्ति इवेति (पुठविपरिणामाउ) इति पृथिवी परिणामरूपा, शाश्वत-

रातइ पीलइ धउलइ सूवइ बधालवायमान फूलमालाना समूहवलगाडीकइ तेह फूलमालीनइ
एतामुवण्णालवाफूमताकइ सुवण्णमनीपानडीइ मडितकइ अगुहेइडाजेइना इरइइरिसोभित
इइ विड्डुदसिनइ वाइकरी ते दामहालइ कइ तेहथकी काननइ मननैमुखउपजइ एहवउ
सउउ उपजइ कइ तेनइ शब्दैकरी तेहइ कडीप्रदेशप्रतिमधुलुचिड्डुदिसि विसेपथकी पूरता
थकी सोभाइकरीषणउ ज सीभताथका रहइकइ तेह नामदतनइ उपरिअनेरीवलीडू पासइ
सानइर नागत्तनीपरियाटीपक्कि कही तेह नागदता पाळलीनागदतनीपरि जाणिवामोटा इत्ती
नादत्तजेवडा कइया हे अमयो आउपावती तेह इस्तीनादतनइविपइ वथा रूपामय सिका कइया

गयाउ चदणणाउ चंदविलासिणीउ चदइसमणिडालाउ चदाहिय
 मोमदसणाउ उक्वाइवूजभोएमाणीउ विज्जुधणामरिचिमूरदिप्यत
 तेय, अहियवरसणिणकासाउ सिगारागार चारुवेसा पासाइयाउ
 तेयसा अतीव २ उवसोभेमाणाउ चिद्धिति तेसिणा दाराणा उभउपासे
 णिसीहियाए तेसालससोलसजालकडग परिवाडीतो पयणत्ताउ तेणा
 जाल कडगा सव्वरयणामया अथ्याजावपडिहवा तेसिणा दाराणा
 उभयतोपासे दुइउ णिसीहियाए सोलसर घटापरिवाडितो पयणत्ता
 त्तो तेसिणा घटाया इमेयासवे वयणावासे पयणत्ते तज्जा जवूगया
 मयाउ घटातोविति मराई उजालातो णायामणिमया घटा पासात

भाउमुपगता विमानवत् (चन्द्रणणाउ) इति चन्द्रइवानन मुख यासा ता स्तथा (चन्द्रविलासिणीउ)
 इति चन्द्रवत् मनोहर विलसन्तीत्येवं शीलारचन्द्रविलासिन्या । (चन्द्रइसमणिडालाउ) इति
 चन्द्राइसममष्टमी चन्द्रसमान ललाट यासा ता स्तथा (चन्द्राहिय सोमदसणाउ) चन्द्रादपि अधिक
 सोम सुभगं कान्तिमत् दर्शनमाकारी यासा ता स्तथा, उल्लोइव उद्योतमना (विज्जुधणामरिचि-
 मूरदिप्यन्ततेय अहियवरसणिणकामाउ) इति विद्युत्तोये घना वृहलतरा मरीचय स्तंभ्यो यच्च
 पूर्वस्य दीप्यमान वृत्त तेजस्तस्मादपि अधिकतर सन्निकाग प्रकाशो यासा ता स्तथा (सिगारा
 गार चारुवेसा पासाइयाउ दरिमणिज्जा अमिहवाउ चिद्धन्ति) इति प्राग्वत (तेसिण)मित्यादि ।
 तेषा दाराणा प्रत्येक मुभयो पाखयोरेकैकनैपेधिकी भावेन या द्विधानैपेधिकी तस्या षोडश्या
 षोडश षोडशजालकटका प्रज्ञप्ता । जालकी जालकटका (सव्वरयणामया अथ्या सपहा जावप-
 डिहवा) इति प्राग्वत् (तेसिण)मित्यादि तेषा दाराणा प्रत्येक मुभयो पाखयो द्विधातो नैवे-
 धिन्या षोडश षोडशघटा परिपाटय प्रज्ञप्ता । तासा च षट्टानामय सेतद्रूपं वणावासी
 वर्षकनिवेश प्रज्ञप्त स्तथया जाम्बूनदमथ्या घटा वज्रमथ्यी लाला नानामणिमया घटा पहरवा

तेह रूपामय सीकानइविपइ धथा वैडूर्यरत्नमयी धूपनीघटीकइतेकेइवीकइ कृप्या गुह प्रधान
 चांसु गुदवीसेय सिल्लहारस तेहनइधूपइकरी मधमघायमान गधनइ उक्तपणइकरीमनोहरकइ
 मुगधगधुइकरीगधवतकइ गधनीवातीरूपकइ प्रधानइ मनोज्ञइ मनीहरइ नामिकानइ मननइ
 मुखजपजावइ गधइ करीतेइडूकडाप्रदेशप्रतिड सवलइ चिडू लिइइ वसपथकीपूरतायका धणउ
 जधसुसोभायइकरीसोभायमानउकारइइकइ तेह हारनइ विडूपासइ विडूनेपेधकीनइउलानइ
 विपइ सोलइइ पूतलीनी परिपाटी पल्लि कही तेह पूतली लीलाइ रहीतकइ इडीपरिधापीकइ
 भलइयलकारइपलकूतकइ धनेकरगइ रगयावस्त्रपहिरीकइ अनकप्रकारइ फूलनी मालाककइ

वणिज्जन्मतीता सकलतारययामयातोरेज्जभूतोताउगा घटाउ हस्सराउ
 मेहस्सराउ सीहस्सराउ दुदुहिस्सराउकोचस्सराउगादिस्सराउगादिघो
 सातो सीहस्सराउ सीहघोसातोमजुसरातो मजुघोसातो सुस्सरातोमु
 स्सनिग्घोसातो उरालेणामणुण्णेषा मणहरेण कणणमणणिव्वुइ करेण
 सहेणते पदेसे सव्वउसमता आपूरेभाणीतोजावचिद्धति तेसिण दाराण
 उभयतो पासेदुहतोणिसीहियाए सोलस सोलस वणमालापरिवाडीतो
 पणत्ता तो ततोणवणमालातो णाणादुमल्लयकिसल्लयपल्लवसमाउ
 लाउह्ण्यपरि भुज्जमाण सोभतसस्सरीया वेतो पासाइयातोतेसिण
 दाराण उभउपासेदुहउणिसीहियाए सोलससोलसपगठगा पणत्ता
 तेण पगठगा अट्टाइज्जाइ जोयणसयाइ आयामविव्वभेण पणुवीस

तपनीयमय्या शृङ्खला यासु ता अवलम्बिता स्तिष्ठन्ति रजतमय्योरज्जव (ताउणं घटाउ)इत्यादि
 ताश्च (घटाउहस्सरा)मेघस्येवाति दीर्घं स्वरोयास ता'मेघस्वरा । इसस्येव मधुर स्वरोयासा ता
 हसस्वरा सिहस्येव प्रभूती देशव्यापीस्वरोयासा ता सिहस्वरा एव दु'दुभिस्वरा नन्दिस्वरा द्वादश-
 विधतूर्यसघातो नन्दि । नन्दिवत् धीघोच्चादी यासा ता नन्दिघोपा, मजु प्रियस्वरी यासा ता
 मजुस्वरा एव मजुघोपा कि बहुना सुस्वरा सुस्वरघोपा । (उरालेण)मित्यादि प्रागवत् (तिसिण)
 मित्यादि । तेण दाराणा प्रत्येक सुभयो पार्श्वयो द्विधातो नैपेधिव्या षोडश षोडशवनमाला
 परिपाटय प्रज्ञप्ता । ताश्च वनमाला नानाद्रमाणा, नानालताना च यानि किसलयानि ये च
 पल्लवास्तै समाकुला सन्मिया । (ह्ण्यपरिभुज्जमाण सोभन्त सस्सरीया) इति पदपदै
 परिमुह्यमाना सत्यसोभमाना पदपदपरिभुज्जमानसोभमाना अतएव सथीका (पासाइया)
 इत्यादि पदचतुष्टय प्रागवत् (तिसिण दाराण)मित्यादि । तेण दाराणा प्रत्येकसुभयो पार्श्वयोरे
 कैक नैपेधिकी तस्यां षोडश प्रकण्ठका प्रज्ञप्ता प्रकण्ठीनाम पीठविशेष । आह च जीवा
 जीवाभिगममूलठीकाकार प्रकण्ठो पीठविशेषाविति । ते च प्रकण्ठका प्रत्येकमर्धतृतीयानि

वाथीकइ मुट्टइगुडिवायोग्यकइ करिपदेसकइ जेहनी आमलकसेस्सरइरेटीपेइत्यथ तेह जमल
 जूलसमाविरह्णातेहनावाटला अतिउ चा स्थलरचिउ कइसस्थाननेणइ पीवरउपचित्तकविनकइ
 पथीधरस्थनजेहना राताकइ नेवनापूजणाजेहनाकालाकइ केसनेहना कामलनिर्मलप्रसमूमलालाचि
 णमहितसवरणकाइकवाकीवलीकइकेहडाजेहना एहवामस्तकनाकिसकइकाइक अशीकपुञ्जइविपि
 अट्टितकइडावइ चायिगुहीकइनुचनीसास्त्राज्जपइ धोडउ मू अर्द्धकटाचनइजोइवइकरीजाणीइदेव

जोयणासयवाह्वलेण सव्व वड्ढरामया अत्था जावपडिह्वा तेमिण
 पगठगाण उवरियत्तेय २ पासायवडेसगा पणत्ता तेण पासाय
 वडिसगा अट्टा इज्झाद्द जोयणासयाद्द उट्ट उव्वत्तेणा पणुवीसजोयण
 सय विक्खभेण अब्भुग्गयमूसियपहसियाविव त्रिविहमणिरयण भत्ति
 चित्ता वाउहुयविज्जय वेजयती पडागच्छत्ताद्द छत्तकलिया तुगा गगण

यीजनशतान्यायामविष्कभाभ्यापचविश पञ्चविशत्यधिकं यीजनशत वाह्वलेन पिण्डभावेन (सव्व
 वड्ढरामया) इति सव्वात्मना ते प्रकण्ठका वज्रमया (अत्थासपह्वा) इत्यादि विशेषण जात प्राग्बन्
 (तिसिपगपठगाण)मित्यादि तेषां प्रकण्ठकाना उपरिप्रत्येक २ इह एक प्रति प्रत्येकमित्याभिसुख्ये वर्त्त-
 मान प्रतिशब्दः समस्ये तेन वीप्साया ततो वीप्सा विवचाया द्वित्रचन प्रासादावतसका प्रज्ञप्ता,
 प्रासादावतसकानाम् प्रासादविशेषः । उक्तञ्च जीवाभिगम मूलटीकाया प्रासादावतसकौ प्रासाद-
 विशेषाविति ते च प्रासादावतसका इति तृतीयानि यीजनशतान्युद् मुचैस्वेन पञ्चविश यीजनशत
 विष्कम्भेन, (अब्भुग्गय मूसियपहसियाविव) अब्भुद्गता अभिसुख्ये सर्व्वती विनिर्गता उत्सृता प्रबल
 तया सर्वासु दिक्षु प्रसृतया प्रभातयासिताइवडाइव तिष्ठन्तीति गम्यते, अथवा कथमिवते
 अत्युच्चा निरालम्बा स्तिष्ठन्तीति भावः । (विविह मणिरयण भत्तिचित्तर) विविधा अनेकप्रकाराये
 मणयश्चन्द्रकान्तादर्या यानि च रत्नानि ककेतनादीनि तेषां भक्तिभिर्विच्छित्तिविशेषैश्चिवा नाना-
 रूपा आश्चर्यवतो नानाविधमणिरत्नभक्तिचिवा । (वाउहुयविज्जय वेजयन्ती पडागच्छत्ता
 इच्छत्तकलिया) वातोद्भूता वायुकस्पिता विज्जया अब्भुदय स्तत्समुच्चिका वेजयन्तीभिधानाया पता
 का अथवा विज्जया इति । वेजयन्तीना पार्श्वकणिका उच्यन्ते तत्प्रधाना वेजयन्त्यो विज्जय वैज-
 यन्त्य क्त्वाति क्त्वाणि उपर्युपरिस्थितान्यातपवाणि ते कलिता वातोद्भूतविज्जयवेजयन्तीपताका
 क्त्वातिक्त्वाकलिता । तुम्हा उच्चा उच्चैस्वेनाहं तृतीययीजनशतप्रमाणत्वात् अतएव (गगणतल-

ताउनइ लूसतीजनयी उत्तरे चालकारवचनइवाषीनइजरिनइविखीकवैकहीरवीनतीनधी तेहपूतली
 माहोमाहिआपणासोदपणघणाआगलिबीजानइनिव वइहेउत्तरे चालकार तेहपूतलीअपरिप्रथवीका
 मनउपरिआमकइ साम्बतभावप्रतिपामीकइसाम्बतीइत्यर्थं चद्रसरीपुमुखइजेइनु चद्रनीपरिमनोइ
 रदिलासकइजेइनइअहं चद्रसमानललाटकइजेइनाचद्रथकीअधिक भीम्यदभनकइजेइनाउल्कापात
 नीपरिउद्योतकरतीकइ बीजलीतां घणा किरणतथामूर्यनउडीप्यमानतेजघजी पणिअधिकतर प्रकास
 कइजेइनु शू गारनउआरठामतेणइकरीमनोहरवेसिपकइजेइनउ चित्तनइप्रसन्नकरइकइ तेजइ
 करी घणुजघणु सीमायमानथकी रइइकइ तेह डारनइ विहू पासइ उटलानइविपउ सीलइ सीलइ
 जालकटकजालाइल्याप्तरमणीकस्थानकानापरिपाटी पक्ति कही तेह जालकटकसस्तर्त्नमयइइ

तनुमणुलिहत्त सिद्धरा जालतररयण पञ्जस्मिल्लियव्व मणि कणग
 धूमियागा वियसिय सयवत्तापोडरीया तिलग रयाणद्धचदचित्ता
 णाणामण्डामालकिया अतोर्वह्निचसएहातवणिज्झा वानुया पत्यडा
 मुहफासा सिस्सिरीयारूवा पासोइया दरिसणिज्झा जावदामाउवरि
 पगवगाण सयाळत्ताइ छत्ता तेसिणा दाराण उभउपासातो सोलस
 सोलसतोरणा पणत्ता णाणामणिमया णाणामणिमए सुखभेसुउ
 वणिविट्ठ सणिणविट्ठा जावपउमइत्यगा तेसिण तोरणाण पुरतो दो दो
 • सालिभजियातो पणत्ता उज्झाहेट्ठा तोतहेव तेसिण तोरणाण

मणुलिहन्त सिद्धरा इति गगनतल मन्वरतलमणुलिपन्ति अपि लब्धयति शिखराणि येषां ते तथा
 जालानि जालकानि तानि च भवनभित्तियलोके प्रतीतानि तदन्तरेषु विशिष्टगोभानिमित्त रत्नानि
 येषु ते जालान्तररत्ना । मूर्ते च्चावविभक्तिलोप प्राकृतत्वात् । तथा पञ्जरात् उन्मीलिता इव
 वन्ति कृताइव पञ्जरोन्मीलिता इव यथाहिकिल किमपि वस्तुपञ्जरात् वयादिमया च्चादनविशेषात्
 वह्निकृत मन्थन्तमन्विनष्टकायत्वात् गोभते एव तेषु प्रसादावतसका इति भावः । तथा मणिकन
 कानि मणिकनकमय्या स्तूपिका शिखराणि येषां ते मणिकनक स्तूपिकाका । तथा विकसितानि यानि
 शतपत्राणि पुण्डरीकाणि च द्वारादो प्रकृतिरत्नेन स्थितानि तिलकरत्नानि भित्त्यादिषु पुण्ड्रविशेषा
 अर्द्धचन्द्राश्च द्वारादिषु तैश्चिवा नानारूपा आश्चर्यं भूता वा विकसितशतपत्रपुण्डरीकतिलकरत्नाः
 चन्द्रचित्ता । तेषां अन्नवह्निश्चलद्दशामसृणा । तथा तपनीय सुवर्णविशेष स्तन्मय्या बालु
 काया प्रस्तट प्रस्तरो येषु ते तपनीयबालुकाप्रस्तटा । (मुहफासासिस्सिरीयारूवा पासोइया)
 इत्यादि प्राग्वत्, तेषां च प्रासादावतसकानामन्तर्भूमिवर्णनमुपपुल्लोकवर्णन सिद्धान्तवर्णन
 मुपरिविजयट्टयवर्णनं वज्राकुशवर्णन मुक्तादामवर्णनं च यथा प्राक् यानविमाने भावित तथा
 भावनीय (तेसिण)मित्यादि तेषां द्वाराणा प्रत्येक मुभयो पार्श्वयोरेकैक नैपेधिकीभावेन याद्विधा
 नैपेधिकी तस्या षोडशर तोरणानि च तानि च तोरणानि नानामणिमयानीत्यादि तोरणवर्णन
 यानविमानइव निरवशेष भावनीयम्, (तेसिण तोरणाण पुरतो) इत्यादि तेषां तोरणाणा पुरत
 प्रत्येक द्वे द्वे शालभञ्जिके शालभञ्जिका वर्णन प्राग्वत् (तेसिण)मित्यादि तेषां तोरणाणा पुरतो
 दो दो नागदन्तकी प्रज्ञप्ती तेषां च नागदन्तकाना वर्णाना यथाधस्तात्प्रन्तर मुक्तं तथा वक्तव्य
 निमलकेषुद्वारामद्वाराकइ भलुरुपकइ तेहद्वारनइ विहू पासै विहूइ उटलानइविपइ
 सोलइ २ घटानीपरिपाटीपत्ति कही तेइ घटानइ आगलिकहीसइतेइवु वणकवसियकछा
 तेकइइइ जम्बू नदमुवर्णमयी घटाकइ बचुरत्नमई लीलाकइ कछा जिमपु ठिकछाकइइति

पुरतोणागदतगा पणत्ता जहाहेहा जावढामो तेसिण तोरणाण पुरतो
 टो दो इय गयसघाडगाणरसघाडगा किणणार सघाडगा किपुगिस
 सघाडगा महीरग सघाडगा गधव्वसघाडेगा उसभसघाडमा सव्वरयणा
 मया अत्था जावपडिहवा एवविहीतो पतीतो मिहूणाड तेसिण
 तोरणाण पुरतो दो टो णामलयाउ दो टो असोगलयाउ पउमलयाउ
 जाव सामलयाउ णिच्चगुकुमियाउ जावपडिहवा दो टो वटणाकलसा

नवरमद्वीपरिनागदन्तका न वक्तव्या अभावात् (तेसिण)मित्यादि तेषां तोरणानां पुरतो ही ही
 इयसघाटो सवाटगन्दी युग्म वाची यथा साधुसघाट इत्यत्र ततो ही हे इययुग्मे इत्यर्थ । एव
 गजनरकिपुरुषमहीरगगन्धववृषभसघाटा अपि वाच्या । एते च कथं भूता (सव्वरयणामया
 अत्थासघाड) इत्यादि प्राग्वत् यथा वामीया इयादीनामप्यना सघाटा उक्ता स्तथा पयापंक्तयोपि
 वीथयोपि मिथुनकानि च वाच्यानि तत्र सघाटा समानलिङ्गायुग्मरूपा पुष्यावकीर्णकाश्च एका-
 ण्व्यवत् म्यिता । येषि पत्तिरुभयो प्राग्वयो रिकैकर्ये णिभावेन यत् ये णिइय मा वीथि । रवी
 पुरुषयुग्म मिथुनकम् । (तेसिण)मित्यादि तेषां तोरणानां पुरतो हे हे पञ्चलते यावत्कारणात् हे
 हे नागलते हे हे अगोकलते हे हे चम्पकलते हे हे भूतलते हे हे वासन्तीलते हे हे कुन्दलते
 हे हे अतिमुक्तकलते इति परिगृह । हे हे श्यामलते एताश्च कथं भूता इत्याह । (णिच्च
 कुमुमियाउ) इत्यादि, यावत्कारणात् “णिच्च मउलियाउ णिच्च लवइयाउ णिच्च थवइयाउ णिच्च
 गुञ्जियाउ णिच्च जमलियाउ णिच्च जुयलियाउ विमा णिच्च णमियाउ णिच्च पण
 मियाउ णिच्च सुविभत्त पडिमञ्जरिवडिसगधरीउ णिच्च कुसुमियमउलियलवइययवइय
 गुलइय गोइय त्रिणमिय पणमिय सुविभत्त पडिमञ्जरिवडिसगधरीउ” इति परिगृह्यते, एतस्य
 व्याख्यानं प्राग्वत् पुनः कथं भूता इत्याह (सव्वरयणामया जावपडिहवा) इति अत्रापि यावत्
 कारणात् “अच्छा सपहा” इत्यादि विशेषणं समूहं परिगृहं स च प्राग्वद्भावनीयं (तेसिण)मित्यादि
 तेषां तोरणानां पुरतः प्रत्येकं ही ही दिक्सीवस्तिकी दिक्प्रोचकौ ते च सर्वे ज्ञान्मूनदमया ववचित्
 पाठः (सव्वरनामया अत्था) इत्यादि ही ही वन्दनकलगी प्रज्ञप्ती । वर्षकवन्दनकलगाना

तिमज्ज तेषइपचवणसूदगूथीकइमाला तेहनइ तौरणनइ आगलि विइ विइ धीडाइस्तीनुभ
 षाटकयुग्मएतलइण्केकइपासइ एकेकुसनुप्यनुयुग्म किनरदेवनुयुग्म किपुरुष देवनउयुग्म
 महीरगदेवनुयुग्म गधवदेवनुयुग्म वृषभनुयुग्म समस्तरत्नमयकै निर्मलकइ घटारामठाराकइ
 भनुरुपकइ एमज्जतौरण आगलिइयादिकनाविइविइकइपत्तिकइ मिथूनवसमा नलिय युग्म
 वरतेमिथूनतेयुग्मतेहनइ सघाडीएकेकतौरणनइ दसिरहीपत्तिआगलि विह्वइवइ पासइ

पणत्ता वरकमलपद्महाणा तेसिण तोरणाण पुरउ दो दो भिगारापणत्ता
 ता तेण भिगारा वरकमलपद्महाणा जावमइया मत्तगयमइमुहाकति
 समाणा पणत्ता समाणा उसो तेसिण तोरणाण पुरउ दोदो आयसा
 पणत्ता तेसिण आयसाण इमेयासुवे वणावासे पणत्ते तज्जा
 तवणिज्झमया पगवगा वेरुलियमयाथभया वडरामया दीवारगा णाणा
 मणिमया वलक्खा अकामया मडला अणोग्वसियणिम्मल्लाएळायाए
 समणुवड्ढाचदमडलपडिणिकासामइया अडकायसमाणा पणत्ता सम
 णाउसो तेसिण तोरणाण पुरउ दोदो वडरणाभा थालापणत्ता तेण
 थाला अत्थतित्थडिसानि तदुलहसट्ट पडिपुणाविवचइ ति सव्वजवूणध

(वरकमलपद्महाणा) इत्यादि रूपं सर्वं प्राक्तनो वक्तव्यं, (तेसिण)मित्यादि द्वौ भूधारी तेषामपि
 क्लेशानामिव वर्णके वक्तव्यी न वर पर्यन्ते (मइयामत्तगय मइमुहाकति समाणा पणत्ता
 समाणाउसो) इति वक्तव्यम् । (मत्तगय मइमुहाणइ समाणा) इति मत्तोयोगजस्तस्य मइत्त
 अतिविशाल यत मुख तस्याकृति राकारस्तत्समाना स्तसदृशा प्रज्ञप्ता । (तेसिण)मित्यादि तेषा
 तोरणाणा पुरतो द्वौ द्वौ चादशकौ प्रज्ञप्तौ तेषा चादशानामय मेतद्रूपी वणावासी वर्णकनिवेश
 प्रज्ञप्त स्तथा तपनीयमया प्रकवका पीठविशेषा अरुमयानि अरुतरनमयानि मण्डलानि
 यव प्रतिबिम्ब सम्भूति (अणोग्वसिय णिम्मलाए) इति अवघषणमवघर्षित भावेक्त प्रत्यय । भूया
 दिना निमाजनमित्यथ । अवघषितभावो अनवघर्षित निर्मला तथा ह्यायवासमनुबद्धा युक्ता
 (चन्द्रमण्डल पडिणिकासा) इति चन्द्रमण्डलसदृशा (मइया)मइयातिशयेन महान्तोर्हकायसमाना
 कायाई प्रमाणा प्रज्ञप्ता हे अमण हे आयुष्मन् (तेसिण)मित्यादि तेषा तोरणाणा पुरतो द्वे द्वे
 वज्जुनाभे वज्जुमयीनाभिर्येथीस्ते वज्जुनाभे स्थाले प्रज्ञप्तेनातिवस्थालानि तिष्ठन्ति (अत्थतित्थडिय
 तदुलहसदट्टपडिपुणाविव चिद्वन्ति) अच्छा निर्मला शुद्धस्फटिकवत त्रिकटिता स्त्रीन् वारन
 कटिता, अतएव नखसदष्टा । नखा नखिकासदिष्टामुसलादिभिश्चुम्बिता येषा ते तथा
 मुखादिदशेनात् क्लान्तस्य परनिपात । अहेम्विकटितै शालितडुलै नखसदष्टै परिपूषानव
 पूजित्रीपरिणामरुगणि । तानि तथा केवलमेव माकाराणोत्पणमा तथा चाह (सव्वजम्बूणध
 पकेकनागलताकइ श्रेणिभावइजेइवइवइ श्रेणिइतेइवी अमीकलता इयी स्त्रीपुरुपनुपद्मलता
 निहालगइ सामलता स्नेहलतानित्यइइ इवडिकसहित गुरुसहितकइ मलुरुपइजेइनु तोहतीरथ
 आगलिइइइइ चदनचरधीतकलस कक्षा तेहकलसनइ कमलनाकइमणाइइ तेहनइ तीरथनइ
 आगलि वइवइ भिगार कक्षा तेह भिगार प्रधान कमलइइसणासहित कमललुडाकणुके मोटा

मया जावपडिरुवा महया २ रइचवक समाणा पणत्ता समणा
उसो तेसिण तोरणाण पुरउ दो दो पाइउ पवत्तातो ताउणपाइउ
अच्छादग पडिइत्याउ णाणाविइस्सं पच वणस्स फलहरियस्स
वहुपडिपुण्णाउ विवचिइन्ति सव्वरयणामइउ महतीउ गो
कलिज चक्कसमाणीउ पणत्ताउ समणाउ सा तेसिण तोरणाण
पुरतो दो दो सुपतिट्ठगा पणत्ता तेण सुपतिट्ठगा णाणाविइपसाइण
भडिदिरइया इव चिइ ति सव्वो सइ पडिपुण्णा सव्वस्यणा मया
अत्या जाव पडिरुवा तेसिण तोरणाण पुरतो दो दो मणोगुत्तियातो

मया) सवात्मना जाम्बूनदमयानि (अत्यासएहा इत्यादि प्राग्बत् महया महया) इति अतिशयेन
महान्ति रथचक्रसमानानि प्रज्ञप्ताति हे श्रमण हे आयुप्पन् (तिसिण)मित्यादि तेषां तीरणाना
पुरतो हे हे (पाइउ) इति पावगौ प्रज्ञप्ते ताशच पावग(आच्छादग पडिइत्याउ)इति स्वच्छपानीय
परिपूर्णा (णाणाविइस्स फलहरियस्स बहुपडिपुण्णाउ विवे)ति अत्र पट्टी नृतीयाये बहुवचनेचैक
वचन प्राकृतत्वात् नानाविधै फलहरितै हरितफलै बहुप्रभूत प्रतिपूर्णाइव तिष्ठन्ति न क्षनुतानि
किन्तु तद्यारूपा शास्वतमुपगता पृथिवीपरिणामा भूत उपमानमिति (सव्वरयणामइउ) इत्यादि
प्राग्बत् (महये)ति अतिशयेन महइत्यागोकलिज चक्रसमाना प्रज्ञप्ता हे श्रमण हे आयुप्पन् (तिसिण)
मित्यादि तेषां तीरणाना पुरतो द्वी सुपतिष्ठकी आधारविशेषी प्रज्ञप्ती ते च सुपतिष्ठका सुम
वंपिधिप्रतिपूर्णा नानाविधै पञ्चवर्ण, प्रसाधनभाण्डैश्च बहु परिपूर्णाइव तिष्ठन्ति उपमा
भावनाप्राग्बत् (सव्वरयणामया) इत्यादि तथैव (तिसिण)मित्यादि । तेषां तीरणाना पुरतो हे हे

इस्तीनामुध्दनाआकारजेवडा कइया अहीश्रमणीआऊपावती तेइनइ तीरणनइ आगति विइर
आरीसा कइया तेइवु आरोसानु आगलि कहीसइतेइवउ कणकवसेपइ कइतेकइइइइ तपनीय
सुवर्णमय पीठविशेषाधीनुवइसणु वैडूर्यरत्नमय धामाआरीसागठनु भूविशुद्धवावीग्यप्रदेशवज्जमय
गमाहायउ अनैकमणिमय श्रु श्रलादिरुपअवलवन अकरत्नमय रायइकरीमाजवउ तेणइ करीनिर्मल
इयंइतेजइकरी अनुवइइइयुत्तइ चद्रमडन सरीपाइउ मोटाइइ अइ सरीरप्रमाणइ कइया
अहीश्रमणी आउपावती तेइनइ तीरणनइ आगलिवइ वइ २ वज्जमानाभिक्के जिएइनीएइवी
घालकइया तेइयाल निमलफटिकमरीपाइइवगिवेलाकइइ एइवसालिनातदुल नखइ करी बीवा
णइवइ तदुलइकरी जापीनइ भराजनधी इइवु प्रेञ्जालकारएइवायकीरइइइ समस्ततेथान्व
जवूनदद सुवर्णमयइइ तेजपूजइइ भलु रूपइइ मोटा मोटा रथनाचक्रपइडा जेवडा कइया
अही श्रमणी तेइनइ तीरणनइ आगलि वइ वइ पावीकइी तेइ पावी निर्मलपाणीइ परिपूर्ण

पणत्तातो तेसुण मणोगुलियासु वडवे सुवणरूपमया फलगा
 पणत्ता तेसुण सुवणरूपमए सुफलगेसु वडवे वडरामया णाग
 दतगा पणत्ता तेसुण वडरामएसु णागदतगेसु वडवे रययामया
 सिक्करगा पणत्ता तेसुण रययामयेसु सिक्कगेसु वडवे कियड
 सुत्त सिक्कगवत्थित्ता णीलसुत्त सिक्कगवत्थित्ता लोच्चियसुत्त सिक्क
 गवत्थित्ता जालिहसुत्तसिक्कगवत्थित्ता मुक्किल्लसुत्त सिक्कगव
 त्थित्ता वडवे वायकरगा पणत्ता सव्वे वैरुलिया अथ्या जावपडिक्खा
 तेसिण तोरणण पुरतो दो दो चित्तरयण करडगा पणत्ता सेज

मनोगुनिके प्रज्ञप्ते मनोगुलिका नामपीठिका उल्लञ्च जीवाभिगममूलटीकाया मनोगुलिका
 पीठिकेति ताश्च मनोगुलिका सवात्मना वैडूर्यमयी "इच्छा" इत्यादि प्राग्वत्, (तिसुण मणोगुलिया
 सुवडवे) इत्यादि, तासु मनोगुलिकासु सुवर्णमयानि ह्ययमयानि च फलकानि प्रप्रप्तानि तेषु
 सुवणरूपमयेषु फलकेषु वडवो वज्रमया नागदन्तका अष्कटका । तेषु च नागदन्तकेषु
 बहूनि रजतमयानि सिक्ककानि प्रप्रप्तानि तेषु च रजतमयेषु सिक्ककेषु वडवो वातकरका
 जलशून्या करका इत्यर्थः । प्रप्रप्ता स्तयथा (कियड सुत्ते)त्यादि गवच्छ आच्छादन गवच्छा
 सञ्जाताएष्टिति गवच्छिका कृष्णसूत्रे कृष्णसूत्रमयैर्गवच्छैरिति गम्यते सिक्ककेषु गवच्छिता
 कृष्णसूत्रसिक्कगवच्छिता एव नीलसूत्र सिक्कगवच्छिता इत्याद्यपि भावनीयम् । ते च वात-
 करका सवात्मना वेडूर्यमया (अथ्या) इत्यादि प्राग्वत् (तिसिण)मित्वादि । तेषां तोरणानां पुरतो
 दो दो त्रिचवी आश्चर्यभूतो रत्नकरपडकी प्रज्ञप्ती (सिज्जानामए) इत्यादि, स यथा राष्ट्रचतुरन्त

इह अनेक प्रकारइ पचवणीइ नीलसूत्रइ घणउप्रतिपूणनीपरि रइइइइ समस्तरत्नमयइइ मोटी
 इइ गाइनइयाथादावा नइ सुडलउतेइनइ प्रमाणइ कही अही थमथ नरे तेइनइ तोरथ
 आगलि बइइइ सुप्रतिष्टकतिष्टीउ भाजनविशेषकइ तेइ सुप्रतिष्टाक अनेकप्रकारनाष्टंगारना
 साधनपूजाना उपगरण तेषैभरपायका रइइइइ समस्तउपधीइ प्रतिपूणइइ समस्तउपधीइ
 प्रतिपूर्णाइइ समस्तरत्नमयइइ निर्मलइइ तेजवृजइइ भलारूपकइ तेइनइ तोरणनइ आगलि बइ
 वइ मणोगुलियापीठिका उटलीकही कइया तेइ मनोगुलिकानइ विपइ घणा सीनारूपामय पाटी
 या कइया तेइ सीनारूपामय पाटीयानइविपइ घणावज्रमय नागदता अकुडा कइया तेइ वज्रमय
 नागदतनइ विपइ घणा रूपामय सिका कइया तेइ रूपामय सिकानइ विपइ घणा वायुकरवापायीर
 हितइइ तेकेइवाइइ कालासूत्रमयआवाद नतेणइ सरीकानइ विपइ तेतेइवायुकरयाटाकाइइ
 एमजनीलसूत्रइ आच्छादनआकाद्याइइ रातइसुत्रि आच्छादनइ आकाइइ पीलासूत्रनइ आका

ज्ञाणामए रणी छाउरत चक्रकवट्टिम्स चित्तै रयणा करडए वेरुनिय मणी फालिङ पडलपच्चोयडे साएप्पभाए पएसे सव्वउ समतातो भासति उज्झोइ तव तिप्पभासति एवमेव ते विविचारयण करडगा सातेप्पभाए तेपएसे सव्वउ समता भासति उज्झोवति तवति पगा सति तेसिण तोरणाण पुरतो दो दो इयकठा किणणरकठा किपुरिस कठा महोरगकठा गधव्वकठा उसभकठा सव्वरयणा मया अत्था तेसिण इयकठेसु जाव उसभकठिसु दोदो पुप्फचगेरीउ मन्लचगेरीउ गधचगेरीउ चुण्णचगेरीउ वच्छचगेरीउ आभरणचगेरीउ सिद्धत्य

चक्रवर्त्ति'नश्चतुर्षु' पूर्वापरदक्षिणोत्तर रूपेषु अन्तेषु पृथिवीपर्यन्तेषु चक्रेषु वर्तितुं शील यस्य तस्य चित्र आश्चर्यभूतो नानामण्डिमयत्वेन नानावर्षीं वा (वेरुलिय मण्डिफालिय पडलपच्चोयडे) इति वाङ्मूलेन वैदुर्यमण्डिमय (फालियपडलपच्चोयडे इति फाटिकपडलावहादित' साएपभाए) इत्यादि, स यथा राजश्चतुरन्त चक्रवर्त्ति'न' प्रत्यासन्नान् प्रदेशान् सर्वतः सव्वासु दिक्षु समन्तत सामस्येन श्वभासयति एतदेव पदायवयेण व्याचष्टे, उद्योतयति तापयति प्रभासयति एव-मेवेत्यादि सुगमम् । (तेसिण तोरणाण)मित्यादि तेषां तोरणाणां पुरतो द्वौ द्वौ इयकण्ठी इयकण्ठ प्रमाणाौ रत्नविशेषौ । एवं गज्जनरत्निरत्निकिपुरुषमहोरगगन्धर्व्वं वृषभकण्ठा अपि वाच्या, उक्तञ्च जीवाभिगममूलटीकाकारेण इयकण्ठी इयकण्ठप्रमाणी रत्नविशेषौ एव संवेपि कण्ठा वक्ष्या इति तथा चाह । (सव्वरयणामया) रत्नविशेषरूपा (अत्था) इत्यादि प्राग्बत् (तेसिण)मित्यादि तेषां तोरणाणां पुरतो द्वे द्वे चग्गेयीं प्रज्ञप्ती एव मान्यचूर्णगन्धवस्त्राभरणसिद्धार्थकलोम

द्याह्वर प्रवलासूत्र आकादनइ टाक्याह्वर एहवा घणा वायुकरवा कह्वर सघला वैदुर्यरत्नमयह्वर निर्मलह्वर तेजपूजह्वर भलुरुपह्वर तेह तोरणनइ आगलि बइवइ आश्चर्यकारी रत्नकरडीपा कक्षा तेह यथाहप्यातइ राजानइ' बहूदसिनुधणी चववृत्तिहनु आश्चर्यकारीकरडीउ वैदुर्यरत्न मण्डिमयइइ स्फटिकमय उपलइइटाक्यइठाकूहूइ तेह पीतानीप्रभाकातिकरी इकडीप्रदेशप्रति चिहूदिसिइ समस्तपणइ दीपावइउद्योतकरइ तपावइ प्रकासइइणइहप्यातइ तेहपणि आश्चर्यकारी चिवामइइचित्तिलीआगलारत्नकरडीआ पीतानीप्रभाकातिकरीतेह दूकडाप्रदेशप्रतिविहू दसिइ सघलइ दीपावइइउद्योतकारिइ तपावइइ प्रकासकरइइ तेहनइ तोरणनइआगलिविइ वइ अश्वकठप्रमाणइरत्नवसेपवारणानघोठली किनरदेवकठा किपुरिसदेवकठामहोर गकठा गधर्व टेवकठा वृषभ देवकठा सघलीवज्जुरत्नमयह्वर निर्मलह्वर तेह धोडलानइविपइ' सघलाइकहिवा वृषभकठनइविपइ बइवइ फुलनी चगेरीयलगाडीइइएमज मान्नानीचगेरी कर्पूरादिकनीचगेरी

चगेरीउ लोमहृत्थ चगेरीउ पणत्ता सव्वरयणामतीउ अत्थाउ जाव
 पडिक्खाउ तासुण पुप्फचगेरीउ मुजाव लोमहृत्थचगेरीसु दो दो पुप्फ
 पडलगाइ जावलोमहृत्थपडगाइ सव्वरयणामयाइ जाव पडिक्खाइ
 तेसिण तोरणाण पुरतो दोदो सीहासणा पणत्ता तेसिण सिहा
 सणाण वणत्ता जाव दामा तेसिण तोरणाण पुरतो दो दो रूपमया
 छत्ता पणत्ता तेण छत्तावेरुलिय विमलदडा जवूयणकणिया वइ
 रामया सधी मुत्ता जालपरिगया अइ सइस्सवर कचण सलागा
 दइरमलयसुगधी सव्वोउय सुरभिसीयलच्छाया मगलभत्तिचित्ता
 चदागारोवमा तेसिण तोरणाण पुरतो दो दो चामरुवातो पणत्ताउ

इत्तचधोयींपि वक्तव्या । एताश्च सर्वा अपि सत्त्वात्मना रत्नमया (अथा) इत्यादि प्राग्बत्
 एव पुष्पादीनामष्टानां पटलकान्यपि हे हे संख्याकानि वाच्यानि । (तेसिण)मित्यादि तेषां
 तोरणाणां पुरतो हे हे सिंहासने प्रज्ञप्ते तेषां च सिंहासनानां वर्यकं प्रागुक्तो निरवशेषो वक्तव्य ।
 (तेसिण)मित्यादि तेषां तोरणाणां पुरतो हे हे इव रूप्यमये प्रज्ञप्ते तानि च इवाणि वैडूर्य-
 रत्नमयविमलदण्डानि जाम्बूनदकार्णिकानि वज्रसन्धीनि वज्ररत्नापूरितदण्डशलाकासन्धीनि मुक्ता-
 जालपरिगतानि अष्टीसहस्राणि अष्टसहस्रसख्यावरकाञ्चनशलाकावरकाञ्चनमय्या शलाकायेषु
 तानि (दइरमलयसुगन्धि सव्वोउय सुरभिसीयलच्छाया) इति दर्दरश्रीवरातडं कुण्डिकादिभाजन-
 सुस्रन्ते न गालिता स्तव पचा वा, ये मलय इति मलयोद्भव श्रीखण्ड तत्सम्बन्धनं सुगन्धयां
 वासा स्तवत् सव्वेषु षट्सु सुरभिं शीतला च कायया येषां तानि तथा (मगलभत्तिचित्ता)
 अष्टानां स्वस्तिकादीनां अष्टमालानां भक्त्या विहित्या चित्रमालेशो येषां तानि तथा (चन्दागारो
 वमा) चन्द्राकारप्रचन्द्राकृतिं स उपमा येषां तानि तथा चन्द्रमण्डलवत् वृत्तानीति भाव
 (तेसिण) मित्यादि तेषां तोरणाणां पुरतो हे हे चामरे प्रज्ञप्ते तानि च चामराणि (चन्दप्यभ
 श्रीरादिक्कीचगेरी वस्तचगेरी आभरणनीचगेरी सरवतीचगेरी लोमपु जयीचगेरी कङ्की सघला
 रत्नमयीकइ निर्मलकइ जीवायीगकइ भलुरुपकइ तेइनीफुलनीचगेरीनइवियइ सघलीचगेरीइभलु
 रूपकइ पु जणीनीचगेरीनइवियै विइविइ फूलनीचगेरीइ पुप्फपडलकइऊपरिआइदानटाकणा
 इमजआठचगेरीइआठपडलकइवा पु जणीनिचगेरी सर्वरत्नमयकइ जोइवायीगकइ भलुरुपकइ
 तेइनइ तोरणनइ आगल विइविइ सीहासण कङ्का तेइनु सिंहासननु वर्यकचपरिचट्टचतेणइ
 अकुस मीतीदामडै तेइनि तोरणनइ आगल विइविइ रूपामय कइ कङ्का तेइ कइ वैडूर्यरत्नमय
 निमलदण्डसहितकइ जवूनदमूषणमणिकासहितऊपलुभाग दइअनइसिलाकानीसधिवज्ररत्नइ

ताउण चामराउ चदप्पभ वैरुलिय वेंडर णाणामणिरयण खचित्त
 चित्त दडाव चिल्लियातो सुद्धमरययदीहवालाउ सखककुददगरय
 अमय महिय फेणपुञ्ज सणिणगासाउ सव्वरयणामयाउ अत्थाउजाव
 पडिहवातो तेषिण तोरणण पुरउ दो दो तैलसमुग्गा कोट्टेसुमुग्गा
 पत्तसमुग्गा चोयगसमुग्गा तगरसमुग्गा एलासमुग्गा हरियालसमु
 ग्गा हिगुलसमुग्गा मणोसिलासमुग्गा अजणसमुग्गा सव्वरयणा
 मया अत्था जावपडिहवा मूरियाभेणं विमाणे एगमेगदारि अट्टसय
 चक्कज्जयाण अट्टसयमिगज्जयाणा अट्टसयगरुलज्जयाणा कुच

वैरुलियवेंडर णाणामणिरयण खचित्त चित्तदडाव इति चन्द्रप्रभा चन्द्रकान्ति वज्र वैडूर्यं च
 प्रतीत चन्द्रप्रभवैडूयाणि शेषाणि च नानामणिरत्नानि खचितानि येषु ते तथा एव रूपाश्चित्तानाना-
 कारादयडा येषां चामराणां तानि तथा (सुद्धमरययदीहवालाउ) इति सूक्ष्मा रजतमया दीर्घा वाता
 येषां तानि तथा । (सम्पन्न कुन्ददगरय अमय महिय फेणपुञ्ज सणिणगासाउ) इति सम्पन्न-
 प्रतीत, अक्षीरत्नविशेष, कुन्देति कुन्दपुष्पन्दकरजउदककथा । अमृतमयितफेनपुञ्ज चीरीदं
 जल मधनसमुत्पफेनपुञ्जे स्तेषामिन्नं सन्निकाशं प्रभा येषां तानि तथा । (अत्था) इत्यादि प्रागवत्
 (तेसिण)मित्यादि तेषां तोरणानां पुरतो द्वी द्वी तैलसमुद्रकौ सुगन्धितैलाधारविशेषी उक्तञ्च
 लीवाभिगममूलटीकाया तैलसमुद्रकौ सुगन्धितैलाधारी एवं कौपटादि समुद्रका अपि वदन्त्या ।
 अथ समुद्रिणि गाथा । (तैल्लकोट्टसमुद्रापत्तेचोयगतगरएलाय हरियालि हिग्गुलए मणो-
 सिला अज्जणसमुग्गा सव्वरयणामया) इति एते सर्वेपि सर्वात्मना रत्नमया (अत्था) इत्यादि
 प्रागवत् (मूरियाभेणं विमाणे एगमेगदारि अट्टसय चक्कज्जयाण)मित्यादि तस्मिन् सूर्याभे विमाने
 एकैकस्मिन् अष्टाधिकं शतं चक्रध्वजानां चक्रालेखरूपविहीणेतानां ध्वजानामेव मृगगरुडवृद्धे

करोपूरीकइ मीतीरनुइ जालाइ करीचउपपेरव्याप्तकइ एकसहस्रनइ आठप्रधानसुवर्णासलाकाइ
 तापनउकइ कु डीनइविपइगालु थापडनु गधवासतेइवु कवनु गधकइ सधलीवृतनुइविपइ भीतल
 कायाकइजेइनी आठसगलीकभातिकरीविचित्रितकइ चद्रमानइआकारकइ तेंहनइ तीरणनइ
 आगलि विइविइ चामर रुपमूर्त्तमतचामर कक्षा तेंह चामर चंद्रप्रभरत्न वैडूर्यरत्न वज्ररत्न
 अनेकप्रकारइमणिरत्निकरी खचित्तचित्तमसहित दडकइजेइनी देदीप्यमानके सख अकरत्न फूल
 पाणीनाकणीआ मध्यउ अमृततेइवु फेनपु ज त्रिहसरीपाऊजलकैधणु पातना कपावालाकावाल
 तेंहनइ विपइकइ सर्वरत्नमयकइ निर्मलकइ जीइयावीग्यकइ भलुरुपकइ तेडनइ तीरणनइ आ
 गलि विइविइ सुगधतैलनाडावडाकइ कूटसुगधद्रव्यनाडावडाकइ पाननाडावडा चूयानी डावडा

ज्मयाण क्तज्मयाण रिक्ज्मयाण सञ्चिज्मयायाण सीहज्मयाण
 उसहज्मयाण अद्रसयसेसाण चउविहाणाण षांगवरकेऊण एवा
 मेव सपुव्वावरेण सूरियाभे विमाणे एगमेगेदारे असिय असिय
 केऊ सहस्स भवतीक्खाय सूरियाभेविमाणे पणणट्टिभोमा पणणत्ता
 तेसिण भोमाण भूमिभागोउल्लोयाय भाणियव्वा तेसिण भोमाण
 बहुमज्जदेसभाए सीहासणं पणणत्ते सीहासण वणणत्तो सपरिवारो
 अवसेसेसु भोमेसु पत्तेय २ भद्दासणा पणणत्ता तेसिण दाराण उत्तमा
 गारासोलस विहेहि रयणेहिउ वसोभियात जहारयणेहि जावरिहेहि

इतरिक्कशकुनिसिहवृषभचतुर्दन्तहस्तिध्वजानामपि प्रत्येकमष्टशतमष्टशत वक्तव्यम् । (एवामेवस
 पुव्वावरेण) एवमेव अनेनैव प्रकारेण सपूर्वापरेण सह पूर्वं परैश्च वर्त्तते इति सपूर्वापर
 सख्याना तेन सूर्याभे विमाने एकैकस्मिन् द्वारे अशीतिमशीति अशीत्यधिक मशीत्यधीकं केतु सहस्र
 भवतीत्याख्यात मया अन्यैश्च तीर्थकृद्भिः (तेसिण)मित्यादि, तेया द्वाराणा सन्धीनि प्रत्येक पञ्च
 भोमानि विशिष्टानि स्थानानि प्रज्ञप्तानि तेया च भूसाना भूमिभागा उल्लोकाश्च यानविमान
 वक्तव्यं । तेया च सीभोमाना बहुमध्यदेशभागे यानि वयस्त्रिगुणानि भौमानि तेया बहु
 मध्यदेशभागे प्रत्येक सूर्याभदेवयोग्य सिंहासनं तेया च सिंहासनाना वर्णकी अपरोत्तरोत्तर
 पूर्वादिपु सामानिकादि देवयोग्यानि भद्रासनानि च क्रमेण यानविमानवद्भक्तव्यानि शेषेषु च
 भौमेषु प्रत्येकमेकैक, सिंहासन परिवाररहितं (तेसिण)मित्यादि, तेया द्वाराणा उत्तमा अकारा
 उपरितना आकारा उत्तरादिरूपां क्वचित् (उवरिमागारा) इत्येव पाठः, षोडशविधै रत्नै
 रपशीभिता स्तद्यथा (रयणे हि जावरिहे हि) इति रत्नै सामान्यतः कर्केतनादिभिः धावत्करशात्

तगरना डाबडा एलखीनाडाबडा हरियालनाडाबडा हिगुलीनाडाबडा मणसिलनाडाबडा सीवीरा
 जननाडाबडा पौलिआगलिमूकाइसर्वरत्नमयकड निर्मलकड तेजपु जकड भलु सपखि सूर्याभ विमा
 नइ एकेकायोलिइएकसु आठचक्रधजावक्रनिरुपइचिह्वितधजातेचक्रधजारुहीइ एमज१०८मृगध्वजा
 १०८गरुध्वजा १०८क्रीवध्वजा १०८कवध्वजा १०८राध्वजा १०८पक्षीध्वजा १०८ सीहध्वजा
 १०८ वृषध्वजा एकसुआठ सेखयाकतासडूनइ कहवा चतुर्दशप्रधान हातीनइचिह्वि १० ध्वजा
 एणीपरि चिहु दसिनीपौलिध्वजाथवा सूर्याभ विमानइ एकेकीधिलितइविपइ अइसी अधिक
 कडी सहस्रध्वजाकड भगवतिकहिउ तिम सूर्याभ विमानइ पौलिनविपइ पइसठिरभोमाकइ
 देवतेहनइ वइसवानासुवानाविसासपुस्था । कवसेपभोमाकडीमेडीरुपरधानकसभावीइ तेहना भूमि
 भ गल्लमय वलीऊपरिचिवामना चडूयामीतीमालाकहवी तेहनइ भोमानइ धणउ मध्यदेसभागइ

तेसिण्ण-टाराण उवरि अट्टमगलगाञ्जभया जावहत्ताइहत्ता एवमेव
 पुव्वावरेण सूरियाभेविमाणे चत्तारिदारसहससा भवतीति मक्खवाय
 मृगियाभस्सण विमाणस्स चउदिम पच्च २ जोयणमयाइ आवाहाण
 चत्तारि वणसडा पणत्ता तज्जहा असोगवण सत्ति वणवणणे चपण
 वण भूत्तियगवणे पुरत्थिमेण असोगवणे दाहिणेण मत्तवणवणणे

वज्जे । २ वैडूर्य, ३ लोहितान्ते, ४ मसारगल्ले, ५ इसगर्भ, ६ पुलकं, ७ मोगन्धिके, ८ खीती
 रसे, ९ अब्बके, १० अञ्जनै, ११ रजते, १२ जातरुपे, १३ अञ्जनपुलकै, १४ रफटिकैरिनि पणि
 गूह, षोडशेरिष्टै (तेसिण्ण)मित्यादि, तथा दाराणा प्रत्येकमुपरि अष्टौ अष्टौ स्वस्तिकादीनि मध्य-
 लकानि यानविमानतोरणवत्तावद्वाच्य यावद्दहव सहस्रपवहस्तका इति, अत ऊर्ध्वं केपु केचित्
 पुस्तकान्तरेष्वेव पाठः । एवमेव (पुव्वावरेण सूरियाभे विमाणे चत्तारि दारसहससा भवन्तीति
 मक्खवाय)मिति सुगम, (सूरियाभस्सण)मित्यादि सूत्राभस्य विमानस्य (चउदिसन्ति) चतस्रोदिग्ग
 समाह्वतारचतुर्दिक् तस्मिन् चतुर्दिग्गि चतसृषु दिक्षु पञ्च पञ्चयोजनशतानि (आवाहाण) इति
 वाधन वाधा आक्रमणमित्यर्थे । न वाधा अवाधा अनारक्रमण तस्याप्रवाधायां कृत्वेति गम्यते ।
 अपान्तराल मुक्तेति भावः, चत्वारो वनखण्डाः प्रचक्षताः । अनकजातीयानामुत्तमाना मही
 रुहाणा समूहो वनखण्ड उक्तञ्च नीवाभिगमचूर्णा, “अणोगजाइहि उत्तमेहि रुक्खेहि वणसण्डे”
 इति । तद्यथेत्यादिना तानेव वनखण्डान नामतो दिग्वेदतश्च दर्शयति । अशोकवृक्षप्रधान
 वनसगीकवनमिव सप्तपर्णवन चम्पकवन भूतवनमपि भावनीयम् । (पुरत्थिमेण)मित्यादि पाठ
 निडम् । अत्र सगुहणिगाया, (पुव्वेण असोगवणे दाहिणतीक्ष्णे सत्तवणवणम्, अवरेण चम्पग

एतल्लिक्के बीसमिभोमइमूयाभदेवयोग्यं सिहामनकइ कहउ तिसीहासननु वृष्णेक परिवारसहित
 यानविमाननीपरि जाणवव संपथाकता सु सविभोमानिविपि प्रतेकइ भद्रासणपरिवारसहित
 क्रद्धा तेहनो दारना उत्तरथाकारहि मीलप्रकारइ रनेइकरी सीमितकइ तेकहइकइ गलकके
 तनादिकइ जिहलमिसोत्तमीजाति रिट्टरनमइतिहलंगडकहीइ तेहनइ पोलिनइऊपरि आठर
 मायीयादिकमगलीकधजासहस्रपवादिककमलकृत ऊपरिहत्तचामरसर्वकहिबउ पर्णापरिजिमपुर्व
 ठसिइ सहस्रधागनुवणककीधुतिमज्जुपरिचिहूत्तिसिहस्ररपालिकहवीजिमएकपोलिनुवणकतिससधली
 पोलिनु वणक्रजाणु सुयाभ विमानइ चिहूदसिच्चारसहस्र-दारकइ भगवति इमकड्डु मूयाभनइ
 विमाननइ चिहूत्तिसि पाचर जोयनआवाहाइविमान्तथकीवेगलापाचसइयोजनजइनेइ तिहा
 च्याग्नसखडकध्यातेकहइकेइ अमोकवन१ सपूर्णवन२ चपकवन३ आम्रवन४ विमानथकीपूर्वदसिइ
 असोकवनइ५ दक्षिणदसिइ सप्रवणवन६ पक्किमदगइ चप्रकवन उत्तरदसिइ आम्रवन तेइ वनपउ

पच्चक्रिमेण चपगवणे उत्तरेण चूयवणेतेण वरणसडा सातिरेगाइ
अहतेरसजोयण सयसइस्साइ' आयामेण पचजोयणसयाइ विक्ख
भेण पत्तेय २ पागारपरिक्खत्ता कियहा कियहा भासावणसड

वणं भूयवण उत्तरेफासे) इति (सिण)मित्यादि ते वनखण्डा सातिरेकानि अर्द्धवयोदग्गानि साडानि
द्वादशयोजनशतसहस्राणि । आयामेन पञ्चयोजनशतानि विष्कम्भत प्रत्येक प्रत्येक प्रकार
परिच्छिन्ना पुन कथभूता स्तेन वनखण्डा इत्याह (कियहा कियहा भासा जावपडिमीयणा
सुरम्मा) इति यावत् करणादेव परिपूर्णपाठ सूचितो "शीला शीलोभासा हरियाहरियोभामा
सीयासीयोभासा णिद्धाणिडोभासा, तिब्बातिब्बोभासा कियहा कियह हाया शीला शील-
हाया हरिया हरियहाया सीया सीयहाया, णिद्धा णिद्धहाया षण्णकडिंयकडिहाया
परममहामेह णिकुम्भभूया तेष पाय वा मूलमन्तो कन्दमन्तो खधिमन्ती तयामन्ती पवाल-
मन्ती पत्तमन्तो पुष्कमन्तो वीयमन्तो फलमन्तो अणुपुव्व सुजायसुइलवद्ध भाव परिणया
पगखन्धी अण्णेगसाइप्प साहविडिमा अण्णेगणर वामसुप्पसारिय अणेव्व षण्णविपुलवट्ट खन्धी
अच्छिइपत्ता अवरिलपत्ता अवाइणपत्ता आणाइ पियत्ताण्डुय जरइ पण्डुपत्ता णवहिरियमि
सन्त पत्तभार धयारगम्भीर दइयाणित्थ थवइयाणित्थ भोक्खियाणित्थ जमलियाणित्थ जुइल
याणित्थ विणमियाणित्थ पण्णमियाणित्थ कुसुमिय मउलिय लवइय थवइय मुलइय गोक्खिय
जमलिय जुयलिय विणमिय पण्णमिय सुविभत्त पडिमञ्जरिवडसिय धरा । सुय वरहण्ण मयथ
मलागा कीइल कीरग भिआरग कीण्डल जीव जीवक णदीमुख कविलपिआलखणकारणड च
चक्कवाग कलहस सारस अण्णेगसुयणमिहुणवियरियसहइय महुरसरणाइया संपडिय दरिय भमर
महुवरियहुकरपरिलेन्तकूप्य कुसुमासवलीलु महुयतुमनुमन्त गुञ्जत देसभागा अग्निन्तर
पुष्पफला वाहिरपत्तोक्खत्ता पुत्तेइय पुप्पेइय उक्खत्ता शीरीगकासाउ फला अकण्टगा थाणाविह
गुक्खगुम्ममण्डवगसोहिया विचित्तसुहकेउभूया । वाविपुष्करिणिदीहिया सुय सुनिवेमिय रम्मजाल
धरगा पिण्डमनीहारिम सुगधि सुह सुरभि मण्णहरव गन्धइणिय सुयन्ता सुहसेउकेउ बहुला अण्णेग
सगडरइजाणजुग्ग गिल्लिथिल्लिसीय दसमाण पडिमीयणा सुरम्मा" इति । अस्य व्याख्या इह
प्रायोवृक्षाणो मध्यमे वयसि वत्तमानानि पत्ताणि कृष्णानि भवन्ति, तत स्तद्योगात्वनखण्डा अपि
कृष्णा न चोपचारमावात्ते कृष्णा इति व्यपदिश्यन्ते किन्तु तथा प्रतिभासनात् तथा चाह
कृष्णावसायावतिभागे कृष्णानि पत्ताणि सन्ति तावतिभागे ते वनखण्डा कृष्णा अवभासन्ते
भासन्ती साडीवापलाखजोयनलात्रपर्ये पाचमेजोयन पिडूलपणइ प्रत्येकरच्यारिवली कटइ करी-
वेष्टितकइ तेइवनपडनवापणरथकी कालवणविकइ कालीकइकातिजहनी वननउ प्रणकउसाइ
नूत्रवकीजाणवउ तेइवनखडमाहि षण्णउ समु रमणीक भूमिनउवदेशकै जेहा कहा तेइ यथा

व्याख्यं तैसिण वणसडा अतो वडूसमरमणिज्झा भूमिभागा पयणत्ता

तत कृष्णा अवभासो येषां ते कृष्णावभासा इति तथा । हरितत्वमतिक्रान्तानि कृष्णत्वम
सम्प्राप्तानि पद्मणि नीलानि तद्योगादनखण्डा अपि नीला । नचैतदुपचारमात्रेणोच्यते
किन्तु तथावभासात्तथा चाह नीलावभासा समास प्राग्वत्, यौवने तान्येव पद्मणि किसलयत्व
रक्तत्व चातिक्रान्तानि इपहरितालाभानिपाण्डूनिमन्ति हरितानीत्यपदिश्यन्ते तत तद्योगात्
वनखण्डा अपि हरिता, नचैतदुपचारमात्रा तदुच्यते किन्तु तथा प्रतिभासात्तथा चाह हरिता
वभासा, तथा बाह्यादतिक्रान्तानि वृक्षाणां पद्मणि शीतलानि भवन्ति । तत स्तद्योगादनखण्डा
अपि धीता इत्युक्ता नच नते गुणत स्तथा किन्तु तथैव तथा चाह । शीतावभासा, अधोभाग
वर्तिना वेमानिकदेवानां देवीनां च तद्योगसीत जातसस्पर्शतस्तेशीता वनखण्डा अवभासन्ते
इति तथा एते कृष्णनीलहरितवणा यथा स्वरस्मिन् । स्वरस्मिन् स्वरूपे अत्यक्तय स्निग्धा
भयन्ते तीव्राश्च, तत स्तद्योगा वनखण्डा अपि स्निग्धा तीव्राश्च इत्युक्ता नचैतदुपचारमात्र
किन्तु तथावभासोप्यस्ति तत उक्तम् । स्निग्धवभासा स्तीव्रवभासा इति, इहावभासोभ्रान्तोपि
भवति यथा मरुमरीचिकासु जलावभास स्तोनावभासमात्रोपदग्नेन यथावस्थित वस्तुस्वरूप
मुपवर्णित भवति किन्तु तथा स्वरूपप्रतिपादनेन तत कृष्णत्वादीनां तथा स्वरूपप्रतिपादनार्थं
मनुवादपुरस्सर विशेषणान्तरमाह । "किण्डा किण्डच्छाया" इत्यादि कृष्णा वनखण्डा कुतइत्याह
कृष्णच्छाया निमित्तकारणैरेतुषु सर्वासा विभक्तीनां प्रायो दर्शनसिति वचनात् हेतोः प्रथमा ततो-
यमर्थः । यस्मात् कृष्णाकाया आकार, सर्वा विसर्वादितया येषां तस्मात् कृष्णत्वं एतदुक्तं भवति ।
सर्वा विसर्वादितया तत्र कृष्ण आकार उपलभ्यते, न च भ्रान्तावभासा सम्पादित सचाक सर्वा
विसर्वादी भवति । तत स्तत्र वृत्त्या ते कृष्णा न भ्रान्तावभासमात्रव्यवस्थापिता इति एव नीला
नीलकाया इत्याद्यपि भावनीयम् । नवर शीता शीतकाया इत्यत्र कायाशब्द आतपप्रतिपक्ष
वस्तुवाची द्रष्टव्यः । "घटकडियकाया" इति इह शरीरस्य मध्यभागे कटि स्ततोऽन्यस्यापि मध्य-
भागे कटिरिव कटिरित्युच्यते कटिस्तटमिव कटितट घटना अन्योन्यमाखा प्रमाद्यानुपवेशतो
निविडा कटितटे मध्यभागे काया येषां ते तथा मध्यभागे निविडतरकाया इत्यर्थः । अतएव रम्या
रमणीया तथा मङ्गल जलभारावनत प्रावृट् कालभावी यो मेघनिकुम्बी मेघसमूहस्त भूता गुणै
प्राप्ता महामेघनिकुम्बभूता महामेघवृन्दोपमा इत्यर्थः । "तेष पायवा" इत्यादि अशोकवरपाटप
परिवारभूतप्रागुक्ततिलकादिवृचवर्णकवत् परिभावनियम् । नवर "सुयदेव रञ्जिमयथ साल-
गाड" इत्यादि विशेषणमात्रोपमया भावनीय "अशोकसगडरहजार्थ" इत्यादि तदाकारभावत (तैसिण
वणसडाण)सित्यादि तेषां वनखण्डानामन्तर्मन्ये बहु समरमणीया भूमिभागा प्रज्ञप्ता स्तेषां
दृष्टातइ मुरुजवाजिवनु चमरपुड उज्जेइवुममवु इइ शब्दहूइ भगवतपीतानावागमधी चालीनउ वसिप

सेजहाणामए आलिगपुक्खरेडवा जाव णाणाविह पचवणणेहि मणीहिय तणेहिय उवसोभिया तेसिणा मणीण गधफासो नेज्वोज हाकम्म तेसिणा भते तेणाण मणीणयपुब्बावर दाह्णिणोत्तरागएहि' वा एहिमदायर एडयाणा वेडयाणा चालियाणा धट्टियाणा खोभियाणा उदी रियाणा केरिसए सहेभवति गोयमा सेजहाणामए सीवाणवा सट माणियाएवा रद्धस्सवा सद्धत्तस्स सज्जयस्स -सघटस्स मपाडागस्स

च भूमिभागा (सेजहाणामए आलिगपुक्खरेडवा) इत्यादि वर्णन प्रागुक्त तावहाञ्च यावन्मणीना मग्गो नवरमव नृणान्यपि वक्तव्यानि चैव (णाणाविह पञ्चवणणेहि मणीहिय तणेहिय उवसोभिया) "तज्जहा क्खिणेहिय नीलेहिय जावमुक्किलेहि तत्थय जेते कयहा तणायमणीय तेसिणमय मेया-रुवे वण्णवामे पण्णत्ते सेजहाणामए जीमूते वा" इत्यादि सम्प्रति तेषां मणीना च वातेरिताना शब्दस्वरूपप्रतिपादनार्थमाह । (तेसिण भन्ते तेषाणमणीणय) इत्यादि (तेषां)णमिति पूर्ववत् भदन्त परमकल्याण योगिन् नृणाना पूवापरदक्षिणोत्तरागतैवातेर्मुन्दयान्ति मन्द मन्दमेजिताना कम्पिताना व्यजिताना विशेषतः कम्पिताना एतदेव पथाय शब्देन व्याचष्टे । कम्पितानां तथा चालितानामितस्ततो मनाक् विचिप्तानामेतदेव पथायेण व्याचष्टे । स्यन्दितानां तथा घटितानां परस्पर सहर्षयुक्ताना तथा (धट्टिया) इत्याह चीभिताना स्वस्थानत्त्वालनमपि कृतइत्याह । उदीरितानामुत्प्रावह्येन प्रेरिताना 'कीहण' शब्द' प्रचक्षते । भगवानाह (गोयमे)त्यादि । गौतम म र्थानामक' सिविकाया स्यन्दिमानिकाया वा रथस्या वा तत्र सिवि वा जम्पानविशेषरूपा उपरिष्ठादिता कीष्टीकास' तथा दीर्घाजम्पानविशेष पुरुषस्य स्वप्रमाणावाकाशदार्था स्यन्दमानिका अनयोश्च शब्द' पुरुषोत्पादितयो' सुद्रुहेमघण्टकादिवलनत्रयती वेदितव्य' । रथश्चेह सङ्ग्रामे रथ' प्रत्ययोऽमुं तन विशेषणाना मन्यथा सम्भवात् तस्य च फलकवेदिका यस्मिन् कालीय पुरुषान्तदपेक्षया कतिप्रमाणावसेया, तस्य च रथस्य विशेषणान्वभिधत्ते स इवस्येत्यादि मङ्गलस्य सञ्जनस्य सघण्टाकस्य उभयपार्श्ववल्ग्विमहाप्रमाणाघण्टोमेतस्य सपताकस्य सप्त पञ्चे प्रेरया द्वावत्सङ्घं दानविमान भूमिनउज्ज्वलवज्रक'कतिमजएहाजाणिवु अनेकपुकारइ- पञ्च वणनृणइ करो तेहवनसीभितहे पूर्वइ जेहवु दानविमानइ मणिनु पांचवण गधफरिस यथाक्क मइ कछुतेहवु सवण गधफरिस नृणयनऊपणिजाणवउ हवइ गौतमपूइइइइ हे भगवत हे पूज्य नृणनउं मणिमए पूवपरिक्कमदक्षिणउत्तर दसिथी आवइ वाइकरी मउइइइइ कपाव्यानउ वसेपइ कपाव्यानु अरहापरहाचाल्यानउ माहोमाइसघटणनउ कइइकइ हे गौतम तेहयथाहपान्तइ मित्रकाकुटनइआकारइ तेहनि अथवास्यदमानिकामालपी तेहनि अथवा सग्रामइ करणणइइ तेहनइ केहवुकइ इवसहितइइ धजासहित' इइ घटासहितइइ पताका सहितइइ तीरण सहिते

सतोरणस्स सणदिघोसस्स खिखीणीहेमजानपरिखित्तस्स हेमवत्ति'
चित्तिणिण्ण सकण्णगण्णजुत्त दाहवस्स सुसपिण्हारगमडलधूरागस्स
कालय समुकय णिमिजतकम्मस्स आइत्तवर तुरगसुसपउत्तस्स
कुसन्त णरख्यसारहि सुसपग्गडियस्स सरसय वत्तीसतोरणा परिमडि

तीरणवर प्रधानतीरणं यस्य स सतीरणवर स्तस्य सच्च नन्दिघोपा दादशतूर्यनिनादी यस्य स
नन्दिघोप स्तस्य तथा सच्च किष्किण्य चुद्रघण्टा येषामिति स किष्किणीकानि हेमजालानि यानि
हेममयदामसमूहा स्तौ सवासु दिक्षु पर्यन्तेषु वच्चि प्रदेशेषु परिचिप्तौ व्याप्तस्वरय स तथा
हेमवत हिमवत्पर्वतभाविचित्रम् । विचित्रमनोहारित्रिचिकोपेतन्ति निशन्ति नशतससम्बाधि
कनकनियुक्ता कनकविच्युरितदासकाष्टयस्य स हेमवतचित्रतैनयकनकनियुक्तादाहक स्तस्य
सूत्रे च द्वितीयं कारकं स्वार्थिकं पूर्वस्य च दीर्घत्वं प्राकृतत्वात् । तथा सुष्टु अतिशयेन सम्यक्
पिनड वृद्धमरकमण्डलन्युश्व यस्य स सुसपिनडारकमण्डलधूस्क स्तस्य तथा कालायमेन लोहेन
सुष्टु अतिशयेन कृतन्नेमेवाह्यपरिधियं वस्य चारकी परिफलकचक्रवालकर्म यस्मिन् स कालाय
मुकृतनेमियवकम्मा तस्य तथा आकीणा गुण्येव्याप्ता ये वराप्रधाना स्तुरगास्ते सुष्टु अतिशयेन
सम्यक् प्रयुक्तायोत्रिता यस्मिन् स आकीणवर तुरगसुसप्रयुक्तं तस्य प्राकृतत्वात् बहुव्रीह्यावधि-
क्रान्तस्य परनिपातः, तथा सारथिकमन्थिये कुशला नसस्तेषा मध्ये अतिशयेनशुक्ली दक्ष सारथि
स्तेन सुष्टु सम्यक् परिगृहीतस्य तथा (सरसयवत्तीस तीरणपरिमिडियस्स) इति शरणाया शत

हूइ वारइतूरवाजिक् सङ्घितहूइ धूधरीनइ सुञ्जणमय मालासमूह तेषइकरी चउपपेरच्छेठइव्याप्त
हूइ हेमनमनोहर पर्वतसवध विचित्र मनोहारिति निशवृचसवधी कनकइवकीठउ काष्टतेणइ करी
नीपजावु हूयकडीपरि वाधुंइइ आरामसंडल अनइपुराजे जेइनी लोहवसिख नीकडीपरिकीधीकइ
पइडीनीफिरतीपाटीजेइनैविपै गुण्येकरी आकीणं व्याप्त प्रधान धोडाजीतराइइजिहा डाइ
आयुइय अवसरजुसार थीइ वडापरिगृह्णइहूइ सुउग् तीरजेहमाहि एइवा ववीस तुणा भावा
तेणइ मडितइइ ककटकवच तेषइ सङ्घित अवतसटीपकइजेइनी सङ्घिततार धनुषे मालाप्रमुप
प्रेडासनाइ तेषइ करी भगुन धकु जुइनीसामग्रीइ सजभकरउइइ एइवारधनइ राज्ञाना आगथा
नइ विपइ अथवा राज्ञाना अते उरनइ विपइ अथवा रमणीक मणिजडित भूमितलनइ विपइ
वनीवली वेगइकरीजातउ स्तइतेरथ प्रधान मनोज्ञ मणीहर काननइ मनइ मुखकारी सव्यचिहू
दनि समस्तपणि नीकलइ ग्रीतमपूकइ कइ तेइतृणनउं सव्य एइवु हूइ कदाचित् गुरुकइइकइ
एइ अयं समर्थनही वलीभगावत कइइ कइ यथाइप्यातइ पाकलीरात्रिं तादनविनावजाडीइ तेइ
वेतालि कोवोण्णतेइनासंइतेकइवाइइ उत्तरमदानामइ सूक्ष्नीगधरस्वरातगु वतेणीइमूकाथीसङ्घित

वस ततीतल ताललयगहसुसपउत्त महुर सम सुललिय मणीहर
 मउयरि भियपयसवारसुरइ सुनतिवर चासख दिव्व णट्टसज्ज्म गेय
 पगीयाण भवेयाखवे सिया हता गोयमा एव भूणसिया तेसिया वण
 सडाणं तत्थ २ तहि २ दे दे वद्धूतोक्खुडा खुडियाए वाणीया
 पोक्खरिणीउय दीहियाउ गुजालियाउ सरपतीयाउ सरपंतीयाउ
 विलपतीयाउ अत्याउ सणहाउ खयामयकूलाउ भमतीराउ वइ

तत् कुहरगुञ्जन्त वसन्ति तलताललयगहसुसपउत्त महुर सम सुललिय मणीहर मउयरि-
 भियपउयसञ्चार सुरइ सुणति वरचाखखं दिव्व णट्टसज्ज्म गेय पगीयाण)मिति यथा प्राक्
 नाटयविधौ व्याख्यात तथा भावनीयम् । "चारिसए सहे इवइ" प्रगीताना मातुमारभ्यवता याहइ
 शब्दोऽपि मनीहरी भवति स्यात् कथञ्चिद्भवेदेतद्रूपे तेषां नृणाना मणीनां च शब्दः । एवमुक्ते
 भगवानाह गीतम स्यादेव भूतशब्दः । (तिसिण वणसणडाण)मित्यादि, तेषामिति वाक्यालङ्कारे
 वनखण्डाना मध्ये तत्र तत्रदेशे तत्र तत्रेति तस्यैव देशस्य तत्र तत्र एकदेशे (वड्डे) इति वड्ड
 (खड्ड खड्डियाउ) इति जुल्लकाल धवील धवइत्यर्थं, वाप्यश्चतुरसा पुष्करिण्यो वृत्ताकारा अथवा
 पुष्कराणि विद्यते यासु ता पुष्करिण्यो दीर्घिका षड्ज्वीनथा चक्रानयो गुञ्जालिका वड्डुनि केवल
 केवलानि पुष्पावकीणानि सरासि एकपङ्क्तया व्यवस्थितानि सर पङ्क्तिस्तावड्डसर पङ्क्तय, तथा येपु
 सर सुपङ्क्तया व्यवस्थितेषु कूपोदक घ्राणालिकया सञ्चरन्ति स सर पङ्क्तिस्तावड्डसर सर मर
 पङ्क्तय, तथा विलानीव विलानि कूपोदके पङ्क्तयो विलपङ्क्तय एताश्च सवा अपि कथं भूता इत्याह
 (अत्या)एफटिकवइ हि निमलप्रदेगा श्लक्षणा श्लक्षणापुङ्गलनिप्पादितवइ प्रदेगा श्लक्षणादल निप्य-
 पटवत तथा रजतमय रूप्यमय कूल यासा ता रजतमयकूला स्तथा समन गचाभावात् विपमणीर

सुसपयूक्तकहीइ पीठउस्वरकीकिलावत वंसतीस्वरिचनुस्वरगततेसमधोलताप्रकारइसहित काननइ
 मुखजपजावइतेमनीहर मूडूउच्चारिसहित पदनुसचारतेरिभितकहीइ मूडूचारभितपदनइविपइ
 सचारकइजेइनु सोभननतिइइडइकैजेइनउ प्रधानभलरूपकइजेइनु एकठुप्रधान नाटकनइस
 ज्जकराउ गीतप्रतिगातीइइकिनरादिकदेवताजेइनुजेइनुसब्दइइवे तेहवउतुथानुसब्दइइ कदाचित
 बोलतु भगवतकइइइहेगीतम एम इइ कदाचित तेह वनखड्डमाहि तिहर तेणइर देसइप्रदे
 सिधयीदेसेदेसे नान्ही २ चाविकइधुपणाकमलकइजिहां पुष्करणीअथधावाटली लावातेदीर्घका
 वाकीतेगु जालिका तलावनीपङ्किते थं णिपासपासइधयातलावनीपङ्कितेसरसपङ्क्ति कुथानीपङ्क्ति
 स्फाटिकवत् निमल सूक्ष्मपुङ्गलिनीपनीइइ तेहानारूपामयकूलतटइइ विपमनधीऊतरधानउठाम
 जेइनु वज्जरनमउपयाथइजडीइइ तपनीवसुवणंमय भूमितलउ इइ सुवर्णपीतिकान्ति सुभ्रमहा-

रामयपासाणाउ तवणिजभमयतलाउ सुवण्ण सुव्भरइयवालुयाउ
वेरुलियमणिफलियपडलपव्वोयडाउ सुउयार सउत्ताराउ मणिमु
वडाउ चउक्कोणाउ अणुपुव्व सुजाय वप्पगभीर सीयलजलाउ सच्छ
एणपत्तभिसुमुणालाउ वहु उप्पल पउम कुमुय णल्लिण सुभग सोग
धिय षोडरीय मद्दापोडरीय सयवत्त सइसवत्तकेसर फुल्लोववियाउ

तीरवत्तिजलापूरित स्यान् यासा ता ममतीरा । तथा वज्जमया पापाणा यासां ता वज्जमय
पापाणा तथा तपनीय हेमविशेष स्तपनीय तपनीयमय तल यासा ता स्तपनीयतला । तथा
(सुवण्णसुव्भरइय वालुयाउ) इति सुवण्ण पीतकान्ति हेम रूपविशेष । रजत प्रतीतम् ।
तन्मयो वानुका यासु ता सुवण्णसुव्भरजतवालुका । (वेरुलिय मणिफलिय पडलपव्वोयडाउ) इति
वैडूर्यमणिमयानि स्फटिकपटलमयानि च प्रत्यवतटानि तट समीपवत्ति'नो अत्युन्नतप्रदेशा
यासा ता वैडूर्यमणिस्फटिकपटलप्रत्यवतटा (सुउयार सुउत्ताराउ) इति सुखेनावतारो जलमध्ये
प्रविशन् यासु ता सुखावतारा तथा सुखेन उत्तारो जलमध्यादहिविनिर्गमन यासु ता सुखोत्तरा
स्तत पूर्वपदेन विशेषण समास । (णाणा मणितित्थ मुवडाउ) इति नानामणिभिनानाप्रकारैर्मणिभि
स्तीघानि सुवडानि यासा ता नानामणित्थीर्यसुवडा अत्र वहुव्रीहावपिक्रान्तस्य परनिपात ।
सुखादिदशेनात् प्राकृतशैलीवशाद्वा (च उक्कोणाउ) इति उत्तार' कोणा यासान्ताश्चतु कोणा
एतच्च विशेषण वायीकूपाश्च प्रतिद्रष्टव्यम् । तेषामेव चतुष्कोणत्व सम्भवान् शेषार्था तथा
आनुपूर्व्येण क्रमेण नीचैस्तरा भावरूपेण सुष्ठु अतिशयेन यो जातवप्र केदारो जलस्थान तत्र
गम्भीरमलब्धस्तौर्य शीतल जल यासु ता आनुपूर्व्यसुजातवप्रगम्भीरशीतलजला । (सच्छणपत्त-
भिसमुणालाउ) इति सच्छन्नानि जलेनान्तरितानि पत्रविसमृणालानि यासु ता सच्छन्नपत्रविस
मृणाला इह विसमृणालालसाहचर्यात् पत्राणि पद्मिनीपत्राणि द्रष्टव्यानि विसानि कन्दा-
मृणानि पद्मनाला । तथा बहुभिकल्पलकुमुदनलिनसुभगसौगन्धिकपुण्डरीकशतपत्रसइस्यपत्रै-
केसरे केसरप्रधानै फुल्लैर्विकमितैरुपचिता वहुत्पलकुमुदनलिनसुभगसौगन्धिकपुण्डरीक

स्वैतरजतरूपउतेइनीवालउकावेलउकइ वैडूर्यमणिमय स्फटिकपटलमयकइजेहनउ प्रत्यवतट
समीपवत्ति'उत्ततप्रदेशेजेहनइ जलमाहिप्रवेसजदासुपकइजलयकीवाहरिनीकलवुज्जिदासुप अनेक
प्रकारमणिकूरीरडीपरि आडउ'वाधुकइ चउपुणीकइ अनुक्रमिइविस्ताररूपपइ भलुकवप्रजलरहि
वानुकौठउतिहांगभीरअतिउडउ शीतलपापीकइनेहा पापीइटाक्याकइपन्नविसपन्नउ काडउ
नइ नुणालकमलयुजेहनइविपइधया उत्पलकमलगह'भकासि पशतेसूयविकासी कुमुदचद्रविकासी
कमलकाइकरता कमलराता कइहार षोडरीकमहाकमल मद्दापोडरीक शतपत्र सइसपत्र केसर

छप्यपरिभुञ्जमाना कमलाउ अत्थ विमल सलिल पुण्योतो अप्पे
गइयाउ आसवोयगाउ अप्पेगइयाउ खीरोहगाउ अप्पेगत्तियाउ
धवुहगाउ अप्पेगइयाउ खोयगाउ अप्पेगइयाउ उयरगसारउ
पणत्ताउ पासादीयाउ ४ तासिणा वावीणा जावविलपतीणा
पत्तेयर चाउदिमि २ चत्तारि तिसोमाण पडिरुवगा पणत्ता तेसिणा

गतपवसङ्घसपवकेसरफुल्लीपत्तिता । तथा षट्पदैर्भूमरै परिभुञ्जमानानि कमलानि उपलक्षण-
मेतत् । कुमुदादीनि च यासुता षट्पदपरिभुञ्जमानकमला । तथा अच्छेन स्वरूपत फटिक-
वत् शुभेन विमलेनागन्तुकमलरहितेन सलिलेन पूणा अच्छविमलसलिलपूणा तथा पडिहत्या
अतरेकिता अतिप्रभूता इत्यर्थ । “पडिहत्या सुद्धुमाय अतिरियय च जाणमाउण्ण”मिति वचनान्
उदाहरण चाव । “धम्मपडिहत्या गयण सराय थवसलिल उद्धुमायाइ । अइरेइय महउण्ण
चिन्ताए मण्णन्तुहविरहे” इति च भूमन्तो मत्स्यकच्छपा यत्र ता पडिहत्याभूमन्मत्स्यकच्छपा स्तथा
अनेकै शकुनिमिश्रुकै प्रविचरिता इतस्ततो गमने सर्वतो व्याप्ता अनेकशकुनिमियुक्त
प्रविचरिता स्तत पूर्वपदेन विगेषणसमास । एतावाप्यादय सरस्सर पक्खियन्ता प्रत्येक
प्रति प्रत्येकमवामिमुख्ये प्रतिशब्द स्ततो विवचाया पश्चात्प्रत्येकशब्दस्य द्विर्वचनमिति, पश्चपर
वेदिकया परिचिप्ता प्रत्येक प्रत्येक वनखण्डपरिचिप्ता (अप्येगइयाउ) इत्यादि अपिवाढाये
ढाढमेकका काञ्चनवाप्यादय आसवमिव चन्द्रहासादिपरमासव उदक यासा ता आसवीदका ।
अप्येकका वारुणस्य वारुणसमुद्रस्येव उदक यासा ता वारुणीदका अप्येकका चीरमिव उदक
यासा ता चीरीदका अप्येकका घृतमिव उदक यासा ता घृतोदका । अप्येकका चीदइवइचुरसइव
उदक यसा ता चीदीदका । अप्येकका स्वाभाविकेन उदकरसेन प्रज्ञप्ता या सा इत्यादि
विगेषणचतुष्टय प्राग्वत् (तासिण्ण)मित्यादि तासा चुल्लकाना वापीना यावडिलपक्कीनामिति
यावच्छब्दात् पुष्करिययादि परिगुह । प्रत्येक चतुर्दिशि २ चत्वारि एकैकस्या दिशि एकैकस्य
भावात् तिसोपानप्रतिरूपकाश्चि प्रतिविशिष्टरूपाणि तिसोपानानि त्रयाणा सोपानाना समाहार
तिसोपान तानि प्रज्ञप्तानि तेषा च विगेषण प्रपिरूपकाणामय वक्ष्यमाण एतदूर्पाजनन्तर

सहितविकस्वरथया फूलतेषुइकरी तेंहयावियूक्तइइ भमरइभोगवीइइ कमलजेहना रूपइनिर्मलते
स्फटिकवत् मलरहित तेंहवापाणीतेषुइकरीपरिपूर्णइइएकैकवावि आसवचदहासादिकमथतेइसरीपु
पाणीइइजेहनउ एकैकवावि दूग्धसरीपापाणी एकैकवावि धीसरीमुपाणी एकैकवावि सेलडी
सरिपापाणी एकैकपाणीकै एहवाकहीविस्वभावादिकपाणीइभरीइइ एहवी कही चित्तनइ प्रसन
करैजेनीइवायोग्यइइ तेंहनइ वाविनइ जावतसन्दैपुष्करिणीनइ कुयानइ प्रत्येकइइ चिह

तिसोमाण पडिसवगाण वण्णोतोरणाण ज्झयाइत्तायणीवव्वा तासिणा
खुवुसुवावासुजाव विल्लवतीया सुतत्थ २ तच्चि देसे देसेवहवे उप्पाय
पव्वगा णियइपव्वयागा जगइपव्वयागा जगइपव्वयागा जासपव्व
यागा दगमडगा दगमालगा दसपव्वइगा उमडुउ उमडुखुडुगा
अदोलगा पदोलगा सव्वरयणामया अत्था जावपडिसवा

वह्यमाण स्वरूपीवासी वर्णकनिवेशं प्रज्ञप्त स्तयथा वज्जमया वज्जरत्नमया वध्मा इत्यादि
प्राग्वत् (तिसिण)मित्यादि । तेषा तिसोपानप्रतिरूपकाणां प्रत्येक तीरण्यानि प्रज्ञप्तानि तीरण्य
वर्णकस्तुनिरवशेषो यानविमानवद्भावनीयो यावत् वहव' सङ्घपव्वइस्तका इति (तासिण)मित्यादि,
तासां चुल्लिकानां चुल्लिकानां यावद्विल्लपत्तीनां अत्रापि यावच्छब्दात् पुष्करिण्यादि परिगृह्य' ।
तत्र तत्रदेशे तस्यैव देशस्य तत्र तत्र एकदेशे वहव' उत्पातपर्वता यत्रागत्य वहव' मूयाभविमान
वासिनी वैमानिका देवा देव्यश्च विचित्रक्रीडानिमित्त वैक्रियशरीरमारचयन्ति । (णियइपव्वया)
इति नियनेरित्येव व्यवस्थिता पर्वतानियतिपर्वता क्वचित् "णिययपव्वया" इति पाठः । तत्र
नियता सदा भाग्यत्वेनावस्थिता पव्वता नियतपर्वता यत्र मूयाभविमानवासिनो वैमानिका
देवा देव्यश्च भवधारणीएनेव वैक्रिय' शरीरेण प्राय' सदा रममाणा अवतिष्ठन्ते इति भावः,
(जगइपव्वया) इति जगतीपर्वतका पर्वतकविशेषा दासपर्वतका दासनिम्मापिताइव पर्वतका ।
(दगमण्डगा) इति दगमण्डपा स्फाटिकी मण्डपा उक्तञ्च जीवाभिगममूलटीकाया दकमण्डपा
स्फाटिकामण्डपा एव दकमण्डका दकमालका दकप्रसादा एते च दकमण्डपादय' केचित्
(उवडु) इति उत्सृता उच्चाइत्यर्थः । केचित् (खुडु) खुडुन्ति चुल्लकां चुल्लकां स्तथा अन्दोलकां
पच्च दीलकाश्च इह यत्रागत्यमनुष्या आत्मान मन्दीलयन्ति तन्दीलका इति लोके प्रसिद्धा यत्र
मुपविश्य आगत्यात्मानमन्दीलयन्ति ते पच्च दीलका स्तत्र अन्दीलका पच्च दीलकाश्च तेषु
वनखण्डेषु तत्र तत्रप्रदेशे देवक्रीडायोग्या वहव' सन्ति एते च उत्पातपर्वतादय' कथं भूता
इत्याह, सर्वरत्नमया सर्वात्मना रत्नमया (अत्था सपहा) इत्यादि विशेषण कदम्बक प्राग्वत्

दिसइर च्यारि प्रतिरूपकभलापाउडीपा कइा तेइनु पाउडीया वर्णक पाउडीयाआगलितोरण
ध्वजा इवऊपरिइवचामर जाणिया तेइनान्ही वाविनइप्रकरणा कूथानीपक्किनइ अतराल तिहाइ
तिथिर देसइ प्रदेशइषणादेवताजिइा उत्पतेपर्वतइसूयाभविमानवासी आवीक्रीडानमित्तइ
वैक्रियसोरकरइ जिइादेवदेवीभवधारणीसरीरइनपावैक्रियसरीरइरमइतेनियतिपर्वतकहीइ कारटइ
करीणीपज्जाव्यापवत स्फटिकाना मांडवा जगतिपर्वतइसेइजाणीइ स्फटिकनीमाला स्फटिकपर्वत
दगमण्डपादिकउवाइइ केतलाएकनानाइइ तथादेवतानइ हीचवाना हीचीलावइ सर्वरत्नमयइइ

तेसिणा उप्पाय पव्वणसु जावपक्खदोलेणसु वहुइं इसाणाइं मरुत्ता
 सणाइ उणयापणाइं पणयासणाइ दीहासणाइ पक्खासणाइ मग
 रासणाइ भद्दासणाइ सीहासणाइ पउमासणाइ दिसासोवत्थिया
 सणाइ सव्वरयणामयाइ अत्थाइ जावपडिक्खाइ तेसुण वणसडेसु
 तत्थर तद्धिरे देसे वहुवे आलिघरगामालिघरगाकयलिघरगालयाघरगा
 अत्थणघरगा पेत्यणघरगा मज्झणघरगा पसाइणघरगा गव्वघरगा

(तेसिण)मित्यादि तेषु उत्पातपर्वतेषु यावत्पञ्च दीलक्रेषु यावत्करणांनिवति पर्वतकादि परिगृह्य,
 ब्रह्मनि सिंहासनादीनि आसनानि तत्र येषामासनामधो भागे व्यवस्थिता यथा हंसासनानि एव
 क्रीञ्चासनानि गरुडासनानि च भावनीयानि उन्नतासनानि नामयानि उच्चासनानि प्राणता-
 सनानि निम्नासनानि दीवासनानि शय्यारूपाणि भद्रासनानि येषामधोभागे पीठिकावन्थ, पञ्चास-
 नानि येषामधोभागे नानास्वरूपापस्त्रिण एव मकरासनानि सिंहासनानि भावनीयानि । पद्मासनानि
 पद्माकाराणि आसनानि (दिसासोवत्थियासणाणि) येषामधोभागे दिक्सोवस्तिका आलिखिता सन्ति
 अथ यथाक्रममासनाना सम्बुद्धिगयाया । “हसे कीञ्चे गरुडे उणयपणए यदीहभइय । पच्चं
 मयरेपउमैसीहदिसा सत्थिवारसमे” इति तानि सवायवपि कथं भूतानीत्यत आह । (सव्वरयणा-
 मया) इत्यादि प्राग्वत् (तेसुण)मित्यादि तेषु वनखण्डेषु मध्ये तत्र तत्रपदेशे तस्यैव देशस्य तत्र तत्र
 एकदेशे ब्रह्मनि आलिगृहकाणि आलिर्वनस्पतिविशेष स्तन्मयानि गृहकाणि मालिरपि वनस्पति
 विशेष स्तन्मयानि गृहकाणि मालिगृहकाणि कदलीगृहकाणि लतागृहकाणि च प्रतीतानि (अत्थण-
 घरगाणि) इति अवस्थानगृहकाणि येषु यदा तदा वा आगत्यसुखासिकया अवतिष्ठन्ते, प्रेक्ष-
 यन् गृहका यवागत्य प्रेक्षयन्ति विदधति निरीक्षन्ति च मज्जनकगृहकाणि यवागत्यास्वेच्छया
 मज्जनकं कुर्वन्ति प्रसाधन गृहकाणि यवागत्य स्व पर च मण्डयन्ति गर्भगृहकाणि

निर्मलकृद् घटारामठाराहं मलुरूपकं तेह उत्पात पर्वतनडविपद् जिहालगिपच्छदीलकातेहनै
 विपद् घणा हसचिह्नआसन एमल्लतेगरुडासण अतिउवातेउन्नतासण ते प्रणतीमण लांवातेदीघा
 सण त्रिभूपासद् पीपउचारइइतेपीपासण मगरासन भद्रासन सिंहासन पद्मासन नदावत्सथी
 वा चिन्हासण सव्वरत्नमयकृद् निर्मलकृद् जोइत्तायोग्यकृद् मलु रूपकृद् तेहवनपडनइविपइतिहार
 तियइर देसइप्रदेसइघणाआलिनाभावनस्पतीतेहनाघर तेआलिघर मालीवनस्पतीनाघर केलिनाघर
 लतावलि तेहनाघर देवताआवीतीहासुखइइसइतेआठणघर देवताजिहानाटिककरइनाटकजोइते
 प्रेयीघरदेवताजिहासानकरइतेमज्जणघरदेवतानिशू गारघरजिहासुखमडनादिकरइतेगभघर जिहा
 मैयुनसेवाकरइतमोइणघर सालारूपघरतेसालाघर गवाचसहितवरतेजालघर फूलनांघर चित्तम

मोहणघरगा सालघरगा जालघरगा कुसुमघरगा चित्तघरगा गयव्व
घरगा आदसघरगा सव्वरयणामया अत्था जावपडिक्खा तेसुण आरिघर
एसु जाव अयघरएसु वच्चूइ हसासणाइ जाव दिसासोत्थियासणाइ
सव्वरयणामयाइ जाव पडिक्खाइ तेसुण वणसडेसु तत्थ तत्थ तच्चि
तच्चि देसे २ वच्चवेजाइमडवगा जूच्चियामडवगा मल्लियामडवगा णव
मालियामडवगा वासतीमडवगा दह्निवासुय मडवगा मूरल्लिया
मडवगा तवोलीमडवगा णागलियामडवगा मुहियामडवगा अइमुत्त
ययाइ मडवगा अफोवमडवगा मालुयामडवगा सामलियामडवगा

(मोहणघरगा) इति मोहन मैथुनसेवा, “रमियमोहणरयाइ” इति नाम माला वचनात् तत्प्रधा-
नानि गृहकाणि मोहनका गृहकाणि वासभवनानीति भावः, शालागृहकाणि पट्टशालाप्रधानानि,
जालगृहकानि गवाच्चयुक्ताणि गृहकाणि, कुसुमगृहकाणि कुसुमप्रकरीपचितानि गृहकाणि चित्त-
प्रधानानि गृहकाणि गन्धवं गृहकाणि गीतनृत्तयोग्यानि गृहकाणि आदर्शगृहकाणि । आदर्शमया
नीवगृहकाणि एतानि च कथं भूतानीत्यत आह । (सव्वरयणामया) इत्यादि विशेषणकदम्बक
प्राग्वत् (तेसुण)मित्यादि तेषु आलिगृहकेषु यावदान्शंगृहेषु अत्र यावच्छब्दमालिगृहकादि परिगृह ।
बहूनि हसासनानि इत्यादि प्राग्वत्, (तेसुण)मित्यादि तेषु वयस्त्रयेषु तत्र तत्र देशे तस्यैव देशस्य
तत्र तत्र एकदेशे वच्चो जातिमण्डपका । यूथिकामण्डपका, मल्लिकामण्डपका, नवमालिका
मण्डपका, वासन्तीमण्डपका दधिवासुकानाम नववनस्पतिविशेष स्तन्मया मण्डपका दधि
वासुकामण्डपका, मूरल्लिरपि वनस्पतिविशेष स्तन्मयामण्डपका मूरल्लिमण्डपका ताम्बूली
नागवल्ली तन्मयामण्डपका ताम्बूलीमण्डपका, नागोद्गमविशेष, सएव लता नागलता इह
यस्य तियक् तथाविधा शाखाप्रशाखावा न प्रमृता सालतैत्यभिधीयते नागलतामयामण्डपका,
नागलतामण्डपका अतिसुन्दरमण्डपका, अफोया इति वनस्पतिविशेष स्तन्मयामण्डपका,
मालुका एकास्थिकफला वृक्षविशेषा स्तद्युक्तामण्डपका मालुकामण्डपका, एते च कथंभूता

घर गीतनृत्यअभ्यासयोग्यघरतेगाधर्वघर आरीसाजडितघर सवरत्नमयकइ निर्मल तंजपु जकइ
भलारूपकेजेजना तेह आलिघरनइविपइ जिहललगइ आरीसाघरतेहनइविपइ घणा हसासणकइ
निहानमिइ नदावत्तसायीयामण्डपकाकइ सवरत्नमयकइ घठारामठारा तेहमाहिअनेरारूप
प्रतिविबइकइ तेहवनपडनइविपइ तिहा तिहा तीणइ तीणइ देसइप्रदेसे घणा जाइनामाडवा
जूच्चिकानामाडवा मालतीनामाडवा वनमालीनामाडवा वासतीनामाडवा मूरमल्लिकानामाडवा
दधिका मूकावनस्पतीनामाडवा नागरवेलिनामाडवा द्रापना माडवा नागनावृक्षविशेषतेहनीलता

णिच्चकुमुमिजा णिच्चथविवा सव्वरयणामया अत्या जावपडिक्खा
 तेसुण जाइमडवएसु जाव मालूयामडवएसु वड्ढवे पुठविसिजापट्टगा
 हसासणसठिया जाव दिसासोवत्थियासणसठिया अण्णेष वड्ढवे
 मासल्ल सुघट्ट विसिद्धसंठाण सठिया पुठविसिजा पट्टगा पण्णत्ता
 समणाउसा आइण्णगरुयणवणीय तूलफासमउया सव्वरयणामया
 अत्या जाव पडिक्खा तत्थया वड्ढवे वेमाणियादेवाय देवीउय आस
 यति सयति चिट्ठति णिसीयति तुयट्टति हसति रमति ललति कीलति

इत्याह । (सव्वरयणामया) इत्यादि प्राग्बत् (तेसुण)मित्यादि तेषु जानीमण्डपकेषु यावच्छब्दात्
 यूथिकामण्डपकादिपरिगृह्ण । वड्ढव' गिलापट्टका' प्रज्ञप्ता स्तथा अप्येकका हसासनवत्
 सस्थिता हसासनसस्थिता यावदप्येककादिकसौवस्तिकासनसस्थिता यावत्करणात् "अप्येगइया
 पक्खामण सण्णिया अप्येगइया गरुडासण सण्णिया, अप्येगइया उण्णया आसणसण्णिया पण्णया-
 मणसण्णिया अप्येगइया दीहासणसण्णिया अप्येगइया भहासणसण्णिया अप्येगइया पक्खामण
 सण्णिया अप्येगइया उसमासणसण्णिया अप्येगइया सिहासणसण्णिया अप्येगइया पउमासणस-
 ण्णिया" इति परिगृह्ण, अन्ये च वड्ढव' गिलापट्टकायानि विशिष्टचिन्हानि विशिष्टनामानि च वराणि
 प्रधानानि शयनानि आसनानि च । तद्वत्, सस्थिता वरशयनासनविशिष्टसंस्थान सस्थिता ववचित्
 (मासफलसुघट्टविसिद्धसंठाणसण्णिया) इति पाठे । तवान्ये च वड्ढव' गिलापट्टका मासला अक
 ठिना इत्यर्थे । सुपूट्टा अतिशयेन ममूष्ठा इति भाव', विशिष्टसंस्थानसस्थिताश्चेति (आइण्ण
 गरुयणवणीयतूलफासमउया सव्वरयणामया अत्या जावपडिक्खा) इति प्राग्बत् । तत्र तेषु
 उत्पादपर्वतादिमतहसनादिषु यावन्नानारूप सस्थानसस्थितपृथिवीशिलापट्टकेषु यमिति पूर्ववत्
 वड्ढव' मूयाभविमानवासिनी देवा देव्यश्च सुखमासते शरते दीर्घकायप्रसारणेन वत्तंते नतु
 निद्रा कुर्वन्ति तेषा देवयानिकत्वेन निद्राया अभावात् तिष्ठन्ति ऊर्ध्वस्थानेन वत्तंते निपी-
 दन्ति उपविशन्ति तु यद्वन्ति त्वरवत्तंन कुर्वन्ति वामपार्श्वत परावृत्य दक्षिणपार्श्वेनावतिष्ठन्ति
 दक्षिणपार्श्वेति वा परावृत्य वामपार्श्वेनेति भाव', रमन्ते रतिमावच्छन्ति ललन्ति मनईप्सित
 यथा भवति तथा वत्तंते इति भाव', क्रीडन्ति यथा सुरवमित्तमती गमनविनीदेन गीतनृत्यादि
 माडवा अतिमुक्तकतानामाडवा अप्पोवनस्पतिविसेपतेहनामाडवा मालूकावनस्पतीनामाडवा
 मामलतानामाडवातेकेहवाकडनित्यइफूलसहितकइ नित्यइगु कसहितकइ सर्वरत्नमयकइ निर्मन
 कइ तज्जुज्जकइ भलु सपकइ तेह जाइनामाडवानइविपइ जिहालगइ मालुकामण्डपआवइतेहने
 विपइ धगा पृथ्वीगिलापट्टकइ तेह केहवाकइ पूर्वइजेहसासणकहाके तेणइ आकारइकइ
 यावत् शन्दइपूर्वइजेतलाआसणकहातेणइ आकारइप्रघवीशिलापट्टकेहवी जिहालगि दिसासाथा

मोहति पुरा पौराणाय सुचिणाय सुपरिकताय सुभाय कडाण
 कम्माय कल्लाणाय कल्लाय फलविवागाय पच्चगुभवमाणा
 विहरति तेसिण वणसडाण बहूमज्झदेसभाए पत्तेय २ पासाय
 वडिसगा पणत्ता तेण पासाय वडिसगा पचजोयण सयाइ उठ
 उच्चत्तेण अट्टाइज्झाण जोयण सयाइ विक्खभेण अन्नमुग्गय मूसिय
 पडसियाविव तह्वे बहूसमरमणिज्झ भूमिभागाउ उल्लोउ सीहा

मैयुनसेवाकुर्वन्ति इत्येवं (पुरा पौराणाय)मित्यादि पुरा पूव
 कर्मणामिति योग, अतएव पौराणानां सुचरिताना इह सुचरित
 वारान् सुपराक्रान्ति जनितानि ततीय भावार्थं । विशिष्टं तथा
 करणचान्त्यादि सुचरितजनितानामिति तथा सुपराक्रान्ताना
 पराक्रान्तजनितानि सुपराक्रान्तानि इत्युक्तं भवति सकलसत्वमैत्री
 गदिरूपसुपराक्रमजनितानामिति अतएव शुभाना शुभफलाना इह
 दशुभफलम् इन्द्रियमिति विषयासात् शुभफल प्रतिभासते तत स्ता-
 याय शब्दमाह कल्याणाना तत्त्ववृत्त्या तथाविध विशिष्टफलदायिना
 गरिणा कत्याथ कल्याणरूप फलविपाक (पच्चगुभवमाणा) प्रत्येक
 (ण)मित्यादि । तथा वनखण्डाना बहु मध्यदेशभागे प्रत्येक प्रत्येक
 इव शेषरकडवावतसक प्रासादावतसक प्रासादविशेष इति भाव
 तनयतान्युद्धं सुच्चैस्तेन अहं तृतीयानि योजनयतानि विष्कम्भत ।
 भूमिगाय भूमियपहासयाविव) इत्यादि विशेषणजात प्रागवत् । भूमिवणन उल्लोकवर्णन

मैयुनसेवाकुर्वन्ति इत्येवं (पुरा पौराणाय)मित्यादि पुरा पूव
 कर्मणामिति योग, अतएव पौराणानां सुचरिताना इह सुचरित
 वारान् सुपराक्रान्ति जनितानि ततीय भावार्थं । विशिष्टं तथा
 करणचान्त्यादि सुचरितजनितानामिति तथा सुपराक्रान्ताना
 पराक्रान्तजनितानि सुपराक्रान्तानि इत्युक्तं भवति सकलसत्वमैत्री
 गदिरूपसुपराक्रमजनितानामिति अतएव शुभाना शुभफलाना इह
 दशुभफलम् इन्द्रियमिति विषयासात् शुभफल प्रतिभासते तत स्ता-
 याय शब्दमाह कल्याणाना तत्त्ववृत्त्या तथाविध विशिष्टफलदायिना
 गरिणा कत्याथ कल्याणरूप फलविपाक (पच्चगुभवमाणा) प्रत्येक
 (ण)मित्यादि । तथा वनखण्डाना बहु मध्यदेशभागे प्रत्येक प्रत्येक
 इव शेषरकडवावतसक प्रासादावतसक प्रासादविशेष इति भाव
 तनयतान्युद्धं सुच्चैस्तेन अहं तृतीयानि योजनयतानि विष्कम्भत ।
 भूमिगाय भूमियपहासयाविव) इत्यादि विशेषणजात प्रागवत् । भूमिवणन उल्लोकवर्णन

आसण तेणइ आकारइ अनेरावली धया अकठिनसुकमालकीधाउत्त स सस्थानइ सस्थिरह्या
 प्रधवीशिलापट्टकह्या अही श्रमणीतेहप्रथवीशिलापट्टकेहवाकइ कमायूचर्मसईवनस्पती मापण अक
 तुलसरीपुळइफरिसइजेहनउसमप्रतरनमयइइ निर्मलकैतेजपु जइइजेहमाहि अनैराहपप्रतिविबइइ
 तिहां धया वैमानिक देव देवी सुखइवीसामउइइ सुइशिलावी कायाप्रसारैविपरनिडाकहिने
 ऊभारइइइ बइसइके लोटइके हसइके रमैइइ मननीइकापूरवूइइ क्रीडाकरैकेनादविनीद
 करैइइ मैयुनसेवाकरइइइ पूवसवनकीधाइइकर्मनाफलभागवहितेकेहवाके सूचीणंइहाआचारात
 पसयमादि भलइंपराक्रमइऊपनाएतलइसकलप्रायमैवीसत्यभापणपरित्यापहारसुसीलादिकरूप
 पराक्रमतेइवीकपनी सुभकर्म सुभफलदायकएइवाकीधा कर्मक्रियाअनुत्तन तैकर्मकहवाहि

सण सपरिवारा तत्थण चत्तारिदेवा मच्चिठीया जाव पत्तिउमच्चितिया
परिवसति तज्जा असोए सत्तिपणणे चपण चूण मूरियाभस्सण देव
विमाणस्स अतो वच्चूसमरमणिज्झ भूमिभागे पणणत्ते तज्जा वणसड
विच्चूणे जाव वच्चवे वेमाणिया देवा देवीउय आसयति जाव विच्च
रति तस्सण वच्चूसमरमणिज्झ भूमिभागस्स वच्चू मज्झदेसभाए

सिद्धासनवर्णन सपरिवार च प्राग्वत् (तत्थण)मित्यादि तत्र तेषु वनस्रग्डेपु प्रत्येकमेकैकदेवभावे
चत्वारो देवा मच्चिठ्ठिक यावत्करणात् "मच्चिठ्ठिका महावली महासोक्खा महाणुभावा" इति परि-
गृह । पत्थोपमस्थितिका परिवसन्ति तद्यथा (असोए) इत्यादि अशीकवने अशीक सप्तपर्णवने
सप्तपर्ण, चम्पकवने चम्पकचूतवने भूत, (तिसिण)मित्यादि ते अशीकादयी देवा स्वकीयस्य वन-
स्रग्डेस्मस्यकीयस्य प्रासादावतसकस्य मूर्ते च वच्चुवचनं प्राकृतत्वात् प्राकृते हि वचनं त्यत्ययोपि
भवतीति स्वकीयाना समानिकदेवाना स्वासामग्रुमच्चिठीना सपरिवाराणां स्वामा परिपदा
स्वेया स्वेषामनीकाभिपतीना स्वेषा स्वेषामात्मरचानामाहेव "त्त धीरे मत्त"मित्यादि प्राग्वत्
(मूरियाभस्सण)मित्यादि सूर्याभस्य विमानस्यान्तर्मध्यभागे (वच्चू समरमणिमज्झ भूमिभागा) प्रज्ञप्त
स्तस्य "सेज्जाणामण आलिगपुक्खतेइवा" इत्यादिना यानविमानइव वर्णणं तावदाच्य यावन्मणीना
स्यण । तस्य च वच्चूसमरमणीयस्य भूमिभागस्य वच्चू मध्यदेशभागे अत्र सुमइत् एव उपकारि

कल्याणरूपकि अथनाप्रतिघातकरै तेइवाकर्मधीऊपनउ कल्याणरूपफलनु विपाकउदयरसतेइनइ
भोगवताथका विचरइइतेहनइ वनपडनइ घणउ मध्यदेशभागइ प्रत्येकइर प्रासीदावतसक
कच्चा तेह प्रसाद पांचसइ योजन इ चा उ चपणइ अठाइ सइयोजन पिहूलपणइ उचीनीकली
सघलीदिसइप्रसरीप्रभातेणइकरीजाणीइवाधाजनयी पूर्वइजिमप्रासादानावर्णकइइतिमजइहासर्व
कच्चिवउप्रासादमाहिलउभूमिनुभागघणउरमणीकइइ ऊपिउल्लोवचइयानिचिवामसच्चि तैहवी
सिद्धासनपरिवारसहितकच्चिवउ तेहविच्चू वनमाच्चिठ्ठियारप्रसादनइ विपैच्यारि देवा मणक्कडिरूपपरि
वारनाथणीमच्चाकातिनाथणी एकपत्थोपमने आउयइ वसइइइर तैकइइइइ पूर्ववनइअसीकदेव
दक्षिणवनइसप्तपर्णदेव पश्चिमवनइचपकदेव उत्तरवतिआमुदेव एतलइगठबाहजेतावइइते
सर्वकच्चाइवइगठमाच्चि लीवक्तव्यताकइइइइसूर्याभनइदेवविमानइ माच्चि घणउ समउरमणीक
भूमिनुभागप्रदेशकइइर तैकइइइइ मूयाभविमानमाच्चिवनपडनकइवावीजउ वणकभूमिनउमाच्चिमेला
प्रसादइइ घण। वैमानिक देव देवी वीसामउलीइइइ वइसइइइमूइइइपूर्वपुन्यसुखभोगवताथकी
विचरइइतेह घणउ समु रमणीकनइ भूमिनइभागइ घणउ मध्यदेशभागइ इहा मोटउएक

एत्यण महेगे उवयारियल्लयणे पणणत्ते एग जोयण सयसहम्म
 आयमिक्खवेण तिणि जोयण सयसहम्माइ सोल्लसहम्माइ दीविय
 सण्णावीस जोयण सते तिणिवकोसे अट्ठावीस चर्धणुसय तेरसय अगु
 ल्लच किविव सेमूण परिकखवेण जोयण वाहल्लेण सव्व जवूणयामए
 अत्थे जाव पडिह्वा सेण एगाए पउमवरवेइआ पणणय वणसडेणय
 सव्वए समता सपरिखित्ते सा पउमवरवेइया अहजोयणाउतू उच्चत्तेण
 पचधणुसयाइ विक्खभे उवकारियल लयण समए पेरेक्खवेण
 तीसेण पउमवरवेतियाए इमेयाएवे वण्णावासे पणणत्ते तज्जहा

कालयन प्रज्ञप्त, विमानाधिपतिसत्कप्रसादावतसकादीन् उपकाराभ्युपष्टन्नात्युपकारिका, विमा-
 नाधिपतिसत्कप्रसादव्रतसकादीना पीठिका अन्यव्रत्वियमुपकायापकारकेति प्रसिद्धा । उक्तञ्च
 गृहस्थान् स्मृत यज्ञा मुपकार्योपकारिकेति, उपकारकालयनमिव उपकारिकालयनम् । तत्
 एकयोजनगतसहस्रमायामिष्कम्भाम्याम्, द्वीणियोजनगतसहस्राणि, षोडशसहस्राणि इी योजन
 गते सप्तविगत्यधिक अष्टाविश धनु गत त्रयोदश अश्रुत्यान्यडाभ्युल च परिच्छेपत इदञ्च
 परिच्छेपप्रमाणं जम्बूद्वीपपरिच्छेपपरिमाणवत् । छेदसमासटीकात् परिभावेनीयम् । एक योजन
 ग्राह्येन पिण्डेन (सव्वजम्बूणयामए) इति सर्वात्मना जाम्बूनद अच्चामित्यादि विग्रहणजात
 प्रागवत् तच्च एकया पद्मवरवेदिकया एकेन च वनखण्डेन सव्वत सवासु दिक्षु समन्तत
 सामस्येन सम्यक परिच्छिप्तम् । (सापउमवरवेइया) इत्यादि सा पद्मवरवेदिका अर्द्ध योजनमूर्धं
 मूर्ध्वैस्त्वेन पञ्चधनु गतानि विष्कम्भत परिच्छेपणउपकारिकालयनसमाना उपकारिकालयन
 परिच्छेपपरिमाणा प्रज्ञप्ता । (तीसेण)मित्यादि । तस्या पद्मवरवेदिकाया अयमेतदृपी वणावासो
 वण श्लाघ्या यथावस्थितस्वरूपकीर्त्तन तस्या वासो निवासो गृन्धपडतिरूपो वणावासो वर्गक
 निवेश इत्यर्थं प्रज्ञप्ती मया शेष तीर्थकरैश्च तद्यद्येत्यादिना तमेव दर्शयति इह मृव पुस्तकेव
 न्वयान्यथातिदेश बहुन पाठे दृश्यते ततोमाभूमति समीह इति विनयजनानुगृहाय

उपकारिकालयनमौट उपकचउभरउकछउ तेहकेहवउरुइ नापयोजभलावपणइरुइ पडूलपणइरुइ
 त्रिभिन्नापजोयन सोल सहस्र तिसइ सत्तावीस योजन ऊपरि त्रिणिकोस एकसउआउधनुए तेरइ
 मइ आगुली काइकऊणा तेहऊपरिकमयनीएतलीपरिधिजाणवी एकजोयणनउजाउपणउ सधनु
 जवूनदमुवणमयरुइ निमलरुइ धररउमठारुइरुइ भलु रुपइइ तेहऊपकारिकालयन
 पद्मवरवेदिकानइ चउपपरिक्रीटडीइ वलीपकनइ वनखउइ त्रिहूदसिइ समस्तवणइवासउरुइ
 तेह पद्मवरवेदिका आठयोजन उ ची उ चपणइ पाचसइ धनुप पिहूलपणइ उपकारिकालयन

वद्वरामया षीमामारिद्धामया पदद्व्याणा वैरुलियामया खभासुवण रूप
 मया फलया लोहियक्खमइउ सुइउ णाणामणिमया कडेवरा
 णाणामणिमयाकडेवर सघाडगा णाणामणिमया छ्वा णाणामणि
 मयारुव सघाडगा अकामया पक्खवाहाउ जोडरसामया वसावसक
 वेल्लुगाउरययामइउ पट्टियाउ जायरुव मइउ हाडणी वद्वरामइं
 उवरिपुत्थणी सव्वरइयामए अत्यायणे साणं पउमवरवेइया एग
 मेगेण हेमजालेण एवगवक्खजालेण खिखिणीजालेण घटाजालेण
 मुत्ताजालेण कणगजालेण मणिजालेण रययजालेण पउमजालेण
 सव्वउ समता सपरिखित्ता तेणदामा तवण्णिज्झलवूसगा सुवण्ण
 पयरमडिया णाणामणिरयण विविहहारइहार उवसोभिय समुह्य

पाठ उपदशयंते, (वद्वरामया षीमामारिद्धामया पदद्व्याणा वैरुलियामया खभा सुवण्णरूप्यप्रयं फलया
 लोहियक्खमइउ सुइउ वद्वरामयासन्धी णाणामणिमया कडेवरा णाणामणिमया कडेवरसव्वाडा
 णाणामणिमयारुवा णाणामणिमयारुव सव्वाडा । अकामयापक्खा अकामयापक्खवाहाउ, जोडं
 रसामया वंसावसकवेल्लुयाय, रययामइउ पठियाउ जायरुवमइउ हाडणी वद्वरामइउ वरि-
 पुत्थणी । सव्वरइयामए अत्यायणे) एतत्सर्वं द्वारवत् भावनीय नवर कलेवराणि मनुष्यशरीराणि
 कलेवरसव्वाटा मनुष्यशरीरयुग्मानि रूपाणि रूपकाणि रूपसघाटा रूपकाणि रूपयुग्मानि (साथ
 पउमवरवेइया एगमेगेण हेमजालेण एगमेगेण गवक्खजालेणम् एगमेगेण खिखिणी-
 जालेणम् एगमेगेण घटाजालेणम् एगमेगेण मुत्ताजालेण एगमेगेण कणगजालेणम् एग-
 मेगेण मणिजालेण एगमेगेण रययजालेण एगमेगेण सव्वरययजालेणम् एगमेगेण पउम-
 जालेण सव्वउ सामन्ता परिखित्ता तेण दामा तवण्णिज्झल वूसगा सुवण्णपयरमण्डिया

वरावरिलेपइ एतलइवणिल्लापसीलसहसविसइसत्ताजीसजीयनभाभरापरधि तेहपइवरवेदिकानउ
 आगलिकइसइतेहवउवर्णकवसीप कही तैकइइइइ वज्जरत्नमय नीसरत्नरत्नमय प्रतिष्ठान
 मूलपायक वैडूर्वरत्नमय धांभा सीना रूपाना पाटीया लीडिताध्यरत्नमयो मूवीपाउडीया अनेक
 मणिमयपइवरवेदिकाइमनुष्यनासरीरा नानामणिमय मनुष्यनासरीरनायुग्म नानामणिमयरूप
 अनेकभातिचिंतामइ नानामणिमय रूपचिंतामनाजोडा अकरत्नमयपाका पचवाइपणिकदेसभूत
 शहरिनीसरती पदेसजीतीसरत्नमयोटा वासऊपगिहाकवावलीमीटावासनिबिडु पासइतिरि
 हाजापीइतेहपणिवमधनइकवेलु जीतीमरत्नमकइ रूपानीपट्टिकाविसनैऊपरिकाचनै। धानिक सुवर्ण
 मयीइत्तजभातली वज्जरत्नमयाऊपरिपूक्यामूसमनृणकादनउ तइअधिं सर्वस्तेरत्नरूपामय कवल

ईसि अणमण समपुत्ता पुव्वावर दाहिणुत्तरागएहि वाएहि
 मदाय २ पभक्तमाणो एतिया वैतिया कपिया खोभिया चालिया
 घट्टिया उदीरिया एतेस उरालेण मणुण्येण मणहरेण कणमण
 णिवुद्धकरेण सहेण सव्वतो समता आपूरेमाणा सिरीए अतीव २
 उवसोभेमाणा चिद्धति तीसेण पउमवरवेइयाए तथ २ तहि देसे २
 वइवे'इय सघाडाजावउ सइसघाडा सव्वरयणमया अत्या जाव
 पडिइवा पासादीया ४ जावविहीउ पतीउ मिद्धुणाइ लयाउ

आयामणिरयण विविइहारइहार उवसोभिय समुइयइवाइसिमणमण सम पुत्ता पुव्वावरदाहि-
 णुत्तरागएहि वाएहि मन्दाय मन्दाइमेइज्जमाणाए इज्जमाणापलम्बमाणा पडपडमाणा उरालेण
 मणुण्येण मणहरेण कणमणहरेण कणमणणिवुद्धकरेण सहेणतेए सव्वतो समन्तो आपूरेमाणा
 सिरीए उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा चिद्धन्ति, तीसेणपउमवरवेइयाए तथ तथ देसे तहि तहि
 इयसघाडा किएणरसघाडा क्किपुरिससघाडा मघोरगसघाडा गन्धव्वसघाडा उसभसघाडा
 सव्वरयणमया अत्या जावपडिइवा एव पन्तीउवि । ८ विहीउवि ८ मिद्धुणाइ ८ तीसेपाण उम-
 वरवेइयाए तथ तथ देसे तहि तहि बहुयाउपउमलयाउ थगलयाउ असीगलयाउ वमगलयाउ
 वथलयाउ वासन्तियलयाउ अइसुत्तगलयाउ कुन्दलयाउ सामलयाउ थिच्च कुमुमियाउ थिच्च
 मउलियाउ थिच्च'लवइयाउ थिच्च थवइयाउ थिच्च गोच्छियाउ थिच्च जुयलियाउ थिच्च

उनउहेठलु भागतेइ पध्वरवेदिका एकइएकइ हेसमयलजायमानवामतेइनासमूइ तेणइकरी
 एमजगवाचाकारइरत्नविशेषतेइनीमालासमूइ धूधरीनइसमूइइ घटानइसमूइइ मुक्ताफलमयदाम
 समूइइ टकावलिहारनइसमूइइ मणिनीमालावनइसमूइइ रत्ननीमालासमूइइ पध्वनी
 मानानइसमूइइ चिद्धदिसइसमस्तपणइ वाटाइइ तेइदाममालाराता सुवर्णनाल वूसगा फूलना
 सहितइइ सोनानापाडीइमडित्थै नानाविधिमणिरत्नताविधिविबधहारअठारसरानवसराअइ'
 हारतेवैकरी सोभितइइसमुदायपरिकरजेइनउकाइक माहोमाहि अणलागाहि पूर्वपश्चिमदक्षिणी
 अरादिग्घी थावउवायुतणइवायुतेणइ मउडिसव्वायमानथकी काइककपाट्या विशेषइकपाट्या
 कंध्यायका पीतानीठामघीचाल अरहापरहीइलाव्या सघटना वसेपणइपरिया एइहारदिक
 नासयया प्रधानइ मनोइइ काननइ मननइ मुपकारीइ सबइ करी सबइकरी चिद्धसि
 सघलइ पूरतायका सोभाइ करी धणजघणु सोभनायका तिहरइइइइ तेइ पध्वरवेदिकानइ
 विपइ तिहार ताणइ देसइ २ घणा धीडानायुग्म यावत्सव्दइ हाथीनायुग्म किनरदेवता
 वुपभनायुग्म समस्तरत्नमय निर्मलइइ तेजपु जइइ भलुरुपइइ चित्तनइप्रसन्नकरै हेजोवायो'यके

सेकेणद्वेषभते एववुच्चइ पउमवरवेइया२ गीयमा पउमवरवेइयाएमा
तत्य २ देमे २ तच्चिवेतियासु वेतिया वाहामु वेतिइयाफलएमु
वेइयापुड तरेसु खभेसु खभवाहामु खभफलएमु खभपुड तरेसु

विणमियाउ णिच्च पणमियाउ णिच्च सुविभत्तपाडिमञ्जरिवडसगधरीउ णिच्च कुमुमिय मउलिय
लवइयय वइपगुलुइय गौच्छिय वणमिय पणमिय सुविभत्तपाडिमञ्जरिवडसगधरीउ सवरययाम-
इउ अथा जावपडिऊवाउ) इति अथ व्याख्या, सा एव स्वरूपा णमिति वाक्यालङ्कारे पद्मवर-
वेदिका तत्र तत्रप्रदेशे एकैकेन कनकजालेन सवात्मना हेममयेन लम्बमानेन दामसमूहेन एकैकेन
गवाञ्जालेन गवाञ्जाकृतिरत्नविशेषदामसमूहेन एकैकेन किष्किणीजालेन किष्किण्य चुद्रघण्टिका
एकैकेन घण्टाजालेन किष्किण्यपेक्षया किञ्चिन्महत्यो घण्टा घण्टा । तथा एकैकेन मुक्ता
जालेन मुक्ताफलमयेन दामसमूहेन एकैकेन मणिजालेन मणिमयेन दामसमूहेन एकैकेन कनक
जालेन कनक पीतरूपसुवर्णविशेष, तन्मयेन दामसमूहेन एवमेकैकेन रत्नजालेन एकैकेन पद्म-
जालेन सवरत्नमयपद्मात्मकेन दामसमूहेन सर्वतः सर्वासु दिक्षु समन्तत सर्वासु विदिक्षु परि-
चिन्ना व्याप्ता एतानि च दामसमूहरूपाणि हेमजालादीनि जालानि लम्बमानानि वेदितव्यानि
तथा चाइ (तथा जाला) इत्यादि तानि सूत्रेभ्यु च्चनिदेशः प्राकृतत्वात् प्रीकृते इि लिङ्गमनियतस्य
मिति वाक्यालङ्कारे हेमजालादीनि जालानि क्वचित् दामा इति पाठः, तत्र ता हेमजालादि रूपा
दामा इति (तवखिञ्जल वूसगा) इत्यादि ह्यसघटादिभूव लताभूव च प्राग्बत् सम्प्रति पद्मवर-
वेदिकाशब्दप्रवृत्तिनिमित्त जिज्ञासु पृच्छति "सेकेणद्वेषभते" इत्यादि शेषशब्दो अथ शब्दार्थः । अथ
केनाद्येन केन कारणेन भटन्त एवमुच्यते । पद्मवरवेदिका पद्मवरवेदिकेति किसुक्त भवति । पद्म-
वरवेदिकेत्येव रूपस्य शब्दस्य तत्र प्रवृत्तौ कि निमित्तमिति । एवमुक्ते भगवानाह गौतम पद्मवर-
वेदिकाया तत्र तत्र एकदेशे वेदिकासु उपवेशन योग्यमत्तवारणरूपासु वेदिकावाहसु वेदिका-
पाश्वेषु (वेइया पुडन्तरेसु) इति हे वेदिकेवेदिकापुटम, तेषा मन्तराणि अपान्तरालानि वेदिका-
पुटान्तराणि तेषु तथा स्तम्भेषु सामान्यत स्तम्भवाहसु स्तम्भपाश्वेषु (स्तम्भसीसेसु) इति स्तम्भगीपेषु
(स्तम्भपुडन्तरेसु) इति द्वौ स्तम्भौ स्तम्भपुट तेषामन्तराणि स्तम्भपुटन्तराणि तेषु मूचीषु फलकसम्बन्ध
पमजइयादिकआठञीलनावाषामार्गं पक्तिर्ये णि पुरुपस्वीनाञ्जीडावा अञ्जीकचपादिकनामालागीतेह
कारणिइ हे पूज्य एम कइई पद्मवरवेदिका पद्मवरवेदिका भगवतकहइइ हे गौतम पद्मवर-
वेदिकानइविपइ तिहार देसइर तीणइतीणइठामि वइसवावीग्यत्तवालसपवेदिकातेह तथा
वेदिकानात्रिपासातेह तथा वेदिकानायांटीआनइविपइ विष्णुवेदिकानाआतरातेहवेदिकापुडातरतीह
वेदिकानायाभानइविपइ थाभानायासातेह थाभानायासातेह थाभालागतापाटीयातिहा विष्णु
थाभानइआतरइपाटीयात्रिघटइनहीतेहनइ अर्थइ पाडउआजडीइतेहसर्वतहा तथामूचीमुखनइ

मुतीसु मुद्दंमुद्देसु मुद्दंफलएसु मुद्दंपुडतरसु पक्खिसु पक्खवाहासूपक्ख
भन्तगसु पक्खपुडतरएसु वद्धयाइ उप्पन्नाइ पउमाइ कुमुदाइ यत्ति
णाइ सोगधियाइ पुडरीयाइ सत्तपत्ताइ सइस्सपत्ताइ सव्वरयणाम
याइ अत्थाइ पडिक्खाइ मइया वासिक्क क्तसमाणाइ पण्णा
त्ताइ समणाउ सण्ण अट्टेण गोयमा एव वुच्चइ पउमवरवेइया
पउमवरवेइयाण भते किंसासया असासया गोयमा सियसासया

विषटनाभावहेतुपांडुकास्यानीयासु तासामुपरीतितात्पयावं, (सुद्दमुद्देसु) इति, यत्रप्रदेशे मूची
फलकं भित्वा मध्ये प्रविशति तत्रप्रत्यासन्नोदेयं मूचीमुखं तेषु तथा मूचीफलकेषु मूचीति सम्ब
न्धिनो येफलकप्रदेशास्तेषुपवारारत मूचीफलकानि तेषु मूचीनासुपरि च वक्ष्यमानेषु तथा (सुद्दपुडं
तरसु) इति वा मूची मूचीपुटन्तदन्तरसु पचापचवाहावेदिकेकदेशविशेषा स्तेषु वद्धनि उप्पलानि
गदंभकानि पद्धानि मूयविकाशीनि कुमुदानि चन्द्रविकाशीनि ननिनानि ईपद्धानि पद्धानि
मुभगानि पद्मिग्रेपकेयाणि मीगन्धिकानि कयइराणि पुण्डरीकाणि सिताम्बुजानि तान्त्रेव मइान्ति
पुण्डरीकाणि शतपत्राणि पत्रशतकलितानि सइसपत्राणि पत्रमइसोपेतानि शतपत्रसइसपत्रेच पद्म-
विशेषो पत्रसप्या विशेषात्त्व पृथग्पात्ते एतानि सर्वरत्नमयानि अत्था इत्यादि विशेषणं ज्ञातं प्राग्वत् ।
(मइयावासिक्क क्तसमाणाइ) इति मइान्ति मइापत्राणानि वापिकाणि वपाकाले पानीयर-
चाय यानि कृतानि वापिकाणि तानि च तानि क्वयणि च तत्समानानि प्रश्नानि हे श्रमण
हे धायुप्पन् (मएण्यचइ ष)मित्यादि तदेति न' धर्येन अन्वयेन गीतम एवमुच्यते पद्मवरवेदिकेति तेषु
तेषु यथोक्तरूपेषु प्रदेशेषु यथोक्तरूपाणि पद्मानि पद्मवरवेदिका शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तीमति भाव ।
व्युत्पत्तिरत्रैव पद्मवरा पद्मप्रधानावेदिका पद्मवरवेदिकेति, (पउमवरवेइयाणभन्ते किंसासया)

विषय मूचीजडितपाटीचायातिहासैठिकपरिविष्णु मूचीनरुपांतरं वेदिकानुसंवेदसंवेपचकरइ
तत्रातथापचनापासातिहासं पचनापाटीयानइविषयइ विष्णुपचनापांतरा'नइविषयइ अथा उत्पल
कमलगर्भकाना पद्मकमलमूयायकासी कुमदचन्द्रविकासी मलिनकाइकराताकमल सोगधिककरइरा
पु डरीककमल शतपत्रकमल सइसपत्रकमलवइ सर्वरत्नमयकृत्निर्मलकृत् मलख रूपकृत् मोटइ
प्रसायइ वपाकालनइमैइनीवृष्टिरापवानं तेइनावृष्टिरापवानइचर्षइनाइपत्रसामपवनाक्रीधाकृत्
तथइ प्रसायइ कमलकक्षा अहोश्रमणोभाऊपावती तैइपणइचर्षइ कारणइ हे गीतम एसकइ
यइ पद्मवद्धनपण'धकी पद्मवरवेदिका वलीगीतमपुण्डकइ पद्मवरवेदिका हे पूज्य स्वास्वतीनित्या
कइपासास्वतीअनित्या भगवतुकरइइइ हे गीतम किमहीकसास्वती किमहीअसास्वतीपद्मवर

सिय असासया सेकेण्ट्रेण भते एव बुच्चत्ति सियसा सया सिय असासया
 गोयमा दवट्टयाए सासयावणण पज्जभवेच्चि गधपज्जभवेच्चि रसपज्जभवेच्चि फास
 पज्जभवेच्चि असासया सेएण्ट्रेणा गोयमा एवबुच्चइ सियसासया सिय असा
 सया पउमवरवेइयाण भते कालतोकेवचिर होइ गोयमा णकयाणात्थि णक

इत्यादि पञ्चवरवेदिका णमिति पूर्ववत् किशाश्रवती उताशाश्रवती आदन्ततया मूर्त्वे निदेश
 प्राकृतत्वात् कि नित्या उतानित्येति भावः । भगवानाह गौतम स्यात् शाश्रवती स्यादशाश्रवती
 कथञ्चिन्नित्या कथञ्चिदन्तित्या इत्यर्थः । स्याच्छब्दीनिपातः कथञ्चिदेतितदर्थवाची (सिकेण्ट्रेण)
 मित्यादि प्रश्नसूत्र सुगम भगवानाह, गौतम द्रव्यार्थतया द्रव्यस्तिकनयमतेन शाश्रवती द्रव्यास्ति-
 कनयो हि द्रव्यमेवतात्त्विकमभिप्रन्यते न पर्यायान् द्रव्य वा त्वयि परिष्णामित्वात्, अन्वयित्वाच्च
 सकलकालभावीति भवति द्रव्यार्थतया शाश्रवती वर्षपयाये स्तत्तदन्यसमुत्पद्यमान वर्षविशेषरूपे-
 रिव गन्धपयाये स्पर्शपर्यायैरुपलक्षणमेतत् तत स्तदन्यपुद्गलत्रिचटनोत्तटनैश्च आशाश्रवती
 किमुक्त भवति पयायास्तिकनयमतेन पर्यायप्राधान्या विवचायामशाश्रवती पयायाया
 प्रतिक्षणभावितया कियत्कालभावितया विनाशित्वात् (सेएण्ट्रेण)मित्याद्युपसङ्गार वाक्य सुगम
 इह द्रव्यास्तिकनयवादी स्वमतप्रतिष्ठापनार्थमेव महानात्यन्तासत उत्पादो नापि सतो विनाशः ।
 नासतो विद्यते भावोनाभावी विद्यते सत इति वचनात् यौत इश्ये प्रतिवस्तु उत्पादविनाशौ तदा
 विर्भवति स्वभावमात्र यथा सर्पस्य उत्पत्त्येव विफल्यात् तस्मात् सर्वं वस्तु नित्यमिति एवञ्च
 तन्मतचिन्तायाः मग्नयः । कि घटादिवत् द्रव्यार्थतया शाश्रवती उत्सकलकालमेकरूपेति तत
 मग्नयापनोदार्थं भगवन्त भूय पृच्छति (पउमवरवेइयाण)मित्यादि पञ्चवरवेदिका प्राग्वत् भदन्त
 कालतः कियत्त्वर कियन्त काल यावद्भवति एव रूपा कियन्त कालमवतिष्ठते इति भगवानाह
 गौतम नकदाचिन्नासीदिति भावः । अदादित्वात् तथा न कदाचिन्न भवति सर्वदेव वत्तमान
 कालचिन्ताया भवतीति भावः । स देवभावात् तथा न कदाचिन्न भविष्यति किन्तु भविष्य-
 त्चिन्ताया सर्वदेव भविष्यतीति प्रतिपत्तव्य अपर्यवसितत्वात्, तदेव कालत्रय चिन्ताया नास्तित्व
 प्रतिषेध विधाय सम्प्रत्यस्तित्व प्रतिपादयति भावः च इत्यादि अभूच्च भवति च भविष्यति चेति
 वेदिकाकहइ वलागौतमपूक्कइइतेइकेइइकारणइ इ पूज्य एम कइइयइ किमहीअसास्वती
 किम अशाश्रवती इवइभगवतकइइइइ इ गौतम द्रव्यार्थवसमावइ पाश्रवतीनित्यइअनेवर्णं पर्याइ
 करी गधपर्याप्तइकरी रसपर्याइकरी सूफअपयाइकरी अशाश्रवती एतलइपइअवरवेत्तिकावर्णगध
 रसफरसिपटइ वधइतेणइकारणइ इ गौतमसाश्रवती कइइयइकेणइ केथेप्रकारेप्रकारीअसास्वती
 वलीगौतमपूक्कइइअश्रवलीरवेदिका इ पूज्य कालथकीकितलाएककालगइइस्यइ भगवतकइइइइ
 इ गौतम किवारइनथी इमनहीकिवारइनहीइइ एमनहीतउसूधुवनिश्चलइइ थियतपयइइइइ

ताणि यमभविस्सति ध्रुवाणितिया सासया अब्वया अबट्टिया णिव्वा
 पउमवरवेइयाण पउमवरवेइया एगेण वणसडेण देमूणाइ दो
 जोयणाइ चक्कवात्तवक्खभेण उवारियलेण समया परिक्खवेण
 सव्वउ समता सपरिखित्ता वणसडवणत्तो भाणियव्वोजावविहरति
 तस्सण उवारिय लयणस्स चउदिस चत्तारि तिसोमाण पडिरुवगा
 पयणात्ता वरणउ तोरणउभयात्यत्ताइ उत्ता तस्सण उवारियलय
 णस्सउवरि वडूसमरमणिउक्के भूमिभागे पयणात्ते जावमणीण फासो
 तस्सण वडूसमरमणिउक्कस्स भूमिभागस्स वडूसमरमणिउक्कस्स एत्थण

एव त्रिकालावस्थायित्वात् । ध्रुवामेवादिवत् ध्रुवत्वादेव स देव स्व स्वरूपे नियतानियतत्वा
 देव च शश्वती शश्वद्भवो न स्वभावाभास्ततात्वादेव च सततगन्गा सिन्धुप्रवाहप्रवृत्तावपि पौण्ड-
 रीकौद्भवइवानेक पुद्गलविचटनेपि तावन्मावान्यपुद्गलीच्चटन सम्भवादचया न विद्यते चयो यथोक्त
 स्वरूपाकार परिभू शो यस्या सा अक्षया, अक्षयत्वादेव अक्षयया अक्षयशब्दवाच्या मनागपि
 स्वरूपवलनस्य ज्ञानुचिदप्य भावात्, अक्षयत्वादेव सदैव स्वप्रमाणेऽवस्थिता मानुषीचराइहि,
 समुद्रवत् एव च स्वप्रमाणे सदावस्थानेन चिन्त्यमाना नित्याधर्मास्तिकायादिवत् (साण)मित्यादि
 साणमिति वाक्यालङ्कारे पद्मवरवेदिका एकेन वनस्रण्डेन सर्वत समन्तात् परिच्छिन्ता स वन
 स्रण्डो देशोने हे योजने त्रिष्कम्भत परिच्छेपत उपकारि कालयन परिच्छेप परिमाणो वनस्रण्ड
 वर्णक "किण्डे किण्डो भासे" इत्यादि रूप समस्तीपि प्राग्बन् यावदिहरन्ति (तस्मण)मित्यादि तस्य
 उपकारिकालयनस्य (चउदिसिन्ति)चतुर्दिशि चतसृषु दिक्षु एकैकस्या दिशि एकैकभावेन चत्वारि
 त्रिसोपान प्रतिरूपकाणि प्रतिविशिष्टरूपकाणि त्रिसोपानानि प्रज्ञप्तानि त्रिसोपानवर्णकी यान
 विमानवत् वक्तव्य । तेषां च त्रिसोपान प्रतिरूपकाणा पुरत प्रत्येकमेकैक तोरण तोरणवर्णकीपि
 तथैव (तस्मण)मित्यादि तस्य उपकारिकालयनस्य (वडु समरमणिउक्के भूमिभागे) इत्यादिना भूमि-
 भाग वर्णन यानविमानवत्तावद्वाच्य यावन्मणीना सस्यम् । तस्य च वडूसमरमणीयस्य भूमिभागस्य

जिवारिजाइइतिवारइ पाप्मीनइ सास्वतीकिपु डरीकइइनइपाप्मीनीपरिनिर तरकइ किवरइच
 यनजाइ वारइघटसैवधस्येनही पीतानइमाणइसदैव कहीविणसइनहीकि पद्मवरवेदिकाएइवीकही
 तेइ पद्मवरवेदिका एकइ वनस्रण्डइ देमूणा विजोयचक्काकारइपिहूलपणइ उपकारिकलयनवरा
 वरि परिच्छेपइपरधइ चिहूदसिइ सवलइ चउपपरवाडीवीटइ वनस्रण्डवणक सवकइवउ तेमाइ
 देवतानासिइसनतिइदेवदेवीसुखभोगवतायकावचरै तेइ उपकारिक लयननै चहूदिसि च्यार

महेग पासावडिसए परणत्ते सेण पासाय वडिसए पचजोयण
 सयाइ उठ उच्चत्तेण अट्टाइ जभाइ जोयणसयाइ विक्खभेण
 अब्भुगयमूसियवणत्तो भूमिभागो उल्लोयसीहासण सपरिवार
 भाणियव्व अट्टमगलगाज्झयाइ छत्ताइ' छत्ता सेण मूलपासावडि
 सए अणोहि चउहि' पासायवडिसएहि तयदुच्चत्त पमाणमेतेहि
 सब्बउ समता सपरिखित्त' तेण पासायवडिसगा अट्टाइ जभाइ

बहु मध्यदेशभागे अत्र महानेकी मूलप्रासादावतसक प्रज्ञप्त । स च पञ्चयीजन शतान्यूई
 सुच्चैस्तेन अइ तृतीयानि योजनशतानि विष्कम्भत । (अब्भुगय मूसियपइसियावि)वेत्यादि
 तस्य वखन मध्ये भूमिभागवणन मुल्लोकवर्णन द्वारवहि' स्थितप्रासादवद्वावनीयम्, तस्य च
 मूलप्रासादावतसकस्य बहु मध्यदेशभागे अत्र महती एका मण्णिपीठिका प्रज्ञप्ता । अष्टी
 योजनान्यायामविष्कम्भाभ्यां चत्वारि योजनानि वाइल्यत' सर्वात्मना मण्णिमयी अच्चा इत्यादि
 विशेषण कदम्बक प्राग्गत (तीसेण)मित्यादि तस्याश्च मण्णिपीठिकाया उपरिमइदेक सिद्धासन
 प्रज्ञप्त तस्य सिद्धासनस्य वखन परिवारभूतानि विशेषाणि भद्रासनानि प्राग्बह्वक्ष्यानि, (सेण)
 मित्यादि, स मूलप्रासादावतसकौऽन्यैश्चतुर्भि' प्रासादावतसकैस्तदर्होच्चत्वप्रमाणै' मूलप्रासादा-
 वतसकौऽहोच्चत्वप्रमाणै' सर्वत' समनत' सम्परिचित्त', तदर्होच्चत्वप्रमाणमेव दर्शयति, अहं
 तृतीयानि योजनशतान्यूई' सुच्चैस्तेन पञ्चविंशयोजनशतं विष्कम्भेन तेषामपि "अब्भुगय मूसिय
 पइसियावि"वेत्यादि स्वरूपवखन मध्ये भूमिभागवर्णन मुल्लोकवर्णन च प्राग्बत् तेषां च प्रासादा-
 वतसकाना बहु मध्यदेशभागे प्रत्येक प्रत्येक सिद्धासन प्रज्ञप्तम् । तेषां च सिद्धासनाना
 वर्णन प्राग्बत् नवरमत्रशेषानि परिवारभूतानि वक्खव्यानि (तेण पासायवडिसगा) इत्यादि ते प्रासा-

त्रिकरूपपाउडीयाएकइदसिइच्छिफासनउकछाउइइतेइवउइ'हापिण्णिवुक्छातेइनउवर्णक आ
 गलि तोरपाथजा ध्वजाइवउपरिइवचामरकहिवा तेइऊपकारिक नयननइपीठिकानइउपरि षणउ
 ममउ रमणीक भूमिनउभागकछाउ जेइवउवर्णकयातविमानभूमिनु वर्णनउवणगध तेइ षणउससु
 रमणीकनइ भूमिभागनै षणु समउदेसउभागइहामोठउएक प्रासादवतसकइइवीजाप्रासादीना
 अपेचाइमुकट प्रायकछाउ तेइ प्रासादावतसक पाचसइयीजन ऊचउ ऊचपणइ पाडाइ सइ
 जोयन पिङ्गलपणइ जायीइसाइमउवालीआत्रइइइएइवउवणकसघलउ भूमिभाग ऊपरिउइ
 उमाहिमिहासन परिवारसहित सर्वयानविमाननीपरिकहिवु तेइ ऊपरिआठर मगनि ध्वजा
 इवउपरि इवकहवा तेइ मूलगउप्रासादवतसक अनेरइ चिहूइ प्रादादइ मूलगाथीअर्थ ऊचपणइ
 मावइ चिहूइसि सघलइ वीघ्नाव्वइइ तेइ चारप्रासाद अडाइ योजन सउ ऊचउ ऊचपणइ

जोयणसयाइ उठ उच्चत्तेण पणवीस जोयणसय विस्वभेण जाव
वणउ उल्लोउ तेण प्रासायवडिसगा अणोहि चउहि प्रासायवडि
सएहि तयद्वूच्चत्तपमाणमेत्तएहि सव्वउ समता सपरिक्खत्ता तेण
प्रासायवडिसगा पणवीस जोयणसय उठ उच्चत्तेण वासट्ठि जोय
णाइ अद्वजोयणच विस्वभेण अपूगयसूरिय वणणउ भूमिभागो
उल्लोउ सीहासण सपरिवार भाणियव्व अद्वद्वमगलगाउभवा कत्ता
तेण प्रासायवडिसगा अणोहि चउहि प्रासायवडिसएहि तयद्वूच्चत्त
पमाणमेत्तएहि सव्वउ समता सपरिक्खत्ता तेण प्रासाय वडिसया
वासट्ठि जोयणाइ अद्वजोयणच उठ उच्चत्तेण एक्कत्तीस जोय

दावतसका अन्यैश्चतुर्भिं प्रासादावतसकै (तय द्दूच्चपमाथमित्तेहन्ति) । तेषा मूल प्रासादावत
काना वदइ तद्वूच्चप्रमाणमाथै मूल प्रासादावतसकापेचया चतुभागमावप्रमाथै सर्वत समन्तात्
परिचिप्ताः । तदद्वैच्चप्रमाणमेव दर्शयति । (तिष्ण)मित्यादि ते प्रासादावतसका पञ्चविंश
योजनशतमूर्द्धमुच्चैस्त्वेन द्वापष्टिर्योजनानि अर्द्धं योजनं च विष्कम्भत, एतेषामपि “अभुगय
भूसियपद्विसिया वि”वेत्यादि स्वरूपणन मध्यभागवर्णन मुल्लीकवर्णन सिंहासनवर्णन परिवाररहितं
प्राग्वत् । (तिष्ण)मित्यादि ते च प्रासादावतसका अन्यैश्चतुर्भिं प्रासादावतसकै स्तदद्वैच्चप्रमाथै-
रनन्तरोक्तप्रासादावतसकाद्वैच्चप्रमाथै मूलप्रासादावतसकापेचया योडशभागं प्रमाथै सर्वत
समन्तात् सम्परिचिप्ताः । तदद्वैच्चप्रमाणमेव दर्शयति । एकविंश शत योजनानि क्रौश च

पंचवीसअधिक सउजीयन पडूलपणइसघलउवणक उल्लोउसहितजाणवउ तेइ प्रासादवतंसक
अनेरइ चिहुइ प्रासादवतसकइ पाङ्कलाकछातेइ अर्द्धजचपणअनेजचापयैनइअर्थि पिङ्गलयणइ
सघलइ चउपपेर बीद्याइइ तेइप्रासादवत सक एकसउपचवीस जीयन ऊचु ऊचपणइ बासट्ठि
जीयन ऊपरि अइ जीयन पडूलपणइ साहमानीकला अतिकजा वर्णक भूमिनउभाग ऊपरि
चद्वयासिंहासन परिवारसहित भणिवउ तेइप्रासादऊऊपरि आठमगलिक ध्वजा क्व कइवा
तेइमूलगाप्रासादपासइत्यारप्रासादकछातेहावलीप्रासादअनेरइ चिहुइ प्रासादइ पूठिइकछातेइथी
अर्द्धक चपणमावाइ चिहु दिसइ सघल विद्याइइ तेइ प्रासाद बासठि जीयनऊपरिअर्द्धं योजन
ऊ उउ ऊ चपणइ एकवीस जीयन ऊपरि एककीस पडूलपणइ तेइनुवणक चड्ड्यामाहि सिंहा
सण परिवारसहित तेइप्रासादऊपरि आठआठ मगलीक ध्वजा क्वऊपरि क्वकइउउमूलपाठ
प्रनादमूकीइएकदिसइ त्यारप्रासाद अठाइसयजीयनातिआगल्या त्यार१२५योजन आगलि त्यार

याद् कोसच विक्खभेण वणणउ उल्लोउ सीहासण सपरिवार पासाय उवरि अट्टमगलगाज्जया छत्ताइ छत्ता तस्सण मूलपासाउ वडि सगाउ उत्तर पुरत्थिमेण एत्थएण सभासुहम्मा पणणात्ता एग जोयणसय आयमेण पणणास जोयणाइ विक्खभेण वक्त्तरि जोय णाइ उठ उच्चत्तेण अणेगखभसयसणिविद्धा अब्भुग्गयसुकय वडूरवेइया तोरणवर साल्लिभज्जियागाजाव अत्थरगणसधसविकिण्णा

ऊर्द्धं मुच्चेस्त्वेन पञ्चदशयोजनानि अर्द्धं तृतीयाश्च क्रोशान् विष्कम्भत , एतेपामपि स्वरूपादिवर्णनं मनन्तरवत् । एपामपि स्वरूपव्यावर्णनं भूमिभागवर्णनं उल्लोकवर्णनं सिंहासनवर्णनं च परिवार-वर्जितं च प्रागवत् । (तस्सण)मित्यादि तस्य मूलपासादावतसकस्य (उत्तरपुररिधमेण, नित उत्तरपूर्व म्यामीशानकोणे इत्यर्थः) अथ सभा सुधम्मा प्रचप्ता सुधर्मानामविशिष्टत्वदकोपेता सा एक योजन-शतमायासत पञ्चाशतयोजनानि विष्कम्भत । हासप्ततियोजनान्युर्द्धं मुच्चेस्त्वेन कथं भूता सा इत्याह । (अणेगे)त्यादि । अनेकस्तम्भशतसन्निविष्टा (अब्भुग्गय सुकयवडूरवेइया तोरणवरइय साल्लिभज्जिया सुसिलिइविसिइलइसणिवयपसत्यवेकलिय विमलखम्भा) इति अभ्युद्गता अतिरमणीय तथा द्रष्टृणां प्रत्यभिसुखमुत्पावत्येन स्थिता सुकृतेव सुकृता निपुणशिल्परचितेति भावः । अभ्युद्गता चासौ सुकृता च अभ्युद्गतासुकृता वज्रवेदिका हासुण्डिकी परिवज्जुरत्नमयावेदिका तोरण च अभ्युद्गतसुकृतं यत्र सा तथा तथा वराभिः प्रधानाभिः रचिताभिः रतिदाभिः वा शालिभज्जिकाभिः शुशिलपटा सन्नुहा विशिष्ट प्रधान लष्ट मनीष सस्थित सस्थान येषां ते विशिष्टलष्टसस्थिताः प्रगन्ता प्रसगास्पदीभूता वैडूर्यरत्नमया स्तम्भा यस्यां सा वररचितशालभज्जिकासुशिलपटा विशिष्टलष्टसस्थितप्रगस्तवैडूर्यस्तम्भा तत पूर्वपदेन कर्म्मधारयः समासः । तथा नाना मणिकनकरत्नानि खचितानि यत्र सा नानामणिकनकरत्नखचितानि क्लान्तस्य परनिपात सुखादि दशनात् । नानामणिकनकरत्नखचित उज्जली निम्मली बहुसमोऽत्यन्तसम सुविभक्ती निचितो निविडो रमणीयश्च भूमिभागी यस्या सा नानामणिकनकरत्नखचितोऽज्जलबहुसमसुवि-भक्तभूमिभागा "इहामिगउसभतुरगणरमगरविहगवालगकिपपाररुसरभचमरकुञ्जरवणलयपउ

३१ योजनं ते आगलि च्यार ३१ यो० ते आगलि च्यार १५ यो० एव २० प्रासादयया एकदसइ अनइचिइ दसइ मिली ८० प्रासादयया अनैपाचमूलगा सवमिली ८५ प्रासादयया तेइयकी मूलप्रासादवतसकयकी उत्तरपूर्वविचइ ईसानकू णिइहा सुधम्मानामसभातेकेइवीइइकही एकसउ योजन लावपणइ पचास योजन पहूलपणइ बहुत्तरि योजन ऊ चउ ऊचपणइचनेक धमनइसत इकरीनीपनीइइ अतिक चायभऊपरिइडीपरिकीथायापीवज्जुरत्नमय वेदिकाऊपलीऊ भाइइजेहा

पासादीया ४ सभाएण सुहम्माण त्तिदिसि तउदारा पणत्ता तज्जा
 पुरत्थिमेण दाह्णिणेण उत्तरेण तेण दारा सोलस जोयणाइ उठ
 उच्चत्तेण अट्टजोयणाइ विक्खभेण तावाइयत्तेव प्रवेसण सेयावर
 कणगधूमियागा जाववणमानाउ तेसिण दाराण उवरि अट्टममग
 लगा भयाक्कत्ता तेसिण दाराण पुरतोपत्तेय सुहमडवे पणत्ते तेण
 सुहमडवा एग जोयणसय आयामेण पणणास जोयणाइ विक्खभेण
 सायरेगाइ सोलस जोयणाइ उठ उच्चत्तेण वणत्तसभाए सरि

मलय भक्तिविता, कभुगयवरवेइयाभिगमा विज्जाहरजमलनुगलजन्तजुत्ताविद', अत्तीसइस्स
 मालिणीयाइवगसइस्स कलियाभिसिमीणाभिन्निमसीणावर कल्लोयणत्तेसा सुइकासा सस्सिरीय
 रूवा कञ्चयमणिरयण धूमियागा णाणाविइ पञ्चवण घण्टापडागपडिमपिडयग्गसिहराभवला
 मरीइकवगच्छिणिसुयन्तीला उल्लोइयमइया । गोसीससरस सुरभिरत्तचन्दणदहरदियण पञ्च-
 गुलितला उपचिय चन्दणकलसा चन्दणघरसुकय तीरणपडिइवारदेसभागा आसत्तीसत्तविउल-
 वइवगधारिय मल्लदामकलावा पञ्चवणसरस सुरभिसुक्कपुप्फपुञ्जोवयारकलिया । कालागुरुपवर
 कुन्दकवक्तुसुक्कधुवउम्भन्तमघमघेन्त गन्धुइ, याभिरामा सुगन्धवरगन्धिया गन्धवट्टिभूया अच्चरण
 सण्यविक्किणया । दिव्वत्तुइयसइसमणदिया सव्वरयणाभया अत्या जावपडिइव' इति प्राग्बत्
 (सभाएण)मित्यादि, सभायाश्च सुधर्माया' त्तिदिशित्तिसुयु दिच्च, एकैकस्या दिशि एकैकद्वारभावेन
 शीशिदाराणि प्रज्ञप्तानि तदाथा एक पूर्वस्थामिक दक्षिणस्थामिक सुत्तरस्था तानि च दाराणि
 प्रत्येक षोडशयोजनानि कइमुच्चैस्त्वेन आट्टीयीजनानि विष्कम्भत', (तावाइयत्ते)वेति तावन्त्ये
 चाट्टीयीजनानीति भाव', प्रवेसेन (सेयावरकणगधूमिया) इत्यादि प्रागुक्ताद्वारवणन तदेव तावइक्क
 यावइनमाला इति । तेषा दाराणा पुरत' प्रत्येक सुखमण्डप प्रज्ञप्त; । ते सुखमण्डपा एक
 योजनगतमायामत' पञ्चाशतयोजनानि विष्कम्भत. सातिरेकाणि षोडशयोजनान्युह मुच्चैस्त्वेव
 एतेषामपि "अणोसखम्भसय सण्णविहा" इत्यादि वर्णनं सुधर्मासभाइव निरवशेषं द्रष्टव्यम् ।

तेहसइइत्तयागलितीरणनइप्रधान पूतलीइइजिहा यावत्शुद्धइयानविमाननीपरिसमानउवणक
 रिउअप्परगणइ व्याप्तइइ चित्तनिधमन्नकरइइजोइवायीगवइइ सभानइ सुधर्मानइ तिहू
 दसइ शिणहार कइया तीकइइइई पूर्वइ दक्षिणइ उत्तरनइ तेइ दार सोलइ योजन क चउ
 क चपणइ आठयोजन पडूलपणइ तीतलइजप्रवेसएतलइ आठयोजनप्रवेशपणइ स्वैत्तित्तिह
 धारनइविपइप्रधान कमल सहितधूमिकासिखरकैडा जावतमव्दइपूर्वजिइवादारण्यत्त्याइ वन
 मालासहितमित्तमजएहापणियाणुत्तइ धारनइ ऊपरि आठर मगलिक ध्वजा क्वेकहिवा

सउ तेसिणं सुहमडवाण तदिस त उदारा पणत्ता तज्जा पुरत्थि
 मेण दाहिणे उच्चत्तरेण दारा सोलस जोयणाइ उठ उच्चत्तेण अट्ट
 जोयणाइ विक्खभेण तावतिय चैवपवेसेण सेयावरकमल धूमियागा
 जाववणमालाउ तेसिण सुहमडवाण भूमिभागाउल्लोया तेसिण
 सुहमडवाण उवरि अट्टमगलगाहत्ताइ छत्ता तेसिणा सुहमडवाण
 पुरतो पत्तेय २ पेट्यावरमडवे पणत्ते सुहमडव वत्तव्वया जाव
 दारा भूमिभागा उल्लोया तेसिणा वडूसमरमणिज्झाण भूमिभागाया
 वडूमज्झदेसभागे पत्तेय २ वडूरामए अक्खाडए पणत्ते तेसिणा
 वडूरामयाण अक्खाडगाण वडूमज्झदेसभागे पत्तेय मणिपेटिया
 पणत्ता तातोण मणिपेटियाया अट्टजोयणाइ आयामविक्खभेण
 चत्तारि जोयणाइ वाहल्लेण सव्वमणिययाउ अत्था जावपडिक्खाउ

तेपाच सुखमण्डपाना पुरत प्रत्येक प्रेक्षागृहमण्डप प्रज्ञप्त । ते च प्रेक्षागृहमण्डपा आयाम
 विष्कम्भाच्चैस्त्वे प्राग्गत प्रेक्षागृहमण्डपाना च भूमिभागवर्षण प्राग्गत । तावदाद्य यावन्मणीना
 स्वग १ । तेपा च वडूरमणीयाना भूमिभागाना वडूमध्यदेशभाग प्रत्येक वज्रमयी अक्षपाठक प्रज्ञप्त
 तेपा च वज्रमयानामक्षपाठकाना वडूमध्यदेशभागे प्रत्येक प्रत्येक मणिपीठिका प्रज्ञप्ता । ताश्च
 मणिपीठिका अष्टयोजनान्यायाम विष्कम्भाभ्यां चत्वारियोजनानि बाहल्येन पिएडभावेन सवा
 तेहनइ दारनइ आगलि प्रत्येकइ २ सुखमण्डप कण्डउपतलइद्वारदीठएकेकसुपमण्डपनइ तेह
 सुवमण्डप एकसउ योजन लावणइ पचास योजन पडूलपथे कांडकभाभेरा सोलसइ योजन
 क'चउ ऊ चपणइ तेहसुखमण्डपनउसरीपु वर्षकसुधमानउ जाणवउ तेहनइ सुखमण्डपनइ वणि
 दसि वणिदारनइ कण्डा तेकइइइइ पूर्वइ दक्षिणइ उत्तरनइ द्वार सोलइ जोयन उ चउ
 ऊ चपणइ आठयोजन पडूलपथइ आठयोजन प्रवेगइ स्वंतकइ प्रधान कमलसहित धूमिका
 सिखरइइजिहा दारनुं वर्षकमालासहितकहवउ तेहनइ सुख मण्डपनउ भूमिभागऊपरि उल्लो
 चडूयांसंवकडिवु तेहनइ सुखमण्डपनइ ऊपरि आठ २ मगलीकध्वजाहवऊपरि हवकहवउ तेह
 नइ सुखमण्डपनइ आगलि प्रत्येकइ २ प्रेक्षाघरमण्डपपरगमण्डप कण्डउ सुखमण्डपनीपरि वर्षक
 मवकहवउ जिहालगेदार भूमिभागऊपरि चद्रयासवकडिवउ तेहनइ घणउ समउरमणीकनइ
 भूमिभागप्रेक्षाघरनइ घणु मडम देसभागाइ प्रत्येकइएकेकमाहे वज्रमय आयाडउ कण्डउ तेहनइ
 वज्रमयनइ आयाडानइ घणु मडम देसभागे प्रत्येकइएकमाहि मणिपीठिका कण्डा तेह मणि
 पीठिका आठ योजन लावणपथे पडूलपथइ च्यार योजनजाडपथइ सव मणियमयइ निर्मल

तासिण मणिपेठियाण उवरि पत्तिय र सीहांसणे पणणत्ते सीहासण
 . पणणत्तो सपरिवारो तेसिण पेत्वाधरमडवाण उवरि अट्टमगलगा
 भया छत्ताइं छत्ता तेसिण पेत्वाधरमडवाण पुरतो पत्तिय र मणि
 पेठियाउ पणणत्ताउ ततोण मणिपेठियाउ सोलस जोयणाइ वाइ
 ल्लेण सव्वमणिमयाउ अत्याउ जाव पडिक्खाउ तासिण मणि
 पेठियाण उवरि पत्तिय र धूमपणणत्ते तेण धूमा सोलस जोयणाइ
 आयामविक्खमेण साइरेगाइ सोलस जोयणाइ उच्चत्तेण सेयाखक
 ककुददगरय अयम मच्चिय फेण पुज सणिगासा सव्वरयणामया
 अत्या जाव पडिक्खा तेसिण धूमाण उवरि अट्टमगलगाभया छत्ता

मत्ता "मणिमज्झ अत्याउ" इत्यादि विगेषज्जात प्रागिव तासा च मणिपीठिकानामुपरि प्रत्येक
 प्रत्येकं सिंहासनं प्रज्ञप्तं तथा सिंहासनानां वर्णनं परिवारश्च प्राग्ब्रह्मव्या" । तथा च प्रेक्षा-
 मण्डपानामुपरि घटावष्टौ मण्डलकानि बहवः कृष्यचामरध्वजा इत्यादि प्राग्वत् ।
 तथा प्रेक्षागृहमण्डपानां पुरतः प्रत्येकं मणिपीठिका प्रज्ञप्ता । ताश्च मणिपीठिकां प्रत्येक
 पीडयोजनान्यायामविष्कम्भाभ्यामपट्टीयोजनानि बाहुल्येन सर्वात्मना मणिमया । अक्षा इत्यादि
 विगेष्य कदम्बक प्राग्वत् । तासां च मणिपीठिकानामुपरि प्रत्येकं चैत्यस्तूपं प्रज्ञप्तं । ते च
 चैत्यस्तूपां पीडयोजनान्यायामविष्कम्भाभ्यां सातिरेकाणि पीडयोजनान्युद्गमूर्च्छैस्त्वेन शय्य
 क्रियादि तद्वचनं सुगमम् । तथा च चैत्यस्तूपां तामुपघटावष्टौ स्वस्तिकादीनि मण्डलकानि
 "जाउसइसपत्तइत्यगा" इति यावत्करणान् "तेसिचेइय धूमाण उप्पि बहवे किएइ चामरम्भूया
 जावमुक्किल्लचामरम्भूया अक्का सएहा रुप्पपट्टवइरदएडाजलजामलगन्धीसुक्खापासाइया जाव-
 पडिक्खा तेमिचेइय धूमाणउप्पि बहवे छत्ताइं छत्तापढागा घण्टानुमलाउप्पलइत्यगा जावसय
 मइसपत्तइत्यगा सव्वरयणामया जावपडिक्खा" इति एतच्च समस्तं प्राग्वत् (तेसिण)मित्यादि ।

तेजपूजइइ भलउ रूपछि तेइनइ मणिपीठिकानइ ऊपरि प्रत्येकइइ सिंहासण कछउ सिंहासन
 नउवर्णक परिवारसहितकइउ तेइनइ प्रेक्षाघर मडपणइ ऊपरि षाठ मगलीक ध्वजा इव
 ऊपरि इवकइवउ तेइनइ प्रेक्षाधर मडपणइ आगलि प्रत्येकइ मणिपीठिका कही तेइ मणि
 पीठिका सोलइ योजन जाउपणइ समस्त मणिमयाइइ निर्मलइइ घटारीमठारीनइ भलउ रूपइइ
 तेइनइ मणिपीठिकानइ ऊपरि प्रत्येकइइ धूमकछउ तेइ धूम सोल योजन लाउपणइ पिइल
 पणइ भाभीरा सोलइ योजन ऊ चपणइ स्वेतइइ संखअकरनकूकदफूल पांशीनाकयीआ अमृत
 मध्यउ तेइनइफीणउ पु जरासि तेइमरीपाजजलाइइ सवरनमय निमल घटारामठारा तेइ

तेसिण धूभाण चउदिसि पत्तेय २ मणिपेठियाउ परणत्ताउ तातोण मणि
पेठियातो अट्टजोयणाइ आयाम विक्खभेण चत्तारि जोयणाइ वाहल्लेण
सव्वमणीमती अत्याउ जावपडिरुवातो तासिण मणिपेठियाण उवरि
चत्तारि जिणपडिमाउ जिणुस्सेहपमाणमेत्तात्तोस पलियकणिसरण्णाउ
धूभाभिमुहातो सणिणखित्ताउ चिट्ठति तज्जा उसभावइमाणा चदाणणा
वारिसेणा तेसिण धूभाण पुरत्तो पत्तेय २ मणिपेठियाउ परणत्ताउ
तातोण मणिपेठियाउ सोलस जोयणाइ आयामविक्खभेण अट्टजोय
णाइ वाहल्लेण सव्वमणिमयीउ जाव पडिरुवा तासिण मणिपेठियाण
उवरि पत्तेय २ चेइयरुक्खे परणत्ते तेण चेइरुक्खा अट्ट जोयणाइ
उव्वेहेण दो जोयणाइ खधो अट्ट जोयणाइ विक्खभेण छ जोय

तेषा चैत्यस्तूपाना प्रत्येक २ (चउदिसि) चतुदिसि चतस्रसु दिक्षु एकैकस्या दिशि एकैकमणि-
पीठिकाभावेन चतस्री मणिपीठिका प्रज्ञप्ता । अष्टौयोजनान्यामविष्कम्भाभ्या चत्वारियोज-
नानि वाहल्लयेन सघात्मना मणिमय्या, अच्छा इत्यादि प्राग्बत् तासा च मणिपीठिकानामुपरि
एकैकस्या अपि मणिपीठिकाया उपरि एकैकप्रतिमाभावेन चतस्री जिनप्रतिमाजिनोत्सेध प्रमाण
मात्रा जिनोत्सेध उत्कर्षत । पञ्चधनु शतानि जघन्यत सप्तहस्ता इह तु पञ्चधनु शतानि
सम्भाव्यन्ते (पलियकणिसरण्णाउ) इति पयञ्जासुनिपणणा स्तूपामिसुख्यं सन्निधिप्ता स्तथा
जगस्थिति स्वाभाव्येन सम्यग्निवेशिता स्तिष्ठन्ति तद्यथा ऋषभावइमाना चन्द्रानना वारि-
पेणा इति (तेसिण)मित्यादि तेषा चैत्यस्तूपाना पुरत प्रत्येक मणिपीठिका प्रज्ञप्ता । ताश्च
मणिपीठिका पीडशयोजनान्यायामविष्कम्भाभ्यामष्टौयोजनानि वाहल्लयत । (सव्वमणिमयीउ)
इत्यादि प्राग्बत् तासा च मणिपीठिकानामुपरि प्रत्येक प्रत्येक चैत्यवृत्ता अष्टौयोजनान्यूर्ध्वमुत्त्वे-
स्वेनार्द्धयोजनमुद्देशेन उड्डत्वेन द्वौ योजने उत्त्वेस्त्वेन एकध स एवाह योजन विष्कम्भे तया
पाद्विषयेनारूपप्रतिविम्बइकइ तेहनइ धूमनइ ऊपरि आठर मगलीक ध्वजा क्वकइवा तेहनइ
धूमनइ चिहू दसिइ प्रत्येकइर मणिपीठिका कही तेह मणिपीठिका आठयोजन लावपणइ
पिहूलपणइ च्यार योजन जाडपणइ सब मणिमयीइइ निमल घठारीमठारी भल्लरुपकै तेहनइ
मणिपीठिकानइ ऊपरि च्यार जिनप्रतिमाइइ तेहजिनप्रतिमातीय करनउजकपणाइ प्रमाणाइइइ
उग्वमातहायनीउत्कृष्टापाचसैधनुप प्रमाणाइइ पण्णासपणाइवइठी धूमसाइसुसुखकरीवइठीधकी
रइइइइ तेहइइइइ ऋषभर वड मानर चन्द्राननइ वारिपणण एयाइनामइप्रतिमा तेहनइधूमनइ
आगलि प्रत्येकइ २ मणिपीठिका कहांतेह मणिपीठिका सोलइ योजणा लावपणाइ पिहूलपणाइ

णाद् विडिया वडूमज्जभदेसभाए अट्टजोयणाद् आचाम विक्खभेण
साइरोगाद् अट्टजोयणाद् सव्वगे पणत्ता तेमिण चैइयकक्खाण
इमेवाए चे वणणावासे पणत्ते तज्जा वइरामय मूलरइय सुपइ
ट्टिया सुच्चिइमा रिट्टामय विउल कद वेरुलियइ रुइरखदा मुजायवर
जायसवपडमग विसालसाला णाणामणिरयण विविहसाइप्पसाइ वेरु
लियपत्त तवणिज्जभ पत्तवटा जवूणायरत्तमउसुसुकमाल पवाल्ल पल्ला

बहुमध्यदेशभागे वडिमा ऊढ विनिर्गता शाखा सा ऊईमुच्चैस्वेन पट्योजनानि विष्कम्भेन
सवाग्णे सातिरेकेण अट्टोयीजनानि प्रज्ञप्ता, तेषा च चैत्यवृक्षाणामयमेतद्रूपीवणावास' प्रज्ञप्त
स्तद्यथा (वइरामय मूलरइययसुपइट्टियवडिमा)वज्जाणि वज्जमयानि मूलानि येषा ते वज्जमयानि
मूलानि येषा ते वज्जमया सुप्रतिष्ठिता वडिमा बहुमध्यदेशभागे ऊढविनिर्गताशाया येषा ते
रत्तसुप्रतिष्ठितविडिमा स्तत् पूर्वपदेन कर्मधारय' समास' । (रिट्टामय कन्दवेरुलियखन्धी)
रिट्टामयो रिट्टरत्नमय' कन्दी येषा ते रिट्टमयकन्दा', तथा वैडूर्यरत्नमयो रुचिर' स्कन्धी
येषा ते तथा तत् पूर्वपदेन कर्मधारय', (सुजायवरजायकवपडमगविसालसाला) सुजात मूलद्रव्य
ऊई वा वरपधान यत् यातरत्त तदात्मका' प्रथमका मूलभूता विशालाशाला' शाखा येषा ते
सुजातवरजातरूपप्रथमकविशालशाला' (णाणामणिरयणविविहसाइप्पसाइ वेरुलियपत्त तवणिज्जभ
पत्तवेष्टा) इति नानामणिरत्नानि नानामणिरत्नात्मिका विविधा' शाखा' प्रशाखा येषा ते तथा
वैडूर्यानि वैडूर्यमयानि पत्ताणि येषा ते तथा तथा तपनीयमयानि पत्रवृन्तानि येषा ते तथा तत्
पूर्ववत् पदद्वयमीलनेन कर्मधारय', जाम्बूनदा जाम्बूनदसुवणविशेषमया रक्ता रक्तवणा मृदवी
मनीषा' सुकुमारा' सुकुमारस्पशा', प्रवाला इपट्टन्मीलितपत्रभावा' पल्लवा' सञ्जातपरिपूर्थ

आठयीजन जाडपणइ सर्वेमणिसयइइधठारामठारा भलु रूपइइ तेहनइ मणिपीठिकानइ ऊपरि
पत्येकइ २ चैत्यवृच्चैत्यकहितानिप्रतिमानितेहनइममीपिवृत्तिवृत्ततेहचैत्यवृच्च कइतेह न्चैयदृच्च
आठयीजन उडपणइभूमिमाहि बइयीजनस्कधमध्यभाआठयीजणपल्लपणइ क्योजनविडिमविडि
मातेस्कधकीऊचीनीकलीसिखाआपाचैत्यवृच्चनइ धणउमध्यदेशभागइजइ आठ यीजन लावपणइ
पह्लपणइ भूमियकीस्कधइ भाभेरा विडिमासुवएकठउ करीइतितारेआठयीजन सवा गइ व ह्या
तेहनउ चैत्यवृच्चनउ आगनिकहीम्यइतेहवउ वणंकवसेप कणउ तैकइइइइ वज्जमय मूलकइ
नडीपरिथापाविडिमास्कयथीजेइमूलगीऊ चीनिकली सिखा रिट्टरत्नमय विस्तीर्ण' कादउ वैडूर्य
रत्नमय मनोहरस्कध मूलयकीभलीऊपनी प्रधान सुवर्णमयी मूलगीपिहली साग्वाजेइनी अनक
प्रकारइ मणि रत्नमय विविधप्रकारनी प्रति वैडूर्यरत्नमयजेइनी पत्र रातासुवर्णमय पत्रनावीटकि

कुरधरा विचित्र मणिरयण सुरभि कुसुम फलभरेण णमियसाला
 सत्याया सप्पभाससिरीया सउज्झोया अहियसा वणमणिणिव्वुइकरा
 अमयरस सरस फला पसाइया ४ तेसिण चेइयसुक्खाण उवरि
 अट्टमगलगाभया छत्ता तेसिण चेइयसुक्खाण पुरतो पत्तोयं २ मणि
 पेठियाउ प्रणत्ताउ मणित्ताउ ताउण मणिपेठियातो अट्टजोयणाइ
 आयाम विस्वभेण चत्तारिजोयणाइ वाइल्लेण सव्वरयणामइउ
 अत्यावा जाव पडिइवाउ तेसिण मणिपेठियाणउवरि पत्ते व महिभए

प्रथमपत्रभावरूपवराकुरा प्रथममुद्दिद्यमाना अङ्कुरास्तानुधरन्तीति जाम्बूनदरक्तमृदुसुकुमार
 प्रवालपल्लवाकुरधरा, (विचित्रमणिरयण सुरभिकुसुमफलभरेण णमियसाला) इतिविचित्रमणिरत्नानि
 विचित्रमणिरत्नमयानि यानि सुरभीनि कुसुमानि फलानि च तेषा भरेणमिता शरला शास्त्रा
 वेपा ते तथा, तथा सती श्रीभना छाया वेपा ते सच्छाया सती श्रीभना प्रभा कान्ति वेपा ते सत्
 प्रभा । अतएव मयीका तथा सह उद्योतेन वर्चन्ते मणिरत्नानामुद्योतभावात्सोद्योता । अधिक
 नयनमनोनिवृत्तिकरा अमृतरससरसानि फलानि वेपा ते तथा । (पासाइया) इत्यादि विशेषण
 चतुष्टय प्राग्वत्, एते च चैत्यवृक्षा अन्यैर्बहुभि स्तिलकलवककक्षोपगशिरीपसप्तपर्णदधिपर्ण
 लुब्धकघवचन्दननीपकुटजकदम्बपत्रशतालतमालपिथालप्रायश्चापारापतराजवृक्षनन्दिवृक्षैः सर्वत
 समन्तात् संपरिचिप्ता ते च तिलका यावन्नन्दिवृक्षा मूलमन्ता कन्दमन्त इत्यादि सर्व-
 मयीकपादपर्णनायामिव तावद्वृक्ष्यं यावत्परिपूर्णं (तेसिण)मित्यादि तेषां चैत्यवृक्षाणामुपरि
 अष्टावष्टी मध्यालकानि वृहव कृष्णचामरध्वजा इत्यादि चैत्यस्तूपइव तावद्वृक्ष्यं यावद्वृहव
 सहस्रपत्रइस्तका सर्वरत्नमयावत्प्रतिरूपका इति (तेसिण)मित्यादि तेषां च चैत्यवृक्षाणां पुरतःप्रत्येकं
 मणिपीठिका प्रचप्ताताश्च मणिपीठिका अष्टौयोजनान्यायामविष्कम्भाभ्यां सत्वारियीजनानि
 वाइल्लत, (सव्वरयणामइउ) इत्यादि प्राग्वत् । तामा च मणिपीठिकानामुपरि प्रत्येकं महेन्द्रध्वज

जवूनदसुभवयमयरातइवर्णइमृदुमनोजसुकमालफरिसइकइ प्रवालकइकाइकमिलीपत्रडीडारूपे
 परिपूर्णभावपामउ प्रथमपल्लवतेपत्रप्रथमनीकली तेअकुरातेइनइधरइकै अनेकप्रकारइ मणिरत्न
 सुगध फूलतेइनउ समूहतेणइमरीतेमाटि नावीनमीक्षि सास्त्राजेइनी अधिकपणइनयननइसुखकरी
 तेवृक्षि अमृतरसइ भरपाआइकैफलजेइनी छायाइसहितकइ प्रभाकातिइ सहितकइ सीभा
 सहितकइ उद्योतइप्रकासइमहितकइ तेमाटइचित्तनैप्रसन्नकरइकैजोइवायीग्यकइ तेइनइ चैत्य
 वृक्षनइ ऊपरि आठर मगल ध्वजा क्लकहिवा तेइनइ चैत्यवृक्षनइ आगलि प्रत्येकइ २एकैक
 चैत्यवृक्ष आगलिमणिपीठिका कही तइ मणि पीठिका आठयीजन लांबपणइ पङ्कलपणइ चार

पण्यत्ते तेण मद्दिदज्भउया सद्धि जोयणाद् उठ उच्चत्तेण
जोयण उच्चैहेण जोयण विक्खभेण वडरामया वट्टलद्ध मुसिलिद्ध
परिषट्टमुपतिट्टिया विसिद्धा अणेगवर पचवणकुडभी सहस्म परि
मडियाभिरामा वाउडूय विजय वेजयती पडागा क्त्ताड क्त्तकलिया
तुगा गगणतलमभिलघमाणसिहरा पासाइया ४ अट्टमगन्तगा
क्त्ताड क्त्तालेसिण मद्दिदज्भयाण पुरतोपत्तेयर गादा पुक्खरिणीउ
पण्यत्ताउ ताउ पोक्खरीणीतो एम जोयणसय आयामेण पण्यणस
जोयणाड विक्खभेण दसजोयणाड उच्चत्तेण अत्थाउ जाववणउ
एगतिवाउदगरसाउ पण्यत्ताउ पत्तेय पत्तेय पउमवरवेदया परि

प्रज्ञप्त । ते च महेन्द्रध्वजा पट्टिप्राननान्युद्धं गभ्युतमुद्धेन तुण्डत्वेन अर्द्धं क्रीड विष्कम्भत ,
(उडरामयावट्टलद्धमुसिलिद्धपरिषट्टमुपडट्टिया) इति वज्रमया वज्ररत्नमया तथा वृत्त वर्तुल लप्ट
मनोज्ञ सस्थित मस्थान येषां ते वृत्तलप्टसस्थिता स्तथा सुग्लिष्टा यथा भवति एव परिषुष्टा
इव धरयानया पापाणप्रतिमेव सुश्लिष्टपरिषुष्टा मृष्टा सुकुमारगानया पापाणप्रतिमावत् मुप्रति
ष्ठिता मनागपि चलनासभवात् ततो विशेषणसमास (अणेगवर पचवणकुडभीसहस्मपरि
मडियाभिरामावाउडूय विजयवेजयन्तीपडागाक्त्ताड क्त्तकलियातु गा गगणतलमभिलघमाण
सिहरापासाइया जावपडिहवा) इति प्रागवत् । (तिसिण)मित्यादि तेषां महेन्द्रध्वजानामुपरि
षुष्टावष्टौ मण्डलकानि वडव कृष्यचामरध्वजा इत्यादि तोरणवत् सब वक्तव्य तेषां च महेन्द्र
ध्वजाना पुरतः प्रत्येकं प्रत्येकं नन्दा नन्दाभिधाना पुष्करिणीप्रज्ञप्ता एक योजनत्रयमायामतः
पञ्चमत्त योजनानि विष्कम्भत । हासप्रति योजनान्युद्धे धेन तुण्डत्वेन तासां च नन्दापुष्करिणीना
(अत्था सयदा उरययासयकुलाउ) इत्यादि वर्णनं प्रागवत् ताञ्चनन्दा पुष्करिण्यः प्रत्येक प्रत्येक
जोयन जाडपनइ सर्वमणिमयइइ निर्मलइइ घटारामठाराइइ भलउरुपइइ तिहनइ मणिपीठिका
नइ ऊपरि प्रत्येकइ महेन्द्रध्वज कक्षाउ तेइ महेन्द्रध्वज साट्टियोजन ऊ चउ ऊ चपणइ एकयोनन
भूमिमाहिउ डपणइ एकयोजन पङ्कलपणइ वज्रमय वाटलामनोच्च कडापरिघटारामठारया
जीमदठामयीहीलतानयी बलाकेइवाक्यैणुउत्तमइइ धयीप्रधान पांचवर्णइ नानाध्वजाना सहस्म
तेथइकरी मडितयकामनोइरइ धाड करी कपित विजय वेजयती ध्वजा क्वकपरि क्व
तेणइकरीयुक्कइइतिउक्काइइ गगनतलनइउरुलघताइइ सिधरजेइना चिचनइप्रसन्नकारीजीइवा
धोग्यइइ ऊपरि आठर मगल ध्वजा क्वकपरि क्वकइवातेइनइ महेन्द्र ध्वजनइ आगलि प्रत्येक
महेन्द्रध्वनदाठ नदा पुष्करणीवावि कक्षा तेइ पुष्करणीवावि एक सउयोजन लावपणइ पचास

क्खित्ता पत्ते य २ वणसडपरिक्खित्ताउ तासिण णदाण पुक्खरिणीया तिदिम
 तीसोमाणपडिक्खवगा पणत्ता तिसोमाण पडिक्खवगाया वणत्त तोरणाण
 ज्जया छत्ताइ छत्ता सभाएण सुहम्माए अडवालीस मणोगुलिय साह
 स्सीउ पणत्ताउ तज्जा पुरत्वमेण सोलस साहसीउ पव्वत्वमेणा सोलस
 साहस्सीउ दाहिणेणा अट्टसाहस्सीउ उत्तरेण अट्टसाहस्सीउ तामुवणा
 मणोगुलियामू वड्ढवे सुवणरुप्पमया फल्लगा पणत्ता तेसुणा सुवण
 रुप्पमएसु फल्लगेसु वड्ढवे वड्ढरामया णागदतगा पणत्ता तेसुणा वड्ढरा
 मएसू णागदतएसु कियह मुत्त वग्घारिय मल्लदामा कलावा चिट्ठति
 सभाएण सुहम्माए अडवालीस गोमाणसिया साहस्सीउ पणत्ताउ

पद्मवरवेदिकया प्रत्येक २ वनखण्डेन परिचिप्ता । तासां च नन्दापुष्करिणीना प्रत्येक त्रिदिशि
 त्रिमोपानप्रतिरूपकतीरवणनप्रागिव (सभाएणसुहम्माए) इत्यादि सभाया सुधर्माया अष्टा-
 चत्वारिंशत मनोगुलिकासहस्राणि पीठिकासहस्राणि प्रज्ञप्तानि । तद्यथा पूर्वस्या दिशि प्रौढ्य
 मनोगुलिकासहस्राणि, पीड्यसहस्राणि पश्चिमाया, मष्टीसहस्राणि दक्षिणतो, ऽष्टीसहस्राणि उत्त-
 रत, एतासु च मेलकनागदन्तक माल्यदामवर्धनं प्राग्वत । (सभाएण सुहम्माए) इत्यादि सभाया
 सुधर्माया अष्टाचत्वारिंशतगोमानसिका शय्यारूपा स्थानविशेषा स्तेषा सहस्राणि प्रज्ञप्तानि

योजन पङ्कलपण्ड दस योजन निर्मलकृद् वावीनइ वर्षकपूर्वनीपरिजाणवु स्वभावइ उदक
 रसाकृद्पाणीनउस्वादकृद् कक्षा एकेकीवाविचउपपेर पद्मवरवेदिकानइ वेष्टितकृद् प्रत्येकइ २
 वनखडनइ वेष्टितकृद् तेहनइ नदा पुष्करिणीनइ तिहूदसिपूर्वइ दक्षिणोत्तरइदक्षिणाउडीया
 ललारूप कक्षा तेह पाउडीयानउवर्षक आगलि तीरण ध्वजाकृदकपरिकृदकहिवा सभान सुधम्मा
 सुधर्मासभाइ दक्षिणदक्षिणोत्तराणि एकपूर्वद्वार आगलिमुखसडपथीमाडानदा पुष्करिणीलगइ अग्या
 रदपदार्यकडीएमज दक्षिणद्वारइ एमजउत्तरद्वारिजाणवउहवइ सुधम्मासभामाहिलउत्तररूप
 कइइइइ अठतालीससहस्र मनोगुलिकाचउणू उटलावेसस्व कक्षा तेकइइ कइ पूर्वइ सोलइसहस्र
 पीठिका पश्चिमइ सोलइ सहस्र दक्षिणइ आठ सहस्र उत्तरइ आठसहस्र तेह मनोगुलिकानइ
 विषइ घणा सीनारूपामय पाटीया कक्षा तेह सुवर्ण रूपामय पाटीनइविषै घणा वज्ररत्नमय
 नागदता अकुडा कक्षा तेह वज्रमय नागदतनइविषइ कालइमूर्ति गय्यालत्रायमान् फूलमालानी
 कलापसमूह रइइइइ सभा सुधम्माइ अठतालीससहस्र गोमांशसीसय्यानीपरि लावाउटला कक्षा
 जेममनोगुलियाचिहूदसिमिलीआठलीसकक्षातेमजगोमाणसीआतिहा पाटीयांतिखडनागदना तेह

तंजहा मणोगुलियाउ जाव णागदतगा तेसुण णागदतएसु वडवे रयया मया सिक्कगा प्रणत्ता तेसुण रययामएसु सिक्कगेसु वडवे वंसुलियामती धूवघडीयातो प्रणत्ताउ तातोणा धूवघडीयातो कालागरुपवर जावचिट्ट ति सभाएण सुहम्माए अतो वडूसमरमणिज्जे भूमिभागे प्रणत्ते जाव मणीहि उवसोभियामाणिफासेय उल्लोय तस्सण वडूसमरमणिज्जेभस्स भूमिभागस्स वडूमज्जेदेसभाए एत्यण महेगा मणिपीठिया प्रणत्ता सोलस जोयणाइ आयामविक्खभेणा अट्टजोयणाइ वाइल्लेण सव्वमणि मयी जाव पडिहवा तीसेणा मणिपीठियाए उवरि एत्यणां माणव एचेइयखते प्रणत्ते सट्टिजोयणाइ उठ उच्चत्तेणा जोयणा उव्वेहेणा जोयणविक्खभेणा अडयालीस अहिण अडयालीइसकोडीए अडयाली सइ त्तिग्गहिय सेसज्जा महिट्टज्जेण माणवगस्सणा चेइयखभस्स

तद्यथा षोडशसहस्राणि पूर्वत षोडशसहस्राणि पश्चिमायामष्टौसहस्राणि दक्षिणतोऽष्टौसहस्राणि उत्तरत स्ताम्पि फलकवर्णन नागदन्तवर्णन सिक्ककवर्णन धूपघटिकावर्णन च द्वारवत् । (सभाएण सुहम्माए) इत्यादिना भूमिभागवर्णन (सभाएण सुहम्माए) इत्यादिना उल्लोकवर्णन प्राग्गत (तस्सण) मित्यादि तस्य वडूसमरमणीयस्य भूमिभागस्य वडूमध्यदेशभागे अत्र महती एका मणि पीठिका प्रपञ्चता । षोडशयोजनान्यायामविक्कम्भाभ्या अष्टौयोजनानि वाइल्लयत सर्वरत्नमयी इत्यादि प्राग्गतमत्याश्च मणिपीठिकाया उपरिमहानिकी भाणवकनामा चैत्यस्तम्भ प्रपञ्चत । पण्डित्योजना- न्युडेमुत्तैस्त्वेन योजनमुडेन योजन विक्कम्भेन अष्टाक्षतवारिशदसिक्क । (अडयालीसइकोडीए अड- यालीस इत्तिग्गहिए) इति सम्प्रदाय गम्यम् । “वडुरामय वहलइसण्ठिए” इत्यादि महेन्द्रध्वजवत् वर्णन निरविशेष तावद्वक्तव्यं यावत् “सइस्सपत्तइत्यगा सत्वरयणामया जावपडिहवा” इति तस्य नागदतनइविपइ धणा रुपामय सीका कट्टा तेह रुपामय सीकानइविपइ धणी वेडूवरत्नमयी धूप घडी कही तेह धूपघटी कृष्णा गुरु प्रधान कु दरुष्कनधूपइकरीमघमघायमानधकीरइइइइइ मभानि सुधर्मानइ माहि धणउ समुउ रमणीक भूमिनउ भागकट्टउ पचवर्णमणिकरी सीमित तेहनउवर्ण करिसपूर्वचल उपरिचट्टयामीतीनीमालासर्वकहिवु तेहनइ धणउ समउरमणीकनइ भूमिभागनइ धणउ मध्य देसभागइ इहा मोटीएक मणिपीठिका कही तेहपीठिका भीलइ योजन लावपणइ पहूलपणइ आठवीजन जाडपणाइ सर्वमणिमयी घठारीमठारी भलु रुपइइ तेह मणिपीठिकानइ उपरि इहा मानवकनामाचैत्य स्तनपून्तीकथत कट्टउ तेहसाठि योजन क चउ उ चपणइ एकयोजन भूमिमाहि क उडएकयोजनपहूलपणइ अठतालीसकीडि अधिक

उवरि वारस' जोयणाइ' उग्गाहिता हिद्दावि वारसजोयणाइ वजेत्ता मज्जे छत्तीसाए जोयणसु इत्यण वहवे सुवणरुप्यमया फलगा पणत्ता तेसुणा सुवणरुप्यमएसु फलगेसू वहवे वडरामया गाग दतगा पणत्ता तेसुण वडरामएसु णागदतएसु वहवे रययामया सिक्कगापणत्तातेसुण रययामएसूसिक्कगेसूवहवेवडरामया गोलवट्ट समुग्गा पणत्ता तेसुण वडरामएसु गोलवट्ट समुग्गेसु वहवे जिणस्स कच्चाउ सण्णिविखत्ताउ चिट्ठति ताउण सूरियाभस्स देवस्स अरणसिच वहुण देवाणय देवीणय अच्चणिज्झाउ जावपज्जमासणिज्झातो माणवगस्सण चेइयखभस्स उवरि अट्टमगलज्जभया

च माणवकस्य चैत्यस्ततस्य उपरि द्वादशयोजनानि अथवाधे उपरितनभागात् द्वादशयोजनानि वज्रयित्वेति भावः । अधस्तादपि द्वादशयोजनानि वर्जयित्वा मध्ये पट्टन्नि गतियोजनेषु (वहवे सुवणरुप्यामया फलका) इत्यादि फलकवर्णन नागदन्तवर्णन सिक्ककवर्णन च प्राग्वत् तेषु च रजतमयेषु सिक्ककेषु वहवो वज्रमया गोलवृत्ता गोलवट्टा समुद्भवा प्रज्ञप्ता स्तेषु च वज्रमयेषु समुद्भकेषु वहुनि जिनमत्कीनि सन्निधिप्तानि तिप्यन्ति - यानि नूयामस्य देवस्य अन्येषा च वहुना वैमानिकाना देवाना देवीना च अर्चनीयानि चन्दने चन्दनीयानि स्तुत्यादिना पूजनीयानि पुष्यादिना माननीयानि बहुमानत सत्करणीयानि वस्त्रादिना कल्याण मव्याल देवत चैत्यमिति वुडगपर्युपासनीयानि (तस्सण चेइयखभस्स उवरिवहवेअट्टमगलज्जभया)इत्यादि

अथतालीसकोडि एइपदनउ अर्थगुहपरपराइजाणवउकीइककइइइनागवकचैत्यनइएतलिहासि इइ सपयाकतउवणकजिमपूर्वइमहेन्द्रध्वजनउकीधउकइतमजाइहापणिजाणवउ माणवगनइ चैत्यभनइ ऊपरि वार योजनइकपीइनइ जइनइएतलइऊपरि वारयोजनवजीनइइइइवार योजन वजानइ विचइ इवीस योजननइविपइ इहा घणा सुवर्णरुपामय पाटीया कच्चा तेह सीना रुपामय पाटीयानइविपइ घणा वज्ररत्नमय नागदताअकूडा कच्चा तेह वज्रमइ नागदताअकूडा कच्चा घणा वज्रमयरुपामया सिका कच्चा तेह रुपामय सिक्कानइ विपइ घणा वज्रमय गोलसा वाटलीडावडगाकच्चा तेह वज्रमय गोलमावाटलीडावडानइविपइ घणा तीर्थकरना दाढा थापी घकी रइइइइ तेदाढा सुयामनइ देवनइ अनेरापणि घणा देवनइ देवीनइ चदनीदिकइअर्चिवा योग्यइइयुष्कादिकइ पूज्यवायोग्य वदिवायोग्यइइकरिवायोग्यइइघणीजप्रतिसरिवायोग्यइइ मा नवगणनइ चैत्यभनइ ऊपरि आठर मगनीक ध्वजाकवकहवा तेहनइ मानवगनइ चैत्यभनइ एवइ मीटीएक मणिपीठिका कही आठयोजन लावणइ पहूलपणइ च्यार योजन जाइपणइ

हृत्ता तस्मिन् माणवगस्स चेद्दयखभस्स पुरित्वमेण महेगा मणि
पेठिया पणत्ता अट्टजोयणाद् आयामविक्खभेणा चत्तारिजोयणाद्
वाहल्लेणा सव्वमणिमया अत्था जाव पडिक्खा तीसेणा मणिपेठियाए
उवरि एत्थण महेगे सीहासणे पणत्ते सीहासण वणणउ सपरि
वारो तस्सण माणवगएस्स चेद्दयखभस्स पचत्विमेण एत्थणा महेगा
मणिपेठिया पणत्ता अट्टजोयणाद् आयामविक्खभेणा चत्तारिजोय
णाद् वाहल्लेण सव्वमणिमयी अत्था जाव पडिक्खा तीसेण मणि
पेठियाए उवरि एत्थण महेगे देवसयणिज्जे पणत्ते तस्सणा देव
सयणिज्जस्स इमेयान्ने वणणावासे पणत्ते तज्जा णाणामणिमया
पडिपाया सोवत्थिणिया पाया णाणामणिमयाद् पायसीसगाद्
जवूणायामयाद् गत्तगाद् वड्ढरामयासधी णाणामणिमएववेयामयी
तुत्ता तवणिज्जामया गड्ढोवच्चाणया लौहियक्खमए विवोएणा सेण

प्राग्बत् तस्य माणवकस्य चैत्यस्तम्भस्य पूर्वस्थां दिग्मि अत्र महत्वेका मणिपीठिका प्रपन्ता अष्टौ
धीजनान्यायामविक्खमाभ्यां चत्तारियोजनानि वाहल्लेन (सव्वमणिमया)इत्यादि प्राग्बत् तस्याश्च
मणिपीठिकाया उपरि अत्र महदेक देवसयनीय प्रपन्त तस्य च देवसयनीयस्य अयमेतद्रूपी
वयांवासी वयं कनिवेगं प्रपन्त स्तदयया नानामणिमया प्रतिपादा मूलपादाना प्रतिविमिष्टी
पष्टम्भकराय पादा । सोवत्थिका सुवणंमया पादा मूलपादा । नानामणिमयानि पादशीर्षं
काणि जाम्बूनदमयानि गात्राणि इपादीनि वज्रमया वज्ररत्नापूरिता सन्धय, (णाणामणिमयेवज्जे)
इति नानामणिमय ध्युतं त्रिभिष्टञ्चान रजमयीतूलीलोहितचमयानि (विज्जोयणा) इति उपधान-
कानि आह च त्रीवाभिगममूलटीकाकार "विज्जोयणा" उपधानकान्युच्यन्ते, इति तपनीयमर्थी

सवमणिमया निर्मल घटारीमठारी भलउ रूपहि तेह मणिपीठिकानइ ऊपरि इहा मोटउएक
सिंहासननउ कछउ सिंहासननउ वणंके परिवारसहितवउ तेहनइ माणवकनइ चैत्यथमनइ
पछिमइ इहा मोटी एक मणिपीठिका कही तेह आठयीजन लांउपणइ पद्दुलपणइ च्यार
धीजन जाउपणइ सर्वमणिमयी निर्मल घटारामठारा भलु रूपहि तेह मणिपीठिकानइ ऊपरि
इहा मोटउएक देवसयनीटोलीउइत्यथं कछउ तेहनइ देवसयनीयनउ आगलिकइरयइ तेहवु
वणंकवसेपकछउतेकइइइहि अनेकमणिमय प्रतिमादीजेइटीलीयापायाहेठा दीजइटरुपसुवणमय
पाया नानामणिमय पायानामाथा जवूनदमुवणमय गातइसउपर्यां वज्रइकरीपायानइइसरनी

सुयण्जम्हे दुहृतो उषणए मज्जेणयगभीरे सालिगणवट्टए गगा
 पुलिण वालुया उद्दालसालिसए सुविरइयरयत्ताणो उयवियखोमट्ट
 गाल्लपट्टपडित्थयणो रत्त सुयसवूए सुरम्मै आइणगसुवै वूरणवणीय
 तूलफासे तस्सणा देवसयण्जम्हेस्स उत्तरपुरत्थिमेण महेगा मणि
 पेठिया पणणत्ता अट्टजोयणाइ आयामविक्खभेण चत्तारि जोयणाइ
 वाहल्लेण सव्वरयणामया अत्था जावपडिख्वा तीसेण मणिपेठिया
 उवरि एत्थण सूरियाभस्स देवस्स चउपाले गामपहरण कोसे
 पणणत्ते सव्वरयणामए अत्थे जाव पडिख्वे तत्थण सूरियाभस्स

गयडीपधानिका । (सिण देवसयण्जम्हे) इत्यादि तत् देवशयनीय सालिगणवर्तिकं सइ आलि-
 घ्नान वत्था शरीरप्रमाणे नोपधानेन यत् तत्तथा, "उभउविच्चोयणं" इति उभयत् उभौ सिरोन्न
 पदान्तावायित्थ विच्चोयणं उपधाने यत् तत् उभयती विच्चोयण (दुहृतो उषणते) इति उभयत्
 उन्नत (मज्जेणयगभीरे) मध्येन तच्च तत् निम्नत्वात् गभीरञ्च महच्चोन्नतगभीरम् । गग्गा
 पुलिनवालुकाया (उयदाली)विदल्लन पादादिन्यासे अधोगमनमिति भावस्तेन (सालिसए) इति
 सट्ठक गग्गापुलितवालुकावदाल सट्ठक इश्यते चार्यप्रकारी हसतूल्यादिल्लिति तथा "उयउविय"
 इति विशिष्ट परिकमित चोम कापासिक दुक्कून वस्स तदेव पट्ट उय विपच्चोम दुक्कूलपट्ट, स
 प्रतिशुदनमाच्छादन यस्य तत्तथा (आइणगसुवैवूरणवणीरतूलफासे) इति प्राग्वत् (रत्त सुयसवुए)
 इति रत्तायुकेन सवृत अतएव सुरम्मै (पासाइए) इत्यादि पटचतुष्टय प्राग्वत् । (तस्सण)
 मित्यादि । तस्य देवशयनीयस्य उत्तरपूर्वस्या दिशि अत्र महत्त्येका मणिपीठिका प्रप्लता सा
 चाष्टोयीजनान्यायामविक्कम्भाभ्या चत्वारियीजनानि वाहल्लयत् (सव्वमणिमयी) इत्यादि प्राग्वत्
 तस्याश्च मणिपीठिकाया उपरिचुल्लको महेन्द्रध्वज प्रप्लत् । तस्य प्रमाण वर्णकश्च महेन्द्र
 ध्वजवदत्तय (तस्सण)मित्यादि तस्य चुल्लकमहेन्द्रध्वजस्य पश्चिमायामत्र सूवाभस्य देवरय
 महान्कश्चोप्याली नाम प्रहरणकोश प्रहरणस्थान प्रप्लत् किं विशिष्ट मित्याइ, (सव्ववट्टरा
 मए अत्थे जावपडिख्वे) इति प्राग्वत् (तत्थण)मित्यादि तत्र जीप्यालकाभिधानप्रहरणकोशे

मधिजडीइइ नानामणिमयवीणजेथइकरीटोलावणीइ रूपामय तुलिकानलाइ तपनीयसुवर्णमय
 गालनमूराया लोहिताख्यारत्नमय उमीसा तेह डीलीयी उमीसइनइपगतलउ ऊ चउ मध्यइ
 गभीरउ डउ शरीरप्रमाणइमसूरीइसहित गगानउपुइलिनकाठउतेहनीविलूका तेहनइइवदालपग
 करी हेठिउजाइवुएतलइवेलूमाहिजिहापगम कइतिहाएगहेठउजाइतिमतलाइउपरिमुकउउ ड
 जाइवडडउ चिरव्यउजइनेइ रजस्ताणऊपरिवस्त ऊपरितइउऊकमायुदुकूलवरत्तजेह पट्टऊपरि

देवस्स फल्लिह रवणाखगोगया धणुप्पमुद्धा वड्ढवे पड्ढरणरवणा
 सण्णिणखित्ता चिद्धति उज्ज्वला सुण्णिसिया मुत्तिक्खिधाराया पासा
 इया ४ सभाएण सुद्धम्माए उवरि अद्धमगज्जगाज्जक्या छत्ता सभा
 एण सुद्धम्माए उत्तरपुरत्थिमेण एत्थण मड्ढेगे सिद्धाययणे पण्णत्ते
 एग जोयणसय आयामेण पण्णास जोयणाइ विक्खमेण वावत्तरि
 जोयणाइ' उठ उच्चत्तेण सभागमएत्तेण जावगोमाणसियाउ भूमि

बहुनि परिघरत्नखड्गगदाधनु' प्रमुखादीनि प्रहरणरत्नानि सन्निक्षिप्तानि तिष्ठन्ति कथं भूता-
 नीत्यत आह । उज्ज्वलानि निर्मलानि श्रितानि अतिरंजितानि अतएव तीक्ष्णधारणि प्रासादी-
 यानीत्यादि प्राग्वत् तस्याश्च सभाया' सुधम्माया उपरि बहून्व्यष्टावष्टी मध्यालकानीत्यादि सब
 प्राग्वत् वक्तव्य, (सभाएण) मित्वादि सभाया' सुधर्माया (उत्तरपुरत्थिमेण) मिति उत्तरपूर्वस्या दिशि
 महदेक सिद्धायतन प्रज्ञप्तमेक धीजनग्रतमायामत' पञ्चाशत विष्कम्भतो दासपति धीजनान्यु-
 द्दमुत्तैमवनेत्यादि सर्वं सुधर्मावत् वक्तव्य यावत्गौमनसीवक्तव्यता तथा चाह (सभागमएण
 जावगोमाणसियाउ) इति किमुक्तं भवति यथा सुधर्माया' सभाया' पूर्वदक्षिणोत्तरवस्तीनि त्रीणि
 द्वाराणि तेषां च द्वाराणां पुरतो मुखमण्डपा' तेषां मुखमण्डपानां पुरत' प्रेक्षा गृहमण्डपा स्तेषां
 च प्रेक्षागृहमण्डपानां पुरतश्चैत्यस्तूपा' प्रतिमा स्तेषां च चैत्यस्तूपानां पुरतश्चैत्यवृक्षाश्चैत्य
 वृक्षाणां पुरतो महेन्द्रध्वजा स्तेषामपि पुरतो नन्दापुष्करिण्य स्तदनन्तरं गुलिका गोमानस्य
 शचीकृता स्तथावापि सर्वमनेनैवक्रमेण निरवशेषवक्तव्य उल्लेखवर्णनं भूमिभागवर्णनं प्राग्वत ।

आच्छादनकइजेजा रातइसाटकइढीलीरमणीउपायालगिताक्यउल्लिखइइ कइकमायुचर्मं वूरवन
 स्पतीमापण्यथकंसुलएहसरीपुफरिससुकुमालकइजेजइनउ तेइनइ देवसय्यानइ उत्तरपूर्वइसानकूणि
 मीटीएक मणिपीठिका कइ तेइ आठवीजनइ लावपणइ पडूलपणइ च्यार वीजन जाउपणइ सर्वे
 रत्नमय निर्मल घटारीमठारी भलू रूपइ तेइनइ मणिपीठिकानइ ऊपरि इहा सूर्याभनउ देव
 नउ चउफालनामससुभउकीस धरवशेषजिहारसहसरइइ कइउ सर्वरत्नमय निर्मलकइतेजउजेइ
 भलु रूपइ तिहा सूर्याभना देवना चउफाल स्फटिकरत्नमयपडगदीधनुभवप्रमुख घशा प्रहरण
 रत्न घाण्याकारइइइइ तेजेइवाकइइऊजलाकै धरसाणइतेजवडाव्याइइ महातीक्ष्णधारीइइ
 चिसप्रसन्नकरइइइजोइयायीयइ सभानइ सुधम्मानइ ऊपरि आठर मगलीक ध्वजा इइ
 कइवासभानइ सुधम्मानइ इसानकूणि इहामीटउएक जित्तप्रतिमाप्रासाद कइउ एइइइ
 याजन लागपणइ पचास वीजन पडूलपणइ वड्ढत्तरि वीजन ऊचउ उ चपणइ मुज्जाइइइ
 माहिजेमजेतलागामाणसीयाकइइ आगलित्तिक्काद्वारसुपमडपमै चामडपचै, दइइइ, इइइइ

भागा उल्लोया तच्चेव तस्सण सिद्धाययणस्स वहुमज्झदेसभागे
 एत्थण महेगा मणिपेठिया पणत्ता सोलस जोयणाइ आयाम
 विक्खभेण अट्टजोयणाइ उठ उच्चत्तेण तीसेण मणिपेठियाए
 उवरि एत्थण महेगे देवत्यटए सोलसजोयणाइ आयामविक्खभेण
 साइरेगाइरेगाइ सोलसजोयणाइ उठ उच्चत्तेण सव्वरयणामए
 जावपडिरुवे तत्थण अट्टसय जिणपडिमाण जिणुस्सेहपमाणमेत्तेहि
 सणिणखित्त सणिणचिट्ठति तासिण जिणपडिमाण इमेया
 रुवे वणणावासे पणत्ते तज्जा तवणिज्झमया इत्थतल पायतला
 अकामयाइ शाक्खाइ अतलोच्चियक्खपडिसेगयाइ कणगमईउ
 जघाउ कणगामया जाणु कणगामया ऊरुकणगामइउ गायलद्धउ

(तस्सण)मित्यादि । तस्य सिद्धातनस्यानूर्वहुमध्यदेशभागे अत्र मइयिका मणिपीठिका प्रपन्ता
 सा षोडशयोजनान्यायामविष्कम्भाभ्यामप्योवनानि वाइहयत (सव्वमणिमयी)त्यादि प्राग्बन्
 (तीसेण)मित्यादि तस्याश्च मणिपीठिकाया उपरि अत्र महानैको देवकन्दक प्रपन्त । स च
 षोडशयोजनान्यायामविष्कम्भाभ्या सातिरेकाणि षोडशयोजनान्यूर्वमुच्चैस्त्वेन (सव्वरयणामये)
 इत्यादि प्राग्बन् तत्र च देवकन्दके अष्टशतमप्टाधिकं शतं जिनप्रतिमाना जिनोत्सेधप्रमाथ
 मात्राया पञ्चधनु शतप्रमाणानमिति भाव सन्निचित्त तिष्ठति (तासिणजिणपडिमाण)मित्यादि
 तासा जिनप्रतिमानामयमेतद्रूपी वणावासी वर्णकनिवेश प्रपन्त स्तपनीयमयानि इस्ततलपाद-
 तलानि अङ्गरत्नमया अन्तर्मध्ये लोहिताचरत्नप्रतिसैकानद्या, कनकमय्यी जघ्वा कनक-
 पीठिका ऊपरि जिनप्रतिमा चार आगल्लिचैत्यवृक्षमहेन्द्रध्वज नदापुष्करथी इत्यादिकश्चोपरि
 पदायजिमकह्याजिमसिद्धायतन आगल्लिकहिवाभूमिभागऊपरितभव चडुयतिमजसुधर्मासभा
 तेइनइसिद्धायतनइ षण्णमध्य देसभागैइहामोटी एकमणिपीठिका कइतेहसोलयोजन लावणइ
 पडूलपणइ आठयोजन ऊचु ऊचपणइ तेइनइ मणिपीठिकानइ ऊपरि तिहा मोटउएक देवकद
 उइइ तेहइसोलइयोजन लावणइ पडूलपणइ काइकभाभेरा सोलइयोजनऊ चउ ऊ चपणइ
 मवरत्नमयइ घटारउमठारु भलु रूपि तेदेवकदामाहि एकसउआठ जिनप्रतिमा जिननइ
 उ चपणइ मात्राइतेइप्रतिमाजघनासातइस्तनीउत्कृष्टीपाचसइ धनुषप्रमाणइ धापीयकी रइइइइ
 तेइनइ जिनप्रतिमानउ आगल्लिकहीसइतेइवु वर्णकवसिप कछउ तेकइइइइ पनीयरत्नसुवर्णमय
 इधतानाला आनइपगलावना अकस्वेतरत्नमय नद्यमाहि लोहिताख्यतारारत्नमय प्रतिसैक
 एतलइ निमरफटिक जिमरातीविवस्त्वमु कीइ तिहारइस्फटिकरीतउदीसइ जिमनइस्वेतइइ

तवणिञ्जामतीतोणाभीतो रिद्धामईउ रोमराईउ तवणिञ्जामया
 वच्चूया तवणिञ्जामया सिरिवत्था सिलपवालमया उद्वापालिया मया
 तवणिञ्जामईउ जीहाउ तवणिञ्जामया तालुया कणगामईउ ग्रासि
 गाउ अतोन्नोहियक्ख पडिसेगाउ अकामयाणि अत्थीणि अतो लोहि
 यक्ख पडिसेगाउ रिद्धामईउ तागाउ रिद्धामयाणि अत्थिपत्ताणि रिद्धा
 मईउ भमुहाउ कणगामया सब्बणा कणगामईउ निलाडपट्टियातो
 वईरामईउ सीसवडीउ तवणिञ्जामईउ केसतकेसभूमीउ रिद्धामया
 उवरि मुहया तासिण जिणपडिमाण पिहूउ पत्तेय २ क्तधरगा
 पडिमाउ पणत्ताउ ताउण क्तधरगपडिमाउ हिमरययकुदेटुप
 गासाइ सकोरिट मल्लदामाइ धवलाइ आयवत्ताइ सलील धारे

मयानि ज्ञाम्बूनि कनकमया ऊरव कनकमय्यी गावयट्टय, तपनीयमया नाभयी रिष्टमय्यो रोमरा
 जय तपनीयमयाञ्जुचुकास्तनाग्रभागा, तपनीयमयाथीवृत्ता गिलापवालमया विद्धममया
 उट्टा, स्फटिकमया दम्ता तपनीयमय्यो जिह्वा । तपनीयमयानि तालुकानि कनकमय्यो
 नामिका अन्तलींङ्गिताचप्रसेका, अष्कमयान्यचीणि अन्तलींङ्गिताचप्रतिसेकानि रिष्टमयानि
 अक्षिपत्ताणि रिष्टरत्नमय्यीभूव । कनकमया कपोला कनकमया श्रवणा कनकमय्यो ललाट
 पट्टिका, वज्रमय्यशीर्षपट्टिका स्तपनीयमय्यकेशान्तकेशभूमय केशान्तभूमय केशभूमवश्चेति
 भाव रिष्टमया उपरिभूवजा केया स्तासा जिनप्रतिमात्रा पृष्टत एकेका क्वधरा प्रतिमा
 हिमरजतकुन्देन्दुप्रकाश सकोरपट्टमाख्यदामधवलमातपत्र गृहीत्वा सलील धरन्ति तिष्ठन्ति
 हेठिरातीरत्ननीभूमिहृदयेणइ करी नखरातीदीसइहइ सुवर्णमयीजाघककनकमय टीचणकनक
 मयपीतवर्णसापलहइ कनकमय गावयट्टीसरीर रातासुवर्णमय नाभि रिष्टमय रोमराजी राती
 सुवर्णमय चूचूकास्तन सुवर्णमय श्रीवत्स्यहीयाववि प्रवानरत्नमय उट्ट स्फटिकरत्नमय दात
 सुवर्णमयी जीभरातीसुवर्णमयतालुउ कनकमय नासिका माहि लोङ्गिताख्यरत्नमयप्रतिसेकएतलइ
 नामिकामाहिलाभूमि रातरत्नमयीहइ अक्खेतरत्नमय आसि तेमाहि लोङ्गिताख्यरातरत्न
 मयप्रतिसेकआसिमाहिरातिरेखा रिष्टरत्नमयइ राती रठायकनीरातानासिका रिष्टरत्नमय
 आसिनीभाषिणी रिष्टरत्नमय भमुही कनकमय कान्ठाकनकमय ललाट पट्टिका वज्रमयी मस्तक
 कण्ठकी रातासुवर्णमयी केसनीभूमिजिह्वकेशजगि रिष्टरत्नमयक उपत्था केस तेहनइ जिन
 प्रतिमानइ पूठिइ प्रत्येकइ २ प्रतिमादीता क्वध प्रतिमा कही तेह क्वधरक प्रतिमा जिमगाल
 उ रूपउ'कु दफूलइ इ द्रमाएसरीया कीरटीनाफूलमालाइ सहितधउला क्वधप्रतिमा लीलाइ माहित

माणाउ २ चिद्वृत्ति तासिण जिणपडिमाण उभउपासे पत्तेय २
 चामर धारपडिमाउ पणत्ता ताउगा चामरधार पडिमाउ चदप्यभ
 वइर वेरुलिय णाणामणिरयणखचिय चित्तदडाउ सुद्धमरययदी
 हवालाउ सखक कुददगरय अमयमहियफेणपुज सणिणगासाउ
 धवलाउ चामराउ गहाय सलील वायमाणीउ चिद्वृत्ति तासिण
 जिणपडिमाणं पुरतोऽग्नीदो णागपडिमाउ जक्खपडिमाउ कूंडधार
 जिनपडिमाउ सव्वरयणामइउ अत्थाउ तहेव जाव चिद्वृत्ति तासिण
 जिणपडिमाण पुरउ अमय घटाण अट्टसय कलसाण अट्टसय भिगा
 राण एव आयसाणवालाण पीरिण सपतिट्ठाण मणोगुल्लियाण वायकर

तथा साजिनप्रत्येकमुभयो' पार्श्वयो' हं हं चामरधरे प्रतिमे प्रज्ञप्तं ५ च' (चन्द्रप्यभवइरवेरुलिय
 णाणामणिरयण खचिय चित्तददडाउ)इति चन्द्रप्रभश्चन्द्रकान्तो वज्र ५-यं च प्रतीत चन्द्रप्रभवज्ज
 वैडूयाणि शेषाणि च नानामणिरत्नानि खचितानि येषु दण्डेषु ते तथा ए- रूपा शिवतनानाकारा
 दण्डा येषा तानि तथा मूखे स्वीत्व प्राकृतत्वात् (सुद्धमरययदीहवालाउ) ३१ मूला रजत-
 मया दीर्घा वाला येषा तानि तथा, (संखल्लक कुन्ददगरय अमयमहियफेणपुज्ज सणिणगासाउ
 धवलाउ) इति प्रतीत चामराणि गृहीत्वा सलील वीजयन्त्य स्तिष्ठन्ति ताश्च (सव्वरयणमइउ
 अत्थाउ) इत्यादि प्राग्बत् (तासिण)मित्यादि तासा जिनप्रतिमाना पुरतो हं हं नागप्रतिमे हं हं
 यच्चप्रतिमे हं हं भूतप्रतिमे हं हं कुण्डधारप्रतिमे सन्निच्छित्ते तिष्ठत, तस्मिञ्च देवकटके
 तासा जिनप्रतिमाना पुरतो अट्टयत् घटानामष्टयत् चन्दनकलशानामष्टयत् मृङ्गाराणामष्ट
 यत् मादशानामष्टयत् स्थालनामष्टयत् पत्रीणामष्टयत् सुप्रतिनामष्टयत् मनीगुल्लिकाना

जिनहूउतिमधरतीथकी रइइइइ तेहनइ जिनप्रतिमानइ विडू पासइ प्रत्येकइ चामर धारक
 प्रतिमा कही तेह चामर धारक प्रतिमानेइऊभीछि तेहचामरकेहवाइइवज्जुइप्रभवज्ज वैडूय
 अनंकप्रकारइमणिरत्नइ खचितइइ चि विनकइजेइनु सुद्धमरुपायलावाकेसरिछिजेइना सखअक
 रत्नचल अमृतमध्यानुफीणतइनु तेइनुपुज रासितेइसरीया धउलाइइ एहवाचामर गृहीनइ
 लीलासहित वाजतीथका रइइइइ तेहनइ जिनप्रतिमानइ आगलि क
 यच्चप्रतिमत्र कु डधारदेव वसेपनीप्रतिमा सवरत्नमयीइइ निमल
 तेहनइ प्रतिमानइ आगलि एकसउआइ घटा एकसुआठ कलस एकसु
 आइसवलइकहिवाआरीसा एकसुआठथाल पावी१०८ प्रतिठीया१०८

सद्यश्चिन्तवणञ्च अट्टमगलगा पणत्ताञ्चत्ता छत्ताइच्छत्ता तीसेणं^१
 उववाय सभाए उत्तरपुरत्थिमेण एत्थण महेगाहरए पणत्ते
 एग जोयणसय आयामेण पणत्तास जोयणाइ' विक्खभेणं दसजोय
 णाइ उव्वेहेण तहेव तस्सया हरयस्स उत्तरपुरत्थिमेण एत्थण
 महेगा अभिसेय सभा पणत्ता मुधम्मा गमएणा जाव गोमा
 णसियाउ मणिपेठिया सीहासण सपरिवार जाव दामा चिट्ठ ति

सुधमाया सभाया देवश्रवनीयस्य तस्या अप्युपातसभाया उपरि अष्टावष्टमपालकादीनि
 प्राग्वत् (तीसेण)मित्यादि तस्या उपपातसभाया उत्तरपूर्वस्या दिशि महानेकोद्भव प्रज्ञप्त,
 स चैक योजनशतमायामत पञ्चाशतयोजनानि विष्कम्भतो दशयोजनान्युद्देशेन "अक्के सण्हे
 रययामयकूल" इत्यादि-नन्दापुष्करिण्याइव वर्णन निरवशेष वक्तव्य (सिण)मित्यादि, स इद
 एकया पद्मवरवेदिकया एकेन च वनखण्डेन सवत् समन्तात् सम्परिचिप्त। पद्मवरवेदिका
 वणन वनखण्डवर्णन च प्राग्वत् तस्य इदस्य त्रिदिशि तिसृषु दिक्षु विसोपानप्रतिरूपकाणि
 प्रज्ञप्तानि तेषा च विसोपानप्रतिरूपकाणा तीरणाना च वणन प्राग्वत् तस्य च इदस्य
 उत्तरपूर्वस्या दिशि अत महत्येका अभिषेकसभा प्रज्ञप्ता। सा च सुधम्मा सभावत् प्रमाण
 स्वरूपदारवय सुधमयडपादि प्रकारेण तावदक्त्या यावन्नीमानसीवक्तव्यता तदनन्तर तथैव
 उल्लोकवर्णन भूमिभागवणन च तावत् यावन्मयीना स्पष्टं। तस्या अभिषेकसभाया बहु
 समरमणीयस्य भूमिभागस्य बहुमध्यदेशभागे महत्येका मणिपीठिका प्रज्ञप्ता साध्यपटौयोजना-
 न्यायामविष्कम्भाभ्या चत्वारियोजनानि वाहल्यत। (सव्वरयणा)मयी इत्यादि प्राग्वत् तस्या
 मणिपीठिकाया उपरि अब महदेक सिद्धासन सिद्धासनवर्णन प्राग्वत् नवरमव परिवारभूतानि

आगलि जेतलापदाथकहीकैतेतलाइहीसिद्धातनिआगलिकइवा एकसु आठधूपनाकडका थापीयकी
 रइइइइ सिद्धायतनइ उपरि आठर मगलीक ध्वजा इवउपरि इवकइवा तेहनइ सिद्धायतन
 नइ इसानकूणि मोटीएक उपपातसभामुवाभनइ ऊपजाववानीसभा कहा जिम सुधम्मासभा
 पूवइकहाइइ तिमजइहापणिकइवउ तिमणिइएकमणिकाइइ तेहआठयोजननीलांवाविहूला
 च्यारयोजन जाडातेइउपरिदेवसय्या तिमज सय्यावयकतेइसभाऊपरि आठर मगलीक कथा
 ध्वजा इवउपरिइवइइ तेहनइ उपयात सभानइ इसानकूणइ इहा मोटउ एकइहापाणीनउ
 कइउ तिहाएक सोउयोजन लावपणइ पचास योजन पहूलपणइ दसयोजन उ डपणइ जिम
 पूवइनदापुष्करणी कहीइइतिमज इइकइवउ तेहनइइइइ इसानकूणइ इहा मोटीएक अभिषेक
 सभाजिहाराज्याभिषेकयाइ तेह कही जिमपूर्वइ सुधम्मासभाकहीइइतिमज तिहालगि गोमाण

तत्थणा मूरियाभस्स देवस्स वहु अभिसेकेभडे सण्णिखित्ते चिद्धइ
 त्तेव तीसेण अभिसेग सभाए अद्धइमगलगा उत्तरपुरत्थिमेण एत्थणा
 मच्चा लकारिय सभा पणत्ता जहा सभा सुद्धम्मा मण्णिपेटिया
 अद्धजोयणाइ सीहासण सपरिवार तत्थण मूरियाभस्स देवस्स वहु
 सु अलकारितेभडे सण्णिखित्ते चिद्धइ सेस त्तेव तीसेण अलका
 रिय सभाए उत्तर पुरत्थिमेण मच्चेगाववसा सभा पणत्ता जहा वव
 साज सभा जाव सीहासण सपरिवार मण्णिपेटिया अद्धइ तत्थणा
 मूरियाभस्स देवस्स एत्थणा मच्चेगे पोत्थाखरयणे सण्णिखित्ते चिद्धइ
 तस्सण पोत्थय रयणस्स इमेयास्से वयणावासे पणत्ते तज्जा
 रयणामयाइत्ताइ परिट्टामइउ कठियाउ तवण्णिज्झामए दोरे णाणा

भद्रासनानि च वक्तव्यानि तस्मिंश्च सिंहासने मूर्याभस्य देवस्य बहु अभिषेकभाण्डमभिषेकयोग्य
 उपस्कर सन्निक्षिप्त तिष्ठति (सिंघ अभिसेगसभाए अद्धइमगलगा) इत्यादि प्राग्वत् तस्य
 अभिषेकसभाया उत्तरपूर्वस्था दिशि अत्र महत्येका अलष्कारसभा प्रज्ञप्ता सा चाभिषेक
 सभावत प्रमाण स्वरूपद्वारत्रय सुव्रमण्डपप्रोचामृद्धमण्डपादिवर्णनप्रकारेण तत्रवक्तव्या
 यावदपरिवार सिंहासन तत्र मूर्याभस्य देवस्य आलष्कारिकमलष्कारयोग्य भाण्ड सन्निक्षिप्त
 मस्ति शेष प्राग्वत् । तस्याश्चालष्कारसभाया उत्तरपूर्वस्था दिशि अत्र महत्येका व्यवसायसभा
 प्रज्ञप्ता सा च अभिषेकसभावत् प्रमाणस्वरूपद्वारत्रयसुव्रमण्डपादिवर्णनप्रकारेण तत्रवक्तव्या
 यावत्सिंहासनपरिवार तत्र महदैक पुस्तकरत्न सन्निक्षिप्तमस्ति तस्य च पुस्तकरत्नस्य अथमेत-
 द्दूपो वयावासो वर्णकनिवेश प्रज्ञप्त रिष्टमर्थ्यो रिष्टरत्नमर्थ्यो कथितके पृष्टके इति भाव ।

सीया मण्णिपीठिकातज्जपरि सिंहासन सपरिवार ऊपरिच इयातेणइआकुसतिहा मीतीनीमाला
 रइइइइ तिहा मूरियाभर्ना देवना घणा राजाभिषेकना भाजनथाप्यायका रइइइइ मूर्याभ
 शृ गारकरइ तेज्जपरिचाठर मगलीकध्वजा क्वचामरकइवा तेहनइ अभिषेकसभानइ इसान
 कूणइ इहा मीटाअलकारीमभाजिहा मूर्याभशृ गारकरइ कइहा जिम सभा सुधम्मातिमज्जइहा
 पण्णिजाणिवउत्तेमाइमण्णिपीठिका आठयीजननीतेज्जपरि सिंहासन परिवारसहित तहा मूर्या
 भना देवन्म घणा शृ गारसब्धि भाजनथाप्यायका रइइइइ सेपथाकउ तिमज्जपरि मगलीकथाठ
 ध्वजाइवचामर कइवातेहन अनकारीसभानइ इसानकूणइ इहा मीटीएक व्यवसायसभाजिहा
 पुस्तकरइइइइतेइकहीजिम उपपातसभातिमज्जइहापण्णि जिहालगि सिंहासन परिवारसहित
 तेमाइमण्णिपीठिकालात्रीपिह्लीआठयीजननी ऊपरिमगल आठतिहासभाइ मूर्याभनइ देवनउ

मणिमङ्गली वेसलियामए निवासणी रिद्धमं एत्यदणे तव रिद्धामयी
 मसी वद्वरामई लोहिणी रिद्धामजाइ अक्खराइ धम्मिए सत्ये
 ववसाय सभाएणा उवरि अट्टमगलगा तेसिण ववसाय सभाएणा
 उत्तरपुरत्थिमेण एत्यणा णादापोक्खरिणी पयणात्ता हरियसरिसा
 तीसेण णादाए पोक्खरिणीए उत्तर पुरत्थिमेण मङ्गला बलपेठिया
 पयणात्ते सन्दरयणामए अत्ये जाव पडिस्से पञ्चत्ताए तेण कालेण
 तेण समएणा सूरियाभेदेवे अहूणोववयणमेते चेव समाणे पचविहाए

रत्नमयो दवरको यत् पत्राणि प्रोतानि सन्ति नानामणिमयो गुन्यिदैवरकस्यादी येन पत्राणि
 ननिगच्छन्ति अश्कमयानि अश्करत्नमयानि पत्राणि नानामणिमय लिप्यासन मसीभाजनमित्यर्थ ।
 तपनीयमयी शृङ्खलाभाजनसक्ता । रिष्टरत्नमय रिष्टरत्नमय सुपरितन तस्य छादन रिष्टमयी
 रिष्टरत्नमयी मसी वज्रमयी लेखनी, रिष्टमयान्यचराणि धार्मिकं लिख्य क्वचित् (धम्मिएसत्ये)
 इति पाठः । तत्र धार्मिकं शास्त्रमिति व्याख्येयम् । तस्याश्च उपपातसभाया उत्तरपूर्वस्या
 दिशि मङ्गदेक बलिपीठं प्रज्ञप्तम्, तच्चाष्टादीजनान्यायामविष्कम्भत चत्वारियोजनानि वाह-
 ल्यत सर्वरत्नमय मत्थमित्यादि प्राग्बत् तस्य च बलिपीठस्य उत्तरपूर्वस्या दिशि अत्र मङ्गत्येका
 नन्दापुष्करिणी प्रज्ञप्ता सा च इदमभाषा इदस्येव च तस्या अपि विसीपानवर्णनं तोरणवर्णनं
 च प्राग्बत् तदेव यत् यद्दग रूपं च सूर्याभस्य देवस्य विमानं तत्र तद्दग् रूपं चोपवर्णितं सम्प्रति
 सूर्याभो देव उत्पन्नं सन् यदकरोत् यथा तस्याभिषेकोऽभवत् तदुपवर्णयति ॥ ६ ॥ (तेण कालेण
 तेण समएण)मित्यादि तस्मिन्काले तस्मिन्समए सूर्याभो देव सूर्याभे विमाने उपपातसभायां देव-

इहा मीठउएक पुस्तकरत्न थापउ धकउ रइइके तेहनइ पुस्तकरत्ननउ आगलिकहिसइतेहवु
 पुस्तकरत्ननु कइउ तेकइइइइ रत्नमय पाना रिष्टरत्नमय पूठा तपनीयसुवर्णमय दीरउजेणइ
 पानीपरोइइ नानामणिमय गांडियानानीकलइ वैदूर्यरत्नमयप्रिपीभाजनवठउ रिष्टरत्नमयपडीया
 नुवांकयउ तपनीयसुवर्णमयसाकलीजेणीइपडाआणउटाकयउ बाधीइरिष्टरत्नमयमङ्गीमरपीवज्र
 मया नेपिणी रिष्टरत्नमय अचरतेमहि केवलधर्मसवधीसासइइ व्यवसायसभानइ ऊपरि आइइ
 मगलीक तेहनइ व्यवसायसभानइ इसानकूणि इहा णादापुष्करणीदावि कहीपूवइजेहवउप्रइइ
 कइउइइतेहमणी तेहनइ नदा पुष्करणी इसानकूणइ मीठउएक वनिपीकेजिहाप्रतिमापूजता
 करतावासाउगरइ तेहजिहामूइएइवुकहूसवरत्नमयनिर्मल कघटाउरुमठारु मल्लुपकि एतलइ
 सूर्याभविमानवनसहितसंपूणवषव्यउइवैसूर्याभदेवनवकत्यठीकइके तेणैकालेचुथाआरानेकेइइइ
 तणममिषवसरि सूर्याभनामदेव अधूनातकालिउपपातसभाइ देवसय्याइ अगुलनेअसंख्यातमइ

पञ्चकृतीए पञ्चकृतिभाव गत्यद् तज्ज्ञा आहारपञ्चकृतीए १ सरीरपञ्चकृतीए २
 तीए २ गादियपञ्चकृतीए ३ आणापाणुपञ्चकृतीए ४ भासामणपञ्चकृतीए ५
 तण्णा तस्स मूरियाभस्स पचविहाए पञ्चकृतीए पञ्चकृति भाव गद्यस्स
 समाणस्स इमेयास्वे अञ्चकृत्यए चित्तए पत्थिए मणोगए सकप्पे
 समुपज्झित्या किम्मेपुब्बि करणिञ्च किमेपत्थाकरणिञ्च किमेपुब्बि
 सेय किमे पत्थासेय किमेपुब्बि पत्थाविद्धिताए सुहाए खमाए णिस्से
 साएअणुगाभित्ताएभविस्सद् तण्ण तस्स मूरियाभस्सदेवस्ससामाणिय

शयनीये देवदूपान्तरं प्रथमतो ऽप्युलासध्वेय भागमात्रया अवगाहनया समुत्पन्न । (तण्ण)
 मित्यादि सुगम नवर इह भाषा मन' पयाप्रयो' समाप्तिकालान्तरस्य प्राय', शेषपयाप्ति समाप्ति
 कालान्तरापेक्षया स्तीकत्वादेकत्वेन विवक्षयमिति (पञ्चविहाएपञ्चकृतिभाव गच्छ) इत्युक्तम्, (तण्ण)
 मित्यादि, ततस्तस्य सूर्याभस्य देवस्य पञ्चविधया पयाप्रया पर्याप्तभावमुपगतस्य सतीयमे तद्रूप
 सचकल्पः समुत्पद्यते, (अञ्चकृत्यए) इत्यादि पदव्याख्यान पूर्ववत् कि मे मम पूर्वं करणीय
 कि मे परचात् करणीय कि मे पूर्वं कर्तुं श्रेय कि मे परचात्कर्तुं श्रेय, तथा कि मे पूर्वमपि च
 परचादपि च चिंताय भावप्रधानीय निदेशी हि तत्त्वग्रपरिणामसुन्दरितायै सुखायगर्मण्ये चमाय
 अयमपि भावप्रधानो निदेशः, सध्यातत्वाय नियोग सायनिश्चितकल्याणाय अनुगमिकतायै पर
 परा शुभानुबन्ध सुखाय भविष्यतीति इह प्राक्तनो गुण्य' प्रायो ऽपूर्वभूयानपि च पुस्तकेण वाचना
 भेद स्ततीमाभूत् शिष्याणां समीह इति क्वापि सुगमोपि यथावस्थितवाचनाक्रमप्रदर्शनाद्यै
 निमित्तइत ऊह' तु प्राय' सुगम' प्रख्याख्यातस्वरूपश्च न च वाचनाभेदेप्यति वादरइति ग्वय
 परिभावनयो विषमपादव्याख्या तु विधास्यते इति । (तण्ण तस्स सूर्याभस्स देवस्स समाणिय

देवदुष्टवस्त्रधारतइउपनामत्रइ चैवनिश्चइ ऊपनइथकइ पचप्रकारइ पयाप्तइ करीपयाप्तभव
 प्रतिइ पामउ 'तिकइइइइ आहारपयाप्त १ सरीरपयाप्तइ २ इ द्वियपयाप्त ३ सात्रोवासपयां
 तइ देवतानइ' भाषापयाप्तिनइमनपर्याप्तिएविहूपयाप्तिसमकालइ ऊपनाइतेण आकारणइविहू
 पयाप्तिनीएऊपयाप्तिकहीइइपंचप्रयाप्तउ तिहारपकीइतेहनइ सूर्याभनइपाचपर्याप्तिउ तीपयां
 तइ पयाप्तिपणइ पामा धकानइ णइअउअध्यात्म आत्मानैविषे चिन्तित प्रार्थितमननउअभिनाप
 मनोगतमननइविषयइयापू सकल्पविचार ऊपनइ स्थउ' मुक्कनइपूर्वं इवडा' करिवउ स्थउ मुक्कनइ
 आगामीइकालइ करवनुनइ इवडा श्येयकल्याणनुकारण सु मुक्कनइ आगलियेय स्थुमुक्क विह
 वडा तथापइइपणिहितमणीपप्याभवत सुखमणीधीरयताभूणी व्यापिव्याघातकयोग्यउपधवत्
 'येयस मणीमीचमणीइत्यथ भवनीपर पराइसुभानुबन्धभूपमणी होसइ तिहारपकीतेहना मूयाभना

परिसोववणगादेवा सूरियाभस्स देवस्स इमेयाह्वे मज्झत्थिय जाव
 समुप्पणण समभिजाणित्ता जेणेव सूरियाभस्स देवेतेणेव उवागत्यइ
 उवागत्यत्ता सूरियाभ देव करयल परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए
 अज्जलिकटू जएण विजएण वद्धान्वेति २ ता एववयासी एव खलु
 देवाणुप्पियाण सूरियाभेविमाणे सिहाययणा अट्टसय जिणपडिमाण
 जिणुस्सेहपमाणेत्ताण सणिणखित्त चिद्धति सभाएण सुहम्माण
 माणवते चैइए खभेवइरामए गोलवट्टसमुग्गप वडूउजिणास्स कडाउ
 सणा खित्ताउ चिद्धति ताउण देवाणुप्पियाणा अयणेहिय वडूणा
 वेमाणियाणा देवाणय देवीणय अन्वणिज्झाउ जाव वदणिज्झाउ
 णमसणिज्झाउ पुयणिज्झाउ समाणिज्झाउ कल्लाणमगल देवय
 देवोइय पज्भूवासणिज्झाउ तएयणा देवाणुप्पियाणा पुव्विकरणिज्झत
 एयणा देवाणुप्पियाणा पत्थाकरणिज्झत रयणा देवाणुप्पियाणा पुव्वि
 सेयत एयणा देवाणुप्पियाणा पत्थासेयं त एयणा देवाणुप्पियाणा पुव्वि
 पत्थाविहियाए सुहाए खमाण णिस्ससाए अणुगामियत्ताए भविस्सति

परिसोववणगा देवाइमेयाह्वे) मित्यादि, आयन्ते इति नवानामपि शीतसा शुद्धोदकप्रचालनेन

देवना सामानिकदेवता अभ्यतरपरिपदानाद्भद्रसणहारदेवता सूयाभनउ देवनउ एहवउ आत्मा
 नइ विपइ सकल्य ऊपनु ज्ञाणीनइ जिहा सूर्याभ देवकइ तिहा आवइ आवीनइ मूयाभ देवप्रति
 विहूहाधिकरीनीपजाव्यउ मस्तकइ आवत्तप्रदक्ष्यारूप मस्तकनइवियइ अजलीकरीनइ जय
 विजइ शब्दैकरी वडावइवडावीनइएमबोला अमुताप्रकारि निश्चइअहीदेवानुप्रियाउनुसारा सूयाभ
 विमाननइविपइसिहायतनइ प्रियइजिनप्रासाइएकसउआठजिनप्रतिमाजिननइउचप्रामाण्यमाताइ
 थापाथकी रूइइइ सभासुधम्भानइविपइ मानवगनाम चैत्यभनइविपइ वजुमय गोलमावाटला
 डावडानइविपइपणी जिननी दाटा थापीयकारइइइइ तेइ देवानुप्रियनुमनइ अनैरानइपि
 ध्यानइ वैमानिकनइ देवनइ देवीनइ चदनादिकइचिंचियायीग्यकइ यावतसब्दइवादावायीग्यकइ
 नमस्कारकरिवायीग्यकइ फूलइ करीपूजवायीग्यकइ सस्कारवस्ताइइकइ समानआदरनउदेवउ
 कइगाथमगलीकनउकारणदेवचैत्यपरमेस्वरनीप्रतिमासेविवायीग्यकइतेणइ कारणएहदेवानुप्रियनुम
 नइमूवइकरिवा यीग्यते एहदेवानुप्रियानुमनइ पइकरिवायीग्यतेएहदेवानुप्रियनुमनइपूर्विश्रेय
 कइगाथनउकतेएहरण हेदेवानुप्रियनुमनइ पइइ श्रेयतेएह हेदेवानुप्रियनुमनइपूर्वइ अनइपि

तत्तेषु मूर्त्तिभेदेषु तेषामागण्यपरिसोववणगाणदेवाण अति ए
 एयमद्वसोत्तोगिसम्मद्दुत्तुजावच्चिय ए जाव सवण्यजभाउ अजम्भृद्वेत्ति
 २ ता उववायसभाउ पुरत्थिमिल्लेणा दारेणा गिगच्छइ जेणोव दरए
 तेणोव उवागच्छइ तेणोव उवागच्छत्ता हरिय अणुप्पयाच्चिणीकरेमाणे
 २ पुरत्थिमेषा तोरणेणा अणुपविसति अणुपविसत्ता पुरत्थिमिल्लेणा
 तिसोमाणग पडिमाणा पच्चोरुभइ पच्चोरुभित्ताजलावगाच्च करेति
 जलमज्झया करेइ २ ता जलकिट्टकरेत्ता जलकिट्टकरेत्ता जलाभिसंय
 करेति आवते चोक्खे परमसुत्तिभूए हरयाउ पच्चूत्तरत्ति हरयातो
 पच्चूत्तरत्ता जेणोव अभिसंयसभा तेणोव उवागच्छति तेणोव उवाग
 च्छत्ता अभिसंय्य सभअणुपविसइ २ ता जेणोव सीहासणे तेणोव
 उवागच्छइ तेणोव उवागच्छेत्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे
 सणिसणणे तएण तस्स मूर्त्तिभस्स देवस्स सामाण्य परिसोव
 णगा देवा अभिउगिए देवेसहावेति २ ता एववयासी खिप्पामेव

अवान्तो गृहीता च मनश्चोच स्वल्पस्यापि शक्तिमलस्यापनयनात्, अतएव परमशुद्धिभूतो

पश्चिद्धितमणी सुखमणी योग्यतामणी नित्यं यसमणीमीचमणी भवनीपरपराइसुभानउ बधमणी
 होस्यइतिद्वारपकीतेइ मूयाभ देव तेहोनइ सामानिकअभ्यतर परिपदानीवइसणहारनइ देवता
 नइ समीपइ एइवउअर्थसामली द्विययअवघारी इपसतोपपाम्यउ चित्तमाहिआणदनु उट्टाए
 उट्टेतिउठइ सव्यायकी तेइसाइमउऊठइ उभउयइ उपपातसभायकी पूर्वइद्वारनइ नीकलइ
 निकलीनइ जिहा इइइइतिहा जाइ तिहा जइनइ इइनइ प्रदक्षिणा करतउयकउ पूर्वनइ
 तारखनइ एइमाहिप्रवेशकरइ पइसीनइ पूवनइ पाउडाइ पइ माहि कतरइ जतरनइ जला
 उगाइकरिजलमाहिजतरइ जलस्नान करइ करीनइ जलकीडाकरइ जलकीडाकरीनइ जला
 भियेककरेविहू हाधिकरीमस्तकि पाणीवालैगुळजलिरीफरिसै चोपउमलरहितयकू परमसुद्धिपविक
 ययउ इइयकी नीकलइ इइयकी नीकलीनइ इइयकीनीकलीनइ जिहा राज्याभियेक सभा तिहा
 नाइ तिहा जइनइ अभियेक सभाप्रतिथैसइ पइसीनइ जिहा सिहासन तिहा जाइ तिहाजइनइ
 सिहासननइप्रियइपाम्यउयकउ पूवदमिमुखकरी बडठउ तिद्वारपकइ तेहना मूयाभना देवनी
 मामानिक परिपदा अभ्यतरपरिपदानीवइमणहारदेवता अभिउगीमेवक देवताप्रतितावइरनइ
 एम बोलाउतावलुनिरवइ अहीदेवानुपियाउ मूयाभनइ देवनइ अर्थिमोउउइ अथमधिकनका

भोदेवागुष्विया मूरियाभस्स देवस्स महत्थ महग्घ महरिच्च विउल्ल
इन्दाभिसेय उवट्टवेच्च ततेण आभिउगिया देवा सामाणि परिसोव
वणणेच्च देवेच्च एववूत्ता समाणा इट्टतुट्टजावड्ढियया करयल्ल परि
ग्गच्चिय सिरसावत्त मत्थए अज्जलूकटूएव देवो तर्हत्त आणाएणा
विणएणा पडिसुणेत्ति एव देवो २ उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अवक्क
मति उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अवक्कमित्ता वियोविय समुग्घाएणा
समोहणति सखिज्जात्त जोयणा जाव दोच्चपि वेउत्त्विय समुग्घा
एणा समोहणित्ता अट्टसय सोत्त्वणियाण कलसाण अट्टसय रूप्प
मयाण कलसाण अट्टसय मणिमयाण कलसाण अट्टसय सुवणण
रूप्पमयाण कलसाण अट्टसय सुवणण मणिमयाण कलसाण
अट्टसय रूप्पमणिमयाणां कलसाण अट्टसय सुवणणरूप्पमणिमयाणा

(महत्थ महग्घ महरिच्च विउल्ल इन्दाभिसेय)मिति महान्, अर्थमणिकनकरत्नादिकउपयुञ्जमानो
यस्मिन् महाय त तथा, महान् अर्थ पूजा यव स महार्थ । त महन्तसुत्सवमर्हन्तीति महाहं स्त
विपुल विस्तीण शक्काभिपेकवन् इन्द्राभिपेकमुत्यापयत । (अट्टसहस्स सोवणियाण कलसाण
विउत्त्वन्ती)त्यादि । अत्र भूयान् वाचनाभेद इति यथावस्थितवाचनाप्रदर्शिताय लिप्यते । अट-
सहस्रमष्टाधिक सहस्र सौवणिकाना कलशानाम् १ अष्टसहस्र रूप्यमयाना २ अष्टसहस्र
मणिमयाना ३ अष्टसहस्र सुवर्णरूप्यमयाना ४ अष्टसहस्र सुवर्णमणिमयाना ५ अष्टसहस्र रूप्य-
मणिमयाना ६ अष्टसहस्र सुवर्णरूप्यमणिमयाना ७ अष्टसहस्र भोमियाना कलसानाम् ८ अष्ट-

दिक जिहामोउअर्थकइपूजाजिहंतिमहत्त्व मोटनउयोग विस्तीण इद्राभायकराज्यइ थापवास्तान
करावीनइ अथपाणीयादिकचाण्ड ति द्वारपक्षी तेहआभिउगी देवता सामान्यकनइ देवताइ
एमकइउ इर्प सतीपपाय्या चित्तनइ आणदा विहू हाथिकरीनीपजावीनै प्रगतकइआवर्त्तप्रदक्षणा
रुप मस्तकनइविपइ अंजलीकरीनइ एमज हे देवतुमेकइउहइततिमज आज्ञानइ विनयकरी ते
सामानिकदेवनुवचनआभिउगासाभलइ एमकइ इसानकूणिभागप्रति अपक्रमइ जाइ इसानकूय
इभागप्रति जइनइ वैक्रिय समुद्धातइ प्रयत्नविशेषइ वैक्रियसमुद्धातकरइ सद्यता वोजन
लगइआत्मप्रदेसविस्तारीसोलइजातिनारत्नलेइ बाहरपुद्गलनापइसूक्ष्मपुद्गलगुहइ दीच्छपिवीजी
बेलावैक्रिय समुद्धातइ करी समुद्धातकरीनइएकसहस्रनइ आठ सीनाना कलसविकुवइ
एकसहस्र आइ मणिमयकलस एकसहस्रआठ सीना रुपाना कलस एक सहस्र आठ सीनाना
मणिना कलस एकसहस्रआइ रुप मणि मय कलस एकसहस्रआइ सीना रुप

कलसाण अद्वसय ज्भाण कलसाण एव भिगाराण आयसाण
 थालाण पाईण सुपतिट्ठाण चित्ताण खणकरडगाण पुप्फचगेरीण
 जाव लोमहत्थचगेरीण पुप्फपडलगाण जावलोमहत्थ पडलगाण
 छत्ताण चामराण तेन्नसमुग्घाएण जाव अजणसमुग्गाण अद्व
 सय कडूवूयाण विउव्वति विउव्वित्ता सभाविण यावउव्विएय
 कलसेय जाव धूवकडुक्खुण गियहति गियहत्ता सूरियाभाउ विमाणाउ
 पडिणिक्खमति २ ता ताए उक्किट्ठाए तुरियाचवलाए जाव तिरिय
 मसक्खेज्भाण जाव वीईववमाणा २ जेणेव खीरोयसमुद्दे तेणेव
 उवागच्छति २ ता खीरोयगगियहति २ ता जाइ तत्थपल्लाइ
 ताइ गियहति जाव सयसहस्स पत्ताइ गियहति गियिहत्ता जेणेव
 पुक्खरोए समुद्दे तेणेव उवागच्छति तेणेव उवागच्छित्ता पुक्खरोय
 गियहति पुक्खरोय गियिहत्ता जाइ' तत्थूपल्लाइ जाइ सहस्स
 पत्ताइ ताइ गियहति २ ता जेणेव समयखित्ते जेणेव भरहेरवयाइ

सहस्र भु गाराणामेवमादग्गैस्थालपावीसुप्रतिष्ठवातकरकचित्ररत्नकरपडकपुप्फचगेरीया च लोम-
 हस्तचगेरीपुष्पपटलकयावल्लीमहस्तपटलकसिंहासनकवचामरसमुद्रकध्वजधूपकयडुबुकाना प्रत्येक-
 मष्टसहस्रमष्टसहस्र विकुर्वित्वा (ताए उक्किट्ठाए) इत्यादि व्याख्यानाथं "संवत्वरं"
 मणिसय कलस एकसहस्रचाठमाटीना कलस एमजकलसनासख्याइ भिगार१००८ आरीसा१००८
 घाल१००८ पावी१००८ प्रतिष्ठाया१००८ चित्तिनीन्नकर टीया१००८ फूलचगेरी१००८ माला
 चगेरी आभरणचगेरी मयूरपिक्खु ज्ञथीनीचगेरी फूलनापडलजिमविमानपीलआगलपूवकहिउ
 इतिमजसवकइवुज्जेतलीचगेरीतेतलापड जिहालगिमयूरपिक्खु क्षणीपडलग क्व१००८ चामर
 १००८ सुग धतेलनाडावडाउ००८ चूणनाडावडा१००८ हि गुलहरितालनाजिमपूर्वकहिउतिमन
 साचीराजननाडावडा एकसहस्रअनिआइ एकसहस्रचाठधूपकडवा विकुवइनीपजावइ विकुवीनइ
 सभाविचनै विकुवित कलस शृ गारपावीप्रमुख धूपकडउहरलगइ गृही गृहीनइ मूर्याभ विमान
 धकी नीकलइ नीकलीनइ देवसवधी गति उकृष्टीइ जतावलीइ कावानइचपलपणइ चडाएजय
 आइयीगति तिरिशाअसख्याताक्षीपसमूद्रमज्ज मज्जेथ माहि अतिक्रमतायकाजिहा जिहा चीरो
 टकसमुद्र तिहा जाइ जइनइ चीरीदकसमूद्रनापाणीगृहइरगृहीनै तेइ तिहाचीरसमुद्रउपल
 कमलनाजातितेइ गृहइ कु मुदपवलचपव पु डरीकसहस्रपवकमलप्रति गृहइ गृहीनइ जिहा
 ब्भकरोदक समुद्र तिहाजाइ तिहा जइनइ पुक्करसमूद्रनेउपाणीगृहइ पुक्करीदक गृहीनइ जेइ

वासाद् जेणेव मागह वरदामपभासद्' तित्याद् तेणेव उवागच्छति
 २ चा तित्योदग गिणहति तित्योदग गिणहत्ता तित्यमट्टिय गिणहति
 जेणेव गगासिधूरत्ता रत्तवतीतो महाणदीतो तेणेव उवागच्छति २ चा
 सलिलोदय गिणहत्ता उमभ उकूला उमट्टिय गिणहति जेणेव
 चुल्लहिमवत सिहरी वासहरपव्वया तेणेव उवागच्छति २ सव्व तूवरे
 सव्वपुप्फे सव्वगधे सव्वमल्ले सव्वोसहि सिद्धत्यएय गिणहति २ चा
 तेणेव पउमवर पुडरीय उदहा तेणेव उवागच्छति २ चा दहोदग
 गिणहतिजाद् तत्थ उप्पल्लाद् जाव सहस्स पत्ताद् ताद् गिणहत्ता
 जेणेवहेमवए परवणवयाद् वासाद् जेणेव रोहियारोहित समूवणण
 कूलरुप्पकुलाद् उ महाणदीतो तेणेव उवागच्छति २ चा सलिलोदग

इत्यादि सवान् तूवरान् कपायान् सवाणि पुप्यानि सवान् गन्धान् गन्धवासादीन् सर्वाणि
 माल्यानि ग्रथितादिभेदभिन्नानि सर्वापधी सिद्धार्थकान् सर्पपान् गृह्णन्ति । इहैव क्रम पूर्व
 चोरसमुद्रे उपागच्छति तथोदक सुत्पलादीनि च गृह्णन्ति तत' पुष्करीदसमुद्रे तत्रापि तथैव ततो
 मन श्लेवे भरतैरात्रतवपेषु माघादिपु तीर्थेषु तीर्थोदक तीर्थमृतिका च गृह्णन्ति ततो गगासिन्धुरक्ता
 रक्तवतीषु नदीषु सलिलोदक नद्युदकसुभयतटमृतिका गृह्णन्ति तत , चुल्लहिमवत्सिद्धरिषु सर्व
 तवरसवपुष्यसर्वमाल्यसर्वोपधिसिद्धार्थकान् तत स्तत्रैव पद्मझटपौण्डरीकझटेषु झटोदकसमुत्पला-
 दोनि च तद्गतानि ततो हेमवतैरपयवतवपेषु रोहितारोहिताग्रामुवर्णकूला रूप्यकूला सुमहानदीषु

तिहाउत्पलकमल जेहसहस्र पवादिकमल तेह गृहद् गृहीनद् जिहामनुप्यचेव जिहा भरतपरवत
 चेत जिहा लवणसमुद्रसवधीमागध वर दाम भास तीर्थ तिहा जाइतिहा जइनद् तीर्थोदक गृहद्
 तीर्थादक गृहीनद् तीथनीमाटी गृहद् गृहीनद् जिहा भरतसवधी ग गासिधूपरवतसवधारक्ता
 रक्तवती महानदी तिहा जाइ जइनद् नदीनापायीगृहीनद् बिहू तटथका माटी गृहद् जिहा
 लवूहिमवत अनद् सिखरी वर्षधर पव्वत तिहा जाइ जइनद् सर्वनुवरपाटउरस सर्वफूल सर्वग ध
 सवमालाफूलनी सवजपधी सिरिसव गृहद् गृहीनद् जिहा हिमवतपर्वतइपद्मइहसिखरी पर्वतद्
 पु डरीकइह तिहा जाइ जइनद् तेहबिहूइहनापायी गृहद् जेह तिहाउत्पलकमलनीजाति
 पु डरीकादिक सहस्र पद्मप्रमुखकमल तेह गृहीनद् जिहा हिमवतयुगलचेत ऐरणवतयुगल
 चेत जिहा हिमवतचेतइराहितानही ऐरणवतचेतइसुवनकूला रूप्यकूला मोठीनदीतिहाजाइ
 जइनद् नदीनी पायी गृहद् बिहू तटनीमाटी गृहद् जिहा सव्वापाती विकटापाती पथइनामइ

गिरिहति उभयकूलमद्विय गिरिहति जेणेव सहावद्द वियडावद्द परिवाग
 वट्ट चेत्यपच्चया तेणेव उवागच्छति सव्वंतूयरे तहेव जेणेव महाद्धिम
 वत रुप्पिवासहरपव्वया तेणेव उवागच्छति २ तहेव जेणेव महा पउम
 महा षोडरि अट्टा तेणेव उवागच्छति २ दहोदग तहेव जेणेव
 हरिवासरम्मवामाद्द जेणेव हरिसलिला हरिकता णरकता णारि
 कताउ महाणईउ तेणेव उवागच्छति २ तहेव जेणेव गधावद्द
 मालवत परि अगेव्वट्टवे अट्टेपव्वञ्जा तेणेव तहेव जेणेव णिसठ
 णीलवत वासहर पव्वया तहेव जेणेव गच्छति केसरिदहा तेणेव
 उवागच्छति तहेव जेणेव महावदेहेवासो जेणेव सीता सीतोटा
 महाणदीउ तहेव जेणेव सव्वचक्कवट्टि विजया जेणेव सव्वमाद्दग
 वरदामपभासाद्द तित्थाद्द तेणेव उवागच्छति २ चा तित्थोटग
 गिरिहति जेणेव सव्वतरणदीउ जेणेव वक्खापव्वया तेणेव उवा

सलिलोदकमुभयतटमृत्तिका तदनन्तर श्रद्धापातिविकटापाति वृत्तवैताद्येषु सवतूवरादीन्
 ततो महाद्धिमवद्रूपिर्बर्धरपर्वतेषु सवतूवरादीन् ततो महापद्म महापीण्डरीकञ्चदेषु ङ्गदोदका
 दीनि तदनन्तर हरिवर्षरम्यवर्षेषु हरिहरिकान्ता नरनारीकान्ता सुमहानदीषु सलिलोदकमुभय
 तटमृत्तिका च ततो गन्धापाति माल्यवत्ययाव वृत्तवैताद्येषु तूवरादीन् ततो निपथ नीलवर्ध्वंधर
 पर्वतेषु सर्वतूवरादीन् तदनन्तर तद्वर्षेषु तिगिहिकेसरि महाङ्गदेषु ङ्गदोदकादीनि तत पूव
 विदेहा परविदेहेषु सीतासीतीदानदीषु सलिलोदकमुभयतटमृत्तिकाञ्च तत सर्वेषु चक्रवर्त्ति
 त्रिजैतल्लेषु विजयेषु मागधादियु तीर्थेषु तीर्थदिक तीर्थमृत्तिका तदनन्तर सर्वेषु वचम्कारपर्वतेषु

वर्तुल वैताठग पर्वत तिहा जाद्द सर्वतुवररस पूवनीपरि फूल्लादिकलेद्द जहामहाद्धिमवत कपी
 वर्धंधर पर्वत तिहाजाद्दजद्द नद्द तिमज तुवरसर्वापधि सर्वेकूलादिकलेद्दजिहा महापद्म महा
 पीण्डरीक इद्द तिहा जाद्द जद्दनद्द तद्दविहूपद्दनापाथी तिमज जिहा हरिवर्षरम्ययुगलखेव
 जिहा हरिवर्षर्चवद्द हरिकतानदी रम्यकर्चवद्दनवक्रता नामि कता महानदी तिहाजाद्द तिमज
 नदीनापाथीमाटीगुद्द जिहा ग धावाता मालवत एणद्दनामद्द वत्त वैताठग पर्वत तिहा तुव
 सर्वोपधिगुद्दजिहा निपथ नीलवत वपधर पर्वत तुवरिसर्वापधिगुद्द जिहा निपथपर्वतद्द
 तिगिहिकेद्द नीलवतद्दकेसरिद्द तिहा जाद्द इद्दतापाथीगुद्द जिहा महाविदेह खेव जिहा
 पद्दिमवाद्दिनी सीतानदी पूर्ववाद्दिनीसीतोटा महानदी तिहाजद्दपाथीमाटीगुद्द जिहा सर्वचक्र

गच्छति सव्वतूररे तच्चेव जे णोव मदरे पव्वए जे णोव भइसालवणं
 तेषोव उवागच्छति सव्वतूररे सव्वपुप्फे सव्व मल्ले सव्वो सच्चि सिद्ध
 त्थएय गिण्हति जे णोव गादणवणं तेषोव उवागच्छति सव्वतूररे
 जाव सव्वोसच्चि सिद्धत्थएय सरसच्च गोसीसच्चदण गिण्हति २ जे णोव
 सोमणसवणं तेषोव उवागच्छद्द सव्वतूररे जाव सव्वोसच्चि सिरत्थ
 एय सरसच्च गोसीस चदण दिव्वच्च सुमणोदाम दहरमलय सुगधित्तं
 गधेगिण्हति २ ता जे णोव पडगवणं तेषोव उवागच्छद्द २ सव्व
 तूररे सव्वोसच्चि सिद्धएय सरसच्च गोसीस चदण दिव्वच्च सुमणोदाम
 दहर मलय सुगधिण्य गधेगिण्हति एगउय मिलीयति २ ता एयउक्कि
 द्वाए जाव जे णोव सोहम्मैकप्पे जे णोव सूरियाभे विमाणं जे णोव
 अभिसेयसभा जे णोव सूरियाभेदेवे तेषोव उवागच्छति तेषोव उवा

सर्वतूररादीन् । तत सर्वासु अन्तरिनदीषु सलिलोदकमुभयतटमृत्तिकाञ्च तदनन्तर मन्दर-
 पर्वते भद्रमालवने तूररादीन् ततो नन्दनवने तूररावीन् सरसञ्च गोशीर्षचन्दन तदनन्तर
 सोमनसवने सर्वतूररादीन् सरसञ्च गोशीर्षचन्दन दिव्य च सुमनोदामगृह्णन्ति तत पण्डकवने
 तूरवरपुष्पगन्धमाह्यसरसगोशीर्षचन्दनदिव्यसुमनोदामानि (दहरमलय सुगन्धिप्यगन्धे गिह्णन्ति)
 इति दहरप्रचावरावनद्द कुण्डिकादिभाजनमुखन्ते न गालित तव पक्व वार्यत् मलयोद्भवतया
 प्रसिद्धत्वात् मलयज शीपयड येपुतान् सुगन्धिकान् परमगन्धीपेतान गन्धान् गृह्णन्ति, "चासियस

वर्त्तिनी कवीसविजयकृद् जिह्वाविजयदीठ वर्त्तितीर्थमागध वरदाम २ प्रभास २ तीर्थ ४ तिहा जाइ
 तिहा जइनइ तीर्थीदक गृहइ गृहीनइ जिहा सधलीमहाविदेचेतमध्यचेवमध्यवर्त्तिनी वारइ
 अंतरनदीकइ जिहा सोलइवपारापर्वत तिहा जाइ सवतुबरससर्वीपधिगृहइ तिमज जिहा
 मेरुपवत पर्वतकइजिहा मेरुनइहेठिभूमिगतभइसालवनकइ तिहा जाइ सर्वतुबरस सर्वफूल
 सब माल्य सर्व ऊपधि सरिसव गृहइ गृहीनइ जिहामेरुपर्वतनइपंचसइयोजनउ चचडीनइतिहा
 नदनवनकइ तिहा जाइ सर्वतुवरस फूलसर्वीपधिसरिसव आइ गोशीर्ष चदनइ गृहइ गृहीनइ
 जिहा मेरु उ वीजउ वनसोमनस तिहा जाइ सवतुबरस फूल सवोपधि सरिसव आइ गोशीर्ष
 चदन प्रधान फूलनामाला कुंडकादिभाजनसुपइ गालाउतयापचव्यउ श्रीखडतेहनउजेहवउगध
 तेहवापरमसुग धवरल गृहइ गृहीनइ जिहा मेरुनउऊपलमगरुगन्न तिहा जाइ सवतुबरस
 सब ऊपधि सरिसव आइ गोशीर्ष चदन प्रधान फूलमाल श्रीखडम धूसरीपुसुगध गध गृहीनइ
 मयलादेवता एकहामलइमलीनइ तेषीइ उत्कृष्टीगतिऊतावलीगति जिहा सौधमर्माकल्पदेवलीक

गच्छिन्ता मूरियाभदेव करयत्परिगच्छिय सिरसावत्त मत्थए अज्ज
 लिक्कदू अणण विज्जएण वद्दावेति वद्दावेत्ता त मच्चत्थ मच्चग्घ मच्च
 रिह विउत्त इदाभेसेय उवह्वेति ततेण ते मूरियाभ देव चत्तारि
 सामाणिय साहस्सीतो अग्गमच्चिमीउ सपरिवाराउ तिणिपरिसाउ
 सत्त अणियाच्चिव्वणोजाव अपपोवि वच्चवे मूरियाभ विमाणावासिणो
 देवाय देवीउ यतेच्चि सभावितेच्चि विउत्तव्विएच्चिय वरकमलपतिट्ठाणोच्चि
 मुरच्चिवर वारिपडिपुण्णोच्चि चंदण कयच्चच्चि एच्चि आविच्चकठ
 गुणोच्चि पत्तमुप्फलविच्चाणोच्चि सुकुमाल कोमलकरयत्त परिगच्छि
 एच्चि अट्टसएण सौचणियाण कलसाण जाव अट्टसएण भोमे
 ज्जाण कलसाणं सव्वोदएच्चि सव्वमट्टियाच्चि सव्वतूवरोच्चि जाव
 सव्वोसच्चि सिद्धत्थ तेच्चिय सव्विटीए जाव सव्वणाइएण मच्चया मच्चया
 इदाभिसेकेण अभिसिच्चति तएण तस्स मूरियाभस्स देवस्स
 मच्चया मच्चया इदाभिसेवेण अभिसिच्चति तएण तस्स मूरियाभस्स

मज्झिमवलिक्कं सुइसमइरयत्तन्तरा वणवीच्चियकरे" इति । आसिक्कमुदककटकेन सम्मार्जितं

जिहा सूर्याभनाम विमान जिहा राज्याभियेक सभा जिहा मूर्गिआभ देवकइ तिहा जाइ तिहा
 जइनइ मूर्याभ देवप्रति विहू हाधिकरीकीधउ मस्तकइआवत्तप्रदचणारूप मस्तकइ आजली
 करीने जय विजयसञ्जेकरीवहाववधावीनइ तेह मोटउजिहाअर्थ मणिकनकादिमाटीकइप्रजाकइ
 जिहा मोटानैयोग विस्तीर्णइ द्राभिपेकनीसामग्री प्रतिआयीरूपइ तिह्वारपञ्चीतिह मूर्याभ
 देवप्रति च्यार सहस्र सामानिकदेवता च्यार अग्नमच्चिपी परिवारसहित वणियपरपदा सातकटक
 नाधणी जिहालगि अनेरापणि षष्ठा मूर्याभ विमानवासी देवता देवी तेषइ भाविककलसइ
 तथावैक्रियकलसइ तेकलसकेइवीकइप्रधानकमलनांवइसण्णाकइजिहा सुग धि प्रधान पायीइ
 प्रतिपुर्णकइ चदनइचचाकइ चारीप्यनुकइ जेहीनइ कठइ रातइ मूय कमलनउ टाकणउकइ
 सुकुमाल करतलि गुहाकइ एकसहस्रनइ आट्टसुवणमय कलअनइपायी आठइजातिना एक
 सहस्रनइआठ कलसकइवा कलसएकसहस्रआठमाटीना समस्तपायीइ सर्वतीर्थ माटीइ करी सर्व
 तुवरसइ करी सर्वफूलइ सर्वऊपधथाइ मरिमवइ करी सर्वअडिपरिवारइ सबवलइ सर्ववाइयाइ
 सबवाजितवाजनइ मोटइइ इद्राभिपेकइ करी अभिपेककरइस्तरनकरावइ तिह्वारपञ्चीतइनइ मूर्या
 भनइ देवनइ माटइ मोटइ आडवरिइ द्राभिपेकइ करी अभिपेककरइस्तरनकरीकइ तिह्वारपञ्चि
 तइनइ मूर्याभनइ देवनइ मोटइ मोटइ आडवरिइ द्राभिपेककरी वत्तंताथका एकेक देवता

देवस्स महया २ इ दाभिसेवेण' अभिसिचति तएण तस्स मूरियाभस्स
 देवस्स महया महया इ दाभिसते वट्टमाणं अप्पेगइयादेवे मूरियाभं
 विमाणं णव्वोयग णांतिमट्टिय पविरल्ल फुसिय रयरएणु विणासणं
 दिव्व सुरभिगधोदग वासति अप्पेगइया देवाणि हयररय णट्टरय
 भट्टरय उवसतरय पसतरयकरेति अप्पेगइयादेवा मूरियाभ विमाणं
 असियसमज्झित्तो वल्लित्त मुत्ति समद्धरत्थतरोवणं वीहिय करेति
 अप्पेगइया देवा मूरियाभ विमाणं मचाइ मचकलिय करेइ अप्पे
 गइया देवा मूरियाभ विमाणं णाणाविहराउसिय उभयपडागमडिय
 करेति अप्पेगइयादेवा मूरियाभविमाणं लाउल्लोइ महिय गोसीस
 सरस्स रत्तचदण दहरदिण पचगुलिकरेति अप्पेगइया देवा मूरि
 याभ विमाणं उवचिय चदण घडमुकरयेतोरणं पडिदुवारदेसभाग
 करेति अप्पेगइया देवा मूरियाभ विमाणं आसत्तो सत्तविउल वट्ट
 वग्घारिय मल्लदामे कलाव करेति अप्पेगइया देवा मूरियाभ

सम्भाव्यमानक च वरग्रीधनेन उपलिप्तमिव गोमयादिना उपलिप्त तथा सिक्तानि जलेनातएव

अभिपेककरइस्नानकरीवे तिवारपक्कीतिहनइ मूर्याभनइ देवनइ मोटइ मोटइ आठवरिइद्गामिसेक
 मूर्याभ विमानप्रति अतिउदकनही अतिमाटीनही वसेपइजिमभूमिसायइरल्लइसइजिम रजरएणु
 नउ विनासक प्रधान सुरभि गधोदकप्रतिइ वरिसइ, कीइक देवताइणायीरज नाठीरज दुरिगई
 रज उपसमीरज वसेपपणइरजउपसमी एहवउकरे कीइक देवा मूर्याभ विमानप्रति उदकनइ
 क्कटइकरीक्षाटवूसन्मान्जवूकरिवउसोध्यउ गोवरिलापनुपविवरकरवउ एतलइकवयणइठालवइकरी
 शुडकरउहाटनामानुनीपरिआणीवाटइ मागु' वसेपएहवाप्रतिकरइ कीइक देवता मूर्याभ विमा
 नइ माचाऊपरिमाचीतेणइयुक्त करइ एकेक देवता मूर्याभ विमानप्रति अनेकर गाइर गीउ ची
 कीधी धजापताकातेणइ मडित करइ कीइक देवता मूर्याभ विमानप्रति क्कणइकरीभूमिनपु ला
 पवउ भीतिनइऊपल्यइखडीइ धउलउ तेंणइकरीजाणीमहितपूजउ कइगोसीपसरसरक्कचदनइ
 करीचपेटाकारिदीधाकइ पचअगुलीनाइयाजिहाएहवउकरइ कीइक देवता मूरियाभ विमान
 प्रति थाप्याकै चदनचर्त्तित घडा सोभनकीधा तीरथतंहके हारना देसभागनइविपइजहाएहवउ
 करइ कीइक देवता मूर्याभ विमानप्रति देविमूमिभागउजपरिचड्डुइवाउविपुलविस्तीर्णं वाटलउ
 लबायमान फूलनउ समूहडोडरजिहाएहवउकरइ कीइक देवता मूर्याभ विमानप्रति पचवण

विमाणा पचवणण सुरभिमुक्क पुप्फपुजोवयारकलिय करेति अप्पे
 गइया देवा सुरियाभ विमाणा कालागुरुपवर कुदरुक्क तुगक्क धूव
 मघमघत गधहूयाभिराम करेति अप्पेगइया देवा सुरियाभ विमाणा
 सुगधवरगधिय गधवट्टिभूय करेति अप्पेगइया देवा हिरणवास
 वासति सुवणणवास वासति रयणवास वासति पुप्फवास वासति फल
 वासति मल्लवास आभरणवास चुण्णवास अप्पेगइया देवा हिरण
 विह्मिभाएति एव सुवणण विह्मिभाएति रयणविह्मि पुप्फविह्मि फल
 विह्मि मल्लविह्मि गधविह्मि चुण्णविह्मि अप्पेगइया देवा आभरणविह्मि
 भाएति अप्पेगइयादेवा चउत्विह्म वाइत्त वायति तज्जहा तत वितत
 तघण भुसिर अप्पेगइया देवा चउविह्म गेय गायति तज्जहा उक्खि
 चाय पायत्ताय मदारीइया वसाणा अप्पेगइया देवा टुय णट्टिविह्मि

शुचीनि पविवाणि समुष्टानि कचवरापनयनेन रथान्तराणि आपणवीथयोरथ्याविशेषा यस्मिन्
 तद्यथा कुवन्ति, (अप्पेगइया देवाहिरण्यविह्मिभाइन्ति) अप्येकका केचनदेवा हिरण्यविधि हिरण्य
 रूप मगलभूत प्रकार भाजयन्ति विश्राणयन्ति श्रेयदेवैभ्योददतीति भाव । एव सुवण रत्न-
 पुष्पफलमाल्यगन्धचूणाभरणविधिभाजनमपि भावनीयम्, "उप्ययणिकये" त्यादि, उत्पातपूर्वानिपातो

सुग धमु किउ फुल्लनु पु ज्जतेहीजउपचारपूजाकरीतेणइयुक्कएहवउ करइ कोइक देवासूयाभविमान
 प्रति कृष्णागुरु प्रधान कु दरु गुदज्ज मिल्लारसनउ धूपतेणइकरो मघमघीयमानग धतेइनउत्तकम्प
 धणउतेणइकरीमनोहर एहवूकरइ कोइक देवता सूयाभ विमानप्रति सुग ध प्रधान गधयुक्क गधनी
 वातीरुप करइ कोइक देवता अण्णडाउमोनु वरिसइ सुवणं वृष्टि वरिसइ रत्नवृष्टि वरिसइ फूल
 वृष्टि वरिसइ फलवृष्टिवरिसइ एमज्जफूलमाला आभरणवरिसइ गधकर्पूरादिसूयं अविरादिइकदेवता
 अघटितमोनानी विधितेइनाप्रकारतेइप्रतिमाहीमाविदिइचीदेइएमज्ज सुवणं माहीमाहि विह्मिचादेइ
 रत्नविधि फूलनीविधि फलविधि मालविधि ग धविधि चूर्णविधिह्वीदेइ कोइक देवा आभरणविधि
 अनेकप्रकारइ आभरणविह्मिचीदेइ कोइकदेवताविह्मिप्रकारइ वाजितवज्जाडइतेकहैकेमूटगपट्टहादि
 वोपादि कसकादि ससकाइल्यादि कोइक देवता विह्मिप्रकारइ गीतगाइ तंक्कइइइइ प्रथमगीत
 प्रारभ्यउक्कइविह्मिप्रकारइवायउ मध्यभागइमूकनादिगुणिकरीघोलनीकमययू पूरइगुणइकरीकेइइइ
 चोरिवायागयउ कोइकदेवताजतावउत्तं नाटकविधि देपाडइ कोइकदेवताबिल्लवसहित नाटकविधि
 देपाडइ कोइक देवता जताअनउ नाटकविधि देपाडइ देपाडीनइ कोइक देवता अचित नाटक

उवदसेति अप्पेगइया देवा विलविय णट्टविह उवदसेति अप्पेगइया देवा दुयविलविय नट्टविह उवविह उवदसेति अप्पेगइया देवा अचिय णट्टविह उवदसेति अप्पेगइयादेवा आरभिय णट्टविह उवदसेति अप्पेगइया देवा अचिय आरभिय णट्टविह उवदसेति एव आरभडभसोल उप्पय णिचय पसत्त सकुचिय पसारिय रयारइय भत सभ णाम ठिब्ब णट्टविह उवदसेति अप्पेगइया देवा चउविह अभिणय अभिणयति तज्जा दिट्ठतिय पाडियतिय सामतोवणि घाइय लोगमञ्जेवसाणय अप्पेगइयादेवा णुक्कारेति अप्पेगइयादेवा पीणति अप्पेगइयालासेति अप्पेगइया देवा तडवेति अप्पेगइयादेवा अप्फो डति अप्पेगइया देवावगेति अप्पेगइयादेवा तिचइच्छदेति अप्पेगइयादेवा अप्फोडेति वग्गेति तिवइछिदेति अप्पेगइयादेवा इयहेसिय

यस्मिन् स उत्यातनिपात स्तम् । एव निपातोत्पात सकुचितप्रसारित (रियारिय)मिति गमनागमन भ्रान्तसम्भ्रान्त नाम (आरभडभसोल) दिव्य नाटगविधिमुपदर्शयन्ति । अप्पेकका देवानुक्कारन्ति-नुक्कारअब्द कुर्वन्ति, (पीणन्ति) पीनयति पीनमात्मान कुर्वन्ती स्थूला भवन्तीत्यर्थे, लास विलासयन्ति लास्यरूप नृत्य कुर्वन्ति (तडवन्ति)ताडवायन्ति ताडवरूपं वृत्त कुर्वन्ति, (अप्फोडन्ति) अप्फोडयन्ति भूम्यादिकामिति गम्यते । (उच्छीलं तित्ति) उन्मूलयन्ति प्रोक्ष-

विधि देपाडइ कीइक देवता आरभित नाटकविधि देपाडइ कीइक देवता अचितनइ आरभत नाटकविधि देपाडइ एमन्न कीइकआरभडइतसोल आरभडभ सोलनाटिकदेपाडइ उ चउ उज्युत्त पावउ निपतवउहेउउ पडवउज्वापवउ सकीचिवउ प्रसारिवउ जाइवु भाइवु भूतपणु सभात पणु नाम प्रधान नाटक विधि देपाडइ कीइक देवता चिइ प्रकारइ पइभापाइ बोलीदेपाडइ तेकइइइइ दाष्टान्तिकर प्रात्यतिकर सामतीपति पातिकर लोकमध्यावसानध एइविइ पदनी व्याख्यानाटकगु यथीजाणवु कीइक देवतामाहीमाहि चकारइअगाल्यानइकहिभूडीए कीइकदेवा तोतानइअभिमानिआत्मानइप्राणइस्थूलकरइ कीइक लाम्यनाटकभेदकरइ कीइक देवता ताडवपणिवटिकभेदकरइ कीइकदेवता भूमिकाप्रतिआरफोटइहाधिकरीहइइ कीइकदेवता माहीमाहिबलगइ कीइक देवता तिपदीकेदइअखलार उवादिक्कनइवीउइ कीइक देवता त्रिधिकार्थ करइअस्कीउड वलगइ तिपदी केदइ कीइक देवता घोडानीपरिदेवारवस दकरइ कीइक देवा

इत्थिगुलगुलाइयं रङ्घणघणाइयं करेति अप्पेगइया देवा अच्चो
लति अप्पेगइया पच्छोलेति अप्पेगइया कुट्टिकुणति अप्पेगइया
तिगिणवि अप्पेगइया उप्पयति अप्पेगइया निवयति अप्पेगइया
परिवयति अप्पेगइया देवातिगिणवि अप्पेगइया देवा सीङ्घणाय
णयति अप्पेगइया पायदहरयकरेति अप्पेगइया भूमिचक्खडदल्ल
यति अप्पेगइया सीङ्घणाय पायदहरयं भूमिचक्खेडल्लयति अप्पेग
इया देवा गच्छति अप्पेगइया विज्जआयति अप्पेगइयादेवा वासति
अप्पेगइया तिगचिं अप्पेगइया देवा जलति अप्पेगइयादेवा तचति
अप्पेगइया पंतवति अप्पेगइया तिगिणवि अप्पेगइया इक्कारेति
अप्पेगइया पुक्कारेति अप्पेगइया धुक्कारेति अप्पेगइयासइ णामाइ
साहेति अप्पेगइया चत्तारिवि अप्पेगइया देवादेवसिणवाय करेति
अप्पेगइयादेवूज्जभोय करेति अप्पेगइया देवकलिय करेति अप्पेगइया

लन्ति प्रोक्कलयन्ति (उवयन्ति) अत्रपतन्ति (उप्पयन्ति) उरपतन्ति (परिवयति) परिपतन्ति
तिरिंक्क निपतन्तीत्यर्थः । (जलन्ति) ज्वालामालाकुला भवन्ति तप्ता भवति प्रतप्ता भवन्ति
(धक्कारिन्ति) धक्क इति महता शब्देन कुर्वन्ति (देवीकलियकरिन्ति) देवानां वा तस्येवो-

हाथीनीपरि गुलगुललटकरइ रथनीपरि घृण घणाट करइ कीडक देवता वणिक्कारइ हाथीनी
परिगुलगुलाट रथनीपरिघणघणाट करइ कीडक देवता उक्कलइ कीडक वसिपणइउक्कलइ
कीडकदेवताआगलीप्रति कूटि करइ कीडकदेवता वणिक्कारइ कीडकदेवता आकासईरइउडि
कीडकदेवता देठापडइ कीडक तिरिक्कउकुटीरपडइ कीडक देवता वणिक्कारइ कीडकदेवता
सिङ्घनादप्रतिइ वीलउ कीडकदेवता पगनइकरीभूमिस्युकुटवू करइ कीडक हायइकरिभूमिस्यउ
चपेटादेइ कीडकदेवतावणिक्करइ सिङ्घनाइ पगइभूमिकूटवउ भूमिचपेटा देइ कीडक देवता गाजइ
कीडकदेवता बीजलीकरइ कीडकदेवता मेइवरसि कीडकदेवता वणिक्कारइ कीडक देवता
ज्वलइआकुलथाइ कीडक देवता तपइ कीडक विसिपत्ततपइ कीडक वणिक्कारइ कीडकदेवता
आगल्लयानइ इकारइ कीडक पुक्कारकरइ कीडकदेवताआगलीनइ देपी धूकइ कीडक पोताना
नाम सभलावइ कीडक त्थारिपूवाक्ककार्यकरै कीडक देवता देवनउ सनिपात करइपकठामिलि
कीडक देवनउकीधउ उदीत करइ कीडक देवकृतउक्कली करइउपराऊपरिजाडनइआवइ कीडक
देवता दुइक्कसब्बवगेपकरइ कीडक देवता दुइक्कएहीपणिसन्दवसिक्ककरइ कीडक धज्जानउ

देवा दुहक्कगकरे अप्पेगइया देवा दुहक्ककरेति अप्पेगइया वेलुर
 वेथ करेति अप्पेगइया देवज्भोय देवसपिणवाय देव्वुक्कनियं
 देवदुहक्कग वेलुक्खेव करेति अप्पेगइया उप्पलइत्यगया जाव
 सयसइस्सपत्तइत्यगया अप्पेगइया कलसइत्येगया जावधूय कडू
 कूगयाइइतुइ जावच्चियया सब्बउ समता अधुवति परिधावति तएण
 सूरियाभ देव चत्तारिसामाणिय साइस्सीउ जाव सोलसदेवसाइ
 स्सीउ अन्नेय वच्चे सूरियाभ रायहाणि वत्यवा देवाय-देवीउव
 महया उहायाइदाभिसेणेण अभिसिच्चति अभिसिच्चित्ता पत्तेय
 करयलपरिग्गइय सिरसावत्त मत्तएय जलू कटूएव वयासी जय
 णादाभइ जयणदा भइते अजियजिणेहि जिय पालेहि जियमब्भे
 वसाहि इदोइव देवाण चदोइव ताराण चमरोइव सुराण धरणोइव
 णागाण भरहोइव माणु याण वचूइ पल्लिउवमाइ वचूइ पल्लिउवम
 सागरवमाइ छउयइ सामाणियसाइस्सीण जाव आरयदेवसाइ

क्कलिका देवीकलिकान्ता कुर्वन्ति (देवक्कइक्ककरिन्ति) । प्राक्ताना देवाना प्रमोदभरवग्गं
 स्वेच्छा वचनेवीलकोलाहली देवक्कइक्कस्त कुर्वन्ति । (इइइइक्ककरेन्ति) । इइइइक्कमित्यनु-

बाधवउ करइ कीइकदेवता पूर्वाक्कइकार्यकरइ देवताइइ वणइ च्यार पाच ५ क्व करइ कीइक
 देवताउत्पलकमलहाथिलेइजभाजइ पु डरीकादि सहस्रपल्लपवहाथिलेइजभाजइ कीइक
 कलभहाथिइलेइजभाजइ एमजकीइकफूलचगोरीकाइक आभरण कीइकधूपकडकलेइचभाइइ
 चपसतोप भरणयका चित्तनइआणदियकाचिइदिसि सधलइ डडइइइइजाइइइ आवरइइइ
 तिइारपहि मूयांड देवप्रति च्यार सहस्रसामानिकदेवता च्यारिअग्गमहिपीवणिपरिपदा सोलइ
 सहस्रआत्तरचकदेवता अनैरापणि धणा मूयाभ राजधानी वास्तव्यवासी देवता देवी मोटइ मोटइ
 आडवरइइआभपेकइ करी अभिपेककरइस्नानकरावइ अभिपेककरीनइ प्रत्येकइप्रत्येकइजुजुआ
 विइ हायिकरी कीथउ मस्तकइआवत्तं प्रदक्षारूप मस्तकइ अजलीइ करीनइ एमज बोलातइया
 ज १२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०
 नइभइयाउ अण्णजीत्यासतुवर्गनइ तुजीति जीतउयोतानउवग्गं तेहनइ पीलि जीत्यावग्गमाहिनु
 वसि इइ जिमदेवगण्णहाइवसइइइ चद्रमाजिमतारागणमाहि चमरेइ जिमदेवमाहिअसुर
 गोसीय चदनइकरी गात लिपइ लीपीनइ नासिकानइ नीसीनइ वायरइउडाडीइ नेवनइइइइ

स्त्रीण मूरियाभस्स विमाणस्स अणियासिण वडूण मूरियाभ विमाण
 वासीणं देवाणयं देवीणयं आह्ववच्च जाव मइया कारेणपाने
 माणे विहराहि तिक्कटूज्जइर मइपज्जति तएणसे मूरियाभे देवे
 मइया२ इटाभिसेसेगेण अभिमित्ते समाणो अभिसेवसभाउ पुर
 त्थिमिल्लेण दारेण णिगच्छति जेणे अलकारियसभा तेणेव उवा
 गच्छति अलकारियसभु अणुपयाहिणीकरेमाणे२ अलकारियसभ
 पुरत्थिमिल्लेण दारेण अणुपविसइ जेणेव सीहासणे तेणेव उवा
 गच्छइर सीहासवरगया पुरत्याभिमुहे सणिसणणे ततेण तस्स मूरि
 याभस्स देवस्स सामाणिय पुरमोववगणगा अलकारिय मइउवट्टा
 वेति ततेणसे मूरियाभेदेवे त पठमयाए पम्हलसुकुमालाए सुरभीण
 गधकासाइयाए, एगाए साडीए गायाइ लूहेति लूहेत्ता सरसेण
 गोसीस च्दणेण गायाइ अणुलिपति२ णासाणीसासवायवोअं

करणमित्त, (तप्पठमयाए पम्हलसुकुमालाए सुरभीण गन्धकासाइयाए गायाइ) लूहइ इति तत्
 प्रथमतया तस्यामलकारसभायां प्रथमतया पद्मलता सा सुकुमारा तथा सुरभ्या गन्धकाकपायिक्या
 सुरभिगन्धरूपाय द्रव्यपरिकर्मितया लघुगाटिकया गावाणि रूचयन्ति (णासाणीसासवायवोअं)मिति-

पत्न्योपमचनइ सागरोपमलगइ च्यार सइससामानिक देवनउ अतिपुरपरिपदा कटकमोलसइस
 आत्तरचकदेवनउ मूयाभ विमाननउ अनैरापणि ध्यानउ मूयाभ विमानवासीनउ देवनउ वली
 देवीनइ अधिकपत्यपणउ पारीवच्चसमित्तभित्त इत्यादिकदेवत मोटइआडवरि करतउयउ
 पालतउयकउ विचरि इमकडी जइरसब्दप्रतिप्रज्जुयइतिह्यारपखी तेइ मूयाभ देवइ मोटइर इद्रा
 भयेइर अभिपेक्यउ थकउ अभिपेकसभायकी पूवनइ धारणइ नीकलइजिहा अलकारियसभा तिहा
 जाइजइनइ अलकारिय सभाप्रति प्रदक्षिणा करतउयकउ अलकारियसभाप्रतिइ पूवनइ धारणइ
 पइसइ जिहा सिहासन तिहाजाइजइनइर सिहासणनइविपइ थापुथकु पुवाभिमुखीयकु वडठउ
 तिह्यारपखी तेइनइ मूयाभनइ देवनइ सामान्यकदेवता अन्धतरपरिपदानावइसणहार शृ गार
 योग्य भाजनआणीसउपइ तिह्यारपखीइ तेइ मूयाभ देव तेइ पडिलउ पद्मसहित सुकुमालइ
 सुगंधइ ग धकपायइइयइ करीवणातरकीनाइ एकसाडीइअगलूइइअग लूहइ लूङ्गिनइ आइ
 गामीय चदनइकरी गावलियइ लीपीनइ हरइनासिकानइ नीसासइ वायरइउडाडीइ निवन्इहरइ
 वण परिसइ युक्त घोहानीलालयकीअधिक सुकमाल धउनु सुवणतरा माहिअचित आकास पाल

गायत्रि' भुखडेति दिव्वंच सुमणदाम पिणड्हेत्ति ततेणसे मूरि
 यामेदेवेकेसालकारेणं मन्लालकारेण वत्यालकारेण आभरणालका
 रेण चउव्विहेण अलकारेणं अलकियविभूसिए समाणेपडिपुण्णा
 लकारेइ सीहासणाउ अन्भुइइ अलकारिय सभाउ पुरत्थिमिल्लेण
 दारेण पडिणिक्खमति जेणेवसए सभा तेणेवउवागच्छइ ववसायं
 सभ अणुपयाहिणी करेमाणे पुरत्थिमिल्लेण दारेण अणुपविमति
 जेणेवं सीहासणे जावसणिसणे तएण तस्स सरियाभस्स देवस्स
 सामाणिय पारिववणगा देवापोत्थरयण उवणणेति ततेणसे मूरि
 यामेदेवे पात्थरयणगिएइइ पोत्थरयणमुयइ पोत्थरयणविहाडेइ
 पोत्थरयणवाएतिर धम्मिय ववसाय गिएइइ पोत्थरयण पडिणिक्ख

पापमन्त्रालागान्तिरीगपसुखदोपापहारकारी प्रवरलचणोपेत' परममन्त्रालभूत आभरणविशेष' ।
 "चित्ररयणसकडमउड"मिति विचित्राणि नानाप्रकाराणि यानि रत्नानि ते सक्कटश्चिवरत्नसक्कट'
 प्रभूतरत्ननिचयोपेत इति भाव', ता(दिव्वं सुमणदामन्ति)पुण्यमाला गुन्यमित्यादि गुन्यिमगुन्यन
 गुन्यस्तेन निवृत्त गुन्यिम भावादिप्रत्यय', यत् सूवादिना गुध्यते तद्गुन्यिममिति भाव' । पूरिम
 यत् गुन्यितं वेष्टरते तथा पुप्पल बूसकी गडुकइत्यर्थ' । पूरिमय येन वशशलाकामयपठ रादि
 पूर्यं ते सञ्जातिम यत् परस्परतो नालसञ्जातेन सञ्जात्यते(जेणेवववसायसभा) इति व्यवसाय सभा
 व्यवसायनिबन्धनभूता सभा जेवादेरपि कर्मादियादिनिमित्तवान् । उक्तञ्च "उदयक्खयक्खउव-
 समीसमानचकमुणोभणिया । दव्वच्छेत्त काल भव च भाव च सम्पप्येति" । (पोत्थरयण मुयइ)
 इति उत्सवो स्थानविशेषे वा उत्तमे इति द्रष्टव्यम्, (विहाडेइ) इति उद्घाटयति, (धम्मिय
 ववसाय, ववसइ) इति धार्मिक धमानुगत व्यवसाय व्यवस्थिति कर्तुमभिलषतीति भाव ।

करइ कु डिकाभाजन गाल्लयथीखडनउइइपरमगधएइवउ गधइकरी गात्रप्रति भुखरइधउनुकरइ
 प्रधान फूलमाला पिहरइ तिहारपक्की तेइ मूयांभ देव केसालइ कारइ १ फूनमालालकारइ २
 बस्तालकारइ ३ आभरणलकारइ ४ चहुप्रकारइ अलकारइ करी अलकरउ सोभासहित थकउ
 प्रतिपूरणइ अलकारइ जेइपासइएइवुइतउचकउ सिहासनथकी जउउठीनइ अलकारियसभाप्रति
 पूरनइ वारणइ नीकलइ जिहा ववसायसभापुस्तकसभा तिहाजाइ व्यवसाय सभाप्रति प्रदक्षिणा
 करतउचकउ पूरनइ हारप्रति पइसीनइ जिहा सिहासन तिहापूवसाइनउ धइवइउठ तिहार
 पक्की तेइनइ मूयाभनइ देवनइ 'सामानिकअभ्यतर परिपदा देवता पुस्तकरत्न आयीसु'पइ
 तिहारपक्कीइ तेइ मूयांभ देव पुस्तक रत्न गृहइ पुस्तकरत्नतीउइ पुस्तकरत्ननीडावडाकुषाटइ

जाव द्रप्पणा ८ तयाणा तरचणा चद्रप्रहरयण विमल दड कृचण
 भणिरयण भक्तिचित्त कालागुरुप्रवर कुटुक्क तुक्क धूव मय
 मधत गधूत्तमाणुचिद्व ति धूववद्वि विणिमुयत वैरुलियमय कडुछय
 पग्गहिय पयत्तेणा धूय दाजणा जिगावराण अट्टसय विसुद्ध गध
 जोत्तेहि अपुणरत्तेहि मुच्चावित्तेहि सधूणइ सत्तट्टपयाहि पव्वोसकइ र
 वामजाणु अचेइ दाहिणा जाणु धरणिगतलसि तिकटू तिकवृत्तो
 मुच्चाणा धरणिगतलसि णिव्वोडेत्ति २ इसपच्चूणणमइ इसपच्चूणण
 मित्ता करयलपरिग्गहियं सिरसावत्त भत्थएय जवूनकटू एववयासी
 णमोत्थुणा अरहताणा जाव सपत्ताणा व्रदति णमसइ जेणोव सिद्धा

(चन्द्रप्रभवइरवेरुलिय विमलदण्ड) मिति चन्द्रप्रभवजुवेडूर्यमयो विमलीदण्डो यस्य स तथा तम् ।
 कांचनमणिरत्नभक्तिचित्त कालागुरुप्रवरकुन्दरुक्कतुक्कसक्केनधूपेन उत्तमगन्धिनानुविद्धा काला-
 गुरुप्रवरकुन्दरुक्कतुक्कधूपगंधोत्तमानविद्धा प्रकृतत्वात् पदव्यत्ययता धूपवत्त विनिमुत्त
 वैडूर्यमय धूपकटुकक प्रगुह्य प्रयत्नतो जिनवरुभ्य मूवे पट्टी प्राकृतत्वात् सप्ताष्टानि पदानि
 पश्चदापमत्वदशाभ्यालिमञ्जलिमत्थए रचयित्वा प्रयती "अट्टसय विशुद्धगन्धजुत्तेहिति" विशुद्धी
 निमली लज्जगदीप्ररहित इति भाव । यो गुण्य शब्दसन्दर्भस्तेन युक्तानि आटशत च तानि विशुद्ध-
 गुण्य युक्तानि च तै अथयुक्तेरथंसारै रुपनरुक्तेर्महावृत्ते स्तथाविधदेवलब्धि प्रभाव एव, सस्तीति
 समुत्य(वामञ्जाणु अञ्चति) इत्यादिना विधिना प्रमाण कुर्वन् प्रणिपातदण्डक पठति तथा
 (णमोत्थुणा सरिहन्ताण)मित्यादि नमोस्तुषामिति वाक्यान्कारै देवादिभ्योऽतिशय पूजामहंतीत्यहंन्त

आठमागलीक आलिखइ तेकइइइइ साथीउर जिहललिगि आरासउआठमउमगलीकपूजा१५
 तिहारापशी चद्रप्रभ इतवेडूर्यरत्नमय निमलइइ दडजेहनउ सूवर्ण मणिरत्ननीजाति करीविचि
 वितइइ कृष्णा गुरु प्रधान गुट्ट सिलहारसतेहनउ धूप मधमघायमान एहवउ उत्तमगधतेणइकरी
 अनुविधव्याप्ता धूपनीवाटेप्रतिपूकुतुएहवउ वैडूर्यरत्नमय कडुइइ गृहीनइ सावधानपण धूप
 दीधउजिनवरमणीएतलइ तीथ करअनइ तीथ करनीप्रतिमाचंइअतरनदिपूजा एकसउआठन
 वाकथ्यातहेइवाइइ कददीपरहित गु घइकरीयुक्त वलीपुनरुक्कटुपणइ रहित मोटांइइवृत्तपदना
 वपदडकादिकमूतइकरीमस्तवइ पइइसातआठपगला क्षपराठउऊसरइऊसरीनइ डावउटीवण
 ऊ चउरापइ जिमशउ टीचण भूमितलनइविपि थापइ वणिवेला मस्तकभूमितलइ लगाइइ-
 लगाडीनइ काइकमस्तकउचुकरइ काइकमस्तकऊ चउकरीनइ बिहु हायिकीधउकरमस्तकइ
 आत्रसप्रदक्षिणाएव मस्तकइ अजलीकरीनइ एमवीलतुइउ नमस्कारथाउ अरहतभयी जिहा

ययणस्स वहुण सज्जहदेसभाए तणेव उवागच्छइ रत्ता लामहत्थगपुरा
मुसति सिद्धाययणस्स वहुमज्जहदेसभाए लोमहत्थ तेण पमज्जइ
दिवाइए दगधाराण अब्भूक्खेइ सरसेण वदणेण पचगुलित्तमड
नंग आलिहति २ कयणपाहगहित जाव पुजोववारकलित करेति धूव
दत्तइ २ जेणेव सिद्धाययणस्स वाहिणिल्ले दारे तणेव उवागच्छइ २

स्तेभ्यः मूले पृष्ठी "ऋद्धिभक्तीए भणइ चउत्थी" इति प्राकृतलक्षणवशात् । ते चार्हन्तीनामादिरूपा
र्षि सन्ति ततो भावाहन्तप्रतिपत्त्यर्थमाह भगवद्भय भग ममभूश्वयादिलक्षण स एषामस्तीति
भगवन्त स्तेभ्यः । आदिधर्मस्य प्रथमाप्रवृत्ति स्तत्करणशीला आदिकरा । तेभ्य तीयेते ससार
समुद्रोऽनन्नेति तीथ प्रवचन तत्करणशीला तीर्थकरा । तेभ्य स्वयमपरोपदेशेन सम्यग्बरोधि
प्राप्त्या बुद्धा मिथ्यात्व निद्रापगमसम्बोधन स्वय समुद्धा स्तेभ्य । तथा पुरुषाणामुत्तमा पुरुषो-
त्तमा भगवन्ती हि ससारमध्यावसन्त सदा परार्थंउरसनि न उपसज्जनीकृत स्वाद्या उचितक्रिया-
वन्तोऽऽदीनभावा, कृतन्यतापत्योऽनुपुञ्जतचित्ता देवगुरु बहुमानिन इति भवन्ति पुरुषोत्तमा स्तेभ्य
तथा पुरुषा सिद्धाइव कर्मगुजान् प्रतिपुरुषसिद्धास्तेभ्य । तथा पुरुषावरपुण्डरीकाणीव ससार-
ज्जलासम्पादिना च कर्ममलव्याप्ती पुरुषवरपुण्डरीकाणि तेभ्य तथा पुरुषवरगन्धइस्तिन इव
परचक्रुडभिन्नमारिचुद्रगज्जिनराकरणेनेति पुरुषवरगन्धइस्तिन स्तेभ्य । तथा लोको भव्य सत्व-
लोकस्तन्म सकलकल्याणेकनिबन्धन तथा भव्यत्वभावनोत्तमालोकोत्तमा स्तेभ्य । तथा लोकस्य नाथा
याम्बेभूता लाकनाथा स्तेभ्य तत्र योगोवीजाथानीद्वा दयापणकरण क्षेम तत्तदुपट्टवाद्भावापादने
तथा लोकास्य प्राणिलोकस्य पञ्चास्तिकायात्मकस्य वाहिता द्वितीपदेशेन सम्यक्प्रकरण्या लोकहित
स्तेभ्य । तथा लोकस्य देवता योग्यस्य प्रदीपोदेशेनाशुभिर्यथावस्थितवस्तूप्रकाश कालीकप्रदीपा
स्तेभ्य तथा लोकस्याकृष्टामृते भव्यसत्त्वलोकस्य प्रद्योतन प्रद्योतकत्व विशिष्टाज्ञानशक्ति
स्वत्करणशीला लोकेप्रद्योतकरा तथा च भवन्ति भगवन् प्रसादात्तत्त्वमेव भगवन्तो येषभूतो
विशेषज्ञान ममत्समन्विता यद्भगात्तद्दोषागमारचयन्तीति तेभ्य । तथा अभय विशिष्टमात्मान
स्वाम्य निशेध सधर्मभूमिकानिबन्धनभूतापरोमधृतिरिति भाव, तत अभय ददतीत्यभवदी

जगि ठायसपत्ताणपाठतिहालगि नमोत्थयकहीवादइ नमस्कारकरइपूजा जिहा सिद्धायतनमउ
धय मध्य देसभाग तिहा जाइ तिहा जइनुइ मयूरपिच्छपुञ्जणी लेइ सिद्धायतनइ धय मध्य
देसभागइ पु जयीइकरी प्रमार्जइ प्रधान पाणीनाधाराण अभोसइखीवलयभरीकाठइ आइइ
गीसप वदनइकरी पाचइ आंगुलइकरीहाघादीपइ मडल आलिखइ किमहापटाइ प्रवत् फूल
पगरवुक्ककरइ धूप इइ देइनुइ जिहा जिनप्रासादनउ दक्षिण दार तिर्हाजाइ चापइर पु जयी

लोमहृत्थग परामुसद् २ दारवेडीउ सालिभजियाउ वालएवय लाम
 हणणं पमज्भुद् २ दिव्वाएदगधाराए अज्भूस्वेद् सरसेण गोसीस
 चदणोणा चच्चाए दलयति रपुप्फाहणा जाव मल्ला रुहणा करेद् २आसे
 तो सतुं जाव धूव दलयति जेणेव दाहिणिल्ले दारे मुखमण्डवे जेपोव
 दाहिणिल्लस्स सुहूमडवस्स वहुमज्भदेसभाए तेणेव उवागच्छद् २लोम
 हृत्थग परामुसद् २ वहुमज्भदेसभाग लोमहृत्थणं पमज्भुद् दिव्वाए

स्तेभ्य, तत्रै चक्रप्रत्ययः स्वार्थिक प्राकृतलक्षणवशात् एवमन्यत्रापि तथा चक्षुरिव चक्षु, विश्राट्
 आर्तमधर्मं स्तत्वावबोधनिबन्धन श्रद्धाश्च भावा श्रद्धाविहीनस्य चक्षुष्मत् इव रूपतत्त्वदर्शनयोगात्
 ते ददतीति चक्षुदास्तेभ्य । तथा मार्गविशिष्टगुणस्थानावाप्तिप्रगुण स्वरसर्वाहीचयोपग्रमविशेष
 स्त ददतीति मागदा । तथा सरणं ससारकान्तरगतानामतिप्रबलरगादिपीडिताना समास्वासन्-
 स्थानकल्प तत्त्वचिन्तारूप मध्यवक्त्रा न ददतीति शरणदास्तेभ्य तथाबोधि जिज्ञेप्रणीत धर्मप्राप्ति-
 स्तत्वार्यं श्रद्धानलक्षण सम्यग्दर्शनरूपातो ददतीति बोधिदा स्तेभ्य । तथा धमञ्चारिव रूप दद-
 तीति धमदा स्तेभ्य । कथं धर्मदा इत्याह । धम दिगन्तीति धमदेशका स्तेभ्य । तथा धमस्य
 नायका स्वामिन स्तद्वहीकरण भावान् तत्फल परिभागाच्च धमनायका स्तेभ्य धमस्य सारथयइव
 सम्यक प्रवचनयोगेन धर्मसारथय स्तेभ्य । तथा धम्मणव वर प्रधान चतुरन्त हेतुत्वात् चतुर न्त
 चक्रमिन्न चतुरन्त चक्रम, तेन वचितुं शीलं येषां तु तथा तेभ्य । तथा अप्रतिहिते अप्रतिरस्त्रलि ते
 चाग्रिकावात वरे प्रधाने ज्ञानदशने धरन्तीति अप्रतिहित वरज्ञानदशना स्तेभ्य । तथा क्रादयतीति
 कृद्ग्रहाति कम्मचतुष्टव व्यावृमपगत कृद्ग्रयेभ्यस्ते व्यावृत्तकृद्ग्रान स्तेभ्य । तथा रागहेपकपाये-
 न्द्रियपरीपृहपसंग्रहाति कम्मशब्दू स्वय जिप्रवन्तीन्याश्च जापयन्तीति जिनी जापकारतेभ्यो
 जिनेभ्यो जापकेभ्य, तथा भद्राशय स्वय तीर्णवन्तीन्याश्च तारयन्तीति तीर्णास्तारका स्तेभ्य । त थम्
 केवलवेदसा अत्रगत तत्वा बुद्धा अन्याश्च बोधयन्तीति बोधका स्तेभ्य, मुक्ताकृत कृत्यानिष्ठतायु
 इति भाव स्तेभ्योऽजाश्च मोचयन्तीति मोचका स्तेभ्य । शिव सर्वोपद्रवरहितत्वात् अचल स्वाभा
 विक्रुप्रायोगिक चलनक्रिया पोहात अरुल्लशरीर मनसैरभावेनाधिव्याप्यसम्भवात्, अनन्त केवलात्म-
 नानतत्वात् अचय विनाशकरणा भावात् अव्यावाध केनापि व्यावाधयितुमशक्यममूचत्वात्, न
 षड् वप्रसाखा पूरतली सर्पादिकरूप पु जयीद् करी पुजद् प्रधान पांशीनीधाराए अभीसद् आद्
 गोसीय चदननद् छाटद् लेद् फूलचडावद् गधचडावद् मालाचडाविवउ करद् वरआखती
 मांडामुमिलगइलबोधमान् मालावाधद् धूप देद् जिहा दक्षिण हारनउ मुखमण्डप जिहा दक्षिण
 नउ पुख मडपनउ धणु मध्य द्वेसभागद् तिड्डा जाद् जइनद् पुंजयी लेद् धणु मध्य देसभाग
 धु जयीद् करी पु जद् प्रधान पापोनाधारा आभीसद् नीकलद् गोमीर्ण चदनद् हाथादेद् मडल

दग्धागए अम्भूक्वेड सरसेगा गोसीस चदणेण। पचागुनितल मड
 लनग आनिहति कयग्गह्गहिय जाव धूव टलयति जेणेव दाह्णिणि
 ल्नस्स मुहमडवस्स पव्वत्थिमिल्लने दारे तेणेव उवागच्छइ लोम
 ह्त्थग परामुसइ २ दारेचेडीउ मालिभजियातोपवान् रुवतेय लोम
 ह्त्थतेण पमज्झति २ दिव्वाए उदग्धागए अम्भूक्वेति सरसेगा
 गोसीसचदणेण चच्चात्तेण टलयति पुप्फारुह्गगा जाव आभरणारु
 ह्गण करेमाणे २ आसत्तोसत्तकयह्हेग्गहिय, धूव टलयति २ जेणेव
 दाह्णिणलस्स मुहमडवस्स उत्तरिल्ला खभपती तेणेव उवागच्छति
 लोमह्त्थग परामुसइ खभे मालिभजियाउय वानणवय लोमत्थण्णा

पुनरावृत्ति यस्मात्तद पुनरावृत्ति सिद्धगति निष्ठिताया भवन्त्यस्यामिति मिडिल्लिकान्तस्सेवलचणा-
 सैव गम्पमानत्वात् गति, सिद्धिगतिरवनामधेय यस्य तत् सिद्धिगतिनामधेय तिष्ठन्त्यमिमन इति
 स्थान व्यवहारत सिद्धिचेत निश्चयतो यथावस्थित म्ब स्वरूप स्थानस्थानिनोरभेदीपचारात् तत्
 सिद्धिगतिनामधेय तत् सम्प्राप्तेभ्यः । एव प्रणिपातदण्डक पठित्वा ततो "वन्दइ णममइ" इति
 वन्दते ता प्रतिमाश्चेत्यवन्नाविधिना प्रमिडेन नमस्करोति पश्चात्प्रणिधानादियोगेनेत्वेके अथैव
 भिदधतिविरतिमतामेव प्रमिडइत्येवन्दनविधिरन्वेपा तथाभ्युपगमपुरस्मरकायव्युत्सगासिद्धेरिति
 वन्दते सामान्येन नमस्करोति आगयवृद्धेत्युस्थाननमस्कारेणेति तत्त्वमत्र भगवन्त, परमपय केव-
 लिना विदन्ति । अत ऊ मूत्र सुगम केवल भूजान् विधिरिययोवाचनाभिद इति यथावस्थित
 वाचना प्रदर्शनाथ विधिमात्रमुपदश्यत तदनन्तर लोमहस्तकेन टेवकन्दक प्रमाज्जयति पाणीउ-
 धारया अभ्युचति प्रमिसुख सिञ्चतीत्यर्थः । तदनन्तर चन्दन पञ्चाभ्युलितल दट्टाति तत
 पुष्पारोहणात्प्रधूपदहन च करोति तदनन्तर सिद्धायतनबहुमध्यदेशभागे उदकधाराम्बुचण चन्दन
 पञ्चाभ्युलितलप्रदान पुष्पपुञ्जीपचार धूपदानानि करोति तत सिद्धायतनदक्षिणदारे समागत्य
 लोमहस्तक गृहीत्वा तेन दारयास्त्रे शालभञ्जिका व्यानरूपानि च प्रमाज्जयति तत उदकधार
 याम्बुचण गौणीपचन्दनचर्चा पुष्पाधारोहण धूपदान करोति, ततो दक्षिणदारेण निर्गाय नाञ्चि
 आलपइ फूलपगर भरइ धूप देइ जिह्वा दक्षिणतउ सुखमडपनउ पश्चिम दार तिहा जाइ
 पु ज्जणी लेइ बारसाखा पूतली मपाटिक रूप पु ज्जणीइ करी पु ज्जइर प्रधान पाणीनाधारण
 अर्भासइ नीलइ गोगीर्ण चदनइ छाटा देइ फूल चडापइ मालाचडावइ आभरणचडापउ धकउ
 माला बाधइ फूलपगर भरइ धूप देइ जिह्वा दक्षिणना सुखमडपनी उत्तरतो धामानीपक्ति
 तिहा जाइ पु ज्जणानिइ पूवमुखियामइ धामादीइ पूतली सपरूप पु ज्जणीइ करी पु ज्जइ तिमज्ज

पमज्झति तच्चेव जज्ञा पव्वत्थिमिल्लस्स दारस्स जाव धूव दलयति
जेणेव दाहिणिल्लस्स मुहमडवस्स पुरत्थिमिल्ले दारेतेणेव उवागच्छइ
लोमइत्थग परामुसइ दारचे डीउय तच्चेवसव्व जेणेव दाहिणिल्ले
दारे तेणेव उवागच्छइ लोमइत्थग परामुसइ दारचे डीउय तच्चेव
सव्व जेणेव दाहिणिल्लस्स मुहमडवस्स दाहिणिल्ले दारे तेणेव
उवागच्छइ दारचे डीतोय तच्चेव सव्व जेणेव दाहिणिल्लेपेत्याघर
मडवेजेणेव दाहिणिल्लस्स पेत्याघरमडवे जेणेव दाहिणिल्लस्स
पेत्याघरमडवस्स बहूमज्झदेसभाए जणेव वइरामए अक्खाडए जेणेव
मणिपेट्ठिया जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ लोमइत्थग परा
मुमति अक्खाडच मणिपेट्ठियच सीहाणच लोमइत्थेण पमज्झइ २
टिक्वाते दगधारए अक्खेति सरसेणा गोसीस चट्ठेणा चच्चाते
दलयति पुप्फासइहा आसत्तो सत्त जाव धूव दलयति जेणे वदाहि
णिल्लस्स पेत्या घरमडवस्स पव्वत्थिमिल्ले दारे तच्चेव पुरत्थिमिल्ले

एतित्यस्य सुखमण्डपस्य बहुमध्यदेशभागे लोमइस्तकेन प्रमार्थादिकधारासिञ्चन पुष्पपुञ्जी-
पचार धूपदानादिकरोति कृत्वा पश्चिमद्वारे समागत्य पूर्ववत् द्वाराचनिका करोति, कृत्वा तस्यैव
दक्षिणात्यस्य सुखमण्डपमयीत्तरस्या स्तम्भपक्षी समागत्य पूर्ववत्, तदर्चनिका विधत्ते, इह
वस्या दिशि सिद्धायतनादेशार तत्रैतस्य सुखमण्डपस्य स्तम्भपक्षिनस्तस्यैव दक्षिणात्यस्य
सुखमण्डपस्य पूर्वद्वारैस्समागत्य तत्पूजा करोति, कृत्वा तस्य दक्षिणात्यस्य सुखमण्डपस्य दक्षिण-
द्वारैस्समागत्य पूर्ववत्पूजा च विधाय तेन द्वारेण विनिर्गत्य प्रेक्षागृहमण्डपस्य बहुमध्यदेशभागे
समागत्याक्षपाटक मणिपीठिका सिंहासन च लोमइस्तकेन प्रमार्थादिकधारायाभ्युच्चाचन्दनचर्च
पुष्पपूना धूपदानानि कृत्वा तस्यैव प्रेक्षागृहमण्डपस्य क्रमेण पश्चिमोत्तर पूर्वदक्षिणद्वारा-

जिम पच्छिम द्वारनीपरि मालाबाधइ धूप देइ जिहा दक्षिणा सुखमण्डपनउ द्वार तिहा जाइ
पु जणीनेइ वारसास्त्रा भूतलीतिमज्जदगधाराइ आभीषइ जिहा दक्षिणु सुखमण्डपनउ दक्षिण
द्वार तिहा जाइ वारमापभूतलीपाणीधाराइ पूर्ववत जिहा दक्षिणनउ प्रेक्षा घरमण्डप जिहा दक्षिण
नउ प्रेक्षाघरमण्डपनउ उषणउ मध्यदेशभाग आभीषइ जिहा दक्षिणु सुखमण्डपनउ दक्षिण द्वार
तिहा जाइ वारसापभूतलीपाणीधाराइ आभीषइ जिहा वज्रमय आक्खाडउ जिहा मणिपीठिका
जिह, सिंहासन तिहा जाइ जइनइ पु जणी लेइ आक्खाडु मणिपीठिका सिंहासन पु जणीइ करी

दारि तच्चैव जेणेव दाहिणिल्लेणा चे इय धूमे तेणेव उवागच्छद् धूम
 च मणिपेठियच दिव्वाए दग्धाराण सरसेणा गोमीस चदणेणा चव्वाते
 दन्वयति पुष्पारोहणां आसत्तोसत्त जाव धूव दलयति जेणेव पव्वत्यि
 मिल्ता मणिपेठिया जेणेव पव्वत्यिमिल्ता जिणपडिमा तेणेव उवा
 गच्छद् जिणपडिमाणा आनेण पयाामकरेति जज्ञा जिणपडिमाणा
 तहेव जाव गमसित्ता जेणेव उत्तरिल्लजिणपडिमा तचेव सव्व
 जेणेव पुरत्विमिल्ता मणिपेठिया जेणेव पुरत्विमिल्ता जिणपडिमा
 तेणेव उवागच्छद् २ तचेव दाहिणिल्लेणा मणिपेठिया दाहिणिल्लेणा
 जिणपडिमाणा तचेव सव्व जेणेव पुरत्विमिल्ते मणिपेठियानक्खे
 तेणेव उवागच्छद् तचेव जेणेव दाहिणिल्लेणे चैद्वक्के तेणेव

ग्रामचनिका कृत्वा दक्षिणविनिर्गत्य चैत्यस्तूप मणिपीठिकां च श्रीमहस्तकेन प्रमथीदकधार-
 यात्पुत्रसरसेन गोमीपचन्नेकेन पञ्चाङ्गलितेन दत्ता पुष्पाद्यारोहण च विधाय धूप ददाति
 ततो यत्र पाश्चात्या मणिपीठिका तवागच्छति तवागत्यालोकं प्रणाम करोति कृत्वा श्रीमहस्तकेन
 प्रमाज्जनं सुरभिगन्धोदकेन स्नानं तस्मिन् शशीपचन्नेन गावानुलेपनं दवदूषणं युगलपरिधानं
 पुष्पाद्यारोहणं पुरतः पुष्पपुञ्जोपचारं धूपदानं पुरतो दिग्गन्तुनैरुत्तरमघानकालेपनमष्टोत्तरयत्
 वृत्तैः स्तुतिं प्रथिपातदण्डकपाठं च कृत्वा वन्दतेनमस्यति तएवमेव क्रमेण उत्तरपूर्वदक्षिणप्रति-
 मानामप्यचनिका कृत्वा दक्षिणदारेण विनिर्गत्य दक्षिणस्यां गिरिं यत्र धैत्यवृक्ष इत्य समागत्य

पु जज्ञ पु ज्ञीनद् प्रधानद् पाणीनीधाराद् श्रीमहद् पाद् गामीर्षं चदनद् हाटादेद् फूलचडावद्
 माला बांधद् धूप देहनद् जिहा दक्षिणत उ प्रंचासरमडपनउ पश्चिम द्वार तिष्ठां पश्चि पूर्ववत्
 पूर्वतद् द्वारतद् मणितमज्ज जिहा दक्षिणसवधी चत्यधूम तिष्ठां नार धूमनद् मणिपीठिकानद्
 प्रधान पाणीनाधारादश्रीमोपद् नीलद् शशीपचदनद् हाटा देद् फूलचडावद् माला बांधद्
 धूप देद् जिहा पश्चिमनी मणिपीठिका जिहा पश्चिमनी जिनप्रतिमा तिष्ठा जाद् जिनप्रतिमा
 दीठद् वकण प्रणामकरज्जिम पूर्वद् जिनमिहावतनी प्रतिमासतरभदिपूनी तिमज्ज एहापश्चि जम
 प्रतिमापूजद् नमोत्तुणकधीवादि जिहा उत्तरदक्षिणी जिनप्रतिमा तिष्ठापश्चिसतरभेदद् पूजाकरद्
 जिहा पूर्वनी मणिपीठिका जिहा पूर्वनी जिनप्रतिमा तिष्ठां नार जज्ञतद् पूर्वनीपरि
 पूजाकरिपक्षेदक्षिणनी दक्षिणना मणिपीठिका जिनप्रतिमा तिष्ठापश्चिपूर्वतद् अर्धपूजा तिष्ठा
 पूर्वदक्षिणत मणिपीठिकावृष तिष्ठा जाद् तिष्ठापश्चिपूर्वनीतद् श्रीमोपचदननादाटामान्

उवागच्छद् तचेव जेपोव दाहिणिल्ले मद्दिदज्भए तेपोव उवा
 गच्छद् २ तचेव जेपोव दाहिणिल्ला णादापुक्खरिणी तेपोव उवा
 गच्छद् २ लोमहत्थग परामुसति तोरणोय तिसोमाण पडिस्वते
 साल्लिभजियाउ पवाल रुवेय लोमहत्थेण पमज्भति रदिवाए
 दगधाराए२मरसेणा गोसीसच्चदयोणा पुप्फारुहेणा आसत्तोसत्त धूव
 दनयति सिद्धायण अणुपयाहिणी करेमाणे जेपोव उत्तरिल्ला
 णादापुक्खरिणी तेपोव उवागच्छद् २ तचेव सब्ब करेद् जेपोव
 उत्तरिल्ले मद्दिदज्भए तेपोव उवागच्छति २ तचेव जेपोव उत्त
 रिल्ले चेद्दयरुक्खे तेपोव उवागच्छति तचेव जेपोव उत्तरिल्ले
 चेद्दयधूमे तहेव जेपोव पच्चत्थिमिल्ला मणिपेठिया जेपोव पच्च
 त्थिमिल्ला जिणपडिमा तचेव जेपोव उत्तरिल्ला जिणपडिमा

चेत्यवृचस्य द्वारवदचनिका करोति ततो महेन्द्रध्वजस्य ततो यत् दाक्षिणात्यानन्दापुष्करिणी तत्
 समागच्छति समागत्य तोरण त्रिसोपान प्रतिरूपकगते शालभञ्जिका व्यालकरूपाणा लोमहस्त-
 केन प्रमानन जलधारया अभ्युक्ष्य चन्दनचचा पुष्पाद्यारीहय धूपदान च कृत्वा सिद्धायतन मनु-
 प्रदक्षिणीकृत्योत्तरस्या नन्दापुष्करिण्या समागत्य पूर्ववत्तरया अर्चनिका करोति तत उत्तराहे-
 माहेन्द्रध्वजे तदनन्तरमोतरा हे महेन्द्रध्वजे तदनन्तरमोत्तरा हे चैत्यावृचे तत उत्तरा हे चैत्यस्तूपे

धूपजपेवद् तिहादक्षिणदसिनु चैत रु ख्र तिहा जाइ तिहापण्णिपूर्ववत् अभीपद् चदनचचाइद्
 दक्षिणदसिनु महेन्द्रध्वजतिहा तिहाजाइ फूलइदगधाराइ अभीपद्चदनधूपए जिहा दक्षिण
 दसिनीनदापुष्करणीवावि तिहा जाइ पु जयी लेइ तोरण पाउ डार्यां पूतली सपादिक रूप
 पु नगीइकरी पु जइ प्रधान पाणीधाराइ अभीपद् नीलपद् गोसीर्ष चदनइकाटादइ फूनचडा
 वइ मालावाधइ धूप देइ सिद्धायतनप्रति प्रदक्षिणाकरतउधकु तिहा उत्तरी नदापुष्करणी तिहा
 जाइ जइनइ सवनीपरिपाणीफूलचदनकाटाधूपकरइ जिहा उत्तरनउ महेन्द्रध्वज तिहा जाइ
 तिहा जइनइ तिहापण्णिपूर्ववत् जिहा उत्तरनउ चैत्यवृच तिहा जाइ तिहापण्णिपूर्ववत् जिहा
 उत्तरनउ चैत्य धूम तिहापण्णिपूर्ववत् जिहा पक्खिनी मणिपीठिका जिहा पक्खिमदसिनी जिन
 प्रतिमा तिहासतरभेदइ पूजाकरइजिहा उत्तरदसिनी जिनप्रतिमा तिहापण्णिसतरभेदइ पूजा
 जिहा उत्तरनउ प्रेक्षाघरमउप तिहा जाइ जइ दक्षिणदसिनी वक्ख्यतापूर्वकही तेहीज सधली
 प वनइ द्वारनइ उत्तरनइ द्वारि दक्षिणी स्थभप क्लिनइविपद् सर्वपूर्ववत्पाणीनूअभीपउच दन

तत्रैव जेणोव उत्तरिल्ले पित्याघरमडवे तेणोव उवागच्छति २ जावेद
 दाहिणिल्लावत्तया साचेव सव्वा पुरत्यिमिल्ले दारे उत्तरिल्ले
 दारे दाहिणिल्ला खभपती तचेव सव्व जेणोव उत्तरिल्ले मुहमडवे
 जेणोव उत्तरिल्लस्स मुहमडवस्स वद्धूमग्गदेसभाए तचेव सव्व
 जेणोव पव्वत्यिमिल्ले दारे तेणोव उत्तरिल्ले दारे पुरत्यिमिल्ले दारे
 दाहिणिल्ला खभपती तचेव जेणोव उत्तरिल्ले मुहमडवे जेणोव
 उत्तरिल्लस्स मुहमडवस्स वद्धूमग्गदेसभाए तचेव सव्व पव्वत्यि
 मिल्ले दारे तेणोव उत्तरिल्ले दारे पुरत्यिमिल्ले दारे दाहिणिल्ला
 खभपती सेस तचेव सव्व जेणोव सिद्धायणस्स पुरत्यिमिल्ले दारे
 तेणोव उवागच्छइ २ तचेव जेणोव पुरत्यिमिल्ले मुहमडवे जेणोव
 पुरत्यिमिल्लस्स मुहमडवस्स वद्धूमग्गदेसभाए तेणोव उवागच्छइ २
 तचेव पुरत्यिमिल्लस्स मुहमडवस्स दाहिणिल्ले दारे पव्वत्यिमिल्ला

तत् पश्चिमोत्त(पूर्वदक्षिण)जिनप्रतिमाना पूर्ववत् पूजा विधायोत्तराङ्गप्रैचागृहमण्डपे समागच्छति
 तत् दाहिणात्य प्रैचागृहमण्डपवत् सजा वक्तव्यता वक्तव्या ततो दक्षिणस्तम्भपक्काग विनिर्ग
 त्योत्तराङ्गे सुखमण्डपे समागच्छति तत्रापि दाहिणात्यसुखमण्डपवत् सर्वं पश्चिमोत्तर पूर्वद्वार
 क्रमेण कृत्वा दक्षिण स्तम्भपक्काग विनिर्गत्य सिद्धायतनस्योत्तर द्वारे समागत्य पूर्वदक्षिणिका कृत्वा
 पूर्वद्वारे समागच्छति तत्राचनिका पूर्ववत् । कृत्वा पूर्वस्य सुखमण्डपपर्य दक्षिणद्वार पश्चिमस्तम्भ

चचाकुलमालाधूपतपेवइजिहाउत्तरनइ सुखमण्डप जिहा उत्तरनी सुखमण्डपतउ धणउ मध्य देम
 भाग तिहा पण्णिपूर्वनीपरिसर्वजायिवु प्रच्छिमनउ द्वार तिहापण्णिपूर्ववत् उत्तरनइद्वारनइ पूर्वनइ
 द्वारनइ दक्षिणनीस भप लि तिहापूर्ववत्आभोपउ'च दनधूपमालावाधइजिहा उत्तरनउ सुख
 मण्डप जिहा उत्तरनउ सुखमण्डपनउ धणु मध्य देसभाग तिहापण्णिपूर्वनीपरिपूर्वआभोपाटि
 पश्चिमनउ द्वार तिहा पूर्ववत् उत्तरनइ द्वारइ दक्षिणनीसभप कि शेषधाकतउपूर्वनीपरिसर्व
 आभोसुच दनचचाधूपसवक्कविबउजिहा जिनप्रासादउ पूर्वनउ द्वार तिहा जाइ पूर्ववत् आभो
 पउचर्वादिकजिहापूर्वनउ सुखमण्डप जिहा पूर्वना सुखमण्डपनु धणु मध्य देसभाग तिहा जाइ
 तिमज आभोपनादिक पूर्वना सुखमण्डपनउ दक्षिणनउ द्वार पश्चिमना धभप क्ति उत्तरनुद्वार तिहा
 पण्णितिमजआभोपादिक पूर्वनइ द्वारइ तिमज जिहापूर्वनउ प्रैचाघरमण्डपमज धूमनइ आनो
 प्रादिक जिन प्रतिमतरभेदपूजाकरइमूर्थाभिमानइसिद्धायतनइ प्रतिमा१०८ विहू'द्वारआगली

खमपती उत्तरिल्ले दारे तचैव पुरत्थिमिल्ले दारे तचैव जेणेव पुर
 त्थिमिल्लेपे त्यावरमडवे चैवथूमे जिणपडिमाउ चैइय रुक्खा मडि
 दज्जाया गादापुम्बरिणी तचैव जावधूव दलयति जेणेव सभासुहम्म
 तेणेव उवागच्छति सभासुहम्म पुरत्थिमिल्लेणा दारेणा अणुपविसइ
 जेणेव माणवते चैइयखभे जेणेव वडरामया गोलवट्ट समुग्ग तेणेव
 उवागच्छइ २ लोमइत्यग परामु सति वडरामये गोलवट्ट समुग्गते
 लोमइत्यएण पमउभति वडरामए गोलवट्टसमुग्गते विहाडेइरजिण
 समइहातो लोमइत्य तेण पमउभइ मुरइणा गधोदएण परवालेइ
 अग्गेइ वराइ गधेइ पुप्फेइ मल्लेइ आचेति धूव दलयति जिण
 सगइहातो वडरामण्णु गोवट्टसमुग्गण्णु पडिणिक्खिपइ माणवग

पक्कुरत्तरपूर्वदारेणु क्रमेणोक्तरूपा पूजा विधाय पूर्वदारेण विनिर्गत्य पूर्ववत् मध्यभागदाक्षिण्यद्वार
 पश्चिमस्तम्भपक्कुरत्तरपूर्वदारेण्वर्चनिका करोति। तत पूर्वप्रकारेणैव क्रमेण चैत्यस्तूपजिन-
 प्रतिमाचैत्यवृचमहेन्द्रध्वजानन्दापुष्करिणीना तत सभाया पूर्वदारेण प्रविशति प्रविश्य यत्रैव
 मणिपीठिका तवागच्छति आलौकिके च जिनसत्का प्रथाम करोति कृत्वा यत्र माणवकप्रचैत्यगतभो
 यत्र चक्षुमया गोलवृत्ता समुद्रका तवागत्य समुद्रकान गृह्णाति गृहीत्वा विघाटयति विघाटत्र
 लोमइस्तक परामृश्य तेन प्रमाद्येदिक धारया अभ्युचति अभ्युच गोशीर्षचन्दनेनानुलिप्रति तत
 प्रधानैर्गन्धमाल्यैरर्चयति धूप दहति। तदनन्तर भूयोपि वज्रमयेषु गोलवृत्तसमुद्रकेषु प्रवि-

सवप्रतिमामेवता सिद्धायतननीमेलनार ८० जिनप्रतिमासूयाभपूजइ जिनप्रतिमानइसतरभेदपूजा
 करेवेजयचप्रतिमादारचैत्यवृत्तादिकवानाप जाववीसतिहासघलइपाथीनउभाभोपउच दनकाटाभा
 लावाधइचैत्यवृत्तमहेन्द्रध्वजानन्दापुष्करिणीतिहापथिदगधाराच दनचचा धूप देइ जिहा सभा सु
 धम्मा तिहा जाइ सभा सुधमाप्रति पूवनइ द्वारइ पइसइ जिहा माणवनाम चैत्य स्थभजिहा वज्र
 मय गोलवाटका डावडा तिहा जाइ जइनइ पु जणी लेइ वज्रमय गोलवर्तुलडावडा पु जनीइ
 करी पु जइ वज्रमय गोलवर्तुलडावडा ऊषाडइ उषाडीनइ जिणनाटाटी पु जणीइ करी पु जइ
 सुरभिइ गधोदकइ करी परवालइ मुख्यइ प्रधानइ गधइ चदनइ करी फूलइ मालाइ करीपूजइ
 धूप देइ जिननाटाटा वज्रमय गोलवर्तुलडावडानइविपइ प्रतिनिचेपइघालइ माणवत चैत्य शभ
 प्रतिपु जणीइ करी पु जइ प्रधान गोशीप चदनइ करी काटा देइ फूलचदनइइइ ऊपरिमांडा
 भूमिलगइमालावधइ धूप देइ जिहा सिहासनइ तिहापथिपूर्वनीपरि चाभीयादिकजिहा देव

चैश्य खभ लोमहृत्त्यण पमञ्भृद् दिव्वेगे गोसीसच दणेण
 चच्चादल्यति पुप्फारुहण भासत्तोसत्त जाव धूव दल्यति जेणेव
 सोहासणे तर्चेव जेणेव देवसयणिज्भ्ने तर्चेव जेणेव पूडाग
 मच्चिन्दुदभृए तर्चेव जेणेव पहरण कोसे चोप्पालए तेणेव उवा
 गच्छद् २ लोमहृत्त्यग परामसति पहरण कोस चोपाल लोमहृत्त्य
 एण पमञ्भृद् दगधारातेवा रसेण गोसीस च टणेण चच्चादल्यति
 पुप्फारुहण भासत्तो सत्त जाव धूव दल्यति जेणेव सभा सुहम्माए
 बहूमभृदेसभाए जेणेव मणिपेठिया तेणेव उवागच्छद् ३ लोम
 हृत्त्यग परामुसद् देवसयणिज्भृच मणिपेठियच लोमहृत्त्यण
 पमञ्भृद् जाव धूव दल्यति जेणेव उववाय सभाए दाहिणिल्ले

पति । प्रतिनिच्छिय तेपु पुष्पयन्धमाल्यवरवाभरणानि आरोपयति ततो लोमहृत्तेन माश्वक
 श्वेत्यस्तम्भ प्रमार्यादिकधारया अभ्युत्थचन्दनचर्चा पुष्पाद्यारोपण धूपदानञ्च करोति कृत्वा
 सिंहासनप्रदेशमागत्य मणिपीठिकाया सिंहासनस्य च लोमहृत्तकेन प्रमार्यानादिरूपा पूर्ववद-
 र्चनिका करोति कृत्वा यत्र च देवशयनीय तत्रोपागत्य मणिपीठिकाया देवशयनीयस्य च द्वारवद-
 र्चनिका करोति । तत उक्त प्रकारेषैव चुल्लिकेन्द्रध्वजे पूजा करोति । ततो यत्र चीपालकी
 नामप्रहरणकीश स्तव समागत्य लोमहृत्तकेन परिवरत्नप्रमुखाणि प्रहरणरत्नानि प्रमाञ्जयति ।
 प्रमार्यादिकधारयाभ्युत्थचन्दनचर्चा पुष्पाद्यारोपण धूपदानञ्च करोति तत सभाया सुधर्माया
 बहुमध्यदेशभागे ऽर्चनिका पूर्ववत् करोति कृत्वा सुधर्माया सभाया दक्षिणद्वारे समागत्य तस्या-

रथातिष्ठापयि पूर्ववत् जिहा नान्दृष्ट महेन्द्र ध्वज तिष्ठापयिपूर्ववत् जिहा सच्चयन्तु कोसथावृसाला
 चोपालनामा तिहा जाइ पु जणी लेइ प्रहरण कोस चोपालप्रति पु जणीइकरी पु जइ पाथी
 नीधाराइ आलोपइ नीलइ गोसीर्य चदनइ छाटी देइ फूलवधूइइ माला बाधइ धूप देइ जिहा
 सभानु सुधर्मान्च षण्ण मध्यदेशभाग जिहा मणिपीठिका तिहा जाइ जइनइ पु जणी लेइ
 देवसय्या मणिपीठिका पु जणीइकरी पु जइ मालाबाधइ धूप देइ जिहा उपपातसभानच दक्षिण
 नउ द्वार तिहा सभा सुधर्मानिपरिजाणिवउ जिहालगि पुवनी नदापुष्करणी जिहा इइ तिहा
 जाइ जइनइ इइनातीरणपाउडीया पूतली सर्पादिकरूप तिष्ठापयिपूर्वनीपरिष्ठातोपादिक जिहा
 इद्रामियेकसभा तिहा जाइ सिंहासन मणिपीठिकानइ धूपनीपरि तिमज थायूधसभाजिन्नकधी
 तिम जभियेकसभाजिहालगि पुवनीपरि नदापुष्करणी तिहापूर्ववत् जिहा अलकारियसभा तिहा

दारे तद्देव सभासरिस जाव पुरत्यिमिन्ता णदापुम्बरिणी जेणेव
 हरण तेणेव उवागच्छइ २ तोरणपयसोपाणए सान्तिभज्जियाउव
 वानमव तद्देव जेणेव अभिसेयसभा तेणेव उवागच्छइ सीहासणच
 मणिपेटियच सेस तद्देव अचयण सरिस जाव पुरत्यिमिन्ता गाटा
 पुम्बरिणी तेणेव जेणेव अलकारियसभा तेणेव उवागच्छइ जहा
 अभिसेयसभा तहा सव्व जेणे ववसाव सभा तेणेव तद्देव लोम
 इत्यगपरामुसति पोत्थवरयण लोमइत्य केण पमज्भइ २ दिव्वा
 एदगधाराते अग्गेहि वरेइ गधिइय मन्नेइय अच्चेति मणि
 पेटियच सीहासणच सेसचचेव पुरित्यिमिन्ता णदापुम्बरिणी

चनिका पूर्ववत्कुरुते ततो दक्षिणदारेण विनिर्गच्छति इत एव यथेव सिद्धायतनानिष्कामतो
 दक्षिणदारादिका दक्षिणनन्दापुष्करिणीपर्यवसाना पुनरपि प्रविशत उत्तरनन्दापुष्करिण्यादिका
 उत्तरदारान्ता ततो द्वितीय द्वार निष्कामत पूर्वदारादिका पूर्वनन्दापुष्करिणीपर्यवसाना पर्वनिका
 वक्तव्यता सैव सुधमाया सभायामध्यन्यूनातिरिक्ता वक्तव्यता तत पूर्वनन्दापुष्करिण्या पर्वनिका
 कृत्वा उपपातसभा पूर्वदारेण प्रविशति प्रविश्य च मणिपीठिकाया देवमयनोयस्य तदनन्तर
 बहुमध्यदेशभागे प्राग्बदचनिका विदधाति ततो दक्षिणदारे समग्राय तस्याचनिका कुरुते अत
 ऊर्ध्वमापि सिद्धायतनवत् दक्षिणदारादिका पूर्वनन्दापुष्करिणीपर्यवसानाचनिका वक्तव्या तत
 पूर्वनन्दापुष्करिणीतःपश्चिद्देशमागत्य पूर्ववत्तीरणाचनिका करोति कृत्वा पूर्वदारेणाभिपेक्ष
 सभाप्रविशति प्रविश्य मणिपीठिकाया सिद्धासनस्याभिपेक्ष भागस्य बहुमध्यदेशभागस्य च पूर्व-
 वदचनिका क्रमेण करोति, ततोऽपि सिद्धायतनवत् दक्षिणदारादिका पूर्वनन्दापुष्करिणीपर्यवसा-
 नाचनिकाचवक्तव्या तत पूर्वनन्दापुष्करिणान्त । पूर्वदारेणालङ्कारिकसभा प्रविशति प्रविश्य
 मणिपीठिकाया सिद्धासनस्यालङ्कारभागस्य बहुमध्यदेशभागस्य च क्रमेण पूर्ववदचनिका करोति
 तवापि क्रमेण सिद्धायतनवत् दक्षिणदारादिका पूर्वनन्दापुष्करिणीपर्यवसानाचनिका वक्तव्या
 तत पूर्वनन्दापुष्करिणीतः पूर्वदारेण व्यवसायसभा प्रविशति प्रविश्य पुस्तकरत्ने लोमहरतकेन
 प्रमृद्योदकधारया अभ्युक्ष्य चन्दनेन चर्चयित्वावरगन्धमाल्येन चर्चयित्वा पुण्याधारोषण धूपदानं
 जाइ जिम अभिपेक्ष सभा तिमज्ज सबकइवव जिहा पुस्तकसभा तिहाजाइ तिमज्ज पु जयी लेइ
 पुस्तकरत्न पु जयीइ करी पु जइ पु जीनइ प्रधान पाणीधाराइ आभीपइ सुखइ प्रधानइ गधिकरी
 मानाइ करी पूजइ मणि पीठिका सिद्धासन तिहापणिसंपयाकतुपूर्वनापरिभाभीसादिक पूर्वनी
 राशपुष्करणी तिहापूर्ववत् तिमज्ज जिहा वलिपाठ तिहा जाइ तिहा जइनेइ पूर्वोक्तवतीस

तद्देव जेषीव बलिपाठे तेषीव उवागह्य तेषीव उवागह्येता
विमज्जभाण करेइ आभिउगिया देवा सवावेइ २ एवं
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया मूरियाभे विमाणे सिधावरु
चउक्केचच्चरेसु चउमुहेसु महापवेसु पगारेसु पहाएणु
दारेसु गोपुरसु तोरणेसु आरामेसु उज्जायणेसु
वणतीरेसु वणएससडेसु अच्चणिय करेइ पन्च १
खिप्पामेवपव्वप्पिणइ ततेणते आभिउगिया

च करोति तदनन्तर मणिपीठिकाया सिंहासनस्य बहुमण्डपे
तदवर्षि सिंहायतनवत् दक्षिणद्वाराणि पूर्वमन्दापुष्करिणी
पूर्वमन्दापुष्करिणीती बलिपीठे समागत्य तस्य बहुमण्डपे
योगिकदेवान् शब्दायधातिमन्दापयित्वा एवमवादीत
पव्वप्पियन्ति" नवर शृगाटकं शृगाटकाकुन्डिके
मिलति। चतुष्क चतुष्कपथयुक्तम्। चत्वर बहुमण्डपे
दिक्षु पन्थानोनिस्सरति महापथी राजपथः ये
पाकारस्थोपरिभृत्याथयविशेषा चरिका
प्रासादादीना गोपुराधिपाकारहासदि
लतागृहादिषु दम्पत्यापत्यसचार
सामान्यवृक्षवृन्दनगरासन्न
एकजातीयोत्तमवृक्षसमूहो

वानीकक्षातिपुजता रजिज
करेइ तिहामूकरे तिहान
प्रियाउ मूर्याभे विमाणे
वाटभावीमलइतव
चारभागचारइतव
कातेषाठइतव
आरामतीजइतव
समइतव
येतामप

नत्तरचा
ण थाविड
न सहसनइ
पी चार मद्र
रइ परिपदाइ
इ देवनइ दक्षिण
इ तिह्वारपहीती
रपही तिह्वनइ मय
साण सहसनइ विपइ
ता पक्षिमइ चारसइ
इ सरीरइआरी आरीप
भायानापाटी चर्ममयीजे
पहराकइजेयइ आरीप्य

एववुत्ता समाणो जाव पडिसुणित्ता मूरियाभे विमाणो सिधाडएसु
जावअच्चणिय करेइ जेणेव मूरियाभेदेवे जाव पच्चपिणति ततेणसे
मूरियाभेदेवे जेणे गादापुष्करिणी तेणेव उवागच छइ गदापुक्ख
रिणी अणुपयाहिणी करेमाणे पुरित्यमिल्लेण तिसोमाण पडिरुव
एण पच्चोरुहति २ इत्यपाए पक्खालेइ गदापुष्करिणीउ पच्चू
त्तरइ जेणेव सभासहस्सा तेणेव उपधारेत्यगमणाण ततेणसे
मूरियाभेदेवे चउहि सामाणिय साहस्सीहि जाव सोलसहि आय
रक्ख देवसाहस्सीहि अणोहिइ वहुहि मूरियाभ विमाणवासीहि
विमाणएहि देवेहि देवीहिइ सहिसपरिवुडे सव्विडिए जाव गाइ
यरवेण जेणेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छइ २ सभ सुहम्म
पुरित्यमिल्लेण दारेण अणुपविसति २ जेणेव सीहासणे तेणेव
उवागच्छइ २ सीहासणवरगए पुरित्याभिमुडे सणिसणणे ततेण
तस्स मूरियाभस्स देवस्स अवरुत्तरेण उत्तरपुरित्यमेण चत्तारि

करोति कृत्वाचीत्तरएवानन्दापुष्करिणी मनुप्रदक्षिणी कुर्वन् पूर्वतोरणेनानुप्रविशति अन्नुप्रविश्य च
हस्तपादौ प्रक्षालयति प्रच्याल्य नन्दापुष्करिण्या प्रत्यवतीर्य सामानिकादिपरिवारसहित । सर्वङ्गा
यावइन्दुभिनिर्घोषनादितरवेण सूर्याभि विमाने मध्य मध्येन समागच्छन् यत्र सुधर्मासभा तत्रा
गत्यत्रा पूर्वदारेण प्रविशति प्रविश्य मण्यपीठिकाया उपरिसिंहासने पूर्वाभिसुखी निधीदति तत

तेह आभियोगी देवा मूरियाभइ देवइ इम कक्षा त्त्तहत्तिकरीइयजोडासभलइ मूयाभ विमान
नइविपइ शृ गादिकप थइ त्रिकदेकसधले पूजापाठसर्वकहिउ करइ जिहा सूर्याभ देव तिहा
आवीनइ नमस्कारकरइकरीनइआचाजपरठीसउपइ तिहारपकीतेह सूर्याभ देव जिहां नदा
पुष्कारणी तिहा जाइ नदापुष्करणीप्रतिइ अणुप्रदक्षिणी करतउयकउ पूर्वनइ पाउडाइमाहि
उतरइ हाय पग पखालेइ नदापुष्करणीयकी वाहरिनीसरइ जिहा सभा सुधर्मा तिहा प्रवर्त्त
तउजाइभणी तिहारपकी तेह मूयाभ देव च्यारइ सहससामानिकदेवताइ च्यारअगुमइघोत्रथि
परिपदा सोलसहस आत्मरच देवता सहस अनेरइपणि धयइ मूयाभ विमान वासीइ वैमानिकइ
देवइ देवीइ सायइ परवरुउयकउ सर्वेष्टहि सबलइ सबवाजिववागतइ जिहां सभा सुधर्मा
तिहा जाइ सभा सुधर्माप्रतिइ पूर्वनइ द्वारइ प्रवेशकरइपइसीनइ जिहा सिंहासन तिहा
जाइ जइनइ सिंहांमननइविपइपुहुलनुयकु पूर्वसनुसुखकरी वडठउ तिहारपकी तेहनइ सूर्या

सामाण्य साहस्सीउ' चउमुभद्दासणोमु साहस्सीउ णिसीयति
 ततेण तस्स सूरियाभस्स देवस्स पुरित्थिमिल्लेण चत्तारि अग्गमहि
 सीउ चउमु भद्दासणामु णिसीयति ततेण तस्स सूरियाभस्स देवस्स
 दाहिणपुरित्थिमेण अत्थितरियाए परिसाए अट्टदेवसाहस्सीउ अट्टस्स
 भद्दासणसाहस्सीमु णिसीयति ततेण तस्स सूरियाभस्स देवस्स
 दाहिणेण मत्थिमयाए परिसाए दसदेवसाहस्सीउ दसहि भद्दा
 सणोहि साहस्सीहि णिसीयति तएण तस्स सूरियाभस्स देवस्स
 पच्चत्थिमेण सत्त अणियाहि वड्डणोसत्तहि भद्दासणोहि णिसीयति
 तएण तस्स सूरियाभस्स देवस्स चउदिसि सोलस आयरक्ख देव
 साहस्सीउ सोलसहि भद्दासणोहि साहस्सीहि णिसीयति तज्ज
 पुरित्थिमेण चत्तारि साहस्सीउ दाहिणेण चत्तारि साहस्सीउ
 पच्चत्थिमेण चत्तारि साहस्सीउ' उत्तरिरेण चत्तारि साहस्सीउ
 तेण आयरक्ख सणणह वड्ड विम्मिय कवण उप्पीलियससामुण
 पदिया पिणहणगेवेज्जा आविह विमनवर विट पट्टा गहिया उह

भागुपदमित्तिसिहासनक्रमेण सामानिकादय उपविशन्ति । (तिष्ठ आयरक्खा) इत्यादि आत्मरचा
 सन्नइवड्डवर्म्मिनकवचा उत्पीडिता सरासनपट्टिका पिनडगैविया पिनडगैवियकाभरणा आविह

भनइ देवनइ वायव्यकूणइ ईसानकूणइ चार सहस्र सामान्यकदेवता चार भद्रासन सहस्रनइ
 विपइ वड्डसइ तिघारपकी तेहनइ मूयाभनइ देवनइ पूर्वनादिसिइ चार अग्गमहिपी चार भद्रा
 सणनइविपइ वड्डसइ तिघारपकीइ तेहनइ मूयाभनइ देवनइ अग्निक्कूणइ अश्वतरइ परिपदाइ
 चाठसहस्रदेवता चाठभद्रासण सहस्रनइविपइ वड्डसइ तिघारपकी तेह मूयाभनइ देवनइ दक्षिण
 दसिइ मध्य परिपदाइ दससहस्रदेवता दस भद्रासण सहस्रनइविपइ वड्डसइ तिघारपकीतेह
 मूयाभनइ पक्खिमदिसइ सातकटकनापणी सात भद्रासणइ वड्डसइ तिघारपकी तेहनइ मूया
 भनइ देवनइ चिड्डुदसिनइविपइ सोलसहस्र आत्मरत्तक देवता सोलसइ भद्रासण सहस्रनइ विपइ
 वड्डसइ तेकइइइइ पूर्वदसिइ चार सहस्रदेवता दक्षिणदिसइ चारसहस्रदेवता पक्खिमइ चारसहस्र
 देवता उत्तरदसइ चारसहस्रदेवतावड्डसइ ते आत्मरत्तक देवताकेडवाइ सरीइआरी आरीप्या
 टाकाकरीवाधा अगारचा कवचतेलो इमयसन्नाइ गाहीकरीवाधीइइनारनीभायानापाटी चर्ममयीजेणे
 देवताए बलीकेइवाइइवांधाइइगौवियकाभरकंठसवधी आभरथगलइ पइराइइजेणइ आरीप्यउ

प्यहरणा तिण्याद् तिसधीयाद् वृद्धरामय् कोडीणि धन्युत्ति प्रतिजम्भ
 परियाइय कडकलावा गीलपाणिणो पीयपाणिणो रत्तपाणिणो
 चावपाणिणो चारुपाणिणो चम्मपाणिणो दडपाणिणो खग्गपा
 णिणो पासपाणिणो गील पीय रत्त चाव चारु चम्म दड खग्ग
 पास धरा आयरक्खोवगया गुत्तागुत्त पालिया जुत्ताजुत्त पालिया
 पत्तेय पत्तेय समयउ विमाणयउ किकरभूयाइव चिद्ध ति मूरिया
 भस्सण भते देवस्स केवइय कालवित्ती पणत्ता गोयमा चत्तारि

मलवरचिन्हापडा गृहीता युद्धप्रहरणास्त्रिनतानि । आदिमध्यावसानेषु नमनभावात् तिस-
 धीनि आदिमध्यावसानेषु सन्धिभावात् । वज्रमयकोटीनि धनूपि अभिगृह्य (परियाइय कड-
 कलावा) इति पर्याप्तकाण्डकलापा विचित्रकाण्डकलापयोगात् केचिन्नीलपाणिनो इति नील
 काण्डकलाप इति गम्यते पाषौ येषां ते नीलपाणय । एव पीतपाणयो रत्तपाणयः चाप
 पाणौ येषां ते चापपाणय । चारुप्रहरणविशेष पाषौ येषां ते चारुपाणय, चर्म अशु-
 ष्ठाशुल्बोराच्छादनरूपो येषां ते चर्मपाणय । एव दण्डपाणय खड्गपाणय पद्मपाणय, एतदेव
 व्याचष्टे यथायोग नीलपीतरत्तचापचारुचर्मदण्डखड्गपाणधारा आत्मरक्षा रक्षामुपगच्छन्ति ।
 तदेकचित्ततया तत्परायणा वर्त्तन्ते इति रचीपगा, गुप्तान् स्वामिभेदकारिण यथा गुप्ता
 प्रवेश्या पालि, सतुयेषां ते गुप्तपालिका स्तथा युक्ता सेवकगुणोपेततया उचित्य स्तथायुक्ता
 परस्पर सम्बद्धा नतुवृद्धदन्तरानपालियेषां ते युक्तपालिका समयत आचरत आचर्येत्थं ।
 विनयतश्च किष्करभूताइव तिष्ठन्ति न खलु ते किष्करा किन्तु तेषिमान्यास्तेपामपिष्टधगास ननिपात-

कइ निर्मल प्रधान विहूपट्टमस्तकैङ्गीगावसेप गुहयाकइ आयुधनइ प्रहरणजेआयुधते पङ्गादिकप्रहर
 णतेमारभालादिक चिहूठामिनमाडाआदिमध्य क्खेडडवणिसधिआदिमध्यावमानइ वज्रमयी कीर्ति
 अगुभागनी एहवीधनुस्वप्रति गुहिनइपूर्णकइ नीरनासमूहजेहोनइ कीडकदेवतानीलैवर्षइतेहना
 पाणिकहियइ तारहायिकइजेहोनइमजपातपाणि रातातारहायिजेहोनइ धमूखहायिकइ चारुप्र
 हरिणविसेपतेहलहायिकइ चर्मअगुष्टअनउलीनउआच्छादनरूपतेहायिकइ दडयट्टहायहुइ खड्ग
 पाणिपासइकइतेहलफफरीनइकइइइइ नीलवण पीता राता धनुषवाक वर्यं दड खग्ग पासनीधरय
 चारइइ आत्मरत्तकभावप्रतिपाम्याकइएकचित्तयइत्यरथयाकइ पीतानास्वामीनइस्थाएघाटीकइठा
 कइ परनइ वेसकरीनइदेइतेमाटेआडापालीरुप सेवकनइगुणइकरीयुक्तयोग्यकइ वचइआतररहित
 पालिकइ त्रेहना प्रत्येकइप्रत्येकइ समयआचारतेइयकी विनययकी किकररूपनीपरि रइइकइ इवइ
 गीतम पूकइइइमूयामनी हेपूज्यदेवनी केतली कालस्ततिआयूरित्यर्थकधी भगवतकइइकइ हेगीतम

चत्तारि पालिउवमातिद्विइं पणत्ता सूरियाभस्सणाभतेदेवस्स सामा
 णिय परिसोववणगाणां देवाणां केवत्तियं कालं विइं पणत्ता गोयमा
 चत्तारि.पलितोवमातिद्विइं पणत्ता म्हिदिए म्हुजुत्तीए म्हीयसे
 म्हासोक्खे म्हाणुभागे सूरियाभेदेवे अहोणभते सूरियाभेदेवे म्हि
 द्वीए जाव म्हाणुभावेगे सूरियाभेणां भते देवेणांसा दिव्वा देवद्वी
 सादिव्वा देवद्वी सादिवो देवजुइं दिव्वदेवाणुभागे कियणांल्लेहे
 कियणापत्ते कियणा अभिससणागतं पुव्वभव्वेके आसि कियाम
 एवा .किवारत्तेपणावा .कयरसिवा गामसिवा जाव सयिणवेससिवा
 किवादेव्वा किवाभुव्वा किवा समापरित्ता कस्स वातद्दाहवस्स वा
 समणस्स वा माहणस्स वा अतिए पगमवि आयरिय सुवयणसोच्चा
 णिस्सम्म जेणं सूरियाभेण देवेण सा दिव्वा देवद्वी जाव देवाणु
 भागेल्लेहे पत्ते अभिमणागतं गोयमातिसमणणे भगव म्हावीरे
 भगव गोयमा आमत्तेत्ता एव वयासी एव खलु गोयमा तेष
 कालेण तेष समणण इहेव ज बुद्धीवेदीवे भारहेवासे केकयहे
 णाम जणावत्तेहोत्था रिद्धित्थिमिय समिहे तत्थण केयहे जणवए

नात्तदानीं केवलानि जीवारपरिपालनतो विनीतवेत्त च तथा भूताइव तिष्ठन्ति संत उक्तं किंकर
 भूता इवेति । "तएहि चउहि सामाणियसाहसीहि" इत्यादि सुगम यावत् "दिव्वाइ भोगभोगाइ
 भुञ्जसाणेविहरइ" इति "सूरियाभस्सणभन्ते द्वेवस्स केवइकाल" मित्यादि सुगमं (गामसवेत्ति) गं सते ।
 बुडगादीन् गुणान् यदि वा गम्भ आरत्तप्रसिद्धानामष्टादशानां करायानामिति गामस्तस्मिन् नगर

सूयाभनीचार पल्योपमलगइ स्थिति कही सूयाभनी हेपूज्य देवना सामानिकं अभ्यतरपरिपदात्री
 वइसणहार देवना केतलउ काल स्थिति कही भगवतकहेहे हेगीतम च्यार पल्योपमकही स्थिति
 कही महावट्टिपरिचाररूपतेहनउधणी महाद्युतिकोत्तिनउधणी म्हायसनुधणी म्हामुधनुधणी
 मांहासामथ्येपणानुधणी सूयाभ देव वलीयोतमपूळइऊइअहोपूज्य सूयाभ देव महविं क म्हा
 द्युति म्हाणुभागे सूयाभइ हेपूज्य देवइ तेइ प्रधान देवनीमइडि तेइ प्रधान देवनीमइडि तेइ
 प्रधान देवनीद्युति प्रधान देवणुभागेसामथ्येपणउ किंनलाधउ किम पाभ्युमै किंम इहत्तप्रात्तधकउ
 पूर्वभवइ केउणहत्तउ स्थइनामइ अथवा कुणडगीतइ किहा गामरइ विपइ ज्जकेणनगरनइविपइ
 केहापुरनइविपइ स्थउअसनाविदानदेइ अंतस्थउ प्रातादिकअहारभोगवापत्तलिआविलेनीऊची

पणसी गामरायाहोत्या मङ्ग्या हिमवत जाव विहरति अधम्मिए
 अधम्मिहे अधम्माक्खाइ अधम्माणे अधम्मपलोइ अधम्मपल
 ज्झणो अधम्मसील समुयारे अधम्मणे चव विति कप्पेमाणो षण्डिक्क
 न्दभिन्दापेवत्तए तावृकोपच्चडे रोहे खोहे लोहितपाणी साह
 स्सीए उक्कचण वचणमायाणियडिक्कडकवडसपडग पडग वहुल्ले

इत्यादि पदचतुष्टय पूर्ववत्. (मङ्ग्या हिमवन्ते) त्यादि, राजवर्णन प्राग्वत् (अधम्मिए) इति
 धमेण चरन्ति धामिको न धामिके अधामिके, तव सामान्यतीत्यधम्मिकस्यादत्तं व्याह ।
 अधम्मिणोऽतिशयेनाधर्मवान् अतएवाधम्मणप्यातिशय्या सा अधम्मप्याति (अधम्मणुण) इति,
 अधर्ममनुगच्छति अधर्मानुगतः, तथा अधर्ममेव प्रलोकते परिभाषयतीत्यवशीलो अधर्मप्रलोकी ।
 (अधम्मपुञ्जए) इति अधम्मप्रकर्षेण जनयति अत्पादयति लोकानामपीत्य धर्मप्रजन । अधर्मशील
 समुदाचारी न धर्मान् क्रिमपि भवति तस्यैवाभावादित्येव मधमणेषु वृत्ति सर्वजन्तूना यापना
 कल्पेयन् (इण्डिन्दिभिन्दापवत्तए) जंइडिन्दिभिन्दि इत्येव प्रवत्तकी अतएव लोहितपाणिमरु-
 धित्वा इस्तावप्यप्रचालनात्, अतएव पाप पापकर्मिकारित्वाच्चन्द्र, तीव्रकोपावेशात् रौद्रे निरवृश
 कर्मकारित्वात् साहसिक परलोकभयामावात् । (उक्कञ्चणवञ्चणमायाणियडिक्कडकवडसाइ
 सम्पडग वहुले) इति उद्ग कञ्चनसुककचन हीनगुणस्य गुणैर्त्कर्षप्रतिपादन वञ्चन प्रतारण
 मायस्य वञ्चनवृद्धि । निकृति वक्वत्त्याग्लगत्तकानामिवावग्यानम् । कृटमनेविषा इगा-
 दीना गुह्याय भानाविधप्रयोगकरण कपट नेपथ्यभागाविययंकरणम् । एभिर्कञ्चजादिभि
 सञ्जातिशयेनय सम्प्रयोगो योगमत्तन् वहुल; । अथवा साति सम्प्रयोगोनामय सातिशयेन द्रव्येण
 कस्तूरिकादिना अपरस्य द्रव्यस्य सम्प्रयोगः । उक्कञ्च । "सृक्कृताभ्याचूर्णकृता सोडोडसाइ जोगो
 दल्लं जम्मुइय अणणटल्लेसु । दीसगुणोवयणे सुय अथविसवयथं कुणइ" इति नसप्रयोगो
 वहुल; । अपरे व्याख्यानेत्यन्ति उक्कञ्चन नाम उक्कोचानि कृतिर्वञ्चनप्रकारेण कर्मसातिरविसाभ

वनवृणाकञ्जप्रवाइतिपरिसरयुक्कडिवइ भल्लू रूपकैतिहा सियविया नगरीनेइविपइ प्रदेशी नाम
 राजा इत्त उ मोटुवइ हिमवतपर्वतनीपरि राजवर्षकसर्वकडिवेउ टेसनइपालउयकुविसरेके ति
 राजाकेइवुइ अधर्मइ करीविसरेके अधर्मपापतेज्जइइएटवल्भइ अधर्मइ करीलोकेनेविपुंजेइया
 ख्यातिपसिद्धि अधमपृठिईडइइ अधम्मजाप्रतिजीवइइयात्माभावकेइ अधर्मइ करीर जइ
 इअथवाअधर्मपञ्जाअधमनुत्तापट्टकइ अधमेरुपसीलावीरइइजेइनु अधमइ करी निरवइ
 आजीविकाप्रति क्रतउयइउ आगलीनइइणइ अइगइकरीकेइइ भालइकरीकेइएमज्जप्रवर्त्तिवइ
 इइ नियगकमकरीनुघयी इियईकुडइइ, इयलोहीइएउएइइइ परलोकशकीवो इनुनधी लावनु

णिस्सीले णिव्वते णिगुणो णिम्मोणो णिपव्वत्तखाण पोसञ्जेववासि
 वहुण दुपय चउप्पय भिया पसू पक्खि सरिसवण घाताते वहाते
 उच्छेयणाए अधम्म केज्ज समुट्टिए गुरुण णोअव्वभूट्टेत्ति णोवियाण
 पउज्जइ सयस्सयविणा जणवयस्स णोकम्म करवा भरवा विति पव्व
 चेइ तस्सणा पदेस्सिस्सरणो सूरिय कता णामादेवी होत्था सुकमाल
 प्राणिपाया धारिणी वणणउ पएसियणा रणसद्धिं अणुरत्ता इट्ठे जाव
 म्भे विहरति तस्सण पदेस्सिस्सरणो-जेट्ठे पुत्ते सुरिय कताए देवीते

एतत्सप्रयोगवद्बुल । श्रेय तथैव निशीलौब्रह्मचर्यपरिणामाभावात् निर्ब्रतो हिंस्रपदविरत्य
 भावान् निर्गुण चान्त्यादिगुणाभावात् निर्मूष्याद परस्त्रीपरिहारादिप्रयादाविलोपित्वात् निर्प्रत्या-
 स्थानपीपथोवास प्रत्याख्याय परिणामप्रवृत्तिवसोपत्रासपरिणामा भावात् बहूनि हिपदचतुष्पदमृग
 पशुपक्षिसरीसृपानाश्चाताय विनाशायव्यवधाय ताडनाय उच्छादनायनिर्मूलाभावीकरणाया धर्मरूपः
 केतुरिव गृहविशेषइव समुत्थित । न च गुरुणा पिवादीनामागच्छतामभ्यतिष्ठति आभिमूञ्च मूञ्-
 तिष्ठति न च वित्तय प्रायुक्तेनापि श्रमणब्राह्मणभिर्लुकाणामभ्युत्तिष्ठति न च वित्तय प्रयुक्तेनापि
 स्वकस्यापि आत्मीयस्यापि जन्मपदस्यापि न संस्यक्करभरंवृत्तिं प्रवर्त्तति (तस्सणपएसिस्समूरीकन्ता
 णामं देवीहोत्था । सुकुमाल प्राणिपाया) इत्यादि देवीवर्णनं प्राग्वत् प्रदेशिना राज्ञा, सार्द्धमनुरक्ता
 अविरेक्ता कथञ्चिद्विप्रियकरणेपि विरागाभावात् कुमारदर्शनं (सुकुमाल प्राणिपाए जावसुन्दरे) इति
 अत्र यावत्करणात् । “अङ्गीण पञ्चिन्द्रियसरीरे लम्बणवज्रणगुणोववेएमाणुम्माणपमाण पडिपुएण

लेवउ परनइ विप्रतारवउ परनइवचवउ मायाकरीगोपविवउ मृगपासतेकूळकपटतेदेसभूपीपाल
 टीआ गल्लयानइहेतरवउएहव्वसप्रयोग व्यापारअनइ पापउतेहनइहइ बहूनु धणउजेइनइ व्यापार
 सुंसत्राउचितइ वृत्तसिद्धिचमादिगुणरहित लोकमर्यादाधर्ममर्यादारहित नुक्कारसामावयच्चक्षोण
 अनइपीपथेणइ कपत्रासकरीरहित धर्णा मनुष्यादिक अज्ञादिक मृगादि तिर्येच खचर
 उदिर तुलादिक एतन्नानइ हणवुतामिमारनु वधतेलाकडीइतेडवउ कलेदवउ तिमूलकरिवउ
 एतन्नानइ अर्थइपापरूपधूपकेतुगुहइसरपउ ऊठकइ पोतानागुरनइ पणि आव्यइयकइनऊठइ
 न वित्तयप्रति प्रज्युइ पीतानापणि देसनध्नथी मूधउकर दडइ लेयवु भरतेलेवु अथवावृत्तिआ
 जीविकाप्रति प्रवर्त्तानउ तेहवइ प्रदेशानइराज्ञानइ सूर्यभ कता नामइ पइ राज्ञा इती सुक
 मानइइ इअथप्रगजेइनाजिमकचाइमूवइ धारिणीनइ वर्षकतिमजईहायणिकइवउ प्रदेशी राज्ञा
 सोइ अणुरक्ताटीकइ मनोहरसब्दादिक पाचइ द्वीनोविषय सुखभोगवतियका विचरइहइ तेह
 नइ प्रदेशीनइ राज्ञानइ वहु पुत्र सूरिय कतानउ देवानु आजेन्मकुचिनउऊपनु सूर्यकांतनाम

अत्तए सूरियकते ग्रामकुमारे होत्यासुकमाल पाणियाए जाव पडि
 हवे शेषे सूरियकते कुमारे युवराया विहोत्या पणसिस्सरणणो रज्ज
 चरुच वलच वाहणाच कोसच कोट्टागारच पुरच अतेउरच जणवयंच
 सयमेव पञ्चूवेक्खमाणे २ विहरति तस्सण पट्टेसिस्सरणणो जेहे
 भाउवयसते चित्ते ग्रामसारही होत्या अठे जाव बहुजणस्स
 अपरिभूए सामभेयदड उवप्पयाणा अत्यसत्य ईहामइ विसारए
 उप्पतिघाए वेणइयाए कम्मिए पारिणामियाए चउव्विहाए बुद्धीए

सुजाय सब्बणासुन्दरधोससिसोमाकारकन्तपियदसणे सुखे” इति द्रष्टव्य एतच्च देवीवर्षकवत्
 स्वय परिभावनोयम् । स च मूर्धकान्ती नाम कुमारी युवराजा अभूत्, प्रदेशिनो राज्ञी राज्य
 राष्ट्रादिसमुदायात्मक राष्ट्र च जनपद वल च इत्यादिसैन्य वाहन च वेगसारादिक कौश्र च
 भायडागार च धान्यगृह पुर च नगर मन्तपुर वावरोधभ्वात्मानैव समुत्प्रेक्षमाणी निरूपयन्
 समुप्रेक्षमाणो वा व्यापारयन् (चित्ते ग्रामसारहीहोत्या अहे दत्ते) इत्यादि यादा समृद्धो
 दीप्तः । कान्तिमान् चित्तं यावत्करणात् “विउलभवयसयणासण जाणवाइयाइयणे
 बद्धासीदासगोमइसगबेलकप्पभूते बहुधुण बहुजायकुरवरयए विळ्ळिय पउरभत्ताणे” इति परि-
 गृह । अस्य व्याख्या राजवर्षकवत् परिभावनीया (बहुजणस्स अपरिभूए) राजमान्यत्वात् स्वय
 च ज्ञात्यचक्षितत्वात् (सामभेयददडउवप्पयाणा अत्यसत्यईहामइविसारए) इति । सामभेयददडो-
 प्रदानलक्षणात्तान्तीतीनामर्थशास्त्रस्यार्थोपायव्यत्पादनगुण्यस्य इहा विमश्र स्तत्प्रधानामतिहामति
 स्तया विगारदो विचक्षण । सामभेदददडोपप्रदानार्थशास्त्रेहामति विगारण । उत्पत्तिको
 अष्टदा श्रुत्वाननुभूत विषयाकस्माद्भवनशीलया वैनयिक्या यिनयलभ्यशास्त्रार्थं सस्कार जन्यया
 कम्मजया कृपिवाणिज्यादिकर्मभ्यः स प्रभावया परिणामिक्याप्रायोवयी विपाकजन्यया एवं

कुमार हूउ सुकमालकइ हायपगजेइना राजलक्षयइ करीसहितकइ उत्तमरूपकइ तइ मूर्ध कात
 कुमार युवराजपणइ हूतउ प्रदेशीनु राजनउ राज्यतेससाग रण्टतेदेस हायी घोडावेसरादिक सक
 टादिक समनोघर धानशीतेलनाघरनगर स्वोआदिक जनपददेस एतलानइपोतइज जितउ थकव
 सभालकरनुधकउ विचरइकइ तेइनइ प्रदेशीनइ राजानइ बहुभाइसपीमिवनइ जाइगी चित्त
 नामसारयीहूतउतंकेइकइ धनइपूर्णकइ दित्ते दीपनुकइचित्तेविख्यातकइप्रसाइकइधषामाणसेपिबि
 परामभ्युनजाइसामनीबुद्धिमेवीउपजावीजाणइदडलेइदेइरजाणइ माओमाइभेदडपाडनु तथाद्रव्य
 देइनइ द्रव्यसइ करीवउ अर्थीपादनसादनसाधनइविपइइहाविचारणातेसहितमणितेथइकरीडाइ
 उहेवत्पातनीबुद्धि अणसामनु अणदीठउउचयीपसइकरीअभयकुमारनीपरिहीयाधका कपजइ

उववेते पणसिस्सरणणो वहुसुकज्जेसु कारणेसुय कुडवेसुय मतेसुय
 गुज्जेसुय रइस्सेसुय णित्थणसुय ववहारेसुया पुत्तण्णिज्जे पडिपुड
 णिज्जे मेठीपमाणे अहारे आत्तव्वणे क्वक्खूभूए सव्वट्ठाण सव्वभूमि
 यासु लद्धपत्तवण विदिपाण विद्यारे रउभधुर चितएवा विहोत्था तेण
 कालेण तेण समयेण कुणात्ता गामजणवय होत्था रिद्धित्थिमिय
 समिहे तत्थण कुणात्ता जणवए सावत्थी गाम गयरी होत्था रिद्धि

रूपया चतुर्विधया बुद्ध्या उभेते प्रदेगिनो राज्ञा बहुषु कार्येषु कर्त्तव्येषु कारणेषु कर्त्तव्योपायेषु
 कुदु वेस्वकीयपरकीयेषु विषयभूतेषु मन्त्रेषु राज्यादिचिन्तारूपेषु गुह्येषु बहिर्जनप्रकाशनेषु
 रक्षस्येषु तैवेवाचाणेषु निश्चयेषु निश्चीयते इति निश्चेद्या अवश्यकरणीया कर्त्तव्यविशेषार्तेषु
 व्यवहारेषु आवाहनविसर्जनादिकेषु आमकनीय सकृत् प्रकनीय प्रतिप्रकनीयोऽसकृत्प्रकनीय
 कृमिति यतो (सीमेठी) इति मेठी खलकमध्यवर्तिनी स्तूषायस्या नियमिता गोर्षाङ्ग धान्य गाह-
 यति तद्व्यमालम्ब्य सकल मविमण्डलं मन्तणीयान् अथान धान्यमिव विवेचयति समेठी तथा
 प्रमाणं प्रत्यचादि तद्वत् यस्तद्दृष्टानामाधानामभिव्यभिचारित्वेन तत्रैव मन्त्रिणा प्रवृत्तिनिवृत्ति
 भावात् स प्रमाणं आधार आधे यस्यैव सर्वकार्येषु लोकानामुपकारितात् तथा आत्मवन रज्वादि
 तद्वत् आपदहतादिनिस्तारकत्वात् आत्मवन तथा चक्षुलौचन तदवलोकस्य योविविधकार्येषु प्रवृत्ति
 निवृत्तिविषयदशक स चक्षु । एतदेव प्रपञ्चयति "मेढिभूण" इत्यादि, अत्र भूतशब्द उपसर्गार्थ ,
 (मव्वठाण मन्वभूमियासु लद्धपत्तवण) इति सर्वेषु स्थानेषु कार्येषु सन्धिविगुहादिषु सर्वासु भूमिकामु
 मन्त्रगामात्यस्थानरूपामु लब्ध उपसर्ग प्रत्यय प्रतीतिरत्रिसम्प्रदावचनता यस्य स तथा (विदियव-

तेऽत्यतनीवुद्धि विनयकरतायुवादिकपासद् बुद्धि पागीइतेवेनयकी षट्पिवाण्ज्यादिक अभ्यास
 बुद्धि उपजइतेकार्मिकी वयनइपरिपाकइजेनुद्धिउपजइतेपरिणामिकी एहचिह्नप्रकारि बुद्धिकरी
 युक्तइइ प्रदेसिनइ राजानइ घणा कार्यतकर्त्त वतेहनइविपइ काचनउत्पायतेहनइविपइ कुट्ठव
 नईविपइ मंत्रणउतेराजादिचिन्तारूपतिहा कीइआगलिप्रकासाइनहीतेगुसनीवात्तातिहा एकातनी
 वात्तातिहा अवस्यकत्त व्यस्तुतिहा तेडवुमीकलवुतिहा एहवेलापूकवायोगयकइ वलीरपुक्किवायोग
 कइ खलामहिलीधूणीतेमेठीतेहसरिपउकइ सर्वलोकनइ आधारभूतकइ घटताजिमरासहीआधार
 तिमाचित्रजाणिवु सरीरनुसारजिमनेवतिमाचित्रपणिलोकनइप्रवत् इनिदत्तिसुउदईसकइ सवयान
 करइसर्धिवगुहादिकनइविपइ सर्वभूमिकाइमेढे आमान्यस्थानरूपनइविपइलाधुकइप्रत्ययजेइना
 प्रीतिकइराजाइदीधुकइविचारअवकासजेहनइ एतलइअतपुरादिकनइविपइपणितेहनइअनिवार
 पणुकइप्रत्यतविस्वासमाटाइरोजपारानु चितानउकरणइहारेडू तेषइकालि तेणइसमय कुणात्ता

त्विमिय समिद्धा जाव पडिस्वा तीसिण सावत्येण गगरीए वहिवा
उत्तरपुरत्यमे दिसीभाए कोट्टाए गामचेइए होत्या पौराणे जावमुरम्मे
पासादीए दरिसणिज्झं तत्यणा सावत्थी ते गणरीए पणसिस्सरणो
अतेवासी जियसतु गामराया होत्या महया चिमवत जाव विहरइं
तण्यां पदेसीराया अणण्या कयाइ महत्य महग्घ महरिइ विउजराया
रिइ पाहुड सज्झाचेइ चित्त सारहि सद्दावेइ २ एव वयासी
गच्छणा तुम्ह चित्तासावत्येण गगरि जियसतु सरणो इममहत्य
जाव पाहुड उवणेहि जाइ तत्यराय कञ्जाणिय रायणिमुत्तेय
रायववहारयेताइ जियश्रवूणासद्धि सयमेवपव्वूवेक्खमाणे २ विइ
राति तिव्क्कट्टू विसज्झत्ते तण्णासे चित्त सारहीपणसि गारणणा
एववुत्ते समाणे इट्टतुट्टजाव पडिसुणित्ता त महत्य जावपाहुड
गियइइ पणसिस्सरणणा अतियाउ पाडिणिक्खमइ पडिणिक्ख

(वियारे) इति वित्तीयौ राजानुज्जातो विचारो अचकाशो यस्य विश्वसनीयत्वात्स वित्तीयविचार सर्व
कायादिभवति प्रकृत कि वज्जना राज्यधुराश्चिन्तकश्चापि राज्यनिवाहकश्चाप्यभूत् (पणसिस्सरको
उन्तेवासी) इति समीपे वसतीत्येव श्रीजो अन्तेवासी शिष्य, अन्तेवासीव सम्यगाज्ञाविधायी इति

नाम् देस हू तउ ऋडिवतभवनइकरी भयरहित धनवत तिहा कुणालादेसनइविपइ सावथा नाम
नगरी हू ती मोटाआवासमहित भयरहित धनवती नगरीनुअणकचपानीपरिजाणवु भंनु कपइइ
तेह सावथा नगरीनइ वाहरि इसानकूणइ भागि कीट नामचेत्यवचनुप्रसाद हू तउ जूतउ
पूर्णेभद्रचेत्यनीपरिजाणवउ रमणीक चित्तनइप्रसन्नकरइइइ जोइवायोग्यइइ तिहा सावथाइ
नगरीइ प्रदेसानु राजानु सित्येनैजाइगइआज्ञाकरीइतवथ जितशतु नाम राजहू तउ मोटउ
इधिवतपर्यंतसरिपु राजवणकसवकरितुकुणालादिसपालनउयकु विचरइइइ तेह प्रदेसीराजा
अन्यद्राकिवारइ मोटउअर्थसुवर्णादिकइइइजिहा मोटीपूजाइइजिहातेमहध्यवहूमूल्य मोटानइ
योग्य विस्तीर्य राजा नइ योग्य प्रभतिकभेटणउ सज्जकरावइ चिवसारथीप्रति तेडावइ तेडावी
णइ एम बोल्यु जाउ तुम्हे हे चिव सावथी नगरीप्रति जितमवु नइ राजानइइइ मोटउअर्थ
वहूमूल्य भेटनउ पूहूतीकरउ जेइ तिहा जिकीइराजाकार्यहूइ राजानइ गोपतिवायोग्यहूइणतलइ
बाता राजानुव्यवहारनुआविवुजाइवू जाइतेइजितसवुराजासाथइ पीतइज्ज जीयतउयकउ विचरा
इभकही मीकलउ तिहारपक्कीतेह चिवसारथी प्रदेशी राजाइ एमकहि थकइ इपसतीप इय

मिक्ता सेवविय गगरि' मञ्जम मञ्जरीणा जेणेव सएगेहे तेणेव उवा
 गच्छद् त महत्य जाव पाहुड ववेद् कोडि विपुरिसे सदावेति २ सा
 एववयासी खिप्पामेव भोदेवाणुप्पिया सअत्त' जावचाउ गट आसरह
 जुत्तामेवउवट्टवेह जाव पच्चपिणह ततेणते कोडविय पुरिसा चित्तसा
 रहिस्स एयमट्टविणएणा पडिसुणेति २ सा हट्टतुट्टजाव हियया खिप्पा
 मेव स अत्थ जाव जोहसञ्जमचाउ घट्ट आसरह जुत्तासे उवट्टवेति
 तमाणत्तिय पच्चपिणाति ततेणसे चित्ते सारही कोडिविय पुरि
 सोणा अतिते एयमट्टसोत्ता णिसम्म हट्टतुट्टजावहिययहाए कयवलि
 कम्मेकयकोउय मगलपायच्छित्ते सणह्ववह्वम्मिय कवय उप्पीलिय
 सरासणपट्टत्तेपिणह्हे गेविञ्जम विमलवर चिएहपट्टे गहियाउय पहरणे

भाव । (मणह्ववह्वम्मियकवए)इति कवचन्तमूलाय चर्मलोहमयकमूलिकादिरूपसञ्जातमस्येति
 वमिन सन्नह शरीरादीपणात् वड्ढगाढतरबन्धनेन बन्धनात् वर्मितम कवच येन स सन्नह
 वड्ढवर्मितकवच । (उप्पीलिय सरासणपट्टिए) इति उत्पीडिता गाढीकृता सिरा अस्थन्ते चिप्यन्ते
 अस्मिन्निति सरासनपट्टकम् (पिणह्वगेविज्जम) इति(विमलवरचिह्नपट्टे)इति पिनह्वमूर्त्तियगीवाभरण
 विमलवरचिह्नपट्टरव येन स पिनह्वगैवेयकविमलवरचिह्नपट्ट । (गहिया उहपहरणे) इति आयु-

जोडा आन्नासामलइ तेह महर्ध्वं बहूमूलभे'टणाप्रतिइ लिइ प्रदेसा राजानी समीपयका नीकलइ
 नीकलीनइ सेयविया नगरी माहि माहियइ जिहापातानु घर तिहा जाइ तेह महर्ध्वं बहूमूल
 भेटणउ घरमाहियामइ रेसेवक पुरुपनइतेडावीर एम वोल्यु कतावलु ज अही देवानुप्रियाउ
 कुत्रसहित ध्वजासहिरथनइविहूपातसइविघटाएकआगेएकपाकइघटाइमठहु धट धोडावहिलइ
 जीआनउ आणउ एह आन्ना ऊपरठामुडनइऊपरसउ पु तिह्वारपकी तेह सेवकपुरुप चित्त
 मारथीनउएहअर्थ आन्नाविनय करी सामलइसामलीनइ हर्ध्वंसतीपयाम्या चित्तनइ आणदा कता
 वलु ज सकव सध्वज युडनइ सञ्जवातुर्धं ट धोडवहिलि जीवीनइ आणइ तेह आन्नाप्रति ऊपरा
 ठीसउ पु तिह्वारपकी तेह चित्र सारथी सेवक पुरुपनइ समीपइ एहअर्थ एहवचनसामलाहियय
 अवधारी हर्ध्वंसतीपयाम्यु चित्तनइआणदीस्नानकीधु कीधउबलिकमघरनादेवतापूजाकाधाधा कौलुक
 मुखीतिलकादिकमगलीकदथेडूवादिकतेहाज प्रायक्लित्तडुस्थप्रादिकविघातवानइ अर्थइ -सरीरइ
 आहारोपउ काठउरुनाधुचमतेअगरथा कवचनेलोहनाकडीइकनाधुकाठीकरीवांधउ हइताघाना
 पाचमंमयाज्ञेणइद्राधउहइगीवाभरणी अनइनिर्मल प्रधान चिह्नपट्टमस्तकइकीगानेणइ गृहियाकइ
 आयुधतेपडगादिक तीरभालादिकमोडुअथ बहूमूल भेटियउ सेइतेइंनइतिहा चतुर्धं ट धोडवहि

महत्त्व जावपाहुड गिगहइ २ जेणेव चाउघट आसरह तेणेव उवा
गच्छइ २ चाउघट आसरह दुगहति वहुहि पुरुमुहि सणणइ जाव
गहियाउ वडपहरणेहि सइसपरिवुडे सक्कोरिन्द मल्लटामेणा छत्तेणा
धरिज्जमापोणा महया भडचडगरपइकरचदपरिक्खित्ति सयातो
गिहातो णिग्गच्छति सेयविया णगरि मज्झ मज्झेणा णिग्गच्छइ २
मुहेहि वासेहि पायरासएहि णाडविकट्टेहि अतरावासेहि वसमागो
केय अइस्स जणवयस्स मज्झमज्झेण जेणेव कुणाला णाम जण
वते जेणेव सावथी णगरी तेणेव उवागच्छति तेणेव उवागच्छत्ता
सावथीए णगरीए मज्झ मज्झेण अणुपविसति जेणेव जियशतुस्स
रणो गिहे जेणेव वाहिरिया उवट्टाण साला तेणेव उवागच्छति २
रहट्टवेति २ रहत्तातो पच्चासभति त महत्त्व जाव पाहुड गिगहइ
जेणेव अन्धितरिया उवट्टाणसाला जेणेव जिय सत्तुराया तेणेव
उवागच्छति २ जियसत्तुराय करयत्तपरिग्गहिय जाव कट्टू जणा
विज्जणा वट्टरवेइ २ ता त महत्त्व जाव पाहुड उवणेत्ति ततेणा

ध्वत्तेऽनेत्यायुध खेटकादिप्रहरणेन शकुन्तादिगृहीतान्यायुधानि प्रहरणानि च येन स गृहीता

तिहा जाइ जइनइ चतुर्थं ट घोटवडिलचडइइ घणइ पुरिसइ मनइवडकइ गृहियाइइ आपूजेणे
एहवइपुखेसाथि परवरया थकु कीरिटना फूलमालासहित छवइ मस्तकइ धारीतइ धके मोटइ
प्रकारि सुभटनउविस्तारधतसमूतइनइ वृ दइ वाडुघकउ पीताना धरथकी नीकलइ सेयविया
नगरीनइ माहिमाहिघइ नीकले नीकलीनइ सुसइ वसइ पडूरलगइ बालवइ अतिदूरनइ विचि
वासइ वसतउर केकयईनइ देसनइ माहि माहिथइ जिहा कुणाला नाम देस जिहा सावथी
नगरीइ तिहा जाइ तिहा जइनइ सावथीनइ नगरीनइ माहि माहि प्रवेशकरइ जिहा जित
सवुनु रायनु धर जिहा वाहिरला वइसवानी सभा तिहा जाइजइनइ रथथापइयापीनइ रथयका
ऊसरइ तेहमोटुअथ वडूमूल्य भेटणउ गृहइ जिहा माहिला वइसवानी सभा जिहा जितमत्तु
राजा तिहा जाइ जइनइ जितसत्तु राजाप्रति विडू हाधिकरी नीपजातुमस्तकइ थावत्त अजला
करी जयविजयशब्दइकरी वधावइ वधावीनइ तेहमोटुअथ वडूमूल्य भेटणउ थागलि आणामू
कइ तिहारपकी तेह जितसत्तु राजाचित्तनउसारथीनउ तेहमोटुअथ वडूमूल्यभेटणउ लेइ
चित्तसारथि प्रतिवस्तादिकइसत्कारदेइ काइकअभ्युत्थानादिकआदरदेइ आदरदेइविसजइऊतारा

सेजियशत्रुराया चित्तस्स सारिहिसस त मइत्य जाव पाहुड पडिहइ
 चित्त सारहि सक्कारेति सम्माणेति पडिसिउभइ रायमग्गमो
 गाठ वास आवास दलयति ततेणसे चित्ते सारहि विसज्झित
 समाणो जियसत्तुस्सरणणे अ तियाउपडिणिक्खमइ जेणेव वाहरिया
 उवट्ठाणसाला जेणेव चाउघटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ तेणेव
 उवागच्छिता चाउघट आसरइ दुरुहतिर सावत्थी णयरीए मउभ
 मउभेण २ जेणेव रायमगामोगाटे आवसहे तेणेव उवागच्छइ २
 तुरते तेणिगिगइइ' रइ ठवेति २ रहातो पच्चोरुभतिण्हाए कयवलि
 कस्सेकयकोउथ मगल्लपायच्छित्ते सुहृप्पवेसाइ मगलाइ वत्याइ
 पवर परिहते अणमहग्घा भरणालकिय सरीरे जिमियभतुत्तरागए
 वियणा समाणेपुव्वावरणइ कालसमयसि गधव्वेहि णाडएहि उवति
 विउभमाणे उवगाइउभमाणे उवलालिउभमाणे इहे सहफरिस्स
 रसरुवगध पचविहे माणुस्सए कामभोए पव्वणुभवमाणे विहरति
 तेणा कालेणा तेणा समएणा पासावच्चिउभे केसी णाम कुमार समणे

युधप्रहरण । (केसीणाम कुमारसमणेजाइ सम्पण्णे) इत्यादि । जातिसम्पन्न इति उत्तममा-

नइसासदेइ राजमागुइरछउ वासनइअर्थइ आवासकतारउदेइ तिह्वारपकी तेह चित्र सारधी
 विमज्जउ थकउ जितसन्नूना रायना समीपथकी नीकलइ नीकलीनइ जिहवां बाहिरलीवइसवानी
 समा जिहवा चतुषट धोडवहिलि तिहवा जाइ तिहवा जइनइ चतुर्थ ट अश्वरथइ चउहनइ चडीनइ
 सावाधी नगरीनइ माहिरथइ जिहवा राजमागइ रछउ आवास तिहवां जाइ जइनइ धोडाप्रति
 गृहइ रथघापइथापीनइ रथथकी उत्तरइ स्नानकीधु धरनादेवतापूजा कीधुउ कौतुकमधीतिलका
 दिमगलदधिदुर्वादितेहाज प्रायचित्तदुस्खविधातवानइअर्थइ राजसभाइप्रवेशवायोग्यशुउप्रविउ
 मगलोकपणवजित वस्त्र प्रधान पहिरइअल्पभारधणउ मूलएइवाआभरणतेणइकरी अलकृतासा
 भ यमानइइ सरीरजेइवु जिमणपाणी करणाअनतर इपिनिश्वइ एइवइथकइ हूतइपाकना
 प्रहरनइ समइअवसरइ गधवपुरुपइ नाटकीइसगीपइनाचतटइथकइ भलागीतगाइतइथकइ
 वाहितार्थपूरतइथकइहूतइ मनोभीष्ट शब्द स्थग्ं रस रूप गध एइपाउप्रकारइ मनुष्यसंबंधि काम
 भोगकानआपिसअधिविपयते कामकहायइतेनाटकजाभरसररीरसअधिविपयतेभीगकहियइ भीग
 वतउथकउ विचरइइइ तेणइकालि तेणइसमय पागर्वनाथनाअपत्यसतानाया केसी णाम कुमाः

जाइसपणणे कुलसपणणे बलसपणणे रूवसपणणे विणायसपणणे जाण
सपणणे दसणसपणणे चरित्तसपणणे लज्जासपणणे लाघवसपणणे उय
सीतेयसी वचसीवससी जियकोहे जियमाणे जियमाणे जियलोभे जिय
णिवे जितिदिए जियपरीसहे जीवियासमरणणे भयविप्यमुक्के तवप्य
हाणे गुणप्यहाणे करणप्यहाणे चरितप्यहाणे गिग्गहप्यहाणे णित्यय

नृपञ्चयुक्त इति प्रतिपत्तय, अन्यथा मानुषितृपञ्चसम्पन्नत्व पुरुषमावन्त्यापीति नास्योत्कर्ष, कश्चिदुक्ती भवति उत्कृष्टाभिधानार्थं चास्य विशेषणकलापोपादान चिकीर्षितमिति एव कुलसम्पन्नोपि नवरं कुलं पितृकपञ्च बल सङ्गनविशेषसमुप्य प्राण । रूपमनुपम शरीरसौन्दर्यं विनयादीनि प्रतीतानि नवर लाघव द्रव्यतोऽल्पीपथित्व भावतो गौरवत्तवात्याग । लज्जा मनीषा कायसज्जम (उयसी) तिष्ठज्जीमानमोऽवष्टभस्तदा न उज्ज्वली तेज शरीरप्रभातद्वान् तेजस्वी वची वचन सौभाग्याद्युपेत यस्यास्ति स वचस्वी अथवा वचस्मतेज प्रभाव इत्यथ स्तद्वान् वचस्वीय श्रव्योऽस्यातिमान् इह च विशेषणचतुष्टयेऽप्यनुस्वार प्राकृतत्वात्, जितक्रोध इत्यादित विशेषणसप्तक प्रतीत नवर क्रोधादिजयउदयप्राप्तक्रोधादिविकलीकरणतोऽवसेय । तथा जीवितस्य धारणस्य आशावाञ्छामरणाद्भवन्ताभ्या विप्रमुक्ती जीवितशामरणभयविप्रमुक्त । तद्भयैर्षिचक्र इत्यर्थं, तथा तपसा प्रधान उत्तम श्रेय मुनिजनापेक्षया तपो वा प्रधान यस्य स तप प्रधान । नवर गुणा सयमगुणा एतेन च विशेषणइयेन तप सयमी पूर्ववडाभिनवयो कर्मणे निजराजनुपादान हेतु मोक्षसाधने मुमुक्षुणामुपादेयोपदर्शनी गुणप्राधान्य प्रपञ्चनार्थमेवाह (करणप्यहाणे) इति याव(ञ्चरितप्यहाणे) इति करण पिण्डविशुद्ध्यादि उक्तञ्च पिण्ड अनाचार

श्रमण जातिमानुपचतेणइकरीसपन्नपूरउकुमारपणइ वालतपस्याअदिरितीमाउकुमारश्रमणकूल तेमाहपीठावमूधइ बलतेसिह्नथीपनउतेणइसहित सौदयपणउतेणइमहित विनयसहित ज्ञानइ करीपूरउ सम्पत्कइकरीपूरउ आठप्रवचनमातारूपचारिवतेणइसहित अकार्यथकीऊसरतु तेणइसहितइह लाघवतेइव्यथाअल्पउपधिभावथकीगारववयत्यागतेणसहित मननइवटतइभावहे तेजमरीरनीप्रभातेणइसहित सीभाग्यादिकसुणीपितवचनइसहित यसच्छणा तेणइक्रोधजीत्यु छइक्रोधनुफलदेपाडवचनथी अभिमानजात्युछइ मायातेपरपवनजेणइजीतीकइ नृप्याजीत्युछइ निद्राजीतीकइ पाचइइद्रियजीत्याकइ वावीसपरीसहजीत्याकइ जीवितव्यनाआश्रया मरणनुभय तेइयकामूकाणी तपप्रधानजेहनाअथवातइकरीप्रधानउत्तमइइएप्रमवलइप्रधानकइनु सयमगुणइ करीप्रधानकइ पिडविशुद्ध्यादितेणइकरीप्रधान दसविधिश्रमणधर्म अनाचारप्रवतिनुनिषेधतचनु निर्णय तथाविधस्यनुदानविषयअवश्यकरणी मायानिगइमाननिगइ क्रियानइविपइदचपणु क्रोध

प्यहाणे अजभ्वप्यहाणे मद्भवप्यहाणे भनाभवप्यहाणे खतिप्यहाणे
 मुक्तिप्यहाणे विजभ्वप्यहाणे मतप्यहाणे वभप्यहाणे वेदप्यहाणे णय
 प्यहाणे णियप्यहाणे सव्वप्यहाणे मोयप्यहाणे सोयप्यहाणे जाणप्य
 हाणे दसणप्यहाणे चत्तारित्तप्यहाणे चउइसपुव्वी चउणाणोवगएपच
 हि अणगरसएहि सद्धि सपरिवुडे पुव्वानुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम
 दुइअमाणे सुइ सुहेण विहरमाणे जेणेव सावत्थीणगरी जेणेव कोट्ट
 ते वेइए तेणेव उवागच्छइए सावत्थीए णगरी वहिया कोट्टए चितए
 अहापडिभव उग्गह उग्गिण्हत्ता सज्जमेण तवसा अप्पाया भावेमाणे

पवृत्तं निषेधनं निश्चयं तत्त्वामा निर्णयं । त्रिहितानुष्ठानेष्ववशामभ्युपगमी वा आर्जवमाया
 गृहीलाघवक्रिया सुदक्षितचान्तिः क्रोधनिर्गृहत्वम, गुप्तिर्मनोगुप्तादिनामुक्तिर्निर्लीभता विद्या
 प्रज्ञाप्यादिदेवनाधिष्ठिता वशानुपूर्व्यं । मन्त्राहरणयोगिष्यादि देवतादिष्ठिता । अथवा समा
 धना विद्यासाधनरहितमन्त्राब्रह्मचर्यं सर्वमेवार्कुशलानुष्ठानं वेदभाग्यं लौकिकं लौकीक्षरिक्तं
 कुप्रावचनिका भेदभिन्नं नयानैगमादयः, सप्तप्रत्येकं श्रतविधा निगमाविचिया अभिगृहविशेषाः,
 सत्यं भूतहितं वचं शौचं द्रव्यतो निर्लपता भावतोऽनवद्यं समाचरती ज्ञानमित्यादि दर्शनं
 सम्यकम् । चारित्र्यं वाह्यं सदनुष्ठानं यत्त्वे ह्यचरणकरणगृह्येषु च आर्यंवादि गृह्यणं तत् । आर्य-
 वादीनां प्रधानव्यपनार्थम् । तदुजितक्रोधत्वादीनामाज्ञवादीनां च क प्रतिविशेष उच्यते जित-
 क्रोधादिविशेषेषु तदुदय विफलीकरणम् । मार्दवंप्रधानादिषु उदय निरीधः । अथवा जितएव
 जितक्रोधादिरतएव चमादिप्रधान इत्येव हेतु हेतुमद्वावा विशेषः । तथा ज्ञानसञ्चय इत्यादौ
 ज्ञानादिसमुत्पन्नं ज्ञानप्रधान इत्यादौ तद्वता मध्ये तस्य प्राधान्यमित्येव मन्यवाप्य पानसक्त्य
 भावनीयम् । तथा "डारलं" इति उदाहृत्काराकारा धीर धीरगुणे धीरतवस्मी "धीरवम्भस्त्रवासीउ
 कूटसरोरे सखितविडलभेडलेसे" (चउइसपुव्वी चउणाणोवगए) इति पूर्ववत् (पञ्च हि अणगासएहि)

निर्गृहं निर्लीभता विद्याप्रतप्यादि मन्त्राहरणयोगिष्यादि वृत्तं कुसलानुष्ठानवेदतथाभेगनेयते
 मातनयं नियमते अभिगृहं हितवचनीपदेस भोवतेद्रव्यथकानिलपताभातथकापापलगाडइ ज्ञान
 तेमतिशुपचप्रकारइ दर्शनतंसम्यकं च्यारित्वसमतिगुतिनक्षणं चकदपूवनापारगामी मतिज्ञानं
 श्रुतज्ञानं श्रवधिज्ञानं श्रमपयवज्ञानं एतानिसहितपांचसइ अणगर साधिं परवरपउथकउ अनु
 क्रमइ चालताथका एकग्रामथकाभीजीग्रामप्रति जातीथकी सुग्रइ सुखइ विचरताथका जिज्ञा
 सावत्थी नगरी जिज्ञा कीट्टनासइ चैत्ययचायतन तिज्ञा जाइजइनइ सावत्थीनइ नगरीनइ वाहरि
 कीट्टनामए चैत्ययचायतन यथाप्रतिरूपसाधनइथीर्यतेरहवाता अनुज्ञातेथवगृहकहाय सज्जस

विहरति तएणा सावत्थीए गगरीए सिघाडगतिय चउक्क चच्चरचउ
मुह मचापहेमु महया जणसहेइवा जणकलकलेइवा जावपरिसा
पञ्जभुवासति ततेणा तस्स चित्तसारहिस्स मचाजणसह च जणकल
कलचसुणेत्ता एसेत्ता इमेयासवे अब्भत्यए जाव समुप्पजिभत्त्याकिण
अज्झसावत्थीए गायरी इन्दमहेइवा खदमहेइवा एवरुहमहेइवा मउ'
टमहेइवा वेसमणमहेइवा गागमाहतिवा भूयस्समहेइवा जक्खमहे
इवा धूममहेइवा चितियमहेइवा रुक्खमहेइवा गिरिमहेइवा दरिमहे

इत्यादिक वाच्य (महया जणसहेइवा) इति महान् जनशब्दपरस्परालापारिपक्ष इकारो
वाङ्मालङ्कारार्थः, वा शब्द पदान्तरापेक्षया समुच्चयार्थः । जनव्यूहो जनसमुदायः । “जणवी
लेइवा” इति वीलो अत्यन्तवर्णाध्वनि (जणकलकलेइवा) कलकलसपवीपलभ्यमान विभावा,
“जणउम्मीइवा” उन्नि सम्बन्धि “जणउक्कलियाइवा” लघुतरसमुदाय, “जणसण्णियाणइवा”
अन्तिमगतोऽनुरूपस्थानेऽन्तिमनामिकवमोलन “जावपरिसापयुवासइ,” इति यावत् करणात्
“बहुजणो अणमणणवमाइक्खइ एव भासेइ एव पण्यवेइ एव खलु देवाणुप्पिया पास
वच्चिअन्नेकेसीणाम कुमारसमणेजाइ सम्पण्णे जावगामाणुगाम दूइअभाण्णे इइ मागए इइ
सम्पत्ते इइ समीमटेमे इहेवसावत्थीए गायरी ण्जीइए चेइए थहाइव उगिण्हत्ता सज्जमेण
तवमा अप्पाण भावे माण्णे विहरइ त मह्यल खलु देवतहाइवाण समणाण समगोयस्स विस
वण्णयाए” इत्यादि प्रागुक्त समस्तपरिगुहः । (इन्दमहेइवा) इत्यादि इन्द्रमहोत्सवः । इन्द्रः शक्रः ।
स्कन्दः कात्ति किय रुद्रप्रतीतः । मकुन्दी वलदेवः गिबी देवताविशेषः, वैश्रवणो यक्षराधानागो
भवनपति विशेषः । यक्षीभूतश्च व्यन्तरविशेषः म्नुपश्चैत्यस्तूप चैत्य प्रतिमा वृक्षदरिगिरी

इ करी तपइकरी पीतानायात्माप्रतिमात्रतायका वासतायका विहरइइइ तेइ सावत्थीनगरीनइ
नइ पयसिघोडायाकारइतिकपधउवट चउवटउ धयामागुं तुमैलापक जइथीचारपयचालइतेचु
मुय सज्जमागुपईतइविपइ मोटउ लीकनुसअउपनुमाहीमाहीमाहिंवालावतुथयउ लीकनुप्रगट
सअउपनु यावत्सअइ लीकमाहीमाहिंइइइइइ अहीदेवानुप्रियाकेसीनामकुमारअमणइइआव्या
इइतेइनुनामगीवमाभलमहाफलतववादवुवराणनुसामलवुतेइनुपूक्खुइमकरीरानाटिक करीमनुय
परिपदासवाकरइतिह्वारपखीइ तेइनइ चिच सारथिनै तेइमाउलोकनउसअ लीकनुकलप्रगट
सम्प्रति सामलीनै देखीनै एइवउ आत्मानैविपै सकल्य उपनुप्या नथी याज सावधानै नगरीइ
इ इन्द्रमहोत्सव अथवा कात्तिकस्वामिनु महोत्सवाइमजमहोत्सवपदसधलेनेवू इस्वरमहोत्सव मकु द
कृष्ण वैश्रमण्यधनद भयतपवी भूतव्यतर व्यतरजाति धूमातचैत्यस्तूप चैत्यप्रतिमा वृक्ष गिरि पर्वत

वयासी किगादेवाणुप्पिया अञ्भ सावथीए णवरीए इदमहेइवा
जावसागरमहेइवा जेण इमे वइवे उग्गा णिग्गच्छति ततेणसे
कचुइ पुरिसे कौसिस्स कुमार समणस्स आगमणागइव विण्णच्छति
चित्त सारहि करयलपरिग्गइव जाव वद्धावेत्ता एववयासी णोवल्लु
देवाणुप्पिया अञ्भसावथीए णगरीए इदमहेइवा जाव मागरमहे
इवा जे ण इमे वइवे जाव वदा वदए णिग्गच्छति एव खल्लु देवाणु
प्पिया पासावव्विञ्भे कौसी णाम कुमार समणा जातिसपणणे जाव
दुइञ्भकाणे इहमागते जाव विहरइ तेण अञ्भसावथीए वइवे
उग्गाजाव इञ्भा इञ्भपुत्ता अप्पेगइया वदण वत्तियाण जाव
मइया वदा वदएहि णिग्गच्छति ततेणसे चित्ते सारही कचूइ
पुरिसस्स अतिए एयमइ मोच्चा णिसम्म इट्टुट्टुजावइविए कौड
विय पुरिसे सहावेइ २ एववयासी खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया चाउ
घट आसरइ जुत्तामेव उवइ वेइ जाव सत्यउ जाव उवइवेति

आगाराउ अणगारिय पव्वइस्सामी, पञ्चाणुत्तयाइ सत्तसिवत्तावयाइ दुवालसविइथिइ हि
पम्म पडिविञ्भस्सामी अप्पेगइया जिण्णभत्तिराणेण अप्पेगइया जीयमेयन्ति कट्टुगहाया कयवलि
कम्माकयकी उयमण्णलपायक्खित्ता सिरसा कण्ठे मालकडा आविइ मणिसुवण्णाकप्पियहारइहारति
सरप्पलवपालवमाणकउत्तय मोभाभरणावत्थपवर परिहिइया चन्दणालित्तगाय सरीरा, अप्पे-
गइया इयगइया अप्पेगइया गयगया अप्पेगइयारइगया अप्पेगइया सिविकागया अप्पेगइया
मन्दसाणिगया अप्पेगइया पायविहारचारिणी पुरिसवग्गुरायपरिखित्ता मइया उक्किइ सीइना
इया वीलकलयररवेण समुद्धरजभूय पिवरकरेमाया अन्वरतल पिव फोडेमाणा इति परिगुइ ” ।
एतच्च प्राय सुगम नवर गुणवतानामपि निरन्तरमभ्यस्यमानतया गिज्ञा व्रतत्वेन विचक्षणत्

मारयीवीलु वित्ते अहीदेवानुप्रियाउ आजसावथाइ नगरीइ इदमहोत्सवइअथवा जिज्ञा
लगा समूहमहीत्सवतालगिकइवु जेणइकारणइ एइ धणा उगुवसनी इमभीगादिक सवलीकहायी
घाउइवइठानाइइइ तिहारपथीतेइकञ्चुकिपुरुष केग्गिनउ कुमार थमणनउ आगमनउउगुइउकइ
निश्चयजेणइतेइ चिह्न सारयीप्रतिइ हायजोडा नमस्कारकरी वद्धावीवजायीनइ इमशीलउनयी
निश्चय अहीदेवानुप्रिय स्वामी आज सावथीइ नगरीइ इन्द्रमहोत्सव जालगिसागर महीत्सव
तानगिकइवउ जेणइकारणि एम धणाउगुवसना समस्तवणमनूयना वू इइवाध्या जाइइइ अमुना

ततेणसे चित्तसारही एहाएकयवलिकम्म कय कोउ मगलपाय
 च्छित्त सुद्धपावेसाइ मगलाइ वत्याइ पवर परहिते अप्पमइग्घा
 भरणाकिय सरीरे जेणेव चाउघट्टे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २
 चाउघट आसरहे दु रहति २ सक्कोरि ट मल्लदामेण क्खत्तेण धरि
 ज्जमाणेण महया भडवडगर चदपरिखित्ते सावत्थीए णयरी
 मज्झ मज्जेण णिगच्छइ जेणेव कोट्टए चेइए जेणेव केसीकुमारसमणे
 तेणेव उवागच्छइ २ चा केसिस्स कुमारस्स समणस्स अटुर सामते

“सत्तसिक्खावया” इति उक्त स्नाता कृतस्नानानन्तर कृत बलिकर्म स्वगृहदेवतायैस्ते कृत
 बलिकर्माय” । तथा कृतानि कोतुकमभ्यालान्येव प्रायश्चित्तानि दुःस्वप्नादिविघातार्थयै स्ते कृत
 कोतुकमभ्यालप्रायश्चित्ता । तत्र कौतुकानिमपीतिलकादीनि मभ्यालानि सिद्धार्थकदध्यक्षत दूर्वा
 दीनि तथा शिरसिकण्ठे च कृता माला यैस्ते प्राकृतत्वात्पदव्यत्ययो विभक्तिव्यत्ययश्चेति शिरसा
 कण्ठे माला कृता । तथा आत्रिद्वानि परिहितानि मणिमुवणानि यैस्ते तथा । तथा कल्पितो
 विन्यस्तीशरीष्टादशसरिकीर्द्धारो नवसरिकस्त्रसरिक प्रतीतमेययेस्ते तथा तथा प्रलम्बोडुबुनक
 लम्बमानो येषां ते तथा कटिसूवेणान्यान्यपि सुकृशीभाभरणानि येषां ते कटिसूवे सुकृतशीभा
 भरणा स्तत् पदद्वयस्यापि पदद्वयमीलनेन कमधारय, चन्दना च लिप्तानि गावाणि पत्र तत्तथा-
 त्रिधशरीर येषां ते चन्दनावलिप्तगावाशरीरा । “पुरिसवडुरा परिकिञ्चत्ता” इति पुरुषाणां वा
 गुरेव वा गुरापरिकरस्तथा परिचिप्ता व्याप्ता (महया) इति महता उत्कृष्टश्च आनन्दमहाध्वनि
 सिङ्गनादश्च सिंहस्यैव नाद । दोलश्च वर्षं व्यक्तिवर्जितो ध्वनि । कलकलश्च व्यक्तवच ।
 सरव एतल्लचणी योग्य स्तेन समुद्ररवभूतमिव समुद्रमहाघोषप्राप्तमिव सावस्तीन्नगरीमिति
 प्रकारइ निश्चय जे देवानुप्राइ पाश्र्वनाथनासतानीया केसी नास कुमार यमण जाति पूरा बलव
 सपन्नेइत्यादिकसधलुवणककइइयु पाचसइयतीनइसायइगामानूगामिबिहरइनाथका इहा
 आत्र्याइइ वनमाहितपनयमकरतायका विचरइ इइ तेषइकारणइ आजसावधीइ घणा उगु
 वसना भोगवसना इभनापुत्र एकेकोइकवांदवानमित्तइ जावत्सन्दइपूयणवत्तियाएक्कारवत्तिया
 णइत्यादिकसर्वपाठकइवुवस्त्राणसाभलवागु गारकरीहाथीघोडइबइठा मीटउमनुप्यनु वृ द वृ दइ
 वीटुपकउ जाइइइ तिह्वारपकी तेइ चित्र सारवांधी कचुकिपुरुषइ समीपइ एइनुअथ सांभलीनइ
 इइइइइवधारी इपसतोपपाम्यु चित्तमाहि आणदाउ सेवकपुरुषप्रतिइ तंडावइ तंडावीनइ
 एमगोलु जतावलुज अझे देवानुप्रिय चतुष्ट ट घोडवहिनिलि जीवीनइआणउ तिह्वार
 पझेतेइसेवक चित्रसारथीनुवचनसाभली इपसतोप पामातेइ सक्कथजरथआणाउभुकरि तिह्वार
 पझेतेइ चित्र सारथी स्नानकरण धरनादेवपूजइकिधाकोतुकमपीतिलाकादिकमपीतिलकादि

तुरएतुरए गिगिपइति रइ ववेति रइउ पच्चोरइति जेथेव कीसी
 कुमारसमणे तेथेव उवागच्छइ २ कीसिकुमारसमण तिक्खूत्तो आया
 इण पयाइण करेइवदति णमसतिर णव्वासणणेषाइदूरेसु मूसमाणे
 णमसमाणे अभिमुडे पजलिउडे विणएण पञ्भवासइ ततेण
 केसोकुमार समणे चिच्चस्स सारइस्सतीसेयइति महालियाए मइव्व
 परिसाते चाउञ्जाम धम्मकइइ तजइ सव्वातो पाणोणिवायाउवे
 रमण १ सव्वाउ मुसावायाउ वेरमण सव्वाउ अदिणणाणाउ वेर
 मण सव्वाउ वइइहाणाउ वेरमण ततेण सा मइति महालियामइ
 च्चपरिसा केसिकुमारस्स समणस्स अतिए धम्मसोच्चा इट्टुट्टुजावइ

गम्यते कुवाणा । अम्बरतलमिव आकाशतलमिव “स्फोटयन्तएगदिसाए” इति एकया दिशा पूर्वी
 तलरत्नयया एकाभिमुखा एक भगवन्त प्रति अभिमुखा एकाभिमुखा, “चाउघएटन्ति” चतस्रा
 घण्टा, अवलम्बमाना यस्मिन् स तथा । अश्वप्रधानो रथो अश्वरथ” त यत्नमेव अश्वदिरिति
 गम्यते श्रेय प्राग्ग्याख्यातार्थम्, जइजीवावसन्तीत्यादिरूपा धर्मकथा ऊपपातिकगुरदादवसेया

कमगलीकतेदधिदुवादिकतेहज प्रायश्चित्तस्वप्रविधातवानइ उपचार निर्दापराजसभाइ पहिरवा
 योग्य मगलीक वस्त्र प्रधान पहिरवा घोडसभारघणउ मूलणइवइआभरणइ अलकृतसरीरजेहनउ
 जिइा चतुर्घं ट घोडवदिलइ तिइा जाइजइनइ चतुर्घं ट घोडवदिलइ चइइर कौरिटफूल माता
 घइत इत्तइ धारातइवकइ मोटायीध सविस्तर बृ दबीटउउयकक साउयीइ नगरीनइ माइर
 थइ जाइ जिइा कोष्टनाम चैत्ययचायतन जिइा कीसी कुमार श्रमणनइ अतिवेगलुनइ तिइा
 जाइ जइनइ कीसीनइ कुमार श्रमणनइ अतिवेगलु तइा अतिदूकडुनइघोटाप्रति गुइइ रथ
 थापइ रथयका कतरइ जिइा कीसी कुमार श्रमण तिइा जाइ जइनइर कीसी कुमाइ श्रमणप्रति
 वसिबला जिमणामायासायी मांडाप्रदचयाकरइ वांइकरजीडीनइ मस्तकइ करीनमस्कारकरइ
 अतिदूकडुनइ अतिवेगलुनइ मूद्रघासेवाकरतुथकउ नमस्कारकरतुथकु साइमुथइ इयजोडा
 विनयकरी सेवाकरइइ तिइारपकी कीसी कुमार श्रमण चिव सारथीप्रति तेइ मीण घणउइइ
 चिरतइनउ महापूज्यपरिपणइ यनीनोपरिपदाइलाकनीपरि ध्याइइमहावृतजिइापइवा धम्मं
 प्रति कइइ तेकइइकइ सर्वयकाकृतकारितश्नूम प्राणातिपातप्राणासामोरेवीसादयतंइनुअतिपात
 भाम नासनउकरवृतेइयकी सर्वयकी हासक्रीधमान्मायालोभइमृपावोलवुतेइयकीवीजउमहावृत
 सर्वयकी राजस्वामीगुहजीवचदचनउनीयवुतेइयकी चिरमुनुएइविरमकसरवुएप्रमदावृतच्यार सर्व
 यकी अटारभेदेमैयुनआदानतेपरिगुहअनादिकएइविज्ञोलेयकी विरमवुनेवमहावृत तिइारपकीतेर

यथा वदित्ता णमसित्ता जामव दिसिपाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया
 ततेण से चित्तेसारही केसिस्स कुमारसमणस्स अतिए धम्म
 सोच्चा णिसम्म इद्धतुद्धजावहियए उट्ठाए उट्टेत्ति केसिकुमारसमण
 तिक्खूत्तो आयाहिण पायाहिण वदइ णमसति वदित्ता णमसित्ताएव
 वयासी सहसहामिणा भते णिग्गघेपावयणे पत्तियामिणा भते णिग्गघे
 पायावणे रोएमिणा भते णिग्गथपावयण अब्भूट्टेमिणा भते एवमेय भते
 तहमेय भते अविताहमेय भते असदिट्ठमेय भते इच्छियपडिच्छियमेय
 भते सव्वेणा एसमट्ठे सेजह तुब्भेवयहत्तिक्कट्ट वदइ णमसति एव
 वयासीजहाणा देवाणुप्पियाणा अतिए वहवे उग्गा भोगा जावं इब्भत्ता
 इब्भत्तापुत्ता चिच्चरहिण्यण चिच्चासुवणण एव धया धयावन्नवाहणा

श्रेयस्तु प्रागैव दर्शिता, (सहसहामी)त्यादि सहये अस्तीत्येव प्रतिपद्येनैतद्ग्रन्थ प्रवचन जैन शासन एव
 (पत्तियाम) इति प्रत्यय करोम्यत्रेति भावः, रोचयामि कारणरुचिविषयीकरोमि चिकीर्षामीतितात्-
 पयाद्यं किमुक्तं भवति, अभ्युत्तिष्ठामि अभ्युपगच्छामीत्यर्थः, एव मेतत् वद्ववद्भिः प्रतिपादित
 तत्तथैव भदन्ततथैतद्भदन्त यथा तत्त्ववृत्त्या वस्तु अवितथमेतत् भदन्तसत्यमित्यथ, असन्दिग्धमेतत्
 भदन्त सम्यक् तथ्यमेतदिति भावः, (इच्छिय पडिच्छियामेय भते) इति इष्टमभिलषित प्रतिष्ट
 आभिसुख्येन सम्यक् प्रतिपन्नमेतत् यथायुय वदथ, (चिच्चाहिरण्य)मित्यादि हिरण्यमघटित

मीठा सजिस्तर महापूज्यपरिषदा केसी कुमार थमणनइ समीपइ धम्मं साभली इष सतोपपामी
 चित्तमाहि आणदा वादा नमस्कारकरी जेइ दसिथकीपरिषदाआबुवीहूता तेषाइदसि ऊपराणइ
 तिह्वारपकी तेइ चित्तसारथी सेसानइ कुमारनइ थमणसमीपइ धम्मं साभली हियय अवधारी
 इपसतोप पाभ्यु श्रीदएनइविषइ उट्टइ ऊठीनइ केसी कुमारथमणप्रति वणिवेला करइ प्रदचि
 षादइ वादइ नमस्कारकरइ वादीनइ नमस्कारकरीनइ एम वोल्यु सहइकूळ हेपूज्य निम्मु थयती
 प्रवचनसिद्धात प्रत्ययकडप्रतीतिकपवु हेपूज्य निग्ग थ प्रवचनप्रति रोचवुकरिवानीवावाकरइ हे
 पूज्य निग्ग थ प्रवचनप्रति साहसुचालीआव्यु हेपूज्यतुमीकहीऊउतिमज हेपूज्यतेहतिमज हेपूज्य
 साचुएनुमाइ प्रवचन हेपूज्य एहमाहिकाइसदेइनथी हेपूज्य अलिखपिउसग्यक्प्रकारइ रइ प
 मिचज हेपूज्य साच एथर्थ तेइ जिम तुमेऊकूळ इमकही वादइ नमस्कारकरइ वादीनइइम
 वोल्यु जिम हेदेवानुप्रिया तुम्हारइ समीपइ धया भोगवशनी राजानइइविय इभ्य इम्यता
 षांठीनइरुपउ ह्वाडोमुवणं एमधनरुपीयागीधूमदि हाथीघोडादि वेसरसकटादि सखनांघर धान

कोस कोट्टागार पुर अतेउर चिच्चाचिउल धणकणग रयण मणिमो
 त्तिय सखसिलप्यवान सतसार सावतेय वित्यपुइत्ताविग्गोवइत्ता दाणा
 दाइत्ता परिभाइत्ता मुडेभवित्ता आगाराउ अणगारिय पत्त्वयति यो
 खलू अइ तह्मास वाएमिचच्चा हिरण तचेवञ्जावपव्वत्तित्तए अइया
 देवाणुप्पियाणा अ तिए पचाणुवइय मत्त सिक्खवावउ दवानसविइ
 गिइधम्म पडिवज्जित्तए अह्मासुइ देवाणुप्पिया मापडिवध करेइ
 ततेयासे चित्ते सारही केसिस्स कुमारसमणस्स अत्तिते पचाणुव
 त्तिय जाव गिइधम्म उवसपज्जित्ताणा विहरति ततेगा चेत्तेसारही
 केसिकुमार समणस्सणा वदति णमसति जेपोक् चाउघटे आसरहे

सुवर्ण' धन रूप्यादि धान्यवलवाहनकोश' कीप्टाकारपुरान्त पुराणि व्याप्यातानि प्रतीतानि च
 (चिच्चाविउल)धनत्यादि धन रूपादि कनकरानमणिभौतिकगणधरा । गिलाप्रवान विद्रुम सत
 विद्यमानमार प्रधान यत् स्वापतेय द्रव्य विकृद्यित्वा भवत परित्यज्यद्वगीपयित्ता प्रकटीकृत्य
 वदनन्तर दानन्दीनानायादिभ्यः परिभाषाव पुत्रादिषु विभज्य "अहिगय ज्मिवाजीवे" इति अधि
 गती सम्प्रतिपत्तानी जीवा बोवी येन स तथा, उपलब्धे यथावस्थित स्वस्वरूपेण विज्ञाते पुण्य
 पापी येन म उपलब्धपुण्यपाप, याथवाणा प्राणातिपातादीना सम्भ्रम्य प्राणातिपातादिप्रत्या
 कथानरूपस्य निर्जराया कर्मणा टे गती निज्जरणस्य क्रियाणा कायिन्थादीनामधिकरणाना खड्गा-

धीनाघर नगरी स्वीवादिक काडी विस्तीर्ण धनसुवर्णरानादिक मणिचद्रकातानि मीतीआरदेप्रकार
 दधिणावत्तराजपट्टादि चिद्रूम इतउ प्रधान स्तापतेपचद्रव्य नांखीनइ भूमिसाहिडाटाहुइतेगड
 करीनद अशीभयीदानदेश पुत्रापीवदिकभयीविहवीदेइ सुडहुइ गृहस्थाग्नमथकी यतीपणउ
 पामइइइ नही निश्चय हु' तिम हु तिमकरीसकु नहीकोडा हिरण्यादिक पूर्ववत दानदेश पडव
 जुदीचानियुग धूमाराइ देवानुप्रिय समीपि पचाणुवृत सात सिचावृत एहवु द्वारे प्रकारे गृहस्थ
 धमप्रति प्रगाकारकरस्य बलतुकेतीगुरुकइइइइयथासुखजिम इहलोकपरलोकिसुखइतिमकर
 बुहेदेवानुप्रीय नहीप्रतिवधकरिवुरतनरागइ पगिवारवु तिहारपकी तेइ चिब सारथी केगी कुमार
 थमप्रति समीपइ पचअगुवृतसातसिचावृतभारइमेदिगु हे धर्म अगीकारकरी विहरइइइ तिहार
 पकी चिबसारथी केसी कुमार थमप्रति वाइइ नमस्कारकरइ जिहा चातुर्ध ट अश्वरथ तिहा
 जाइवासावधानहूउ चतुष ट धीडवहिलइ चटइ जेइ दिशथी आव्युहु तउ तेइजदिसप्रतिकपरा
 गयु तिहारपकी तेइ चिब सारथी थमयोपासकयतीनुयावक सेवकहूउ जापवाइइजेणइजीवा
 जीवणतल इचेतनालचयोजीवचेतनारहितइजीवतेइजीवनी ४ भेद अजीवजापणि ४ भेद मासुइइपुण्य

तेषोव उपहारे सुगमणाए चाउघट आसरइ टुरुइति जामेव. दिसि
पाउभूउ तामेव दिसि पट्टिगए तेषासे चित्तसारहीसमणो वासति
जात्ते अहिगयजीवाजीवे उवलह पुणणापावे आसव सवर णिअभरण
किरिया हिरणा वधमोक्ख ऊमले असहिअभदेवे सुर गाग सुवणण.
जक्ख रक्खस किरणा किरिसगुरुल गधव्व मङ्कोरगाइ एहिदेवे
गयोहि णिगघातो पावयणाउ अणतिक्कमणिअभे णिगघेपावयणे
णिससकिये णिक्खखिये णिवतिगिच्छे लद्धे गहियहे अहियगयहे
पुच्छियहे विणिच्छियहे अहेमिजपेमाणु रागरत्ते आयमाउसो

दीना बन्धस्य कर्मपुद्गलजीवप्रदेशान्योन्याऽनुगमरूपस्य मीचरस्य सर्वात्मनाकम्मापगमरूपस्य
कुमल सस्यक् परिनाता चाश्रवसवरनिजरा क्रियाधिपकरव बन्धमीचकुमल, "असहेअभे" इति
अविद्यमानसाहाय्य कुतीरियं प्रेरितसम्पक्का विचलन प्रतिनपरसाहाय्यमपेक्षते इति भाव ।
तत्रा चाह(देव)सुरणागजक्खरक्कमकियणरकिपुरिसगरुलग धव्वमङ्कोरगाइ एहि देवगणहि णिग
न्याउपवयणाउ अणवक्कमणिअभे)सुगम नवर गरुडा सुवणणुमार । एवञ्चेतन् यतो (धिरगन्धे
पावयणे णिससिअण)नि सस्य (षिक्खखिये) दर्शनान्तराकाश्चारहित । (णिवतिगिच्छे) कन
प्रतिनिशब्द । (लद्धे)अथश्रवणत (गहियहे)अर्थाविधारणत (पुच्छियहे)सस्ये सति (अहियगयहे)
मध्यगुत्तरश्रवणतो विमलवीधात (विणिच्छियहे) । पद पर्यपलम्भात् (अहिमिजपेमाणु रागरत्ते)
पायनूरूपजेषुपुण्यतेसु सुभपुद्गलनुभीगवियुतेषुपुण्यना४२भेदपायना२२भेद आश्रवतेपाप भरा
विनुसहिद्वीनाहटातइतेइना११भेदतेणइकरीपापलीगनारापीइ समतिगुत्तादिकतेषुसवरतेइना
भेदसतावन कमनुनिर्जरवुआत्मप्रदेशयकीटाभनुमुवणंपापाणोहटातइनिजरातीत्परेहवार । अथा
तीकार्येआदिअधिकारणतेमत्तकटादिआत्मानरजिथापीइजेथैकरीतेअधिकारणमित्यागे अत्रितवपा
व योगएइविहूहेतइकरीनवाधुवुतेइनाचारभेद आवइकर्मयकीमूकाविनुतेमीचेतेइमास ५१भेदएइन
वतत्वनाभेदनइविपइकुसकइ एतलइजाननुगुणकण्णुआपदाइपडइयकइपणिदेइइसइअणनवा
इइनकाचित्तकमदेवनइपणिलइतणइकारणइ सुरवैमानिकदेवता भुवनपतीसुवणणुभरि यथाहिक
व्यंतरा राक्षस किंनरदेव व्यंतरा किपुरिसगुरुइग धवं मङ्कोरगादिक देव समूहइएहि निगू थ
प्रवचनजिनसनयकी अतिक्रमवासकाइनहीएणइदेवगणइपणियमयकीचालीइनपी । । गू, धणवचनइ
जिनमतनइविपइ सकारइतइइ अनेराधमनीवाकानकरइ फलप्रतिसंकारइत सुदनीएधलीधा
इइसामत्तरायकी अवगं हिपाउइअयजान्याकइ संसयरूपनइयकइगुरुपासइ अर्थणुकाइइ निश्च
यार्थकराकइ इइमाहिलामिज्जातेहीपणियमनइविपयप्रेमप्रीतितत्त रागइंकीरीगायाकी एइ

गिगगय पवयणे अट्टे अय परमट्टे सेसे अणट्टे चाउदसदुमुदिट्ट पुणि
 मासणीमुपडिपुण्णपोसइ सम्म अणुपालेमाणे ऊसियफलिहे अय
 गयटुवारे चियत्तत् उरपरघटपवेसे समणे गिगगघेफामुए सण्णज्जेण

अस्योनि प्रसिद्धानि तानि च मिञ्जा च तन्मध्यवर्त्तिमध्या अस्थिमध्यान ते प्रेमानुरागेण सार्वत्र
 प्रवचनप्रोतिलक्षणकुसुम्भादिरागेष रक्ता इव रक्ता यस्य स तथा केनोर्लक्षेनेत्यत आह (आयमा
 उत्रो गिगगन्ये पवयणे अट्टे परमट्टे से से अणट्टे) इति "आयुसे" इति आयुप्सन् एतच्च सामध्यात्
 पुरादेरामन्वण श्रेयमिति धनधान्यपुवदाराराज्यकुलप्रवचनादि (ऊसियफलिहे) इति उच्छ्रित
 स्फटिकमिव स्फटिकमन्त करण यस्य स तथा मीनीन्द्रप्रवचनावाध्या परितुष्टमना इत्यथ । एषा
 वृद्धव्याख्या अपरेत्वाद् । उच्छ्रित अगंल स्थानाटपानीय उर्हिकृती न तिरश्चीन कपाट
 पञ्चाहागादपनीत इत्यथ । उच्छ्रितो वा अपगतपरिघोऽगुं ला गृहद्वारे यस्याः सामुत्तमपरिघ
 उत्तमपरिघो वा भीदायातिरेकतीऽतिशयदानदायित्वेन भिक्षुकप्रवेशायमनर्गलितगृहद्वार इत्यथ ।
 (अत्रगय द्वारे) अपावृतद्वार । भिक्षुक प्रवेशार्थं कपाटानामपि पञ्चाकरणात् वृद्धाना तु भाव-
 नावाक्यमेवम् । सम्यग्दर्शनलाभे सति न कस्माच्चित् पापपिडकादिभेति श्रीभनमागुं परिगृह्ये
 उन्घाटित गिरा स्तिष्ठतीति भावः । (चियत्तन्ते उरघरपवेसे) चियत्तीतिना प्रीतिकरा । अन्त
 पुरगृहे प्रवेशे शिष्टजनप्रवेशेन यस्य स तथा अनेनानीप्यालुत्वमस्योक्त अथवा चियत्त प्रीतिकरो
 लोकाणामन्तमुरे गृहे प्रवेशी यस्यातिधार्मिकतया सवदाशङ्कनीयत्वात्स तथा (चाउदसदुमुदिट्ट
 पुणिमासिणी सुपडिपुण्णपोसइ अणुपाले माणे) इति चतुदश्यामष्टम्यामुद्दिष्टमित्यवमाया

भगवतकइइके अहोपाउपावतीयतीतुतेइचिवसारथी जाणेहेनिगु थ प्रवचनमूर्वाजिनमततेहाज
 अर्थधनएइजिनमततेइइजपरमप्रकट् अर्थपरमनिधान श्रेयथाक्तुपुवकलवधनधानकुप्रवचनादिकते
 निरर्थकससवअसारकइइमकरीमानइइएतलइ टमथानुगुणकइइइवइचारिवनुगुणकइइइइवट्ट
 सातेपाथी अट्टमापवतयिकउदियत्तेकलाप्यकतिथि तृनिकारिउदिष्टाअमावास्यापणिकणीइइइ
 पूर्णमातेवचिउउमासामवधनाएणीतयकइ प्रतिपूर्णेअहाराविधमनुमीपनुसम्यक्प्रकारइ आहा
 रादिकत्यारइपञ्चक्ष्णार्थपालतउथकउएतलइअग्रधारमउश्रीपधप्रतकङ्गुइवेसामान्यप्रकारइदानक
 इइकइ जेइनुअतकरणस्फटिकनीपरिनिर्मलकेअथवाभोजनवेलाइकपाउथकीआगलिजेथइपरहा
 कीधाकइकमाडउघाडाकइतेजइइयकइभिचूकनउप्रवेशनइइ छाडीकइराजाअतेपुरअनइलोका
 धरनइविपइप्रवेशेज्जेइसकाठाममाउइ थमण इवइवारमुअतधमविभागवृत्तनिगु थन्नमीनइ प्रासु
 कतिजीववृतकइइइइइयणीयतेधरदीपरहित अनादिक पाणी एकवीसप्रकारइखादिमटीपरापी
 रकी सुखवामवाजाठ पाटाउ आथय ससारकतृणादिकतेषइकरी वस्व पाव कावल नानइउ
 कात्रलीउ श्रौपधतेएकजाति भेपजतेअनेकजातीयचूकी तेणइकरीप्रतिलाभतुथकु धणइ सीलतेसु

अस्य पाण खाद्म सावमेण पीठफत्तग सैज्जा सधार तेण वत्य
 पडिग्गह कवल पायपुच्छणेण उसह भेसज्जेण व पडिजाभेसाणे २
 वरूहि सीनववयणुवेरमणा पच्चकखाण पोसहो ववासैहिं अप्पाणा
 भावेसाणे जाड तत्थराय कज्जाणिय जावराय ववहारे विज्जाताइं
 जियसतुणा सद्धिसयमेव पच्चवेअखमाणेविहरति ततेणसे जियशतु
 राया अणयाकायाइ महत्य जाव पाहुड सञ्जेइ चित्तं सारहिं
 सद्दावेइ एववयासी गत्तहिण तुम्ह विज्जासेवविज गगारि पयसि
 स्सरतणो इम महत्य जाव पाहुड उवणेहिं ममपाउग्गहणा जज्जा
 भणियमवितह मसदिट्ठ वयण विणवेहिं तिकट्टु विसज्जिते ततेण
 सेचित्ते सारहो जियसतुणारणा विसज्जिते समणे त महत्य जाव

पूर्णमास्या च प्रतिपूर्णासहोरात्र यावत् पीषधमाहाद्यादिपीषध सम्यक् अनुपालयन् (पीठफलगे)ति
 पीठमासन क्लृप्तक अवष्टम्भाथ श्रद्धयावसति । शयन वा यव प्रसारितपादै सुप्यति सस्तारको
 नमुतर, (वत्यपडिग्गह कवलपाय पुच्छणेणति) वरत् प्रतीत पतत भक्तु पान वा गृह्यातीति
 पतङ्गह लिङ्गादिवादच प्रत्यय । पावन्दापाटमोञ्जनक रजोहरण औषध प्रतीत मेषज पथ्य
 “आहा परिगृहेहिन्तवीकमेहिं अप्पाणा भावे माणे विहरइ” । सुगम वदचित्याठ । (वरूहि सील-
 व्वय गुणवेरमणापोसहोववासैहिं अप्पाणा भावे माणे विहरइ) इति तत्र शीलवृत्तानि गृह्य
 प्राणातिपातविरमणादीनि गुणवेरमणानि गुणवृत्तानि दिग्बृतादीनि औषधीपवासाश्चतुर्दश्यादि-
 पर्वीतथुपवासादिस्तैरात्मान भावयन् विहरति आरते “जेजेव केसीकुमारसमणे तेणेव उवागच्छइ
 उवागच्छिजा केसीकुमारसमण पञ्चविंशेण अभिगच्छइ । तज्जा । स दिचये” मित्यादि

भाचार जततेत्याप्राणातिपातवेरमणादिकगुणवृत्तानिदिवेरमदिश्चणतेचभिचकुड्यापारयजाउसरतु
 प्रथारव्यानतेनउफारसीप्रमूख औषधसहित उपवासतेणइसहित आप्याआत्माप्रति भावतुथकु
 रमाउतुथकु तेह तिहा राज कायमवाणु राज व्यवहारपरिणतह जिनमदुराजा सायइ पीतइ
 जयीतउथकु विचरइइइ तिहारपछी तेह जितमदू राजा कीइक समइ सीटुअथ वरूह भेटणु
 सज्जकरावइकरावति चिव सारथीपति तेडावइनेडावीनइ एमवीलतुणुज जाउ तुणु हटिअ
 सेजिया नगरीपति प्रदेश रायाइ एम पछमेदूअथ वरूह भेटाउ पछुवाउ माणु पारेणामतु
 निमकहू साचु सदेइरहित वचनप्रति वीनवजे इमज्जहो इणनहीचियसारथीविसज्ज याहापीधी
 तिहारपछी तेह चिज सारथी जितमदूइ राजाइ वितज्जउ धनु तेहनीदुअथ वरूह भेटणु

गिरावतिजियसतूसरगयो अतियाउ पडिगिक्करभति सावत्यीएणगरी
 मञ्जुमज्जेण जेणेवरायमग्गमो गाढे आचारे तेणेव उवागच्छइरत
 मञ्जुय जावडुवेइएहाए जाव सरीरे सकोरिठ छत्ते ण पायचार विहरिया
 मञ्जुया पुरिसवपुरा परिक्खित्ते रायमग्ग मोगाठीउ आवासाउ
 गिग्गच्छइ जेणेव कोट्टए चेईए जेणेव केसीकुमार समणे तेणेव
 उवागच्छइ केसिकुमार समणस्व अतिए धम्म सोच्चा जावउट्टाए
 उट्टेए जाव एववयासीएवत्तनू अइ भते जियसत्तुणारगणा पदेमिस्स
 इणयो इम मञ्जुय जावउवउणेइ तिकट्टु विसज्जिते तगच्छामिणा अइ
 भते सेयवियणगरि पासादीणा भते सेयविया णगरीए वदरसणिज्जाणा
 भते सेयविया णगरी अभिग्गवाण भते सेयविया णगरी समोसरइणा
 भते तुग्गेसेयविय णगरितणा केसीकुमारसमणेचित्ते ण सारइणा एव
 वुत्ते समाणे चित्तस्स सारइस्स एयमइ यो आठाति णोपरिजाणाति
 तुसिणीएसच्चिट्ठ ति ततेणसे चित्ते सारही केसिकुमार समण दोच्चपि

मच्चिचाना द्वय्यायां पुण्यताम्बूलादीनां "विउसरणयाए" इति व्यवसरणेन व्युत्सर्जनेन अचिचाना
 द्वय्यायामलङ्कारवस्वादीनाम व्यवसरणेनाव्युत्सर्ज्ज्णं क्वचित् "विउसरणयाए" इति पाठः । तत्र

गुहइ जितसवू रायना समीपथकी नीकलइनीकलीइइ सावत्यीइ नगरीनइ माइमाइइइइ
 जिहारजामागुंइ रयउ आवास तिहा जाइ जइनइ तेइ मर्षं भेटगु धापइ मूकइ नानकरावइ
 वस्वाभरण सरीरइपरिहरा कौरटकुलमालसहितज्जणरावी पालउ चानउयकउ मोटा पुक्कपचि
 वागुव तेणइवीटुयकु राजमागुं रइ आसतेइयका नीकलइ जिहा कोट्टनाम चेत्यजिहा केसी
 कुमार थमण तिहा जाइ जइनइ केसी कुमार थमणइ समोपइ धरे चामनी इपम तोपयानी
 छठए कडीनइ तइयारि एमुनाप्रकारइ निशयइ इ एणुय जितमयुइ राजाइ प्रदेनेनइ राव
 नइ एइ माटुअर्थं भेटयउ पइतुकरउ इमकरी विसर्ज्ज्णं तिमाठइचातु हउ इ एणुय सेइइवा
 नगरोप्रति तेगरीजेइवीइइचिचनइ प्रसन्नकरइइइ एणुय सविया नगरी एम जेइजोइइइ
 एणुय सविया नगरी मतोइइइइ एणुय सविया नगरी समीपतापयता एणुय इइइ केविया
 नगरीप्रति विहारपइ केसीकुमार थमणचिदाइ सारपीइ इमकइइयकइ पिणुत्तएणु एइ
 अर्थप्रति उधरइइइ नचणीकारकरइ अयवीजान रइइ तिहारपइोतेइ जि नगरी केसी
 कुमार थमणानी वीवीविया इमवोलउ

एववयासी एव खलु अह भतेजियसत्तु णाएसिस्सरणो इम महत्त
जाव विसजिए तचेव जाव समीसरण भते तुम्हे सेवविय णगरि
तएण केसीकुमार समणे चित्तेण सारहिणा दोच्चपि तच्चपि एव
वुत्ते समाणे चित्त सारहि एववयासी चित्ता सेज्जाणामण वणसडे
सियाक्किहे किण्हो भासे जावपाडिहवे सेतूण चित्ता वणसडे तेसि
बहूण दुपय चउप्पयमिय पसुपक्खिसिरीसवाण अभिगमणिज्जेहता
अभिगमणिज्जे तसिचणचित्ता वणसडसि वडवे भिंजूगा णामपावस
मुणापरिवसतिजेण तेस वहूण दुपय चउप्पयमिय पसुपक्खि सिरी
सिवाण चेवमससोणिय आहारेति सेगूण चित्ता वणसडे तेसि बहूण
दुपयचउप्पयसरी सिवाण अभिगमणिज्जे णोतिकिम्हाभते सोयसग्गे
एवामेव चित्तात्तु ज्झपि सेववियाए णथरीए पदेसीणामराया परिवसइ
अधम्मिए जाव णोसम्म करभरवितिपवत्ते त्तिणकह अह चित्ता सेव

अचित्ताना द्रव्याणा क्वादीना व्यत्सर्जनेन परिहारेण । उक्तञ्च । “अवशेइ पञ्चककुहाइ
रायवरचिधरुवणि क्त खगोवाहणमउडन्तइ चामरमउय”इति । एकाग्राटिका यस्मिन् तच्चथा

प्रदेसी रायनइ एह महार्य भेटणुलेइ विसर्जउ तिमज्जपूर्वत सेवियानगरीजोइवायोग्यकइ समी
सरउ हेपूज्य तुमे सेवविया नगरीप्रति तिह्वारपछीकेसी कुमार अमण चित्तनइ सारथीनइ त्रिवेला
वणिवेला एमकइइथकइइतइ चित्त सारथीप्रतिइ एम वीला हेचित्त तेइययादृष्टातइ वनखड
कोइकइइ कालु दासनुवर्णइ कालाकइ कातिजेइनी वननुवर्णक भलूरूपकइ तेइनिश्चइ हेचित्त
रथीप्रति वनखड तेहनइ ध्यानइ द्विपद चतुस्पद मृग पसु पक्षीउ दरी तुलनइ आगनिवायोग्य
हुइआदरवायोग्यहुइइत्यर्थं चित्तकइइकइ भगवनवनखडपसूपक्षीनइआगमिवायोग्य बलीगुइ
कइइइइतहा हेचित्त वनखडनइविपइ धणा भालआहेडा नाम पापरु पसुपक्षीनामारुणहार
वसइ जेहआहेडा तेइना धणाना द्विपद चतुपद मृग पसु पक्षी उ दिर कलादिकनु मासलोहाप्रति
आरभरचइ तेह निश्चइ हेचित्त वनखड तेहनइ ध्यानइ द्विपद चउपद उ दिर तुलादिकनइ
आगमवायोग्यहुइ चित्तकइइकइइइवलीगुरुकहेकैकाइकतेवनखडआगालिमिवायोग्यनहुइवनी
चित्तकइइकइ तेहवनखडसोपसग् यउ मरवानुवाधवानुवामतेइथयउतेमाटेतेवनखडपसूपक्षीनइ
आगमिवानैयोग्यनइहुइवलीगुरुकइइइएणइदृष्टातइ हेचित्त तुम्हारी सेवियानइ नगरीनइ
प्रदसी नाम राजा वसइके अधर्मकै अहमिठेइत्यादिकसवपाठकइवु पातानाईसनइविपइर्पाय

एयमद्द पियणिवेदेमोपियते भवउ अरणमरणस्स अतिए एयमद्द
 पडिमुणति २ जेणोव सेयवियाणयरी जेणोव चित्तस्स सारहिस्स
 जेणोव चित्ते सारही तेणोव उवागच्छइ चित्त सारहि करयल जाव
 वहावेति २ एववयासी जस्सणा देवाणुप्पिया टसणा सखति जाव
 अभिलसति जस्सणा णाम गोयस्स विसवणयाए इट्टतुइ जाव भवइ
 सेणा अय पासावव्विज्जे केसीणाम कुमार समणे पुव्वाणुपुव्वि
 चरमाणे जाव समोसहे जावविहरति तण्णमे चित्ते सारही तेसि
 उज्झाणे पालगाण अतिए एयद्द सोच्चा णिसम्म इट्टतुइ जाव
 आसणाउ अब्भूहेइ पायपीठाउ पच्चोरुइति पाउवाउ मुयति २
 एगसाडिये उत्तरासग करइ २ अज्जलिमउलिय इत्थे केसीकुमार
 समणाभिमुहे सत्तइपयाइ अणुगच्छइ २ करयलपरिगगहियं एव
 वयासी णमोत्थुण अरइजाण जावसपत्ताण णमोत्थुण केसिस्स
 कुमारसमणस्स ममधम्माइ रियस्स धम्मोवसिस्स वटामिण भगव
 तत्थय इइगए तिव्ककट्टू वदति णमसति उज्झाणपान्णए विउलेण
 वत्थ गधमल्लालकारिणा सक्कारेति समाणेति विउलेणा जीविता

भनु उनुइनइवीउ माहोमाइिनइ समीपइ एइवचन साभनउ साभलीनइ जिहा सेघविज
 नगरी जिहा चिक् सारथीनउधर जिहा चित्रनाम सारथी तिहा जाइ चिक् सारथीप्रतिहायजोडी
 मस्तकइ चहुडी वहावैवहावीने एमबोल्या जेइना अहीदेवानुप्रिया तुम्हे दर्शन प्रतिवाउउ उउ
 प्रायुवुं अभिलसउउउ तंइनु नामगोवनइपणि साभलइयकइ हर्षसतोपवत थाउकइ जेइ एउ
 पाउवनायना सतानीया केसी नाम कुमार अमण अनुक्रमि वनमाहि समीसरग यान्नाउकी
 विचरइकइ तिह्जारपकी तेइ चिक् सारथी तेइ वनपालनइ समीपइएइवचन माभली हीइअववागी
 हर्षमतोप पामी आसणयको उठइ पाटपीठयकी अतरइ पगनीवाणहीमूकेमकीनइ एक्कनाटिक
 उत्तरासगकरइकीनइ करविएकठाकीरनइसायइहायजोडीनइ केसी कुमार उमइ हाइमु मात
 आठपगला जाइ जइनइ हायजोडामस्तकइचहुडी एम बोल्यु नमस्कारथाउ इरिइतनइ टाय
 उपत्ताणलगइ अनतातीर्थकरनइ नमो बोल्युनमस्कारथाउकेसी कुमार उमइइ माइराधम्म
 चायनइ धर्म्मपिदेसकनइ बाउउउउ तुमभगवतप्रति तुम्हेतिहावनमाइपुइताउवइइहायकउ
 इमकरी वादइ नमस्कारकरइ वनपालकप्रति पुण्ड्र वस्त्र गध पूजमाया आभरणइकरी वस्त्र

रिह पीडदाणा दलयति पडिविसञ्जति कोडविय पुरिसे सदावेइ
 २ एववयासी खिप्पामेव भोदेवाणुप्पिया चाउषट आसरह हुत्ता
 मेव उवट्टवेह जाव पव्वपिणह ततेणते कोडविय पुरिसा खिप्पामेव
 सच्छत्त सञ्जय जाव उट्टवेत्तरतमाणत्तिय पव्वपिणत्ति से चित्ते
 सारही कोडविय पुरिसाणा अतिए एयमट्ट सोच्चा णिसम्म इट्टतुट्ट
 जावहियए ण्हाएकयवलिकम्मे जाव सरीरे जेणिव चाउषटे जाव
 दुगहत्ता सकोरिट महयाभडचडकरेणा तचेव जावपज्जुवासइ धम्म
 कहा जावतण्णा से चित्ते सारही केसिस्स कुमार समणस्स अतिए
 धम्म सोच्चा णिसम्म इट्टतुट्ट तच्चेव एववयासी एवखलु भते अम्हं
 पदेसीराया अधम्मिए जाव सइस्सविज्जणवयस्स णोसम्म कभर
 पव्वत्तेत्ति तजइण देवाणुप्पिया पदेसिस्सरणो धम्ममाइक्खेज्जभा
 वहुगुणतर खलु होज्जभापदेसिस्सरणो तेसिणा वहुणाय दुपय चउ

वरतकणीयुक्तेरुपनृत्यमान स्तदभिनयपुरस्सर नत्तमानात् उपगीयमान सद्गुणानाध्यानात् “दसण

दिकपहिरावइ आदरदेइ धणउ जीवइतिहालगइभीगवे एतलु प्रीतिदानदेइदेइंनइ ऊपराठा
 विसर्जइ सेवकपुरुषप्रति तेडावइ तेडावीनइ एमबोल्या ऊतावलु अहोदेवानुप्रियाउ क्तुषट
 धोडवहिलि जीवीनइ आणउ माहरीआन्ना ऊपराठी तिच्चारपकी तेह कीडवीयसेवक पुरुष
 ऊतावलु ज सक्ख सध्वज रथआणीसमीपइयापइनइतेहआन्नाऊफराठी सव पउ तेह चिव सारथी
 सेवकपुरुषनइ समीपइ एहअर्थं सामलीहीइ अवधारीहर्षसतोपपामीस्नानकीथै जिनप्रतिमाएजइ
 थावकसधलानइसम्पत्कनउऊचारआणदनीपरिजाणवुतेमाइइचिवसारथीइअन्ययुधिकदेवगुरुवाद
 वापूजवानियमलेदेवअरिइतनीप्रतिमावाइइपूजइपवित्तवग्गाभरणसरीरिपहिरी जिह्वा चतुर्षट
 रथ तिहाजइ ऊपरिचडीनइ कोर टफूलमालसहितकवधरावी मीटा सुभटविस्तारसहितपरधरइ
 धकु पूर्वनीपरि पचअभिगमन साचवतुथकुसेवाकरिइइ कीसीगुरनइधमकथाकही परिपदादीठामि
 पूहतीतिच्चारपकी तेह चिव सारथी कीसी कुमार शमणनइ समीपइ धर्मप्रतिसामलीहिययवधारी
 हर्षसतोपपामी पूर्वनीपरितुमारनिगुंथप्रवचननइप्रतीतुसदहूइमकहीइम बोल्यु असुनाप्रकारि
 निश्चइ हेपूज्य अम्हारउ प्रदेसी राजा अधम्माइइ जालमि पीतानइपणि देसनइ नधीसुधु
 करभ प्रवत्तावतउ तेइजइ हेदेवानुप्रियतुमे प्रदेसी रायनइ धर्मकइउतउ धणउ गुण निश्चइ
 हीसइतेकीइनइगुणहोस्यइतेकइइइइप्रदेसा रायनइ धर्मकइस्युनु धणुगुणइसइधणानइ रिपद

पिय मिग षमु पखि सिरीसिवाणा तजइया देवाणुपिया पदेसि
 म्सरणणो धम्मामाइ खिञ्जा वड्डुगुणत्तर फलञ्जेञ्जा तेमि वड्डुण
 ममणा साइण भिक्खुयाण तजइया देवाणुपिया पदेमिस्स वड्डु
 गुणत्तर होत्या जणवयस्स तएण केसीकुमार समणे चित्त सारइ
 एवखलु चउइ ठाणेइ चित्ताजीवाकेवलि पणत्ते धम्मणोभेञ्जा
 सवणयाएत आरामगयवा उञ्जाणगय वा समण वा अभिगच्छति
 णोवदति णोणमसति णोसक्कारिति णोसमाणेइ णोकल्हाण मगल
 देव चेइय पियपञ्जवासति णोअट्टातिइेइइ पसिणाति वा गरणाइ
 पुच्छइ पएणा वाणेण चित्ता जीवे केवलि पणत्त धम्मणोलभति
 सवणायाए सवणायाए उवस्सयणाय समणा वा तचेव जाव पएणा
 वियट्टाणेण चित्ताजावे केवलिपणत्ते धम्म णोलभति सव्वरुणयाए
 गोयरग गय समणा वा जाव णोपञ्जवासइ णोविउत्तेया असरणा

कच्छइ" इत्यादि काञ्चति प्राचयते । प्रहते अभिलषीति चत्वारोप्येकार्थं । (चउइ ठाणेइ) इति
 आरामादिगत थमणादिक नाभिगच्छतीत्यादिक प्रथमकारणम् । उपाय्यगत नाभिगच्छतीत्यादि

चतुष्पद मुग पसू पखी उ दिरतुलादिकनइएतलइतुमीप्रदेसीराजाजीववधकानिनिवर्त्तसतेमाटइ
 द्विपदचतुपदनइघणाउपमारघासइ तेमाटइजतुम्हेदेवानुप्रिया प्रदेसी रायनइ धर्मकइस्यउ तउ
 घणुगुणहूसइ तिइयकीभलु फलहामइवली तेघणानइयमस्यादिक ब्राम्हणध्वजादिक तथाभिचूक
 भिजाचरनइ घणु गुणहूसइवकतेमाटइजेउ भवार्थपूर्वकतेमाटइजेउ हेदेवाणुप्रियतुमे प्रदेसीराय
 नइ धर्मकइसुनु घणुगुण हीस्यइ वलीपोतानादेसनइपणिघणुगुणहोस्येधर्मसामलीप्रदेसीपोताना
 देसनइविपयकरभआकरउ नहीप्रवत्तोइवइचिवइ द्रमकहीपकीकेसीकुमार थमण चिवसारधीप्रति
 इम अमुनाप्रकारइनिश्चइ चिहू ठाणेइ हेचिव जीव केवलीनु भाप्यु श्रुतधर्मप्रति नपामइ
 सामलवु तेकइइइइ पुरुपस्वीनइरमवानुठामतेआरामतिहापु जनीहूइ नगरीसमीपवसि वनउत्तं
 उद्यानतेतिहापुहूताहूइ थमणतपस्वी जीवनइ मइणुइमकइतेमाइणएतलइपचमइवृतधारइन
 वादइ अनइहायनजोडमस्तक नूनमाउइ नचादरदेइ तुचितसेवाकरइ नहीकल्याणकारकनु
 मगलीकहेतु देवसवधिप्रतिमानोपरि सेवाकरइ नहीअर्थेन्नार्थहेतुकारण परउ धमीकूनइइते
 व्याकरण प्रति नपु इइएणइ कारणइ हेचिव जीवकेवलीकारण धर्म अधर्म नपामइ म्मसव
 इनिप्रथमकारण उपाय्यपुहूता यतीप्रति तिमजपूर्वनीपरिनमस्कारकरइ प्रमादिकपुइइइइ
 इणइकारणइहेचित्तजीव केवलिभापित

सामलवुधीलुकारण शोउरुइ पुइइइइ

पाणखादण सादमेण पडिलाभेइ णोअद्वाइ जाव पुच्छति एएण
 चिद्वाणेण चित्ताजीवे केवलि पएणत्तधम्म गोलभइ सवणयाते
 जत्थवियण समणेण वा माइणेणवा सद्धि अभिसमरगच्छइ तत्थ
 वियण हत्थिण वा वत्थेण वा अप्पाण आवरित्ता चिद्धइ एएणद्वा
 णेण केवलिपएणत्त धम्म गोलभइ सवणयाते एएहि चउहि ठाणे
 हि जीवे केवलि पएणत्त धम्म गोलभइ चित्ता चउहि ठाणेहि
 जीवे केवलि पएणत्त धम्म लभइ स वणयाए तज्झा आराम गय
 वा समण वा माइणा वा वदइ णमसइ जाव पञ्भवासति अद्वाइ
 जाव पुच्छइए एणाद्वाणेण चित्ता जाव लभति स वणयाए एव उव
 स्सय गय गोयग गय समण वा जाव पञ्भवासति विउत्तेण जाव
 पडिलाभेति अद्वाइ जाव पुच्छइ एएण विद्यत्थ वियण समणेण वा
 मइणेणवा अभिसमागच्छइ इतत्थ वियण णोइत्थेण वा जाव
 आवरेत्ताण चिद्धइ एएण विद्वाणेण चित्ता जीवे केवलिय पएणत्त

द्वितीयम् । प्रातिहारिके पीठफलकादिनो मन्वयन्तीत्यादि तृतीयम् । गीचरगत नाशनादिना
 प्रतिलाभयतीत्यादि चतुर्थम् । एतैरिव चतुर्भिः स्थानैः केवलं प्रज्ञप्तं धम्मं लभते श्रवणतया

यतीतिप्रतिवादइ मनङ्गी सेवानकरइ विस्तीण असनअनादिक प्राणीखादिममेव सादिममुपवाम
 तेइइकरीप्रतिलाभेनदेइइत्यर्थं अथहेतुप्रति पूरुइइइकारणइ इस्थानक हेचिव जीव केवली
 भापित धर्म्मनपामइ साभलवतीजुकारण जिहा थमणनइ साप्माअरणइयतीनइ साथि मिल
 नुथाइ तिहापणि सायइ करी वस्वइ करी आपणाआत्माप्रति ढाकीनइ रइइ वादइनहीआहार
 पाणीतदेइणइकारण हेचिवजीवकेउलीभापित धर्म्मसूव नपामइ साभलजइतिउत्थउकारणइ
 णइइ चिद्धइ कारणइ हेचिवजीव केवलीभापित युतधर्म्म नपामइ हिवेहेचिव विद्धइकारणइ
 जीव केउलीभापित धमयुतधमपामइ साभलवुतेकइइइइ आरामइ पुहुता थमण माइणप्रति
 वाठइ नमस्कारकरइ सत्कारइटेइ सेवाकरइ अर्थं हेतुप्रति पूरुइ इयइकारणइ हेचिवजीव
 धमपामइ साभलवुप्रथमकारण१ उपाथयपहुतायतीनइवादइप्रअनपूरुइवीजुकारण गोरवरीइ
 पहुतानइ यतीप्रति वादइ सेवाकरइ प्रामुक विन्तीर्थं आहारपाणीइ करी प्रतिलाभइ इत्यर्थं
 टेइअथ हेतु प्रतिपूरुइ एणइकारणइधम्मपामइवीजुकारण जिहापणियमण माइणनइसायइ
 मिलनुथाइ तिहापणि नहीहायइयाइ वम्बइकरी आपणा आत्माप्रतिढाकीरइइ णइइनहीकारणइ

धम्म लभइ सवणए याए तुम्हण चित्तापएसीराया आरामगय वा
 तचेव सब्ब भाणिघव्व आइल्लणण गमएणा जाठ अध्याण आवरे
 ताणा चिट्ठति त कइ तु चित्ता एणस्मिस्सरणो धम्ममाइखेसामो त
 तेण से चित्ते सारही केसिकुमार समण एववयासी एव खनू भते
 अगगायाकयाइ कवोण्हि चत्तारि आसाउवणय उवणीयाते मए
 एणस्मिस्सरणो अणयाचेव विणणइया त एणा खनूभतेकारणोण
 अइ पएसिसयणा राय देवाणुप्पिया ण अ तिय इव्व माणस्सामोत
 म्हाण देवाणुप्पिया तुमेपएसिस्सरणो धम्ममाइखेज्झाइ वदेण
 भते तुम्हे पएसिस्सरणो धम्ममाइखेज्झा ततेणा केसीकुमार समणे
 चित्त सारहि एववयासी अचिताति चित्ता जाणिस्समोत तेणसे
 चित्ते सारही केसीकुमार समण वदइ णमसति २ जेणेव चाउघटे
 आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ चाउघट आसरह दुहुइइ जामेव टिमि

अवणेनेति भाव । जत्थविपणमित्यादि वसापि अमण साधुमाइत परमगीतार्थ थावकी चया
 गच्छति तत्रापि इस्तेन वस्त्राञ्चलन क्रमेण वात्मानमावृत्य न तिष्ठति इट प्रथम कारणम् । एव
 शंषायपि कारणेन प्रत्येकमेव भावनीयानि तुम्भचणचित्ताए सीराया आरामगय वात चेव मव

हे चिव जीव केवली भापित धर्मते मूवपामइ साभलवु चउधु प्रकारण ४ तुम्हारउ हे चिव पदेसी
 राया आरामपडूताय तीनइ वादइ पूर्ववत कहिवउ पइलइ चालवइ जिहालणि आपणु आत्मा
 ढाकानइ रइइ नु किमनुवितक्वे अहोचिव प्रदेसी रायनइ धर्मप्रति कइ तिःभारपकी तेइ चिव
 सारही केसीकुमार समण प्रति इमवीलु अमुनाप्रकारनिश्चय हे पृज्य अ'यटाकोइ कसमइ कवीज
 देसनइ लोकइ च्यार धीडा चेडिणीरूप आप पीऊइ तमइ प्रदेसी राजनइ बीडकसमइ जणाया
 इइ तेइएणइ निश्चय हेपृज्य इइउपाइ हू प्रदेसी राजाप्रति तुम्हारइ समीपइ शीघ्र आणस्यु
 तेमाटइ चहो देवाणुप्रिया तुमे प्रदेसी रायनइ धर्मकहिवु मननइ उदइ नसकण हे पृज्य तुम्हे
 प्रदेसी रानइ धम्म कहिवु तिहारपकी केसी कुमार अमण चिव सारही प्रति इम वील्या अपितश्च
 ये तेइ हे चिव जाणीसइ तिहारपकी चिव सारही केसीकुमार अमण प्रति वादइ नमस्कारकरइ
 जिहा चतुध ट धीउचइलि तिहा जाइजइनइ चतुर्ध ट अश्वरवइ वढइ जेइदसिधी प्रगटइउ
 हू तू आहु तेइदमिप्रति ऊपगढगयु तिहारयकी तेइ चिव सारही कालि प्रकागरूपप्रभातनारायि

पडिगए ततेणसे चित्तसारही कल्लपाउप्यभाएरयणीए फुल्लूप्यल
 कमल कोमलुम्मिल्लयमि अहेपाडूरे पभाए कयणियमा वस्सए
 सहस्सरस्समि दिणायं तेयसा जलते सीउ गेहाउ णिगच्छइ २
 जेणेव पणसी राया तेणेव उवागच्छति २ पदेसिराय करयल जाव
 कट्टू जणण विजणणा वहावे एववयासी एवखलूटेवाणुप्पियाणा कावा
 एहि चत्तारि आसाउ उवयणउ वणीयातेयमए टेवाणुप्पियाणा एहि
 यासामी आसे आइठिया पोसइ तएण सेपणसीराया चित्त सारहि
 एव वयासी गच्छाहिणा तुम्हे चित्तातेहि चउहि चेव आसेहिं आस
 रइ जुत्तामेव उवट्टवेहि २ जावपव्वेप्पियाणहि ततेण चित्ते सारही
 पएसिणारणणा एव वृत्तिसमाणा इट्टतुट्टहियए जाव उवट्टवेति २
 एवमाणत्तिय पच्चप्पियाणति ततेणसे पएसीराया चित्तस्स सारहिस्स
 अ तिते एयमट्ट सोच्चा निसम्म इट्टतुट्टजाव अप्पमइग्घाभरणालं

भाणियव्व आल्लजडगमएणन्ति प्रथमगमकेन तद्यथा युष्माक प्रदेशी राजा हे चित्त आरामादि
 गत न वन्दते यवापि च थमथात्यागच्छति तत्रापि इस्तादिनात्मानमावृत्य तिष्ठति त कइन्न
 चित्ता इत्यादि सुगमम् । असाण सम किलामसम्मवणेमी इति अश्वाना सम खेद क्लम
 ग्लानि सम्यक् अपनयाम् स्फोटयाजडा खलु जडमित्यादि जडमूढ अपण्डित निर्धिज्ञान शब्द-

कमलनीपापडी के उघडी इत्यथ रात्रिपाथ उल प्रभातबैथणुतिष्ठा चित्रइ काधउ नियम दिव
 सववि पत्त्वरकाण अनइ आश्रय कपडिकमणु सहस्र किरण श्रीमूर्त्यैतिजइ करी जमुल्यमानउ
 पउ तिष्ठारपक्षी चित्तपोतानाधरयकी निकलइ नीकलीनइ जिहा प्रदेसी राया तिष्ठा जाइ ज
 नइ प्रदेसीराजाप्रति हायजोडामस्तकइचडूडा जय विजयसब्दइ करी वहावइ वहावानइ एम
 बोलुपु प्रमुनाप्रकारइ निश्चइ हेदेवानुप्रिया तुमनइ कञ्जेदेसनइ लोकि च्यार धोडा भेटणारुप
 आययीकइ तेहअश्व तुमनइ कीडकसमइ जाणाव्याकइ आवउहे स्वामी तेहघोडा आत्माना
 ऋद्विबेगस्य तेनइ करी सडित तेहकेह वाके देपु तिब्भार पक्षी तेह प्रदेसी राजा चित्र सारही
 प्रति इमबोलताइया जाउ नुरे नं चित्र तेणइ चिह्नइ निश्चइ धोडइकरी धोडवहिलि जीवी
 नइ राणउ आबनेइ माहुरा आजाऊपरठासुपु तिब्भार पकइ तेह चित्र सारथी प्रदेसी राजा
 नइ इमकहियकइ हर्ष सतीप पामा रथजोवी आणीऊभउकरइ एनआजा उपराठीसुपइ तिब्भार
 तइ प्रदेसी राजा चित्रसारथी नइ समापइ एइ अर्थप्रति साभनी हिययबधारी हर्ष सतीपपामी
 स्नानकरी अल्पभारयणुमूलएहवइ आभरणइ अलकृतसरीरयकु पीतानाधरयकी नीकलइ जिहा

कियसरीरे सातोगिहातो निगुच्छति २ जेणामेव चउघटे आसरहे
 तेणामेव उवागच्छइ २ चाउघट आसरइ दुरुहति सेववियातेणगरी
 ते मज्झ मज्झेण णिगच्छइततेणसे चित्ते सारहीतइ अणेगाइ
 ज्ञोयणाइ उज्झामेइ ततेणसे पदेसीराया उगहेणय तपहातेरहवा
 एण परिकिलस्सति समाणे चित्त सारही एववयासी चित्तापरिकिन
 ते मेसरीरे तेपरावत्तेहिरहं तएणसे चित्ते सारही रइ परावत्तेत्ति
 जेणेव मियवणे उज्झाणे तेणेव उवागच्छइ पएमिसय एववयासी
 एसणं सामीमियवणे उज्झाणे एत्थण आसाण सम किलाम सपणी
 मोतएणसे पएसीरायाचित्त सारही एववयासो एव होइ चित्ता
 तएण से चित्ते सारही जेणेव मियवणे उज्झाणे जेणेव केसिकुमार
 समणास्स अइरसामते तेणेव उवागच्छइ तुरए निगिगइइ रइ ठवेइ
 रहातोपच्चोइभइ तुरएमोएति २ पएसि राय एववयासी एहिणा

एकाधिका मीह्यंप्रकपे प्रतिपादनाय चोक्ता । सिरिप हिरिप उवगए उत्तप्यशरीरे इति श्रिया
 शोभया छिया लज्जया उपगतो युक्त । परमपर्यदादिशोभया गुप्तशर चेष्टाकतया चोपलम्भान
 उत्तप्त शरीरेदीप्यमान शरीर । अत्रैव कारण विभूगति एष किमाहारयतिकमाहार गृह्णाति

धतुर्घ ट धोडविहिति तिहा जाइ जइनइ चतुर्घ ट धोडविहिलि चठइ सेवविया नगरीनइ माहिइ
 धइ निकलइ तिहहार पक्षो तेहचित्त साया तेहनइ रय अनेक जीवन लगइ भमाडइ चलावइ
 तिहहारपक्षी तेह प्रदेसी राजा तउकइ तृष्णाइ करी रघनइचायरइ धूलिकरी अत्यत क्लेस स्वैद
 पाम्यु थकउ चिदमारथी प्रति एम वील्यु हेहिव अत्यत स्रेटपाम्युवइ माहरउ सरीर ताहरऊपरा
 वउबलु रघप्रति तिहहार पक्षी तेह चित्त सारथी रघनइ ऊपराहुवालइ जिहा मृगवन उद्यान
 तिहा ज्ञाइनइनइ प्रदेसी रायप्रति इम वील्यु एह स्वामी मृगवन उद्यान तिहा धोडानउ थम
 थकु किलामनी ढालीजइ तिहहारपक्षी तेह प्रदेसीराजा चित्त सारथी प्रति एम वील्यु इम डुघाइ
 हेचित्त तिहहारपक्षीतेह चित्त सारथी जिहा मृगवन उद्यान जिहा केसा कुमार थमण अतिवेगनुन
 हा अतिदूकगुनही तिहा जाइ धोजा प्रति गृहइ रघ धापइ रघघजी ऊतरइ धोभानइमकेसुकीने
 प्रदेसे राजाप्रति एम वील्यु आव्यु हेस्वामा धोडाननु थकथी किलामनं टालानइ तिहहारपक्षी
 तेह पदेसा रानारघघकु ऊतरैऊतरानै चित्तने सारघाइ धोडानुघकेलु किलामना टालतुइकथो
 देपइ जिहो केसा कुमार थमण मोटा महाविरतारइ मनुष्य परिपडानइ माहि २ बैठथोधथी

सामी आसाणा मम किलास पवीणामो ततेणसे पदेसीरहातोपच्चो
 रुमति चित्तं गा साराह्णिगा सद्धि आसाणा सम किलास मपवीणो
 माणे पासइ जत्य केसीकुमार समणे मद्धति म्हालियाए मणुस
 परिसाए मज्झमएव मद्धवा २ सद्धेण धम्ममाइक्खमाण पासति
 पासित्ता इमेयारुवे अढ्भत्थिण सकप्पे समुप्पाच्छत्या जडाखलु
 भोज्जहु पज्झवासति मुडा खलु भोमूड पज्झवासति मूठा खलु भो
 मूठ पज्झवासति अपडिय पज्झवासति निव्विणणणो खलु भोति
 त्विणणोण पज्झवासति केसति केसणा एसपुरिसेजडेमूडे मूटे थप
 डितेनिव्विणणणणासरीए च्चिरीए उवगए उत्तप्पसरीरे एसणा पुरिसे
 किमाहारेति किखाइ किवति किदलयति किपयच्छति जणएस
 पुरिसे मद्धति म्हालियाए मणुसपरिसाए म्भगते मद्धवा सद्धेण
 वूजाइ एवसपेहेइ २ चित्तं मारहि एववयासी चित्ता जडाखलु

न खलु कदल्लच्छणे एव रूपाया शरीरकान्तं रूपपत्ति । कण्डूत्यादि सद्भावजिघास्यत्व प्रमत्ते
 स्तथा, कि परिणामयति कीदृशीऽस्य गृहीताहार परिणामो न खलु शोभनाहारभ्यवहारैरपि
 मन्दाग्नित्वं यथा रूपाकान्तिभवति एतदेव सविशेषमाचष्टे कि खाइ कि पियइ तथा कि दलय
 इति कि ददाति एतदेव व्याचष्टे कि प्रयच्छति धेनैतावान लोका पटुपापासते एतदेवाइ जयण्येए

मीटइं सद्धइ धर्मकहिवा प्रतिदेपानइ एहवुकिच्चिजेहवु आगलिकहास्यै चात्मानइवि एह सकल्प
 ऊपनयो जडामूपपणा खेउवे आहाएकजड प्रति सेवाकरइ मस्तकैमूडिते मू डा निश्चय अही
 मू ड प्रति सेवाइइइ मूडतेषणू मूथ निश्चय मूठ प्रति सेवइइइ अपडित ते म्हामूपे निश्चय
 अहो अपडितप्रति सेवइइइ निखेज्जकला चतुराइ रहित निश्चय अही निविज्जान प्रतिसेवाइइइ
 कु णपइ पुरुष एह पुरुष जड मूठ जे मूठ अपडित निविज्जान असाभाइकरा भीलजाइकरी
 सहित देदीप्पमान सरीर एहपुरुषसु आहार आहारइइइ स्फखाइइइ स्तु पाइइइ पाशववत्तिन
 इमेवज्जण वइ देइ इइ स्तु वसेपणइइखरच देइइइ जेणइकारणइ एह पुरुषमीटयो म्हा
 विस्तारइ अनुप्यनापरिप्यदाइ मांइ वइ वइ मीटइ २ सद्धइ करी वीलइइइ इमचित्तवइवीत
 केइवानइ चित्तं सारधाप्रति इम वीलु इ चित्तं जडामूपे अही एकजडप्रति
 सेविइइइसमासाहि इम सर्वकहि वूजहालवइ इयानभमिनुइ विपइ
 नसकीइ सम्यकप्रकारइ खेकाइ विचरानइ इव

भोजङ्ङ पञ्जवासति जाव वूयाद् साएवियण उज्झाणभूमीए णो
सचाएमि सम्म पकाम पवियरित्ते ततेण चित्ते सारही पएसि
राय एववयासी एसण सामी सब्वच्चिञ्जेकेसी नाम कुमार समणे
जाति सपणणे जाव चउणा णोवगते अहोहिण अणजीवी तएणा
से पदेसीराया चित्त सारहि एववयासी अहोहित्त वयासि चित्ता
अणजीवियत्त वयासी चित्ता हता सामी अहोहित्त यत्तवयामि
अन्नजीवियत्त वयामि अभिगमणिञ्जेण चित्ता अमेएस पुरिसइ
वा सामी अभिगमणिञ्जे अभिगमत्यामोण चित्ता अम्हेएय पुरिस
हता सामी अभिगच्छामो ततेणा से पएसीराया चित्तेणा सार
हिणा सद्धि जेणेव केसीकुमार समणे तेणेव उवागच्छइर केसिस्स
कुमारसमणस्स अदूरसामते विव्वा एववयासी तुब्भेण भते अहो

महालियाए माणुपरिआए मइया मइयासइणनुयाइ ध्भूते यस्मिश्चेत्थ चेष्टमाने साए वियण
मित्यादि स्वकीयायामपि उद्यानभूमी न सवाएमीन शक्कुम सम्मन्वप्रकाय स्वच्छया प्रविचरित्तु
एवं सम्मचेत्ते स्वचेतसि परिभावयति सम्मोच्य चित्र सारधिमैवप्रवादीन चित्ता इत्यादि । अथौ
वहिए इति अथोवाहिक परमावधिरथोवत्त्यं विधियुक्तः । अणजीविए इति अन्नेन जीवित
प्रायधारण यस्यासावन्नजीवितः । सिज्जानामए इत्यादि ते यथानामए इति वाक्याल-

कुक्किल्लतिकारपकी चित्र सारघा प्रदेसी राजाप्रति इम बील्लु एह ई स्वामी पाण्वनाघनासयता
नाया केसी नाम कुमार थमथ जाति सपन्न तिहा लगिवणककहिबु जिहा लगि पाच सइसाधुनु
धयासत्वादि चारज्जान सद्धित परयावधिज्जानमद्धितइ अवधिज्जानुधणी विपय अधानावउ धणथो
कइतेनाटि थधोवधा काया अनेराजीव अनेरथा इमकरामानइ कइ तंइ प्रदेसी राजा चित्र
सारथीप्रति एम बील्लु परमावधि पणु कइइइइ ई चित्र अन्यच जीवितपणउ कइइ कइ ई
चित्र वलतउ चित्र कइइ कइ स्वामी एइपासइ परमावधिपणु कइ कउ अन्यजीवितपणु कइउइ
वलीप्रदेसीपूइइ इइ साइमावालीजीइ इ गोण्टिकरीइ एइबु हेचित्र अमेइएइज पुरुषकइ वली
चिवकहे तीहा स्वामी साइमावालीजाइ वायोग्यकइ प्रदेसीकइइ कइ एइ साइमाजइ स्वइ
हेचित्र अमेइएइपुरुपप्रति चित्र कइइइइइ इस्वामी साइमउजइइ तिहारपकी तेइ प्रदेसी राजा
चित्रनइ सारथीइ साधि जिहा केसी कुमार थमथ तिहा जाइ जइनइ केसीकुमार थमणनइ
अतिवेगलुनई अतिदूकडुनई उभारई इम बील्लु तुमे हे भगवन परिमवधिषणा अन्वनीवना
कइणहार तिहारपकी केसीकुमार थमथ प्रदेसी राजाप्रति इम बील्लु तंइ जिमकीइक अकरल

द्विया अन्नजीजिविया तएणा केसीकुमार समणो पएसि राय एव
 वयासी सेज्जानामए अक्वाणियाइ वास खवाणियाइवा दत
 वाणियाइ वासुकमजेउं कामानो समपंधपुच्छति एवामेव पदेसी
 पुन्वेविवणाय भाजउ कामेनोसमपुच्छसि सेतूणातव पदेसी ममपा
 सित्ता अयमेयारुवे अम्भज्जिए जाव समुप्पजित्थाज्जडा भोजइं
 पज्जभासति जाव पवियरितूणा पदेसी एस अट्टे समट्टे हता थत्थि
 तएणासे पदेसीराया केसीकुमार समणां एववयासी सेकेणभते तुव्भं
 णाणा वाद सणेवा जेणातुव्भे ममएयारुव अम्भत्थिय जाव सकप्पं
 समुप्पणण जाइ पासइ ततेणसे केसीकुमार समणे पएसिरायं
 एववयासी एववखनु पदेसी अम्ह समणाणा निग्गथाण पचविडे
 णाणे पणणत्ते तज्जहा थाभिणिवोच्चियणाणासुधनाणेउच्चिना णामण

कारे अक्खवण्णिजे अक्करत्तवण्णिजं शब्धवण्णिजे मणिवण्णिजे वा शुल्क राजदेय भागं भु सयित्तु
 कामां शब्धातो न सम्यक् पण्यानं पृच्छन्ति । एवमेवातु मनीयादि दाटांतिकयी जना सुगमा,
 उगगहेत्यादि । तत्राविचचिता श्रेयविशेषस्य सामान्यरूपस्यानिर्देशस्य रूपादेरवगृहणप्रवगृह ।

तेहनावसेखव्यापारीवाणीया तथासखनाव्यापारी दांतनाव्यापारी दाण प्रतिभाजता वाहतायकीं
 कानसमउ पयपूइइ एणइ हट्टातइ प्रदेसी तुइइपणिवसेख विणय सावाहनुयकु नयीसमूपूइइइइ
 तेइनिच्चइतुभणइ हेप्रदेसी सुभनइ देपीनइपइवु आत्मविपयसकल्पऊपनउ ऊडामूषेघबानिच्चइ
 अहीएकजडमूर्धप्रति सेवइइइमूडादिकपाटसर्वकहिबउवनमाहिमुयइइइसीसकाइनहीतेइनिच्चइ
 हेप्रदेसी एइ अर्थ साचउ वलतुप्रदेसी एइ कइइ इइ सावु तिह्वार पकी तेइ प्रदेसी राजा केसी
 कुमार थमण प्रति एमवील्या तेइकुण हेभगवन तुम्हनइ ते सामानवज्जान थयवा दसण वीथ
 ज्ञानते वसेया ववीथजेणइ ज्ञानइ सनइ सणइ माइउ एइवु आत्मानइ विपइ चितित सकल्प
 ऊपनु जाणुवउवसेहा पणइ देपउ ऊउ सामान्यपणइ तिह्वार पकी तेइ केसीकुमार थमण प्रदेसी
 राजाप्रति इमवील्या अमुनायकारे निश्चय प्रदेसी अइमाइरि थमणनइ नियु धनइ पाचे प्रकारे
 ज्ञान कइउ तेकइइइ मतिज्ञान १ श्रुतिज्ञान २ अधिज्ञान ३ मनपर्यवज्ञान ४ केवल ज्ञान
 तेकइनु मतिज्ञान चहूइ प्रकारि कइउ तेकइइइइ काइकहीठउ विचारथा निस्वरार्थ पावलु
 सम्भालुवु तेइवली अवगुइ चिहू प्रकारे कइउ जिमनदीसूवइ कइउ इइ जिमज धारणालगइ
 च्यारइवीलक इवा एतलइ अथावगुइ इहा २ अथाय ३ धारणा ४ एइ चारवीलपाचइ इट्टा ऊठउ
 अथैच्यारए २८ प्रकारिमतिज्ञानजाववुएतलै मतिज्ञानकहू इवै श्रुतज्ञान मनएतसागुथकरीइ

पञ्चमवनाणे केवल नाणे सेकित अभिणिवोच्चियणाणे चचविहे पणण
 त्ते तज्जा उग्गहे ईहा अवाए धारणा सेकितं उग्गहेर दुविहे
 पणणत्ते जहा नदीए जावसेतं धारणा सेत आभियवोच्च नाणिण
 सेकिं तसुयनाणांर दुविह पणणत्त अगपविह्व च अगवाच्चिरच सव्व
 भाणियव्व जावदिद्विब्बाउ उच्चि नाण सेकित सुयखयोवसमियच
 जहा नदिए मया पञ्चमव नाणे दुविहे पणणत्ते तज्जा उज्जमुभ
 तीय तहेवकेवल नाण सव्व साणियव्व एत्थण जसे आभिण
 वोच्चिय नाण सेण मम अत्थि तत्थणां जेसे उच्चिनाणे सेवियसम
 अत्थि तत्थण जेसेकेवल नाणे सेणं मम नत्थिसेण अरहताण
 भगवताण इव्वेएण पदेसी अहत्तव चचव्विहेण कात्तमत्थेण नाणे
 ण इमेयारुव अब्भत्थिय जाव समुप्पन्न जाणामि पासामि तएण

तदर्थगत सहूतविशेषालोचनमीहा प्रक्रान्तार्थविशेषेण स निश्चययोऽप्याय । अत्रगतायं विशेषण
 धारण धारणा । सेकित उग्गहे इत्यादि यथा नन्दी ज्ञानप्ररूपणाकृता तथावापि परिपूर्णाकत्तव्या

कञ्जकचउवासे विहूप्रकारि कच्चिउ आचारागतं अग्यारइ अगतं अगप्रतिष्ठा उत्तराध्ययनादिक
 ते अंगवाहाद्य प्रकीणादिक सर्वकच्चिउ जिहालगिइइ इष्टिवादपूर्वए श्रुतज्ञानवीभु इवइ अवधि
 ज्ञानविप्रकारइ ऊपउ अनिसरिसइ तिहा लगइ रइइ तेइ मनुप्पन्नइ अनइ तिर्यं च न इइ तिम
 नहीसूविकच्चिउ इइ तिमजाणवु ज्ञानावरण्यायक मंनइ चय अनइ उपसमयनइ योगइ ऊपजइ
 तेचयापसमिकत अवधि ज्ञानवीजूकहीइजे अवधि ज्ञानतिभवप्रत्यय अवधिज्ञानते देव अनइनार
 कीनइ पासिइइजिम निमनदीसुवाइ इवइउद्युमनपर्यव ज्ञान चिहूपकारइ कच्चिउते कइइ इइ
 इजुमती १ विपुलमती २ तेमाहिइजुमती अठाइ अंगुलइ उऊज अठाइभापदेयइ विपुलमतिते
 पूर्णअठाइ डापमाहि सन्निपा पचेन्द्रियनु मनोगत भावजाणइ केवलसाही भेदवर्जित सकललोका
 लोक प्रकासकज्ञानते केवलज्ञान सर्व कच्चिउ इहा पाच ज्ञान माहिजेमविज्ञान तेइ माहरउ इइ
 जिहां जेते श्रुतज्ञान तेहापणि माहरइ इइ जिहा तेजे अवधिज्ञान तेहपणि माहरइ इइ जिहा
 तेजेमनपर्यवज्ञान तेही पणि मायरइ इइ जिहा जेते केवलज्ञान तेइ माहरउ नथी तेइ अरिहत
 नइ इइ इयरइ हेप्रदेसी इताइइ चिहूपकारइ कच्चस्यपासइपामी इते वीज स्थीका ज्ञानतंयइकरी
 पइवु आत्मानइ विपइ सकल्य खलूजइ ऊपनु पञ्चमवासन्न एहवुवितितजाणु वसेपणइ देपवु
 सामान्यपणे तिहारपकी प्रदेसीराजा केसीकुमार अमणनइ एमवील्यु हेभगवन इहा तुम्हारइ
 पासइ वइसु बलतागुरुकइइ इइ प्रदेसी तुमारी जपीताना उचानभूमिनइ विपइ तुमाजमिनइ

पदेसीराया केसिकुमार समण एववयासी अइएण भते इहं उव
 विसामि पदेसीसाते उज्झाण भूमिए त्मसि चैव जाणते ततेणासे
 पदेसीराया चित्ते ण सारङ्गिणा सडि केसिकुमार समणस्स अट्टर
 सामते उवविसतिर केसिकुमार समणा एव वयासी तुब्भेण भते
 समणाणा निग्गधाणा एसा सणाए पतिणाए साट्टिद्वाए सारुई एसहेज्ज
 एसउव एससकप्पे एसतुला एसमाणे एसपमाणेएससमोसरणेज्जहा
 अण्णोजीवा अण्ण सरीर नोतजीवो त सरीर ततेणी केसीकुमार
 समणे पदेसि राय एववयासी पदेसी अम्ह समणाणा निग्गधाणा
 एसासणा जाव एस समोसरणे जहा अनोजीवो अनसरीर नोत
 च्छीवो तसरीर ततेणा पदेसिराया केसिकुमार समणे एववयासी
 जतिणा भते तुब्भ समणाणा निग्गधाणा एससणा जावएस समोस
 रणे जहा अण्णोजीवो अण्ण सरीर नोतजीवो त सरीर एवखलु मम

गुन्य गौरवभयात्तु न निख्यन्ते, केवल तद्दीकेवावलीकनीया तस्यां स प्रपञ्चमस्माभिरभिधानात्
 तुब्भमभन्ते समणाणा णिगुन्याणा एसा सणा इत्यादि। सञ्चान सञ्चानसम्यग्ज्ञानमित्यर्थ ।
 एवैव प्रतिज्ञा निश्चयरूपोऽभ्युपगमः । एषा दृष्टिर्दंशनञ्चतत्वमिति भावः । एषा क्वचि परम-

वियद् जाणउ वइसउ अथवानइ वैसुएइवूसाधूकड्विवानु माभगुणीही सावत्थपथामटइ तिह्वार
 पकीतिह्वपदेसीराजा चिवनइ सारथीइ साथि केसी कुमार अमणइ अतिवेगलुनही अतिदुकुणुनही
 सामयइ इइ सइ वैसीनइ केसीकेमार अमण प्रति इमवोल्य तुमारी इभगवत अमण निगुंन्यना
 एहज सञ्जासम्यक ज्ञान एहजप्रतिज्ञा अगात्तयच्च दृष्टिपीतानादंशंनु तत्वज्ञान क्वचित्पीतानु
 अभिप्राय एह हेतु ते आयूय एह उपदेसतेलीक आगजिकड्विवउ एहसकल्पताक्किज्ञान एह
 तलानिमवाकडाइचडावस्फूनिश्चयरूपयाइति मयीतानइपतिकरीनिश्चयरूपमुपतुमेकीधउयह पान
 तेइवणि प्रस्तगजादिकइ करी निश्चयक एह प्रत्यक्षादिप्रमाणइ समीसरणघणानुएकठउ मिलवु
 एतलइ सहइनइ एकठुमिला एहवु ज अगीकृत वृतनुनिश्चव करिप्रतेकइनु जेइ सरीर घकी
 अनेरउ जीवअनइ जीव घकी अनेरुसरारनइ सरीर तेहीज जीव तथाजीव तेहीज सरीर पदेसी
 राइ इमकही पकी केसी कुमार अमण पदेसी राजा प्रति एम बील्या हे प्रदेसी अम्हारि अमण
 निगु धनी एह सम्यकज्ञान तिहा लगिकड्विवु जिहा एहज समीसरण जेइ सरीरथकी अनेरु
 जावयकीनेससरीर नइ तेजीव जीवतेह्वज सरीर तिह्वारपकी प्रदेसी राजाप्रति केसि कुमारअमण
 प्रति एम वल्यु जउ हेपूज्य तुमारी अमणनी निगु धनीएइ समीसरण सञ्जा एहप्रतिज्ञा एह

अवमए होत्या इहेव जवूदीपे २ सेयवियाए नयरीए अधम्मिए जाव
समस्स वियण जणावयस्स नोसम्म करभरविति पव्वत्तेतिसेण तुव्व
वत्तवयाणसु वड्डूपाव कम्म कल्लि कल्लूससमज्जिणित्ता कालमासे
काल किच्चा अन्नएमु नरएमु नैरइत्ताए उववणे तस्सण अजगस्स
अइ नभुतेहोत्या इट्ठेक तेपि एसणुणे मगामे धउक्के वेसासिते सम्म
ए वड्डूमते अणुमए करडगसमाणे जीवियस्स विट्ठिवण दिज्जणणे
तुवर पुप्फ पिबदुल्ल भेमवणयाए कि मगपुणा पासणयाए तज्जइणा
से अउक्क ते मम आगतु वणउक्का एव खलू नव्या अइ तव अउक्क
एहोत्या इहेव सेयवियाए नयरीए अधम्मिए जाव नोसम्म करभर
विति पवत्तेमि ततेण अइमु वड्डूपाव कम्म कल्लिकल्लूस समज्जिणित्ता

अहानुगताऽभिप्राय । एव हेतुं ममस्त्राजं यपि दर्शनं वक्तव्यताया एतन्मरा युष्म दशनमि
मात्र । एव वक्तव्य एव म एव भवताऽनन्त्रितऽयमत्र । एवा तुला यवा तुलाया तीनित
सम्यगित्प्रवधार्यते तथा अनेनापभ्युवगमेनाऽऽजीकृतं च वडिचायभाणं सम्यातिमुपैति तत सम्य
मित्प्रवधार्यं तेन शेषमिति तत्तव तुला एवमेतन्मानमित्यपि भावनीप्रम् । एव मान प्रम्यादि

मसोमरण जेइ मरीरघडी अवरउ नीव जीवधडी अनेरउसरीर तही सरीरतेजीव धनें जीव
ते सरीर एमनिश्चय माहरउ आजलउगप वापनु इतउ इहाज ननुदीपमाहिडीप २ सेयविया
ममरीरनइ विपइ अधमाइ तउ त्यादिक अइमिइइ सर्वपाठकडिवउ पीतानापपिदेसनउनवीसूधउ
करतीदउनुदेयनू लियनू तेइनीवृत्ति आजीविका प्रतिप्रवत्तावतु तेइ तुम्हारइ कइपाइ धणु पापकम
उहलु उपाजानइ कालतइ अवररइ कालकगी कीइर नरएनइ विपइ नारकीपणइ जपनउ तेइ
नइ आज्ञानउ इमुतउइतउ तेइदादानइइ इष्टवाक्ययोग बालुइधनुएउ पियमनउवधणहार
मनोउतेमननइ आटवायोग्य मराइगमनधीयंगुणइसहित वीम्यासनुस्थानक समतकार्यकरवा
नइ मान्युववापणइमान्यु कायविघातनइ पडइपणिमान्य ते अनुसतरलनार आयासमान जीवत
वनीपरि डिगानु मानइ नतुऊपनावणहार तुवरवृत्तनाफूलनीपरिदोडिनु माभलव तु अगइतिकीम
लामंबण्ये वलीतेइनुदेपीवातुकस्युएएवु तेनउ तेइ आज्ञउ मुभनइ आजीनइ उडिनुम्फुकहितउ
तेकइइइ एम निश्चइ डेपावा इ ताहरउ आजु इतु इहांज सेयवियाइ नमरीइ अधमाइ तउ
तिहीलंगि मुधउ कर भर आजाविका प्रवत्तीवतउ तेइइकारणइ इ धणउ पापकम मइलु
उपाजं कीइकनइ नारकीपणइ जपनउ तेणइकारणइमानिपधइ हेपुवा तुहापपिइइ इति अधमा

जाव उवविणो त माण गतुया तुमपि भवाहि अधमिजाव नोसम्मं
 करभरविति पवत्तेहिमाण तुमविएव चैवमू वडूपावकम्म जाव
 उववज्जिहिसि तजयाणा से अज्जए सम्म आगतु एववएज्जा
 ततोण अह सहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा जहा अणोजीवो अन्न
 सरीर नोतज्जीवा तसरीर जहाणसे अज्जवे मम आगतं नो एव
 वयासी तमोसुपतिट्टियामेपणा समणाउ सोज्जातज्जीवो त सरीर
 णो अनो जीवो अन्न सरीर ततेण केसीकुमार समणे पदेसि राय
 एववयासी अत्थिण पदेसी तव मूरिय कता नामादेवी जता अत्थि
 जयाणा तुम्ह पदेसित मूरिय कत देव एहाय कयवलिकम्म कयकोउ
 मगलपाउच्छित्त सव्वालकार विभूसिय केणति पुरिसेण एहाएणा

एसप्यमाणे इति एतत्प्रमाणं यथा प्रमाणं प्रत्यक्षाद्यं विसम्वादीति भावः । एस समोसरणे इति
 एतत् समवसरणं समवसरणं नाम बधूनामेकवमीलनम् । सर्वेषामपि तत्त्वानामस्मिन्नेवाभ्युपगमे
 सलुलनमिति भावः । इदं कन्तेपिप इत्यादि । इष्टइत्यादिविषयत्वात् । कान्तकमनीयतमत्वात्, प्रिय-
 धेमनिबन्धतत्वात् मनोज्ञो मनसासम्यग्गुपादेयं तथा ज्ञातत्वात् मनसा अभ्यते गम्यते इति मनोम-

एतलइअधर्मयाएसिचधामिष्टमयाए नधी करभर आजीविकाप्रति पूवत्तावळतुतेमधाकरिमाहि
 पोवावुहीपथिमाहरिपरि घणु पापकमकरी नरकि ऊपजेसइ तउजउ तेह आलुमुभनइ चावीनइ
 इमकहि तउ हू सहहितउज पुतितीआणतुज आत्मासाधिरीचवतउतेहसरीरथकी अनैरउजीव
 अनइजीवधकी अनेरुसरीर नहीसरीरतेजीव अनइजीवतेसरीर जेणइकारणइ आज मुभनइ
 आवीनइ इमकहिउहू तउ तेणइआरणइमाची माहरीपुञ्जाविकालकीउहिहेथमथी आउपावती
 जीणइकारणइसरीरतेजीव जीवतेसरीर नहीअनैरउजीव अनेरुसरीर पुदेसइइमकहीपली केसी
 कुमार अमण प्रदेसी राजापुति एमवोल्याळे हेपुदेसी ताहरइ मूरियकता नाम देवा पुदेसीकइइ
 इइ हाइइजिह्वारइ तुम्हारी हेपुदेसी तेमूरियकतादेवीइ स्नानकीधूइ घरनादेवपूजाळेजेणीइ
 कीधुइइऊतुवामिपीतिलकादिकमडलतदधिपूपादिकतेहाज प्रायश्चित्तदुस्वपूवयातनामिवइ सर्व
 अलकारइकरीविभूषितइइ एहवीमूरियकता कीइकएरुपइ स्नानकीधा सायइ सर्वअलकारविभू
 पितइ सायिमनोभीष्टसइ फरिसरवगथ एहपाचवधि मनुष्यसवधि कामभोग भीगवतुधकु तुतेपुरुष
 नइतेहनइ हेपुदेसो पुनपनइ कुण्डडपुति निउत्तावइदेइइत्यर्थं पुदेसीकइइइइ हू हेपुज्यतेपुसेप
 पुति हायईदायाजेहनोएहवुकरउ पगळेदउ मूलाइपूतउकरउ मूलीइभेदउ एकइजघातइकरी

जाव सव्वाककार विभूसिएणा क्षन्नि इहे सहे फरिसख गधे पचविहे
 माणुसते कामभीण पच्चणुवभवमाणो पासिज्झमि तस्सणा पदेसी
 पुरिसस्स कट्ठ निव्वतेज्झामि अहणा भते पुरिस इत्यत्यिणगवा
 पायत्यिणगवा सूल्लभिभगावा एगाह्व कूडाह्व जीविया उव वरो
 वेज्झा अहणा पदेसी सेपुरिसे तुम एव वएज्झा माणं तुम्हे सामी
 सुमुहूतग इत्यत्यिणगवा जाव जीवि आउववरोचेहि जावताव अह
 मित्र नाइ नियगसयण सवांधे परिजणा एववयामि एव खलू
 देवाणुप्पियापावाइ कम्माइ समाय रिताति इमेयाखुव आवय पावि
 ज्झामि त माणा देवाणुप्पिया तुम्हे कैइपावाइ कम्माइ समायरउ
 भाणा सेवि एवचेव आवय पावेज्झामिय जज्झाणा अह तस्सणा तुमे
 पदेसी पुरिसस्स खणमवि एयमइ पडिसुखोज्झा सिनोइणण्हे सम
 हि कम्हाणा भते अवराहीयाधे पुरिसे एवामेव पएमी तव अज्झते

स्थैर्यगुणयोगात् स्थैर्यविश्वासको विश्वासस्थान सम्मत' कायकारणेन बहुमती बहुवेनाल्प तथा
 मनो बहुमत' । कायवियातस्य पश्चादपिमती बहुमत रत्नकरणडक समानी रत्नकरणडकवेदि-
 कान्तेनीपादेय इति भाव' जीविउस्सवीए इति जीवितस्योत्सवइव जीवितोत्सव', स एव जीवि

पादूकाकूटनीपरि जीवितव्ययकी रहितकड गुरुकहइहेइवी हेपुदेमी तंपुचप तुमपुति इमकहइ
 मकरउ तुम्हे हेस्वामी एउमुहूत्तीलगिगुभनइ हाथरहितपगरहित मूलीइमेदनु जीवथकारहित
 मकरि जिहाललि प्रधान हू निव्वतमावावइ जातितेपातिज्झाजपना भाइपुवादिक्कमावलादिक
 सुस्वरवगुं दासदासीपुतिज्झइ इमकहू इणइकारणइतिनिश्चय अहीदेवानुप्पियाउमइ पाप कर्म
 धणा समाचरी तेमाटइ णव्वी आपदापुति भू पामउउउ तेकारणइ अहीदेवानुप्पियानु तुमे
 कीईउरहवापाप कर्मपुतिइ समाचरउएतलइमतकरउमति तेहीपणि एणीपरि आपदापामउ जिम
 हू तंउने तुमेहे पुदेसी पुरपनु अणमात्र एहवचनपुति इसाभलइ बलतुपुदेसीकहइइइनहीए अर्थ
 समर्धएतलइतेउरनचणमात्रजीवतु कम्हाणउरुउगुरुकहिनइस्वामाटइतइहनइउणमात्रजीवतुनमू
 कइवलतुपुदेसीकहइइउली हेभगवनमाहरउअपराधी तेहपुरपगुरुकहइइइयैइपठातइ हेपुदेसी
 ताइरु आन्पितामहइतु इणज सवयवाइ उगरीइअधमाहूतउ अधर्मित नमुधउ करभरआजी
 विजापुति पुत्रत्तवितउ तेह अमातीवकउपताइ धणउ पापकरीनरक जपनउ तेइनु आत्तानउ
 पीतउ हूतउ इष्ट वलभउउरवृचना फूलनीपरिसाभलवुदोहिलूनुदेपवू मूकहइउ तेताहरउपि

होत्या इहेव सैयविद्याए नयरीए अधम्मिए जाव नोसम्म करभर
 विति पवत्तंति सेश अम्ह वत्तवद्याएमु वद्धू जाव उववमे तस्सणा
 अज्झगस्स तुम नतुए होत्या इहे कते जाव पासणयाए सेद्वच्चद्व
 माणुस्सलोगव्वमागच्छति नोचेवणा सचारएति इव्वमागच्छति तते
 चउच्चि ठाणेच्चि पदेसी अद्दुणोववणे नरए नेरतिति इत्यद्द माणुस्स
 लोग इव्वमागच्छतिचते अद्दुणो ववणे नरए नेरए समत्तभूवेयणा
 वेयमाणोइत्यद्द माणुस्स लोग इव्वमागच्छि ततेनोचेवेणा सचाएति
 इव्वमागच्छिचते अद्दुणोववन्नए नरए निरति ते नगरपालगेच्चि
 भुज्झो २ समहिविज्जमाणे इत्यद्द माणुस्स लोग इव्व मागच्छिचत्त
 नोचेवणा सचाएति इव्वमागच्छिचते अद्दुणो ववन्नए नरए भुनेर

तोत्सक इदय नन्दिजनन । उदुम्बरपुष्पञ्चलभ्यन्तस्तेनोपमानम् । मूलाइय वा इत्यादिश्वल-
 यामतिग्रयेनगत एतदेव व्याचष्टेश्चलया भिन्न श्रला भिन्नाश्चलाभिन्नक स्तथा एगइत्व-
 मिति एकधात एकेन घातेनेति भाव । कूडाहव्वमिति कूटाघात कूटपति तस्य मुगस्वेव घातेनेति
 भाव, चउच्चि ठाणेच्च इत्यादि तत्र सुहृद्भूत वेदनामेक कारणम् । द्वितीय परमाधार्मिकैकदर्थनम्,
 तृतीय नरकवेदनीय कमा जयत उद्विजन चतुथ नरकायुष्काचयत उद्विजननम्, चउच्चि ठाणेच्चि

तामहि वाक्कइइ मनुष्य लोकाप्रति शीघ्रशावीवउ पणिनहीनिश्चइ सकइ शीघ्रशावीनइ चिद्धू इ
 कारणइ हेप्रदेसी तत्कालिजतु उपनुनकनइविषइ नारकी वाक्कइइइ मनुष्य लोक प्रति शीघ्र
 आविबुकारणकईइइ तत्कालनु उपनु नरकनइविषइ नारकी उत्कष्ट भइवेननाप्रति वेयतउद्य
 कउ वाक्कइइइ मनुष्य लोकाप्रतिसीघ्र आविबउ पणिसकइ मीघ्रशावीनइ एतलवेदनाइचाक्रमउ
 तेमाटे शावीनसकइइइतिप्रथमकारण तत्कालिनउऊपनउ नसकइ नारकी नरकपालइ देवइ परमा
 धामीवलार अधिक्रयमानथकउपरमाधामीपनरजातिनार्तिण्यउणपासु मु कीतुनथो वाक्कइइइ मनुष्य
 लोकाप्रति सीघ्र शावीवु नमकइ मीघ्र शावीनइ एतलइपरमाधामीइ चाक्रम्वायकइइइइशावीनम
 कैणइवीजउ कारण इवडानमु ऊपनु नरकनइविषइ नारकी पंतानउ कर्मवेदनीकाटिक जय
 चणगइइकइ विपाकरमअवेत्इइकइ अनिरजउथकइजीवप्रदेसकीदुरिचणगइइकइ धनुवाकइ
 मनुष्य लोकाप्रति सीघ्रशावीवउ नसकइ इशावीनइइतेद्राज्जाणइ एमज नरग स्वार्थ थालपा
 कर्म जउथणगइइकइ अवेगइइकइ अणतिरनणियकइ धनुवाकइ मनुष्य लोकाप्रति सीघ्रशावि
 वउ नमकइ मीघ्र शावीनइउचधु कारणइ इति एणइ चिद्धू इ कारणइ हेप्रदेसी इवडानउ

इए निज्भसि कम्मसि अखीणसि अबेइयसि अण्णिञ्जिभसि इत्यति
 माणुस लोग इव्वमागच्छित्त नो चेवण सचाएति एवनिरयाउयसि
 कम्मसि अक्खीणासि अबेइयसि अण्णिञ्जिणसि इच्छइ माणुस लोग
 इव्वमागच्छित्त नोचेवणा सचाएइ इव्वमागच्छित्तए इच्चेहि
 चउहि ठाणोहि' पएसी अहुणाव वणणे नरण मुनेरइ इत्यइ
 माणुस लोग नोचेवण सचाए इइव्वमागच्छित्तते त सहजाहिणा
 तुम पदेसी जहा अनोजीवो अन्न सरीर नोतस्त्रीवो त सरीर ततेणा
 से पदेसीराया केसीकुमार समणा एववयासी अत्यिणा भते एसवयण
 सो उववमाइमेया पुणकारणाणा णोउवागच्छइ एवखलू भते मम
 अज्जिभया होत्या इहेवे सयवियानगरीए धम्मिया जाव धम्मिया
 चेववित्ति कप्पेमाणा समणोवासिया अहिगयजीवा २ सव्वोवणणउ

अहुणीववणणए देव इत्यादि सुगम नवर चत्तारि पञ्चवाजोयणसए असुभ गन्धिइवइ इति इइ
 यथापि नवभ्यी योजनेभ्य' पुरती गन्धपुद्गला न धारणेन्द्रिय गू इणयोग्या भवन्ति पुद्गलाना मन्द

उपनु नरकइनारकीवाइइ मनुष्य लोकाप्रतिपणि नसकइ सीधु भावीनइ तेषइकारणइसइइ तुसा
 चकरामाहि हेप्रदेसी जेइ अनेइजीवअनेइ सरीर नहीसरीरतेजीव अनइजीवतेसरीरसाधिप्रतिप्रथम
 प्रथन इमकेसीगुरुकहापकी प्रदेसी राजा केसीकुमारअमणप्रति एमवील्युइइ हेभगवन उइ प्रजा
 यकी बुद्धिवसीपथी उपमाइष्टातइइइणइ वलीकारणइहेतइ माइरइहिययेनावइ एमनिश्चय
 हेपूज्य माइरा बापनीमाता हूती इ इज्ज सियवियाइ नगरीइ धर्मकरीविचरइतेधार्मिधर्मिधर्म
 मतिकरी भाजाविका करतायका यतातेइनीसिवानीकरणइरते थमणोपासक ज्ञाणीइइजीवाइ
 जावअनइ अजीवादिजनवपदार्थथावकनुवणकजिहालगिपोसहापडिक्रमणातपसज्जमइ दानपुण्यइ
 करीपु थापणउथात्ताभावयकी विचरइइइ तेंइ आजीअह्यारी वक्तव्यताइ धमु पुण्यनउ सवय
 उपाजी कालनइअवसरइ कालकरी कोइक देवलीकनइविपइदेवपणउ ऊपनी तेंहनइ दादानउ
 हू पांतुवेदानउवेदु हू तउ इष्टवल्लभ इमनुतेसर्वपाठकहिबु तेमाइरइनामइरलायायतयायतुदेप
 वानुस्फकहिउततेहनु दादी सुभनइ भावीनइ इमकहितेकइइके एम निश्चयपौका हू ताइरी थाइ
 पितामची हूती इइज्ज सियवियाइ नगरी धमाहूती धमिष्टा धर्मेना आजीविकाकरतायका
 थाविका पोसापडिक्रमणादिककरतीविचरती तेषइधर्मइ करीहू तेषपुण्यनउससय ऊपाज्जानइ
 कोइक देवलीकदेवपणुक्कपना तेणिकारणितुहापणि हेपीता थाइ धर्मा धर्मेना अजीविका विउ

जाव अप्पाणा भावेमाणा विहरति सया तुम्भ वत्तया एसु वद्दूपुणो
 ववय समज्जिणित्ताकाल मासे कालं किच्चा अन्नयरसु टेवल्लो एसु
 देवत्ताए उववन्नातीसेणा अज्झियाए अहत्ततुते होत्था इठेकते जीव
 पासणयाए तज्जइणा अज्झियामम आगतु एववइज्झा एव खल्लू
 नबूया अह तव तव अज्झिया होत्था इहेवसेयवियाण नगरीएधम्मया
 जाव वित्तिकप्पेमाणी समोणोवासिया जाव विहरामि तएणा अह
 पुणोववय समज्जिणित्ता अन्नतरसुटेवल्लोणसु उववणाततुमपि नतु
 या भवाहि धम्मिण जाव विहराहि तउणा तुमविणवचेवसु वहु पुणो
 ववय समणिज्झित्ता जाव टेवल्लोणसु उववज्झिहिहिंसि तज्जइणा सा
 अज्झिया मम आगतु एववयाएज्झातोणा अह सदहेज्झा पत्ति
 एज्झा रोणज्झा जहा अन्नोजीवो अणणसरीर नोतजीवो त सरीर

परिणाम भावात् घृण्येन्द्रियस्य च तथाविध शक्त्यभावात् तथापि ते अत्युत्कट गन्धपरिणामा इति
 नवसु जोजनेषु मध्ये अज्यान् पुद्गलान् उत्कट गन्धपरिणामेन परिणमयन्ति तेषु जडं गच्छत
 परतो अज्यातिधन्यानिति चत्तारिपञ्चयीजनयतानि यावत् गन्ध केवलमूडं मूडं मन्दपरिणामी

रतु तुहापणि एहज घणु पुणयनुससय ऊपाजा कोइक देवलीकइ देवपणिकुपाजसि तुज्जु तेइ
 पितामही मुभनइ आवीनइ इम कहितु तउ इ सइहउ तुजप्रतीत याणु तुज्यात्मानइविपइ
 रीवच जेहा अनेरउ जीव अनेरउ सरीर नहीसरीरतेजीव अनिजीवतंसरीर जेणइकारणइ पिता
 मही मुभनै आवीनइ नएमकहतीइइ तेमाटइ साचीमाइरी प्रतिज्ञा जिम सरीरतेहजजीव जीव
 तेहजसरीर नही अनेरउ जीव अनेरु सरीर प्रदेसीइ ट्रमकहापही केसी कुमार अमण प्रदेसी
 राजाप्रति षम वीलाग तिडागइ तुमे हेप्रदेसी स्नानकीधुवइघरनादेवपूज्याइइ कीधाइइकीत्क
 मपीतिल्लादिकमगलदधिपूवादिकतेहज प्रायचित्तविधुविघातवानि अथइ भातुपट्टकपहिस्सुइइ
 भृगार धूपकडउउउहायइ लाधुविणहवातुभप्रति देवकुलमाहिप्रवेशकरताथका कीइक पुरुप
 विष्टानइ घरइ रहीइमऊइइ आतुपडिलु हेस्वामी तिहाविष्टाघरइमहूत्तनगइ वीसामउल्लंउ
 अघवामूड ऊभारइउ वइसउ लीटउ तेइतु तुम्हे हेप्रदेसी पुरुपनउचयमात्तपणइ एहवचन
 सामलइ प्रदेसीकइइइइ हेगूरकानेवचनसामलुनहीगूरकइइकाएसामलेवलीप्रदेसीकही भगवउ
 तेयानकपमूचिइ दूऊउउवलीगुरुकइइइइइ इहप्टातइ हेप्रदेसी ताइरीपणीआइदादीहू ती इ ज्ञान
 सेववियाइ नयरीइ धनाइती पीसइपडिकमणइजकरीचावणुआत्ताभावथकी विचरतीइइ तेइ

जम्हा अजिह्वामम अगतुनो एव वयासी तम्हा मुपडट्टिवामि पडगो
जहा तज्जीवो तसरीर नोअन्नोजीवो अन्न सरीर तएण केसिकुमार
समणो पट्टेसी राय एववयासी जयाण तुम पएसियहाय कयवलि
कम्म कयकोज्जयमगल्ल पायखित्त उल्लपडसाडगभिगार कडूच्छय
इत्यगय टवकुलमणुपविसमाणा केइय पुरिमे वच्चघरमिट्ठिच्चा एव
वज्झा एहि ताव सामी इह महुत्तम आमयहवा सयहवा चिट्ठहवा
निसाहवा तुयट्टहवा तस्सतुम्ह पणसी पुरिसस्स खगामवि एयमट्ट
पडिसुणोज्झा सिणोइ कम्हाणा भते असुतीत २ सामतो एवामेव
पणसीतववि अजिह्वया होत्याइहेव सेववियाण नयरीए धम्मिया
जावविहरति साण अमवत्तयातेसु वडू जाव उववणा तीसेण अजिह्व
याए तुम्ह नन्नुते होत्या इत्यति माणुस लोग इव्वमागच्छित्ते
नोचेवणा सचारएति इव्वमागच्छित्ते चउहि वणा ठाणोहि पट्टेसी

वेदितः३ तत्र यदा मनुष्य नीके वडूनिगोमृतकलेवराटोनि तदापञ्चयोननग्रतानि यावत् गन्ध श्रेण
काले चत्तारि तत उक्त पञ्चेति अत्यिगभन्ते पणणी उवमा अस्तिभदन्त प्रजाती बुडिविगोपादु-

घणुपुण्डपाजा घणुधर्मकरी देवलीके देवपणै यमारीवक्तव्यता तज्जनइ दादीनउ क पोवउडूतउ
तेइताहरापितामहीघणुवाकइइइ मनुष्य लोगप्रति सीधु यावित नगिचइ सकइ सीधु आवीनइ
चिहूइ प्रकारइ हेपट्टेसी डिउडाउउ ऊपनउ देव देवलीकनइविपइ वाकइ मनुष्य लोकाप्रति
नसकइ सीधु आवीनइ हवडानउ ऊपनउ देव देवलीकनइविपइ वाकइ मनुष्य लोकाप्रति नस
कइ सीधु आवीनइ हिवटातु ऊपनुदेवलीकनइविपइप्रधान काअभीगिकरी याविनइ जानउ
विपयलकामकइइतीकजीभम्यर्तद्वि यतेभीगकडियइ तंगइकरी मूछितथतु इनिइरुपरामिवधानउ
तिहानपूतउ तेदेवता मनुष्यसवधी कामभीगप्रति न आदरदेइ मनुष्यनाकामभीगनइ काइ काम
भीगकरीनधीमाडतती तेइ देवतावाकइ मनुष्य लोकप्रति नसके आवीनइ इति प्रथमकारण
हवडानुऊपनउ देवता देवलीकनइविपइ देवसवधी काम भागण मूछाणउ इनिइपामं वगणु
तिहाऊपूतउतेइदेवतानइ मनुष्यसवधी प्रेममनइवृटइ इइ देवसवधी प्रेममकमउऊपनउइइ
तेइदेवतावाकइ मनुष्य लोकप्रतिआवदु पणिआवीनसकइपाइलीप्रेमउछाययामाटइ बीजुकारण
हवडाउउ ऊपनउ देवतादेवसवधी कामभीगइ मूजानउ तेमाहि पूतउतेइदेवनइ तेइ देवनइ
इमइइमनमाहि आवदु हवडामनुष्यलोकप्रतिजाउ महुत्तउ जाउ तियइकारणइ इइ अल्प

अद्भुतो ववणणते देवे देवलोएसु इज्जेज्जा माणुस लोग नोचेवण
 सचाएति इव्वमागच्छिता अद्भुतो ववणे देवे देवलोएसु इत्येज्जा
 माणुस लोग नोचेवण सचाएति इव्वमागच्छिता ते अद्भुतोववणे
 देवे देवलोएसु दिव्वेहि कामभोगेहि मुत्थित्ते गिठिते अत्थाववणे
 सेण माणुस्सइ कामभोगेनो आठाति नो परिजाणातिसेण इत्येज्जा
 माणुस लोग नोचेवण सचाएति अद्भुतोववन्न देवे देवलोएसु दिव्वे
 हि काम भोगेहि मुच्छिण जाव अत्थाववन्ने तस्सण माणुस्सतेपिम्मे
 वोत्थिणे भवति दिव्वे पिम्मेसकते भवति सेण इज्जेज्जा माणुस
 लोगणोचेवण सचाएइ अद्भुतोववणणए देवे दिव्वेहि कामभोगेहि
 मुत्थित्ते जाव अत्थाववणणते तस्सण एवभवइ इयाणगतिय मुत्तुत्तेण
 गच्छतेण कालेण इहि अप्पाउया कालधम्मणा सज्जता भवति सेण
 इत्येज्जामाणुसलोग नोचेवण सचाएइ अद्भुतो ववणणए देवेदिव्वेहि
 जावअत्थाववणणए तस्सण माणुस्सए उरालेगघेपडिकूले पडिलोमेया
 भवति उठ पियण जाव चत्वारि पच ज्ञोयणासयाइ अमुमे साणुस्सए

पमा अयोगगणायगे त्यादि । गणनामका प्रकृति महत्तरा । दण्डनायका स्तम्बपाला राजेश्वर
 आउपानामनुष्य कालधर्म संहित ह्याहूइएतलइमनुष्यमूआहूइ तेइदेववाकइ मनुष्यलोकप्रति
 आविवुपणिसकइ आवीनइमनुष्यलीकइजेहसायइसबधीहूइतेमनुष्यनिमृतपामाहूइपतैतेइदेव
 इहाआवीनइसू करइएज्जकारण हिउडानउऊपनउदेवता देवसबधी कामभीगइ मूर्खानउ पूतउ
 तेइदेवनइ मनुष्यसबधी उदारिकसरीरनु गध प्रतिकूल उपराठउ प्रतिलोमअमुहादउहूउ उ चु
 पणि जिहा प्यार पचसइ ज्ञोयनलगइ भुडउ मनुष्यसबधी गध जाइइइ तेइ देवता वाकइइइ
 मनुष्य लोकप्रति आविवुपणिसकइ आवीनइएहउचूकारणउ इणइ चहूइ प्रकारइ हेप्रदेसी
 हवडानउ ऊपनुदेवतादेवलीकइइइइयकु वाळे मनुष्य लोकप्रति सीधु आववू पणिनिउचइसकइ
 सीधुआवीनइ तेणइकारणइ सइइइ तुम्हे हेप्रदेसी जेइ अनेरुजीव अनेरु सरीर नहीसरीरतजीव
 अनइजीवतेसरीरएहवीनु प्रश्न तिहारपकी तेइ हेप्रदेसी राजा कीसी कुमारसमणप्रति इमधोत्य
 उ इइ हेपूज्य एहप्रन्नायकीबुद्धिकी उपमाइष्टात एणइपणि कारणि नचावइएतलइजीवतव
 माहरइहीइनागइ अमणुप्रकारइ निश्चइ हेभगवनहू कीईकसमइ वाहिरला बइस वानीसभाइ
 धणइस्वभावइमीटा देवतारखवालायुवराजा तलार दाणी हस्तीप्रमाणइअघटिनसुवर्णनाधणी

गधए अभिसमागच्छद् मेण इत्येभ्भा माणुसलोग चेवण संचाद्भ्भा
 इव्विच्चि चच्चि ठाणेहि पएसी अहूणोववणणए देवे देवलोएसु
 इत्येभ्भा माणुस लोग इव्वमागच्छित्तए नोचेवण सचाणद् इव्वमा
 गच्छित्ततेतं सद्दिण तुम्हं पएसीज्जा अन्नोजीवो अन्नं सरीर
 नोत जीवो तसरीर २ तण्णसे पट्टेसी राया केसी कुमार समण एव
 वयासी अत्थिण भते एसापन्नत्तो उवमाइमेण पुणकारणेण नो
 उवागच्छद् एव खलु भते अह अन्नया कयाद् वाहिरियाए उवद्दा
 णसान्नाए वहुहिं गणनायगटडणायगई सरतलवर माडविकोड
 विद्या इभसेठिसेणावद् सधवाह मतिमहामति गणगटोवारिय अम
 व्ववेड पीठमदल्ल नगर निगम हूयसधि बालेहिं सद्धिं सपरिवूडे
 विहरामि ततेणां मम नगरगुत्तिया सम्मक्खउ सद्धोठ सगेवेज्ज अ
 उ डग वधण बद्ध चोर उवणोति तएणां अह तं पुरिम जीवं तचेव
 अउक्तभीए पक्खिवावेमि अउमएणा पिच्चाणोणां पिच्चाभेमि अएणाय
 तउएणायकयावेमि अयपच्चत्तिएहि पुरिसेहि रक्खावेमि तण्णा अहं

तलवरमाएडविक कौटुम्बिकेभ्य क्षेष्टिसेनापति सार्धवाह मन्निगणकदीवारिका प्रागुक्तस्वरूप
 आमात्या राज्याधिष्ठायिका ज्येष्ठा । पादमूलिका पीठमर्दा । प्रागुक्त नगर नगरवासि
 शकुंतव नियमा कारिका । दूता अन्येषा गत्वा राजा देवनिवेदका सन्धिपाल राज्यसधि

नगरमाहिमोटातेइथेष्टि कटकनायक सायचलावद् एकबुद्धिनाथणी ऊत्पात्यकामहाबुधिनपणी
 पीलीआराज्यनाअधिष्ठायक राजानइपगइअउकीनइकइसइ पीठमर्दनआच्छपपेरवीटाबइसइनगर
 वामीकाशुकु मादिक कारुणिकामद बिहूराज्यसधिनारककतेसधिपाल एतलासायइ परवरप्रधयु
 विचरुक्कउ तेणइसमइमुभनइ कीटवालएकचोरप्रतिआणीसु पनाहूयातेकीरवाकइ समचआपि
 आगलि चोरीनीवस्तथाइ तेवस्तमलइवाधीकइ पागरणरहितऊषाडुकइ बधइ बाधुकइ एहवा
 चोरप्रति आणीसु पु तिहारपकी हू तेइपुरुप्रमति जीवतु थकु लोहमयकुभीइकीठीइ धलाव्यउ
 लोहमय टांकणइकरी तेकुभाटकावी लोइइ जवउइकरी तेकु भीचुपपेरवीडावी आत्मानइप्रती
 तनइं पुरुपइ तेकु भीचुपपेररखाची तिहारपकी हू कोइंसमइ जिह्वा लोहमय कु भी तिहा
 गयउ तिहा जईनइ तेलीइकु भीयकी बीडणउपेडावउ वीडणउपेडावीनइ तेपुरुप्रमति हू पीत
 इजदेपतउहूउनधीसही तेहलोइकु भीइ कोइक छिइ विवर राइ जेहकिइयकी तेइजीव माहि

अन्नयाकयाइ जेगेमेव सा अउकू भी तेमेव उवागच्छामि तेणेरत्ता
 त अतो कुभी उग्रन्तथावेमि उग्रन्तथावेत्ता त पुरिस सयमेव पामा
 मिनोचेवण तीसे अयोकुभीण केतीछिड्डेइवा विवरतिवा रातीवाज
 उण से जीवे अतोहितो वहितो वहियानिग्गते जइण भंते तीसं
 अयोकुभीतेहोउभाकेती छिड्डेइवा जाव रातीवाजउणसेजीवे अतेहि
 तोनिग्गते तोण अइ सह हेउभापत्तिएज्जा जइा अन्नो जीवो अन्नं
 सरीर जम्हाण भते तीसे अयोकु भीते नत्थि केतिछिड्डेइवा जाव
 निग्गते तम्हामुपट्टिट्ठियामे प्रतिन्ना जइा तजीवो तसरीर नो अन्नो
 जीवो अन्न सरीर ततेण केसीकुमार समणे पपसि राय एव वयासो
 सेज्जानामए कूडागार सालासिया टुहते जित्ता गुत्तागुत्त दुवारा
 निवायगभीरा अइण केइपुरिसेभेरिव दइच गइाय कूडासाल अता
 २ अणुपविससि अणुपविसित्ता तीस कूडागार सालाए सत्वउ समं
 धाषणनिवय नित्थिडाइ दुवार वयणाइ पिधेति २ तीसेकूडागार

रत्तका, नगरगुत्तिया इति नगररत्ताकारिणा । स सरक इति ससाधि सहाड सलोद्र सगवेच्छ
 भ्रान्ति वड किञ्चि ए लोभमित्यर्थ, अवाउउ अणुवृत्त वणन वड चौरमिति भेरि टण्ड चेति

यकी बाहिर नीवाटिथइ बाहिरिनीकल्लु जउ हेपूज्य तेषीइ लोइकु भीइ इतउ काइ हिइतथा
 राइ जेहिइयकी तेइ जीव माहियकावाइरी नीकल्लु तऊ हू सहाइ तउ प्रतीति आणतज्जेइ
 अनेर जीव अनेर सरीर जेणइकारणइ सेपूज्य तेषीइ लोइकु भीइ नयी कीइ हिइ विबर राइ
 जेणीवाटइ थइ जीववाहिरि नीकल्लु तेणइकारणइ मु प्रतिपटासाचीमाहिरि प्रतिज्ञा एतलइम
 मत्तखउ तेजीव तेसरीर नहीअ रेर जीव अनइ अनेर सरीर प्रदेसीराइकहीइ कीसीकुमार थमण
 प्रदेसि राजाप्रति इमवोल्या तेइयथानइपटातइसिखनइ आकारिसालातेकूडागारसालातेसाली
 वाहिरि त्रिभूप्रकारिलीपीहुइ चुपपेरमटकडहुइ कमाउजडीहुइ माहियायनुप्रवेसनहुइ निवात
 हूतायकीगभीरउडाहुइ हिइइ कीइकपुवपेरी डोल अनइदडप्रति लेइ तेइसालानइ माहिर
 पैसइ पवसोनइ तण्णइ सालाइ सघलउ सवथापि भाजइनहीपाटीपानाउतरारहित हिइरहित
 कमाउइकरी वारणानीमुइढाकइढाकीनइ तेइ सालानइ धणु मध्य देसभागइ रहीतइतेइ भारी
 प्रतिदडइकरी मीटइइ सवइकरी वजडीइ तेइतानु हेप्रदेसी सव्द शालामाहियकीवाहिरि नीक
 लइइमकेसीगुरकहिथकि राजाकइइइइहाभगवनतेसव्दवाहिरिनीकलइ वलीकेसीगुरकइइइइ

मालाए वडूमवमदेसभाइ ठिळ्वीतभेर दडिणा मड्यार सडेणाताडेजभ
 सेनूणा पदेसीसडे अतोहतो वडिया निगच्छइ इता निगच्छइ अत्यि
 णां पदेसी तीसे कूडागार मालाए केडिडिडे जाव राई वाजयाण
 से सडे अतो वडिया निगतोणोडण्टे एवामेवपदेसी जीवेवि अप्प
 डिडयगती पुठवि भिव्वा सिल भिव्वा पव्वय भिव्वा अतोहितो
 वडियानिगच्छइ तसइडाडिणा तुम पदेसी जडा अन्नोजीवो तचेव
 तएण पदेसी राया केसीकुमार ममण एववयासी अत्यिण भते एसा
 पणत्तो उवमा इमेण पुणकारणीण नो उवागच्छइ एव खलू भते
 अन्नयाकयाइ वाडिरियाए उवट्टाण सान्नातेजाव विहरामि ततेण
 मम नर्गात्तयाममवख जाव उवणोइ ततेण अइ तपुरिस जीविता
 ताववरोमि जीवियाताववगेवित्ता अयोकु भीए पविखवीविमि अयो
 मएण पियाणेण पिहावेमि जावपव्वइ एडिपुगिसडि रखावेमि तएण
 अइ अन्नया कयाइ जेणेव अयोकु भी तेणेव उवागच्छामिरत अयो
 कुभीउगलच्छावेमि त अयोकुभी किमिऊ सकुल पिवपासाभि नो

भेरीठक्का दपडीवालन दपड । वाम वामिणमित्वादि वामेन वामेन एव दण्डिखोत्पाद्यपि भाइ

हेप्रदेसी तेषीमालाइ कीइ किद्र विवर राइ तेषीडिकरी तेहसदमाडिधकी बाहरिनीडळु
 प्रदेसाकडइइतेणोमालाइकिइनथी वलीगुळकरुडेइणिएप्टाति हेप्रदेसी जीव पण्णोत्तिइइइ
 लीगतिळजीवनिगतिकीइनजाणइकेवलीजीणए प्रथवीप्रतिभेदीनइसिलाप्रतिभेदीनइ पवंतभेदेइइ
 माहि वाहरि नीकलइ तेषीकारणिअवडिवावउ करीमाहि तुम्हे हेप्रदेसी जेइ इदेउ उडे
 अनइउतेएइइमरीर बीजुप्रश्न केसीगुरिइ'मकधीपडी प्रदेसी राजा केसीकुमारअन्नइउे एन
 बोव्यु इइ हेभगवन एहप्रश्नाउडिथकी उपमाहप्टातपणि हाटातइ माइरइडीइकीव उववइइ
 इणइयाप्रकारइ निश्चइ हेपूज्य कीइकसमइ वाहरिनी वरइसवानीसभाइ इनेइकडुचु उपरउ
 थकउ विथरुळउ तेणइसमइ मुभनइ कीटवालतेणइ आपिआगलिवस्तुइहेउेउे अरुनी
 सु पताइयी तिहारपळी हू तेइपुरुपप्रति जीवथकी रहीतकरतउडुउ उेउेउे रडेउेउेउेउे
 लोउेनीकु भीइ धलाव्यु लीइमय ठाकणइ करी तंकु भीठकावी तरुइ करी उेउेउे उेउेउेउे
 तिनइ पुरुपि चउपधेरइयावी तिहारपळी हू कीइकसमइ जिहा लोइइइइउे तिहारउउेउे
 नइ तेइ लाइमय कु भथकी बीउणउखेलावतु हू उ तेइ लोइकु भीउेउे उेउेउेउेउेउे

चेवण तीसे आयाकु'भीण केइछिडडेवा जाव रातीवाजउगा ते जावा
 वहियाहि अतो अणुपविट्ठा जातिगां तीसे अपोकु भाण होउभा केइ
 छिडडेवाजाव अणुपविट्ठा तोगा अह सइहेउभा जहा अन्नोजीवो
 तचेव जम्हाण तीसे अयोकुभीण नत्थि केइ छिडडे वा जाव अणुप
 विट्ठा तम्हा सुपतिट्ठियामे पइणा जहा वज्झीवो तं सरीर तचेव
 ततेण केसीकुमार समणे पतेसि राय एववयासी अत्थिगा तुम्हे
 पतेसी राया अय धत पुव्वे वा धम्माविपुव्वे वा हता अत्थिमेनूण
 पएमी अयोधते समाणे सव्वे अगणिपरिणते भवति हता भवति
 अत्थिगा पदेसी तस्स अयस्स केइछिडडे जाव राइवा जेणसे जोइ
 वहियाहितो अतो अणुपविट्ठेनो इणट्ठे एवामेव पएसी जीवेवि अप्प
 डिहय गई पुठरिभित्त्वा सिन्नभिच्चा पव्वय भित्त्वा वहियाहि अणु
 पविएसइ तसइहाहिण तुम्ह पएसी तचेव ४ तएणसे पदेसी राया
 केसिकुमार समण एववयासी अत्थिगा भते एसीपन्नत्ता उवमाइ

नीयम् । देइणामेगणीसण्यवेइ इति । तदातिदान प्रयवृत्ति न सन्नपयति न सम्यगालापेन
 सन्तीपयति चतर्भध्याका पाठ सिद्धा, एवामेवपणसिउमपियव्वहारी इति यद्यपि त्व न सम्यग

परि देपतउहूउनथीसही ठायीइ लीहकु भीइ कीइछिइ तयाविवर राइ जेणइछिइकरीजीव
 वाहरिपकी कु भीमाहि पइडा जउ तीथीइ लीह कु भीइ इतउ कीइछिइ तयाराइ जेणछिइइ
 वाहरिपकी जीवकु भीमाहिपइडा तउ हू सइइतमानत जेइ सरीरथकी अनैर जीवअनइजीव
 थकीसरीरनेसपूर्वनीपरिजेणइकारणइ तंथीइ लीहकु भीइ नथी कीइ छिइराइ जेणइछिइइकरी
 जीववाहरिपकी कु भीमाहिपइठा तेषइकारणइ सायामाहरी प्रतिप्पा जेइसरीरतेइजजीव जीव
 तेसरीर पूर्वनीपरि प्रदेसीइमकडीपकी केसी कुमार अरण प्रदेसी राजाप्रति इमवोल्ल्याइइ किवा
 रइ तुह्णी हेप्रदेसी राजालीइधमउ पूर्वइ अथवाअनेरापाहिधमावु पूर्वइ केसीगुरेकहु इकतिलाह
 दीवउकइप्रदेसीकहिहाभगवनलीहधदीवउकइ वलीप्ररुइइइ अन्तिकइ तेइसाचु हेप्रदेसी लीह
 धमउ थकु सघनइ अग्निकरी वीप्ल हूइ प्रदेसीकइइइहाभगवनहेलीधसुयकउसगलइ अग्नि
 प्ल हूइ गुरुकइइइइ हेप्रदेसी तेहनइ लीहनइ कीइछिइ विवर राइ जेणइछिइकरी तेह
 न वाहरिपकी लीहमाहिपइउउ प्रदेसीकइइइइसावुतेणइलीहकइनथी एवलीगुरुकइइइइ
 हेप्रदेसी जीवपणि असदलितगतिकइइपीइसकइनहीजीवनीगतिकेइवीइइ प्रथवी

मेव पएसी सोचेव पुरिसे वाले जाव मदवियणा अपज्झ तोवगरण
 नोभूपचकडग निसरित्तएत सद्वहाङ्गिण तुम्ह पणसी जहा अन्तो
 जीवो ततेव ५ तएण पणसीराया केसी कुमार समण एव वयासी
 अत्थिण भते एसापन्नात्तो उवमाइमेण पुणकारणेण नाउवागच्छइ
 भते सेज्जहाणामए केइ पुरिसे तरुणे जाव वसिप्पोवगए पभूएग
 मइ अयभारगवातउयभारगवा सीसभारगवा खारभारगवा परि
 वडित्तत्ते जइण भते सोचेवण पुरिसे जुगो जज्जरियदेहे सिठिल
 वलितयाए विणट्ठगत्तए टडपरिगय हत्थे पविरल परिसडिय टट
 सेठी आउरिण पिवासित्ते दुव्वले कूहा परिकिलते पमूएग मइ
 अय भारवा जाव परिवडित्ततेतोण सद्वहेज्झा २ तहेव जम्हाण
 भते सोचेव पुरिसे जुणे जाव किलतेनोप भूएग मइ अयभार वा
 जाव पगिवडित्तए तम्हा सुपइट्ठिया मेपत्तिगणा तहेव तएण केसी

तदपवीत परमचमान्तोपमप्रापित इति । इन्तापएसीइत्थिस्स कुन्युस्सयमिमे च जीवे इति प्रदेशाना
 तुल्यत्वात् केवल सञ्ज्ञोचविकीचधम्मत्वात् कुन्युशरीरे सञ्जुचितो भवति इन्तिशरीरो विस्मृत
 उक्तञ्च आसाज्य कुन्युदेइन्तित्थिमित्तोगयम्मिगयमित्तो, नयसज्जम्हइ जीवो सञ्ज्ञोचविकीच

जीवखाधीनइ प्रत्यचाइ जीवपाधइ बाणइ समयइइ पचवाणप्रति नापवा प्रदेशी राजा कहैवे
 तरुणपहुपपणि ज्जुतिधनुवइवाणनापवासमर्थनही गुरुकइइइइ स्याप्राटइतरुणनरज्जुनइधनुपइवा
 णनापवासमर्थनही राजाकइइइइ हेपूज्य तेहनातरुणापुरुषनी अपजापतां अधूरा उपगरणइइ
 गुरुकइइइइ एणइहप्टातइ हेप्रदेशी तेहीज पुरुष वाल्यु निर्बूडि विज्ञानरहित पूरा उपगरण
 इट्ठिय वलजुद्धिनधीतेमाटइतरुणीपरि नही समर्थ पचवाण नापवा तेणइकारणइ सदइत तुम्हे हे
 प्रदेशी जिम शरीरकी अनैरउजीव अनइजीवकीए अनैरुमरीर एहपाचमुपग्रन ५ तिहारपकी
 हे प्रदेशी राजा केसीकुमार अमणप्रति एम वोल्यु कइ हेपूज्य एह प्रजायकी उपमाहटातइणइ
 पणि कारणइ तंतइ जीवतत्वमाहरइहीनवाइ हेपूज्य तेह जथानीमइ कीइक पुरुषतरुणउ
 नीगंगवुद्धित वित्तानसाइत समर्थइइ एक मोटा लोहभारप्रति अथवा तरुउ थाजाभारप्रतिइ
 सोमानाभारप्रति लूणादिकखारनीभारप्रति वइवीनइ जउ हेपूज्य तेहीज पुरुष जुमउ जालरी
 देइजुधणी मिविलदेहमाटइ लीलरीवली तीतइकरीवीटउकइगाउ अगजेहनु दइगुहिलकइ
 ङायइ विरलायइ पडी दतनीथेणि जेहनी मदवाडीउ वस्यउ दुवलु भूइ करीगलानपणउ

एव वयासी अत्यिण भ ते जावनोवागच्छइ एव खलु भते जाव
 विहरामि ततेण मम नगरगुत्तिया चोर उवणेति ततेण अइ त
 पुरिस जीव तगचेव तुले २ चाछविळ्ळेय अकुच्चमाणो जावोतातो
 ववरोएभि जीविताउ ववरोविया मय तुलेमि २ नोचेवण तस्स पुरि
 सस्स जीवितस्स वातुलियस्स मयस्स वा तुलियस्स नत्थि केइ
 अणत्ते वानाणत्ते वा उम्मत्ते वागरुयते वालहुत्ते वा जतिण भ ते
 तस्स पुरिसस्स जीवितस्स वा तुलियस्स मयस्स वा तुलियस्स हो
 उभाकेति अणत्ते वा जाव लहूयत्ते वा तोण अइ सहहेज्जा २
 तचेव जम्हाण भ ते तस्स पुरिसस्स जीवियस्स वातुलियस्स वा तुलि
 यस्स नत्थि केइ आणते वाललूहूयत्ते वा तम्हा सुपतिट्ठियामोत्ति
 णणा जहातज्जीवो तचेव तएण केसी कुमार समणे पएसिराय
 एव वयासी त अत्यिण पदेसी तुम्हे कज्जाइ वत्थीधतपुव्वे वाइता

आयव' प्राणातिपातादि' । आहारनीहारीच्छ्वासनिश्वासाद्विदुतय' प्रतीता' । इदुरक महन्
 पिठक येन समस्तापि रथवतीस्थयते । गोकलिज नाम यव गीभक्त प्रचिप्यते पत्रिका पिठक
 च प्रतीतम् । गण्डयुक्तामायिका देशविशेषप्रसिद्धा । आटकाडाटक प्रस्थकाड' प्रस्थककुल
 वाड' कुलवामगधदेशप्रसिद्धा धान्यमानविशेष', चतुर्भागे काप्टभागिका धौडशिका द्वावि शका-

पक्षी तेइ हेप्रदेसी राजा केसी कुमार थमण प्रति इम वील्युक्कइ हेपूज्य वूडिवलइएइहाटात
 पणिए ह्पटातइ जीवतत्तमाहरइहाइनीवइ थमनपिकारी निशचइ हेपूज्य कीइकसमइ राज
 सभाइ हू विचरु छउ तेणइसमयमुभनै नगर कीटवाल चोरनइ वाधीनइसुपताहूयातिह्वारपक्षी
 हू तंपुरुपप्रति जीवतउज्जेतीलउतुहूउतीलानइ चर्मइइ अणकरइजघकइ एतलइ सस्रविना
 जीवथकी रत्तिनकरउउ एतलइइ पुदेइमाइजीवथकी रत्तिनकरीनइमूया चोरप्रति तीलार पणि
 नहीज तेहनइ पुरुपनइ जीवितानइ तोलीनइ अथवा मुआपक्षी तोलीनइ नथी काइ धोडउ
 घणउ मानइ भारघउ अथवाहनु आपणु जउ हेपूज्य तेहनइ पुरुपनइ जीवितानइ तील्या
 नइ अथवा मूआपक्षी तोल्यानइ इतउ काइक धोडउ भारेपणु अथवा हनु आपणउ तउ हू
 सहइतमानतजसरीरयीजीपतेरउ अनइ जीव सरीर थनेरउ जेणइकारणइ हेपूज्य तेहनइ पुरुप
 नइ नीवितानइ तोलीनइ अथवा मूआनइ तोल्यानइ नथी काइ धोडउ भारेपणु हलू आपणु
 तेणइकारणइ साचीमाहरि प्रतिआ वूडि वीइ शरीरतेहाजजीवतेसरीर अनइपूर्वनीपरि प्रदेसी

अत्यिण पदेसी तस्स वित्थिस्स पुणस्स वातुलियस्स अपुन्नस्स वा तुलियस्स केइ अणत्ते वा जावलहूयत्ते वा नोतिण एवामेव पए सी जीविस्सवि गुत्थयलहूयत्त परुव्व जीव तस्म वा तुलियस्स मयस्स वा तुलियस्स जाव भत्थि केइ आणत्ते वा जाव लहूयत्ते वा त मह्हाच्चिण पदेसी तचेव ७ तएण पएसी राया केसी कुमार समण एव वयामी अत्यिण भ ते एस्स जीवणोउ वागच्छइ एव खलु भ त अह अन्नया जाव चोर उवणेति तएण अह त पुरिस सव्वउ समता समभित्ताएस्सि नोचेवण च जीव पासांमि ततेण अहं त पुरिस दृच्चा फालियकरेमि सव्वतो समता समभि लोएस्सि नोचे वण जीवं पासांमि एव तिच्चा चउच्चा सखिञ्चहो फालियकरेमि जाव नोचेवण त जीव पासांमि जतिण भ ते अह तस्मि पुरिसस्मि

मगन्धदेमप्रमिडाएव रसमानविजेपा हीपचम्पकी हीपद्यगनक एवमेवेत्यादि निगमन कण्ठ उक्तञ्चेतदन्यथापि । जइदीवी महइथीरेपलीवितोत धर पयासेइ । अप्यपयारते त एव जीवी सदेहाइ इति । कल्लम्याउप्पभायाएरवयीए जीवतेयसा जलन्ते इति अथ वाचत्करणात्

राइ इमकहीपकी केसी कुमार अमण प्रदेसी राजा प्रति इमवील्याइइ हेप्रदेसी तुम्हे किवारक चमनीयमणि धयवा दावडधमतायकावाइ पुग तायकादिवीइ कइ राजाकइइइ हा भगवन हा ठाकइ वलीगुक्कइइइइ हेप्रदेसि तेइनइ चर्मदीवडाइ वाइ पूणनइभरीनइ तोलीनइ ठाली नइ तोलीनइ काइ धोउउ धयउ भारेपणउ हलउ चापयउ राजा कइइइइ नहूइदावडी वाइ भरीनइ तथा वालीकाइ भारेपणुइनुयापणउ गुरुकइइइइ एणइइटातइ हे प्रदेसी जीवनइपणि रुलहूपया आवी जीवितानइ तोलीनइ अथवा मूचापकी तोलीनइ तथा धोउउ धयउ भारेपणु इलूयापणउ तणइकारणिसानितु हे प्रदेसी सरीरथा जीव अनरुणमातमउप्रश्न ७ गुरुप्रमत्तापणी प्रदेसी राजा केसी कुमार अमणप्रति एमवील्यु इइ हेपुज्य एह बुद्धिवलइ इप्पांतइ पणिमाइरउहीइतावइ अमनुप्रकारइतिसइ हेपुज्य इू कीइकइमइ राजसभाइकइतउ कइ काटवाएक चोर मुभनइ आणीसउपु तिह्वारपकी इू तेइपरुपप्रति सटालउ सम्यगप्रकारइ हे ठिकपरिजायवु पणिनधाकिहा इजीव प्रतिइदेपु तिह्वारपकी इू तेइपरुपप्रति विइ फालिया करतउहूउ सधलइ रुडीपरि जायक पणिनहीकिहाइ जीव प्रतिइ इम वणिफालिया च्यार फालाया मय्याताधणा फालियाकरतउ हूउ सधलइ जीउपणिनहीकिहाइतइ चीरनाजावप्रति

दुहवा तिहा वा चउहा वा सखेञ्भाहा वा फालियमि वा जीव
 पासतो तोण अह सद्धिञ्जा तचेव जम्हाण भ त अह तसि
 पुरिसमि दुहावा तिहावा चउहावा सखेञ्भाहा वा फालियसिवा
 जीवन पासामि तम्हा सुपड्डियामे पडन्ना जहा तजीवो तस्सीर
 तचेव तएण केसी कुमार समणे पणसि राव एव वयासी मूठ
 तराएण तुम्ह पदेसी ताउ तुत्यत्तराउ केण भ ते तुत्यत्तराउ
 पदेसी सेजहानामए केइ पुरिसा वणत्थीवणणोपजीवा वणग
 वेसणा याण जोयच जोयभायणाच गहायकट्टाणा अणवि अणप
 विहा तएणाते पुपुरिसा तीसे अकामियाण जाव किचिदेस अणु
 एत्ता सभाणाएग पुरिस एव वयासी अम्हेण देवाणुप्पिथा कट्टाणा
 अणवि अविस्सामोएत्तोण तम्ह जोयभायणाउ जोइ गयाइ
 असण साहेञ्भासि अहत जोइ भायणे जोए विव्भाएञ्भा एतोण
 तुम्ह कट्टातो जोति गहाय अम्ह असण साहेञ्भासि तिकटूकट्टाणा

फुल्लुप्पलकमलकीमलुम्मिलियमिअह पण्डरेपहाए रत्तासीगकिसुयपलासपुप्पसुयमुह गुञ्जइ
 रागसिरेसेकमलागरनलिणि सण्डवीइए उड्डियमि मूरे सद्धस्सरासिमिदिथयरे इति परिगुह

देपतउ जउ हेपूज्य हू तेह पुरुपनइविपइ वरप्रकारइ वणि च्यार सख्याता फामिया करइ
 थकइ जीवप्रति देवतउ तउ हू मानतपूतीत आथे सपीरथा जीव अनरउ जेणइउरणइ हेपूज्य
 हू तेह पुरपनइविपइ विइ वणि च्यार मख्याता फालियाकरइथकइ जीवप्रति तदेपु तेमाटइ
 साचीमाहरी प्रतिज्जा जेह सरीरतेहजजीव अनइजीवतेसरीर पूर्वनीपरइ प्रदेसीइ इमकहापकी
 केसी कुमार थमण प्रदेसी राजा प्रति इम बील्या धणु जमूटमूर्प तुम्हे हेप्रदेसी तेपुरुपकीधणुज
 तुतोइहु गुरुकइमकहीपकी प्रदेसीपूइइइइ तिकउणपुरुप हेपूज्य जेहधकी हू धणुजमूटतोइउ इम
 राइकहापकी गुरुकइइइइ हेप्रदेसी तेह यथाहएटातइ कीइक धणो पुरुप वणसवधीइ धयना
 अथा वननी आजीविकानी करणहार वनमाहिइधयनीगवेपणानाकरणवातइ अर्धअग्निप्रति अनइ
 अग्निभाजणप्रति लेइ इधयनी अटवी प्रतिपइवा तिहारपकी तेह पुरुप केइ वाइवानइ अयोग्य
 एतलइ महागहन अटवीनुसधलु वर्णकमाथसरहीत तेहनीएकदेसप्रति पधू तायका एकपुरुपप्रति
 इमतेसधलीइ बील्या अम्हे अही देवानुप्रिय कापटनइ अर्थि आघेरा अटवीप्रति पइ सउ कउ
 एइथकी तु षपि भाजनथकी अग्निप्रति लेइ नइ धानप्रति राधे अघवाजु तेह अग्निभाजनइ

अडवि अणुपविद्वात तेषामे पुरिसे तच्च मुहुत्त तरस्स तिमिपुरि
 सागा असणा सार्द्धिमित्तिकट्ट जेणिव जोड भायणे तेषेव उवागच्छइ
 जोडभायणे जोड भाय विव्भायमेया सति तण्णासे परिसे जेणिव
 सेकट्टे तेषेव उवागच्छइ २ तं कट्ट सव्वतो समृता समभिलोए
 नोचेवणा जाइ पामति ततेण पुरिसे परियसवधइ २ परसुगेणइइ
 तकट्ट दुहा फालियकरेइ २ सव्वउ समता समभिलोए नोचेवणाच
 जोइ पामति एव जाव सखेज्झ फालिय करेइ २ सव्वउ समता
 समभिलोए इनोचेवणा वजेइ पामति ततेणते पुरिसेतत्तिकट्ट सि
 दुहा फालिय सिवा जाव सखेज्झ फालिय सिवा जोति अयासमाणे
 सते पुरिसते निव्विणणा समाणे पुरमु एगेते एडेति २ परियर
 मयति एव वयासी अद्धोमए तेसि पुरिसाण असणेणोसाद्धिए त्ति
 वधट्ट उटयमणसकप्पे चिता सोगसागर सपविडे करयल पल्लहय

अस्यायमथ', कल्पमित्तच प्राङ्प्राकाश्ये तत प्रकाश प्रभायां रजन्या फुल्लोत्पलकमलकीम
 लीन्मीलिते फुल्ल विकसिते तच्च तत उत्पल तच्च कमलशब्द हरिणविद्रेप । कीमलकमठीर
 मुन्मीलित ययासक्य दलाना नयनवीरच यस्मिन् तच्चया तस्मिन्नथ रजनीविभातान तर पापट्टे

विपद् अग्निब्रूमाइनु इहाथी तु काट्टमी अग्निप्रति लेइ अइमारइकाजि अन्त राधे इमवडिकाट्ट
 मी अटवीइपइठा तिह्वारपक्कतिइ पुरुपअटवीनजाणहारनइ मत्तं मद्रयरापइतिहअलवीजाणहार
 पुरुपनइअन्तप्रतिराधु एहवुविचारी जिहा अग्नि भाजन् नइविपइतिहान्नाइअग्निभानननइविपइ
 अग्निब्रूहाणीप्रतिदेपइतिह्वारपक्को तेइ पुरुप जिहा ते अरणीकाट्टतिह्वान्नाइजईनइ तेइकाट्टप्रति
 सधइइ हेठि ऊपरि भुएयर जीइ नही किहाइ अग्निप्रति देपइ तिह्वारपक्की तेइ पुरुपपलवटवाध
 इवाधीनइफरसी लेइ तेइकाट्ट विहूमकारइ फल्लिया करइ सधलइ सम्यगप्रकारइ जोइ नहीकि
 हाइ अग्निप्रति देपइ एमइमवणि च्यार सख्याता फालिया कडिकरी सधलइ रुडीपरि जीइ नही
 किहा अग्निप्रति देपइ तेषइ तेइ पुरिपि तेइ काट्टप्रति छिप्रकारइ फालीया इम तणिवार
 सख्याता फालियाकरइयकइ अग्निप्रति अदेपतुघकउ थाकउ विसंपपणइ थाकु भागुघकउ
 फरसीपति एकातइनापइपीतइ पलवटमू कइजोठइ इम वील्यु अडो इति दमेमइ तेइ पुरुपीनइ
 अर्थइ अन्नराधिउ एहवुविचारी आवणहारसुभनेसरकडिइ इमइथाणउइइ मनतुसअण्यऊपरी
 ठव कुत्तिवचनजेइवु एहउउहु तउयकुचिता अनइसोकुपीउसमूइतेमीहिएपइठउ करतलऊपरि

मुञ्चे अट्टव्भाणोवगण भूमोगयदीट्टाएव्भियाइ ततेणते पुरिसा कट्टाइ
 छिट्ति २ जेणेव से पुरिसे तेणेव उवागच्छइ २ त पुरिस उच्चय
 मणसकप्प जावव्भियाइ माणा पासति २ एव वयासी किण तुम्ह
 देवाणुप्पिया उच्चयमणसकप्पे जावव्भिया इति तएणसे पुरिसे एव
 वयासी तुम्हे देवाणुप्पिया कट्टाण अडवि अणुपवि समाणे ममं
 एव वयासी अम्हेण देवाणुप्पिया कट्टाण अडवि जाव अणुपविट्टा
 ततेण अह तउमुहत्तरस्स तुम्ह असण सच्चिमि तिकट् जेणेव जोइ
 यभाणे जावव्भियामि ततेण तेसि पुरिसाण एणे पुरिसेण छेइदक्खे
 पट्टे जाव उवए सलट्टे ते पुरिसे एव वयासी गळ्हण तुम्हे देवाण
 प्पियाएहाया कयवलिकम्मा जाव हव्व मागच्छह जाण अह तुम्ह
 असण साहेमि त्तिकट् परियर वधति २ परसु गिणहइसरगिणहइ
 अरणि करेइ सरएण अरणि महेइ २ जोइ पाडेइ जोइ सधूखेइ २

शुक्ले प्रभाते रक्षासोर्गत्यादि रक्षाशोकस्य प्रकाशं प्रभा साच किमुक च पलाशपुष्प शुक्रमुख च
 गुञ्जाफलविशेषो रक्तकृष्णस्तदर्थं च तानि तेषा सहस्रे चारुतया समानकमलागरनलिण्य

दीपुञ्जेइ भूपलइरातहथउदेइ आत्तध्यानिप्राप्तव्यकउ भूमिनइविपइ प्राप्तइइ ह्दष्टिजेहना
 एहवुधकु आत्तधानकरइइइ तिह्वारपक्की तेइ अटवीनाजीणहार पुरुप काष्टप्रति छेइइकेदीनइ
 जिहा तेइ अतीनुपुरुप तिहा आवइ आवीनइ तेइपुरुपप्रति आत्तध्यानइहणाणउच्छइ मननु
 सकल्पविचारगलहमुयुइइ एकवुधकु आत्तधानकरतउ थकउ देपइदेपीनइ इमवोन्या काइ
 तुम्हे देवाणुप्रिय आत्तध्यान धाइइइ तिह्वारपक्की तेइ तेइ आत्तीउपुरुप इम वील्या तुम्हे इ
 देवानुप्रियाउ काष्टमी अटवीप्रति प्रवेसकरताथका मुभनइ इमवील्या अम्हे देवानुप्रिय कारटमी
 अटवीइजीउच्छ तु अमारइकाजि अन्नरापीमूकैइमकहीनै अनेककीधार्पाणि अग्नितापाट्टीतिमाटइ
 आत्तकहउउ तिह्वारपक्की भू तहमुहूत्ततिरइ तुम्हारइकाजी अन्न प्रतिराधउ इमविचारी जिहा
 अभिनुभाजनतिहाय यउ अग्निउलीणीदाठीपुलवटवाधीकाष्ठनाफालीया अनेककीधार्पाणि अग्नि
 तपामीति माटइ आत्तधानकहउउ तेणइ इमकहीपक्की तेइ धणापुरुपमाइइ एक पुरुप अवसणुदाण
 काय उउ ककारी अग्रपामी बुद्धिवत गुरुनउ उदयदेसलाधउच्छइ जिणइ तेइ पुरुप इम वील्यु
 काउ तुम्ह अमी देवानुप्रियाउ स्नानकरी देवपूजाकरी जेणे एहवाथका मुडवरत्तपहिरी सीधु
 आत्तु ते उउ इ तुम्हारि काजि अनप्रति मधउ इमकही मउवट वाधइ फरसी लेइ सरप्रति

तेसि पुरिसाण असण साहेति ततेणते पुरिसाणहाया जजवलिकम्मा
जाव पावत्यिच्चा जेणेवसे पुरिसे तेणेव उवागच्छइ ततेणसे पुरिसे
तेसि पुरिसाण मुहासणवरगवाण तं त्रिउल असण पाण खादम
सादम उवणेत तेणते पुरिमातविउल असण ४ आसाएमाणा वी
साएमाणो जाव विहरति जिमिय भूत्तुत्तगवा विद्यण समाणे आउ
ताचोक्खा परमसुइ भूयात पुरिस एव वयासी अहोणा तुम देवाणु
पियया जड्डे मूढे अपति तेनिव्विन्नाणे अणुवटंसलहे जेण तुम
अच्छइ दुहा फालिय सिवा जोइपासित्तए सेतेणहे पणमी एव
वुच्चाइ मूढतराएणा तुम्ह पएसो तुच्छतराउ तणण पटेसीगवा
केसी कुमार समण एव वयासी जुत्तण तुवम भते अइच्छेयाण
दक्खाण पतिट्ठाण कुसलेण मेहावीण विणीयाण विणाणपन्नाण
उवटसहाण अइ इमीसाए महालियाए महव्वए रिसाए मग्गे

सणउवीइए । इति कमलाकरा ऋदादय स्तुपु नलिणीपणडास्तेया वीधके उचिते उदयप्राप्ते

गृहइ अरणीकाष्टकरइ सरइकरी अरणीकाष्टप्रतिमधैमघनइ अग्निणउइ अग्निमधूपइ तेइ
युरुपमइ अथ अन्नप्रति राधइ तिहारपक्षी तेइ बीजायुष्य स्नानकरी देवपूजाकरी इस्वप्नटाल
वीनइ अर्थिमपीतिलकादिककरी मुहवस्वपक्षिरी निहा राधणहारइ पुरुष, तिहा आवइ तिहार
पक्षी तेइ हाइउपुरुष तेइने पुरुषानइस्नानकरी सुखि आसणइ अवीवरवीने तेइ विस्तीर्य अन्न
पांनी खादिमफलादिक मुपवास आगनि आणीदेइ तिहारपक्षी तेइ पुरुष विस्तीर्य असनादिक
चारप्रति आस्वादतायका आस्वादवृत्तयोपुपीवृधणुनापवृत्तसु सिलडी घणुपावृधोहुनीपवृत्तसु रपि
डानेपादिमपातायका परित्तोमाणासमस्त जिमतायका उदनमूपडामडादिपरिभाए माषामाई
माहिबिहची जमाडानतर अपि देवायका विचरइठइ निरययधका आचमनलीधउ परमपवित्त
ययायका तेइ मूर्पणुखप्रति इमजोल्या अहीइति देपइ तुम्हे देवानुमिउ जइ मूपइइ अपडित्त
इइ विज्ञान दलारहित वडानुउपदेपनथीलाणु जेणकारणी तुवाहै विन्निसरयाता काटना
फालिपानेविपइ अग्निप्रतिदेपवीनइ केसी गुरुकहेइइ तेव मूपतइ हाटति हेमदेसी इमग्धीइ
इइ मूढपमूर्पइइ तुम्हे हेमदेसीनी तुइउइइ गुरइ इमकहीपकी उमदेसी राजा केसी कुसार
उमण प्रति इम बीज्य पुत्तउ तुम्हने उंपूज्य अतिउदकइ अवसरनाजायनइ इडाहीनइ प्रति
प्रातायथीनइ वृजिवत बुद्धिउतनइ विनीननइ विज्ञानप्रातने एतलइकतानउतनइ गुरपासइ उप

उवावएहि आउसेहि आउसित्ते उवावयाहिं उद्धि सगाइं
 उद्धिसित्ते एव निब्भङ्गयाहि निच्छोडणाहि तएण केसी कुमार
 समणे पटेसि राव एव वयासी जाणासिण तुम्ह पएसी कीइ परि
 सातोपन्नत्ताउ भत्ते जाणामि चत्तारि परिसातो पन्नत्ताउ तज्जहा
 खत्तिय परिसा गाहावति परिसा माहणपरिसाइसि परिसा जाणा
 सिण तुम्ह पएसीरावासि चउएह परिसाण कस्सकाड ड नीती
 पन्नत्ता इता जाणामिजेण खत्तिय परिसाए अवरब्भइ मेण हत्थि
 ण एवा पायत्थिणएवा सीसच्छिणएवा सूलातिगणवा सूलभिन्नाएवा
 एगाह्वे कूडाह्वे जीविताउ ववरोविज्जावे जेण गाहावइ परिसाते
 अवरब्भतिसेण ततेण वा वेढेण वा पल्लालेण वा वेठित्ता अगणि
 काण्ण जामिब्भइ जेण माहणपरिसाए अवरजइ सेण अणिगट्टाहि
 अकताहि जाव अमणामाहि वगूहि उवालत्तित्ता कुडि आलच्छण
 एवा सुणमलच्छणएवा कीरइ निव्विसएवा आणविज्जइ जेणेइ

सूरे आदित्ते सहस्ररस्सो दिनकरे दिवसकरणगीले तेजसाच्चलिते रेरिज्जभाण्ये इति हरिततया
 देदीप्यमाने माणुमे पुत्र रमणिज्जं भविता पच्छा अरमणिज्जं भविज्जासि इत्यादे पुन्यस्या

दमपापनइमुक्तपुंइहपुत्तजमोटा महापूज्यपरिपदानइमाहिउ वइनाचइअकासवचनिअक्रीसवूज
 मतियूक उचइनोचइउडं पनाइ तिरम्बारववनिउडं पवुनिरह्यारकरिवुणमजनिवूकइ वचनइनिन्द क्तु
 निच्छोडणाइ हीलानीइ निच्छोडवु हीलवु राजाइइमकहापखी केसी कुमार अमथ पुदेसी राजापुति
 इम बील्या जाणइइइ तुम्ह हेपुदेसी केयला परिपदा कही राजाकहिहि हेपूज्य हू जागु कृ
 च्यार परिपदा कही तेकइइइइ एकचवियनी परिपदा १ बीजागाथापुतिनीव्यवहारी यानीपरि
 पदा बीजीग्राह्यनीपरिपदा चु थाचपिनीपरिपदा राजाइइमहापकैकगुरुकहैइइ जाणिकइ तु
 हेपुदेसी एइ चिइ परिपदा माहि केहनइ अपराधी पुरुषनइ कूषदडनीति कही राजाकहैके हू
 जाणइउनिकीइ अयियनीपरिपदानइविपइ तेहनइइस्तकैदकरी एतलइहायकैदीइ चयवा पाट
 कंदपगइतीइ मस्तककैदवड मूलाइपहूचाडवु सुलीइ छेदवु एऊयाइ सिद्धरनीपरि हेवुपाडवु
 जीवधकी रहितकीजइ जिक्कीइ गाथापतिनी परिपदानइविषइ अपराधकरइ तेहनइ तृणइ
 वेठवइकरी परालइ करी वेठीवाटी अग्निकरी वालीनइ जेह ज्ञान्णनीपरिपटाइ अपराधकरइ
 तेहनइ अवाकतइवचनिकरी अवल्लभवचनिकरी अग्रियवचनिकरी अमनीजाइ वचनिकरी उल्लवु

सिपरिसाए अवरञ्जइ सेण नाइ अणिट्ठाहि जावनाइ अमणमाहि
 वगूहि उवालभति एव चताव पदेसी तुम्ह जाणासि तद्भावैणातु
 मम वामेण द डेण पडिकूलेण पडिलामेण विवच्चास विवच्चामेण
 वट्टसि ततेण पदेसी केसी कुमार समण एव वयामी एव खलू अह
 देवाग्घिपिएहि पुठामिल्लूएणचेव वागरणेण सेलट्ठे वतेण मम इमे
 याह्वे अब्भत्थिए जाव सकप्पे समुप्पज्झित्या जहा जहाण पयस्स
 पुरिसस्स वामं वामेण जाव विवच्चासेण वट्टिस्समि तद्वा तद्वाण
 अहणाणच नाणोवलभच चरण चरणोवलभच द सणोवलभ च
 जीवच जीवोवलभं च उवमिस्सामित एएण अहकारणेण चाम
 वामेण जाव विवच्चास विवच्चासेण वट्टेत्ते तत्तेण केमी कुमार
 समणे पदेसि राय एव वयामी जाणासिण तुम पणसी कतिववहा
 रणा पन्नत्ता हता जाणासि चत्तारि ववहारणा पन्नत्ता देतिणा

यन्तावार्य । पूर्वमन्येषा दाता भूत्वा सम्प्रतितेन धम्मप्रतिपत्तया तेषामदावान भवितव्यं यस्मात्
 मन्तरा यस्य जिनधर्मापभ्राजनस्वच प्रसक्तियथापाउम्भूया उवेज्ज्जला इत्यादि उचला

भुदेइ थाक्कीसी कमडलनइ थाकारइ लक्षणकरीनइनिनीडइ डामदीजइ कूतरानापगतुलाहन
 करीइ देसत्राहरिकाठवानी थाजादीजइ जिनीइ अट्टिपरिपदाइ अपराधकरइ तहनइ नही
 अनिष्टवचनइ अप्रियनही अतियमनोच्च वचनइ उलभुदीजे रानाइ इमकहापली गुरुकडैले प्रथम
 हेमदेसी तुजाणइ इइ तउहीपणि तुमुहनइ डावउ डावै प्रवत्तावै दडरूप अनमुपगुदडइपि
 प्रतिकूलउ पराठउ प्रतिकूलपणइ प्रतिलीमपणउ अनेरइठामि अनेरु कहिवइ वच इहइ गुरुइ
 इमकहापली प्रदेसी केसी कुमार अमणप्रति इमबोल्लु एयीपरि निश्वइ हू हे देवानुमियतुमनइ
 पडिलइजप्रश्न लाधवएतलइवनमाहिपइभीतामइचित्तुजडाखरलुभीजडपजूवासतिएइवु माइरु
 मनोगतवातन तुमेलाधू तिहारइ जप्रतिवीधयाम्यउ तिहारपली सुभनइ एइवुएक आत्मनइ
 विपइ विततरूपसकल्प विचारउपनु जिम जिम एइनइ पुकपनइ डानू डावउ जुउपारवि अनेर
 इवामि अनेरु कहिवइवत्तिं उ तिम तिम हू ज्ञान अनै अज्ञाननउपरमार्थज्ञाननीपासिया इमन
 वारिवनीप्राप्ति सम्यक सम्यक्नीप्राप्ति जीव अनइजीवनीप्राप्तिजीवनुपरमार्थ जयवा पामिसु तइ
 पणइ हू कारणइ डावउ डावउ प्रतिकूलजपराठु वाकउ दाकउ वत्तउरानीइ इमकहापलि
 केसी कुमार अमण प्रदेसी रानाप्रति इमबोल्ला जाणइइइ तुम्हें प्रदेसी कतलान्यववारीया

मेगेखो सणवेति २ सणवेति नामेगेनोदोति २ एगेटेति विसण
वेतिवि ३ एगेनोदेति नोसणवेद् ४ जाणासिण तुम पएसी चउग्घ
पुरिसाणके ववहारीके अववहारीहता जाणासि तत्पण जेसे पुरिसे
दतिणो सणवेद् सेण पुरिसे ववहारी तत्पण जेसे पुरिसे सनोटेद्
सणवेद् सेण सेण विवहारी २ तत्पण जेसे पुरिसे देति विसण
वेद् विसेण ववहारी ३ तत्पण जेसे पुरिसे नोदेति नोसवणवेद्
सेण अववहारी ४ एवामेव णोचेवणा तुम्भ पएसी अववही ८ तए
ण पएसी राया केसी कुमार समण एव ववासी तुम्भेण भ ते अद्
च्छेया टक्खा जाव उवसल्लहा समधाण भ ते ममकरयत्तसिवा
यामल्लय जीव सरीराउ अभिनिवट्टित्ताण दसित्तए तेण कालेण

दुःस्वरूप तथा निर्मला सुप्रलेशेनाप्यकलञ्चितेति भावः, विपुला विस्तीर्णा सकलशरीरव्याप
प्रगाढा प्रकषण मर्मप्रदेशाव्यापितया समवगाढा कर्कशव कर्कशाकिसुक्त भवति । यया कर्कश
पापाणसव्यर्षं शरीरस्य पण्डानि वीटयति । एनमात्मप्रदेशान् वीटयन्तीया वेदनीपजायते सा

कथा राजाकहद्दुक्काहू जाणउक्कउ च्यार व्यवहारी कछा मागधा आवइ तेहपुरपनइ अघदेइ
कामसारइ एकपण्णिमीठइवचनिसतोपइनही वचनइ सतोपइ कीइक एकपण्णिमागुदेइनही एक
देइपण्णि अनइवचनियणिसतोपइ एकनदेइ नवचनिसतोपइ ४ गुरुकहइक्कइ जाणइ तुम्भे
प्रदेसी एहचिहू पुरखमाहि कउणव्यवहारीउकुण अव्यहारीउ गुरइ इमकछापशी राजाकहइ
इइ नाणउइउ तेच्यारमाहिज तिरुप अथीनइमागुदेइकामसारइ वचनइसतोपवामाटइ
वचनइसतोपइ तेह पुरुप व्यवहारीउ तेमाहि जेते पुरुपदेइपण्णि अनइवच नइपण्णि
सतोपइ वे व्यवहारीउ सर्वोक्कुट तेमाहि जेते पुरुप देइपण्णि अनइवचनइ पणिसतोपइ
३ तेमाहि जेते पुरुपनदेइ नवचनइ सतोपइतेह अव्यवहारीउ सर्वथापि निगूणकि ४ चितकर
गुरुकहइक्कइ इणइहप्टातइ नथी सहीउ हेप्रदेसी प्रदेमीइणइवचनिकरीजियेदपाम्युहूतउ सती
धु राउसुप्रज गुरुइमदाहापकी प्रदेसी राजा केसी कुमार थमण प्रति इम बोल्सु तुम्हे हेपूज्य
अतिशेक भ्रसरनाजाण महाउत्थिवत गुरुनुऊपदेसलाधुक्कइ समर्थकउ अव्यवहाराउ णतलइय
अपिनु गीउ वचनइकरीसुम्भे ततोपतुनधीतुङ्गीपण्णिमाहरइविपइ भक्तिमाननुकरनुधकु प्रथमपुरुप
नीपणि उववागीउइतलइ इणइवचनिकरी पूवइ जेमूडसरनु उली २ जाणिवी हेपूज्य माहराकर
तला विगइ आमताप्रमाणइ नीवप्रतिसरीरधका बाहरिकाटी देपाउवापतइ यामलाप्रमाणइ

तव करयत्सिवा आमलग जीव उवदेसेस्सामि एव खन्नु पएसी
 दसहाणाइ ऊउमत्थेण मणुस्से मव्वभावेण नजाणइ नपासइ त
 धम्मत्थिकाय अधम्मत्थिकाय आगासत्थिकाय जीव असरीरवइ.
 परमाणुपीगाल सइ गध वाय अय जिणे भविस्सइ अय सव्व
 टुकखाण अ त करिस्सइवानोवाए याणि चेव उप्पन्न नाण दसण
 धरे अरहा जिणे केवली सव्वभावेण जाणइपासति त धम्मत्थिकाय
 जावनोवाकरिस्सइ त सइहाहिण तुम पएसी जहा अन्नोजीवो
 तचेव तएणसे पदेसीराया केसि कुमार समण एव वयासी सेतूण
 भते हत्थिम्मसय कुयूस्सय समेचेव जीवइता पएसी हत्थिम्मसय कुयू
 स्सय समेचेव जीवे सेतूण भते हत्थाउ कुयू अप्पकम्मतरा चेव
 अप्पकिरियतराचेव अप्पासवतराचेव एव आरनीहार उमास नी

बण्डा रुद्रा तीव्रा अतिशायिनी । दुःखादुःखरूपा दुल्लब्ध्या पित्तत्वर परिगत शरीरो भ्यु-
 क्ताय चापि दोहोत्पत्त्यावापि विहरति तिष्ठन्ति सम्पलियष्क निस्सन्ने इति पद्मासन सन्निविष्टः ।
 सव्व क्रीडमित्यादि क्रीडमान मायालाभा प्रतीता । प्रेम अभिष्वङ्ग माव हेयोऽप्रीतिमाव

दिरुपहित्तु रूपनशीदेपतउनुकि हेप्रदेसी ताहराकरतलनइविपइ आमलाप्रमाणइजीवप्रति देपा
 उउ एयैप्रकारइ निश्रय हेप्रदेमी दसस्थानकदमपदीरथ ऊइस्यमनुप्य सर्वथापइचर्महाण्ट नजा
 णइचाविक दीजानवशेपववीध देपइदर्शनइकरीदर्शनतेसामीन्यववीध तेकइइइइ धर्मास्तिकार्य १
 अधर्मास्तिकाय २ आकासास्तिकाय ३ जीवसरीरहित ४ परमाणुपुहुल ५ सव्वनापुहुल ६ गधनी
 पुहुल ७ वायुकाय ८ एहजिनकेवलीथासाव ९ एह एतलइभवसमस्तदुइनु अ तकरस्यइ एतलइ
 भवइ मीचयामइ १० अथवानहोजाइ एह सव्वार्थनिश्रवइ उपनुइइ ज्ञान दर्शनतेहनुरथहार
 अहतसुसविइइपूजनीक जिनकेवलीजाननुधणीरागहं परहित सर्वसावइइव्यपयायरहित जाणइ
 वसेपणइ देपइसामान्यपणइ तेइइइइ धर्मास्तिकायादिक पुर्वोक्तदशपदार्यंजिहालगिससारनु
 अ तकरस्यइ करइनहीकरइ तेणइकारणइसइइइइमानि तुहे प्रदेमी जेइसरीरथकी जीव अनरउ
 जीवथीसरीर अनेइ जिमजपूवनीपरि एइनुसु प्रश्न ८ गुरइइमकछापकी तेइ हेप्रदेसी राजा केसी
 कुमार थमणप्रति इमबोल्लु तेइ साचु हेपूज्य हाथीनउ कथूयानू मरीपु जीव गुरकइइके इइहा
 प्रदेसी हाथीनउ कु धूनउ सरीपुज जीव राजाकइइइइ तेइसाचु हेपूज्य हाथीयकी कु थूल अल्प
 कम अजपादिककभघीडानुधथी धीडीक्रियाकायादिकव्यापारघाठउ प्राणातिपातादि आवपपण्णि

सास इठी अपञ्चितवत्तरीण चैव कुधू उदत्या महाकम्मतरा चैव
 महाकिरिया जाव महजुइ अ तरा चैव इता पदेसी इत्थीउ कुधू
 थप्पकम्मतरा चैव कुधू उवाइत्थी महाकम्मतरा चैव तचैव कम्महाण
 भते इत्थिस्सयं कुधूससय समेव चैव जीवे पदेसी मेज्जानामण
 कूडागारसालासिया जाव गभीरा अइण क्केइ पुरिमे जोइ च पटी
 वग गहाय त कूडागारसाल अतो अतो अणुपविस्सइ तीमे कूडा
 गारसालाए सव्वउ समताघणनिचय निरतर निच्छिइडाइ ट्ठ्ठ्ठ
 वयणाइ पिहेइ पिहेत्ता तीसे कूडागारमालाए वड्ढमभट्टेमभाण
 त पटीव पत्तीविज्ज्जा तएणासेपटीवा त कूडागारसाल अ तो उ उभा
 सति उज्ज्जोवेइ तवतिपइसेइ नोचेवण वाइइ अइणा मेपुरिमे त
 पइव इटुरएणा पिहेज्ज्जा तयण मेपइ वेत इइइरय अ तोउ भाम
 ति नोचेवणा इटुरगम्स वाइइनोचेवण कूडागारसाल चोनावण
 कूडासालाए वाइएव किल जणण गइमाणिजाण पडिण्ण आठ

अभ्याख्यान मामदीपारोपण पैगून्य पिभुनकम्मपर परिवादविपकीयापरणेपकया अरतिरती
 धनाधर्माणेषु मायामृषा येषा तरकरणतोलाक विप्रतारणा मिथ्यादर्शन मिथ्यात्व तन् मन्थमिव

षाडूउ णमज आहारषाडू मलमवादि उ चउलिवगुऊमीस अइपिगाररूप अण्यइइ भतिमरी
 रती कान्तिमहाकु वृयाचकी हाथीमहाकम आउपात्तिकम धयु महाक्रियाव्यापारनुवरक
 इमज आहारनीहारसासीत्वासत्तइइयथी महाकान्तिउयथीमहा गुसककैइके शापदमी हावीचकी
 कयू अत्यकमा अतइकंयुधकी हाथीमहाकमोमहातज्जतिमज पूवनीपरितउ राजाकरइइ डिम
 हेपूय्य हाथीनउ अनइकयुनु मरीपुज जाव गुसकइइइइ इपदमी तेइ प्रवाइएतातइ इटनइ
 आकारइमालाघरइइ-निवातकमावत्तइगइइइतउ ठाइइ तिहारइ कौडकुरुपज्जानिरुप दीवा
 प्रति लेइइइ तइकूडागारसालामाहि धाहि पदमइ तेइ उडागारसालानइ मयइउ चनुपय
 भाउइइनी पाटीयाना आतरारइइत कमाइइ कमाउ अ तकरनही डिइइनी पइइइ कमाउइ
 धारणावकन टाकइ टाकीनइ तइ कूडा गारसालानइ धनु मध्यर्दमभागइ तेइदीवाप्रति प्रतीउइ
 पगटकरइ तिहारपत्ती तेइ शयु तेइकूडागारसालानइ माहि उ मधीयगतवम्भुनइतीपाइइ उया
 तकरइ तपइ विमपण्यइ प्रकारीकरइ नहीउतइ धरगार्हरिप्रकावकरइ अथवा तेइएरप निज्ज
 दीवाप्रति मोटउवसमायाभाउइइकरी टाकइ नुइ तइ दावउतइ डालानइ न.हिउउउ.इ.इ.इ

एण अद्वाढएण पत्यएण चउव्माइया सोलसियाए ळ्तीसियाए
 चउसद्वियाए तएण सेपुरिसे त पदीव दीवाव पतेण ततेण सेपदीवे
 दीवाच पग अंतोउ भासति ४ नोचेवण दीवाच पगस्स वाहिंनो
 चेवण चउसद्विय नोचेवण चउसद्वियाए वाहिं नोचेवण कूडा
 गारसाल नोचेवण कूडागारसालाए वाहिं एवामेव पएसी जीवि
 ज जारिसिय पुव्वक्लम्मनिवद्ध वोठिनिव्वत्तेइ त असखेज्जेहिं जाव
 पदेसेहिं सच्चित्ताकरेइ खूडिय वामहालय वा त सद्वहाहिंण तुम
 पदेसी जहा अन्नोजीवो तचेव १० तएण पएसीरावा केसि कुमार
 समण एव वयासी एव खलू भते अज्भगस्सए सासणा जाव समो
 सरणे जहा तज्जीवो त सरीर नोअन्नोजीर तयागतरेवण ममपि
 उणोपि एसासणा जाव त सरीर तयागतरेवण मम विएससणा
 जाव समोसरण त नोखलू अह वडू सुरिसपरपरागय कुलनिस्सय

मिथ्यादशन शल्पम् । अद्वाइ इत्यादि । अयोगपउगसम्पउत्ताइ इति अयोगस्यार्थं लाभय्य
 प्रयोगा उपाया सम्प्रयुक्ताध्यापरितायैस्तानि । आयोग प्रयोग सम्प्रयुक्तानि विकृष्टियपउरभक्त-

नहीसही छात्तानइ वाहरि नही कूडागासालामाहिं नही कूडाकारसालानइ वाहरि अजु थालु
 करि इमजगायनइपायतुमुड्जुतेणइकरीटाकीइ गठमाणिंकादेसवदेसप्रसिद्धतीणिकरीटाकीइ
 प्रसिद्धतीणिकरीटाकीइ पेडीइ करी अहं आटइकरी पायइकरो एह सर्वमगधदेसप्रमिडध्यान
 मानवसेसजाणवां इमच्चवउयीउतेणइकरी सोलसहाइ करी ळ्वीसहाइ करी चउसद्विहाइइकरी
 टाकाइ तिह्वारपछी तेइ पुरुपतेदीवाप्रति दीवानइटाकणइकरीटाकीइ तउ तेहहीतु दीवानाढा
 कथामइ माडिमाहिं प्रकासइतपइ पणिनही दीवानाकथानइ वाहरिप्रकासइनही चुसहीउ मान
 तेहनइ नही चुसद्वियांनइ वाहरि नही कूडागारसालानइ नहिं सही कूडागारसालीनइ वाहरि
 प्रकासइ एणइदृष्टातइ हेप्रदेसी जीवपणिं जेह जेहवउ पूर्वकर्मइवाधइ सरीरनीपजावइइइ
 तेहसरीरपति असप्यातइ जीवप्रदेसइकरी सचेतनइकरिइइ नालहउ अथवा मोटीहोतीतेणइ
 काण्ठिमहम्मिमानि तु हेप्रदेसी जेहसरीरधी जीव अथइ एहसमुपग्रन १० गुरुप्रदेसीइ इमकहा
 पराजाती िनी कुमार अकपप्रति एम वील्यु इपइप्रकारी निश्चइ हेपूज्य माहरउपितानुपिता
 आचुतेणं एहसमाति एहजप्रति एहजसमोसरण जनमोलाएकजेहसरीरतेधीज जीव यने
 जीवतेइ तसरीरपणितहीसरीरधकी अनेक जीव तिह्वारपछी माइरापितानीपणिं एह सद्वा पूर्व

दिद्विहृङ्ङेद्रम्सामि ततेण केसी कुमार समणे पदेमिराय एव
 वयासी माणा तुम पपसी पक्षाणुताविते भवेज्झामि जहा सेपुरिसे
 अयहारतेकेण भते अयहारण पपसी मैज्जहानामए कति पुरिसा
 अत्यत्थिया अत्यगवेसिया अत्यनूदगा अत्यकिखिया अत्यपिवा
 मिवा अत्यगवेसणया विउल्लपणियभडमायाए सूवहू भत्तपाण पत्थ
 यण गहाय एग मइ अकामिय छिन्नावीय दाहमइ अडवि अणु
 पविट्ठा ततेणते पुरिसा तीमे अकामियाए अडवीए किचिदेस अणु
 पत्ता समाणा एग मइ त अय आगर पासति अएणा सव्वउ समता
 आइण विण्णिच्छिन्न सळड उवळड फुड अनुगाठ पासति पासित्ता
 इहत्तुइ जावहियया अणमणण सहावेति २ एव वयासी णमण
 देवाणुप्पिया अयडेइइ कते जाव मणामेतसेय खलु देवाणुप्पिया
 अइ अयमार वधित्तए त्तिक्वट्ट अणमणणस्स एयमठ पडिसुणेति

पाणाइ इति विहृयीतत्युक्ते बहुजन बहुभोजनदानेनाविशिष्टोभ्रिष्टसम्भवात् सज्जातविहृदेवा
 नानाविध भक्तिके भक्तिपाने येषा तानि तथा पठमे दिवसेविद्वपडियकरिस्सति इति स्थितो कुल

नेएरि जीवनइ सरीरएक यिह्वारपकी माइरीपणि एहज सत्ता प्रतिज्ञा समीसरणजेसरीरतेही
 जीव अनइजीवयकी अनेरु सरीर तेणइकारणइनही निरचइ हू घवा पुरुयनी परपरइ आठी
 एतलइपाटीनुपाठी आवी कुलतेप्टाइ रही इष्टिप्रतिष्ठाडिस्सुपरपरामतमठकइ कडाइनहि राजाइ
 इमकहापकी केसी कुमार अमण प्रदेसी राजाप्रति इमवील्या रणे तुम्हे प्रदेसी पञ्चात्तानइयोग्य
 हीइसि एतलइपकि पञ्चात्तापकरीसि जिम तइ पुरुपलोइहारक लोइवाणीउ राजापूइइके कुय
 तेपूज्य लोइहारकवाणाउ जुरकहेके हेप्रदेसी तेइ कोइकनामइ केसलीएक पुरुय अर्थना अथी
 याइ अथी अथी अर्थनागदेपणानीकरणहार अर्थना लोभाया अर्थनावाक्क इव्यताविमाया इव्य
 नीगवेषणा विस्तीण क्रियानाभाजनमावाइ घणु भात्त पाणी सबलप्रति लइ एक मोटा वाहवा
 नइ अयाग्य मनुप्यनु प्रसरलेहानधीलावुसार्गुइइ एहवी अटवीप्रति पइहा तिह्वारपकी तेइ
 पुरुय तेइ गइनरुप अटवीथी कोइक दसइथानकइ पुहूतायका एकमोटउ लोइनी आगरदेपइ
 लोइइकरी तेइ अटवीनुप्रदेसमणु दिसिविदिसइव्याणुकि कायउकइ सपराणुइइ प्रगतकइ
 पुञ्जरुपत्तापारहिठकइ णइवउदेपइ देपीनइ इर्यसतीपपाग्या चित्तमाहि आणदी नाहोमाहि
 साइकरइकरीनइ इम बील्या एह अहीदेवानुप्रिया लोहनीभाजन लोहागर इष्ट कात मिय

अयमार वधति अयाणुपुव्वीए सपत्थिया तेणसे पुरिसे अकामियाए
जाव अडवीए कि विदेसमणुपत्ता समणा एग मच्चतउ आगर पाम
ति तउएण आद्रण तचेव सहावेत्ता एव वयासी एसण देवाणुप्पिया
तउए भडे जाव माणासे अप्पेणचेव तउएणमु वडू अएलब्भति
तसेय खलू देवाणुप्पिया अम्ह अयभारते छड्डेत्ता तउयत्ते वधित्त
त्ते तिव्वटू अन्नमन्नस्स अतिए एयमद्व पडिमुण्णिगति पडिमुणेत्ता
अयभारते छडेति २ तउयभारते वाधेति तत्थण एगे पुरिसे नोस
चाणति अयभारगछडेत्ता तउय भार वधत्तत्ते ततेण पुरिसा त
पुरिस एतेव वयासी एसण देवाणुप्पिया तउए भडे जाव सवडू
अएलब्भति तच्छेत्तिण देवाणुप्पिया अयभारगतउ भारग वधात्ति
ततेण पुरिसे एव वयासी दूराहडेमए देवाणुप्पिया अएविराहडेमए
देवाणुप्पिया अएगाठवधणे वड्डेमइ देवाणुप्पिया अएधणिय वधण
वधे मए देवाणुप्पिया अएनोति खलू देवाणुप्पिया सचाणमि अय

मयादाया पतिता अन्तर्भूताया प्रकृत्या पुत्रजन्मोत्सव सम्बन्धिनी सास्थिति पतिताता तृतीये दिवसे
चन्द्रनुदप्रतिका दर्शनीत्सव पष्ठे दिवसे जागरिका रात्रिजागरणरूपा निवृत्ते अमुद्र जायकम्म-

मनीञ्जइ तेहमाटइ कल्याणघाउ निश्चइ अहोदेवानुप्रियाउ यद्दं लोहनुभार वाधवु इम कइ
माहोमाहिणउ एहवचन सामलइ लोहभारप्रतिवाधइ अनुकमितिहायकी आवाचालगतिह्वारपक्कीतेह
पुरुष अवाहवा योग्य अटवीइ कीइकप्रदेस प्रति पडुतायका एक मोटा बरूयाना आगरप्रति
देपइ तेह अटवीनुप्रदेसतरूइकरी व्याप्यु पूर्वनीपरि देवताप्राहोमाहिसादकरीनइ इम वील्या
एइ अहोदेवानुप्रियाउ तउयानु आगर इट्ट मनोञ्ज धोडउज तरूए धणु लोहलाभइ तेमाटइ
अथकलहाणघाउ निश्चइ हेदेवानुप्रियाउ अमे लोहभार छाडीनइ तरूयानुभार वाधवउ इम
कही माहोमाहिणइ सयीपइ एहवचन सामलइ सामलीनइ लोहभारप्रति काडइ तरूयानुभार
वाधइ तेमाहि एक पुरुष नसकइ लोहभारप्रति छाडीनइ तरूयानीभारप्रति वाधवा तिह्वारपक्की
तरूयानावाधणहारी पुरुपातेहलीइवाणी आपति इम वील्या एइ हेदेवानुप्रिय तरूयाना आगर
एणइ धणु लोहलाभइ तेमाहि काडि हेदेवानुप्रिय लोहभारप्रतिकाड अनइतरू आनुभार
वाधइ इमकहियकइ तेह लोहवाणीउरुसुप इम वील्या टुरयकी आणुमर हेदेवानुप्रियाउ लोह
लोडउ चिरकालनु आपयउमइ अहोदेवानुप्रियाउ लोहगाठइ वधणइकरीवावुनइ हेदेवानु

भारग छडेत्तातउयभारे वधित्तए ततेणते पुरिसा त पुरिस जहानो
सचातेति वृद्धि आववणाहि पगणावणाहि आधवित्तए वाणग
वित्तणवा ताहे अज्ञाणुपुव्वाए सपत्तियया एव २ त वागररुप्यागर
सुवणागर रयणागर वयरागर ततेणते पुरिसा जेणेवसया २ जणवया
जेणेव साइ साइ नगगइ तेणेव उवागच्छइ उवागच्छेत्ता वजर
विष्कणयकरेति सुवहू टासी टासगोमहिमगवेलग गिगइइ अट्टतल
मुसिय पासाय वडे मगे कारवेतिपहाया कयवलिकम्माउपि पासा
यवरगजा फुट्टमाणोहि मुइ गमच्छणहि वत्तोमवइतेहि नाइएहि
' वरतहणीस पउत्तेहि उवनविमाणाउ वगिउत्तमाणा उवत्तान्तिउत्त
माणाइइ सइफरस जाव विहरति ततेणसे पुरिसे अयभरत जेणेव
सए नगरे तेणेव उवागच्छइ अयभारग गहाय आजविकवणय करे
ति तसिय अप्पमोल्लसि निट्टियमिम्भीणापरिव्वए तेपुरिसे उप्पि

करणे इति वृत्ते अतिक्रान्ते चमुचीना ज्ञानि कभणा करणे आसाएमाणा इति विविध साद्यादि
स्वादयन्ती परिभाषमाथा इति परिभाजोयन्तावन्योन्यावच्छन्ती मातापितराविति प्रक्रम जिमि-

प्रियाउ लोहनिवड वधणइवाधउ मइ हेदेवाणुप्रियाउ लोहनडिर्तमाटइ निश्चइ हेदेवानुप्रियाउ
सकउलोहभारगप्रति काडीनइ तरु आनीभारप्रति वाधवा तिहारपकी तेहघणावाण्णीया तेहलोह
वाण्णीया प्रति जिहारइ सकइ घणउ सामान्यप्रकारइकर्तइवइ वसेपणइयुक्तिपूर्वकर्तइवि करी
कहिच्ता जाणाविया तिहारइ अनुक्रमइ अघेरावाल्या इमज आगति बावानउ आगर रुपानु
आगर सुवर्णउ पागर रत्तनउ आगर हारानउ आगर आव्यु वीजेवाणी अधिक्वस्फुलीथा
सामान्यकाडी लोहवाणीइ कांडउ जगपु तिहारपकी तेह सघलापुवप जिहा पीताना पीताना
तेसजिहा पीताना पीताना नगर तिहा आवइ आवीनइ हीरानुवकय करइ घणा दासी दास गाइ
भइसिहालीनीजाति लेइ लेइनइ थाइभूमीवाउ चा प्रासादवतसक करावइ स्नानकीथा करतादेव
पूजा उपरि प्रासादनइविपइ पुहूतायका वीजतइयकइ मृ दगनइ मस्तकइ हवीसवइ नाटउइ
प्रधान तरुणीस्वीइव्यापारीतइघकइ करीतिभकइ इस्तादिकनीसनइनीचतायका वचिपीतइपधि
गीतगाइतायका वाञ्छितपदायपूरीतायका इटवाञ्छित शब्दफरिस रस रूपगधादिकपचे द्वियना
विषयमूपभोगवतायका विचरइइइ तिहारपकी तेह पुरुष लोहभारकलीहवाण्णीउ जिहा पीतानउ
नगर तिहा आवइ कांइभार लेइ लोहनुविक्रय करइ तेह धोडुजमूल आवुतेणइ नीडव्ययकइ

पासाय वरगते जाव विहरमाणे पासति २ एव वयासी अज्ञेण अह
 अधणे अपुणणे अकयत्थे अखयल्लक्खणेहिरिसि परिवज्झिए ङीण
 पुण्णु चाउदिसिए दुरतपतल्लक्खणे जतिण अह मित्ताणवानाईण
 वा नियगाणवा वयणा सुणेत्ता तोणा अह पिचेव उप्पि पासाय वर
 गते जाव विहरतो सेतेणहेणा पइसी एव वूच्चइ माणं तुम पएसी
 पच्छाणुताविए भविज्झामि जहा च सेपुरिसे अहभारए ११ एत्थणा
 से पदेसीराया सुव्वूद्धे केसी कुमार समणा वदइ जाव एव वयासी
 नोखल्लू भते अह पच्छाणुताविए भविस्सामि जहा वसे पुरिसे अय
 भारते त इच्छामिणा देवाणुप्पियाण अते एके वलिपन्नत्त धम्म
 निसामित्तते अहामुह देवाणुप्पिया मापडिवधकरेइ धम्मकहा जहा
 वित्तस्स तेहेव जाव गिह धम्म परिवज्झते जेणेव सेयवियाणगरी

यत्ति जिमित्तो भुक्कवती भुत्तगति भुक्कात्तर भुक्कीत्तरकाल आगतत्ति । आगती उपवेशन
 स्वानि इति गन्वते प्रायन्ता इति आचान्तो शुद्धोदक योगेन चीञ्चोलेपसिद्धवाद्यपनयनेन अतएव
 परमगुचिभूतो तएण तस्म दट्ठपइत्तस्स अन्मापियरो अणुपुल्लेणविइ पडियमित्थाद्युक्कमनुक्क च
 मञ्जेयत उपदअयति । सुगम चैतत् नवर प्राजनन भक्कगुइण प्रचक्रमण पदाभ्या गमनम् ।

तेह चाणमहादुबल तेहवडाव्यापारीपुरुष ऊपरिप्रासाननइवइहानादिपदेपाठता पचे द्वियना
 सुपभोवता विचरताप्रति देपइदेपीनइ पीताना आत्माप्रति इम वील्यु अही इति पेदे हू अघ्नय
 पुन्यरहित अचतार्थ भला लज्जगरहित लज्जासीभातेखइरहित अ धारी चटसिनुजायउ दुष्टभुड
 उक्कइ अ तक्केइडलजेहनउएइवाप्रातधमलज्जणनु धयीज हू मिदनउ नातिनउ पीतानापरिवारनु
 नचन सामलनु तउ हूइ पणिमही प्रासादकपरिवइवुधकु सुपभोगवतउ विचरतउत्तेणइ हाटातइ
 हेप्रदेसी इम कहीइक्कइ मारपेतु हेप्रदेसी पच्छात्तापनइयोग्य हीइसिमहीइसि एतलइजिम तेह
 पुरुष लाइभारकएइग्यारमउ प्रश्न ११ इरा तेह प्रदेसी राजाप्रति बोधपाम्यु केसी कुमार अमण
 प्रति वादइ नमस्कारकरो इम वोलइ नही निश्चइ हेपुज्य हू पश्चात्तापनइ योग्य हीइइस्यए
 जिम तेहपुरुष लीहभारवाइनु तेयाटइवाकुलु हेदेवानुप्रिय तुमारि समोपि केवल्लिभापित धर्म
 सिद्धातएव तेहप्रतिसामलवा गुरकहैक्कइ इद्या सुपनिमतुमनिमुपइइ हेदेवानुप्रिय माप्रतिइध
 एतलइ धमनेविपइ प्रमादनकरु केसीगुरुइप्रदेसी राजा आगलि धर्मकेइइ जिमसावयानगरीइ
 चीवसारधीनइ कहाहू तीतिमज प्रदेसीइपणिसदहामणभते निगाय पावयणइत्यादिपाठकही

तणोव पहारेत्यगमणाए ततेण क्सेी कुमार समखे पटेस राय एव
 वयासो जाणासिणा तुम्ह पएसी केइवारिया पन्नत्ता इता जाणामि
 तउ आयरिया पन्नत्ता तज्जा कलावरिए सिव्यावरिए धम्मावरिए
 जाणासिणा तुम्ह पएसी तेसि तिण्ह आयरियालकम्म काविणय
 पडिवत्ती पउजियव्वा इता जाणामि कलावरियस्स सिघ्पायरियस्स
 उवत्तेवणा वा समज्झणा करंज्झा पुफाणि वा अणावेज्झा महु
 वेज्झावा भोयावेज्झा वा विउल जीवियारिह पीइदाणा टलएज्झा
 पुत्ताणा पुत्तिय वा विवि कप्पेज्झा जत्थेव धम्मावरिय पासेज्झा
 तत्थेव वदिज्झा णमसेज्झा सक्कारेज्झा समाणाज्झा कत्तोल्नाणा
 मगलचेय पज्झवासेज्झा फामूएसणिज्झेण असण पाण खाइम
 साइमेण पडिलाभेज्झा पाडिहारिण पीठफलग सेज्झासधारतेण
 उवनिमतिज्झा एवच ताव तुम पइसी एव जाणामि तहाविण

पञ्चममाणगमिति जल्पन कण्ववेहणग कन्नवेधनवत्त्वरपलेइणग सम्भत्सर प्रलेवन प्रथम
 सम्भत्सरीभूदित्येव सम्भत्सरलेखन पूव महोत्सव चूलोवणयण चूडोपनयन मण्डन अण्णाणिय
 वहुणि इत्यादि अन्यानि बहूनि गभनिदान जन्मादीनि कोतुकानि उत्सव विशेषरूपाणि महया

थावकनुधर्म आदर जिहा सेयविया थगरी तिहा जाइ वासावधानहूउ तण्हइसमइ केसी कुमार
 यमण प्रदेसी राजाप्रति इम बोल्या जाणइउइ तु हेप्रदेसी केतला आचार्य कछा राजाकहइउइ
 हाहू जाणुऊउ वणि आचार्य कछा तेकइउइ वहुत्तरिकलासीपवितेकलाचावचिन्तामादिक
 विज्ञानसापवितेसिलाचार्य अतचारिवरूपधमउपदेसदइतेधमाचार्य वलीगुरुकहिउइ जाणइउइ
 तु हेप्रदेसी तेइ विहू आचार्यमाहि तिहनी कुणविनय प्रतिप्रचविनयकरणी प्रयुज्जवीकरवा राजा
 कहइउइ हाहू जाणुऊउ कथाचार्यतेहनइ अनइ सिलाचार्यनइ थापडादिकउपलेपनवरी न्दान
 करीवीइ फूलपञ्जिरावाइ सरीरइ माडण माडीइ भोजनकरावीइ धणु जीवतालगभीगवव एइव
 इकमेतिदान दीजाइ पत्रना पुवलगइ अजीविकानि कल्पीइ जेइ धम्माचार्यप्रति दपीइ तिहा
 वादीनइ नमस्कारकरीइ वस्त्रादिकइसक्कारइटीजाइ नमुघइसन्मानदीजाउठीऊभायइ कल्याणु
 कारणमगलीकडुरितध्वसनउकारणप्रतिभापरि सेवाकरइ अचेतनवइतलीसदीपविमुट एमन अन
 णिक पाणी २१ जातिना घांदिमफलफूल खादिममुखवासनीजाति इयइकरीप्रतिताभिइ पांड
 हारीइ पीठमाजोइफलगपाटीउ उपाययतुयादिकनुसधारउ तंयइकरीनिमवी राजाइइनइहि

तुम्म मम वास वामेण जाव वट्टित्ता मम एवमद्ध' थखामेत्ता
 जेणोव सेयविया नयरी तेणोक्क पहरित्यगमणाए ततेणसे पदेसीराया
 केसि कुमार समण एव वयासी एव खलू भते मम इमेवाखूवे थव्व
 त्यिए जाव समुप्पञ्चित्था एव खलू अह देवाणुप्पियाण वामेण
 जावट्टित्ते तसेय खलू सेकत्तल पाउप्पभाए रयणीए जाव तेजसा
 जल्लते अतेउरपरियावरुद्धि सपुरिवुडे देवाणुप्पिया वट्टित्ता नम'
 सित्ता एमद्ध भुञ्जो २ सम्मस्स विणएण खामिन्भ्भाएत्तिकट्टू जा
 मेव दिस पाउव्भूयातामेव दिस पडिगए तएणसे पदेसीराया कल्ल
 पाउप्पभायाए रयणीए जाव तेयसा जल्लते च्छट्टुट्टु जावच्चियए जहे
 वक्कणिते तहेव निगच्छति अतेउर परियालसद्धि सपुरिवुडे पच्चवि
 हेण अभिगमेण वट्टइ नमसतिए यमद्ध भुञ्जो २ सम्म विणएण

इष्टीसक्कारसमुएणन्ति महत्या षडङ्गा महतासक्कारेण पूजया महता समुदए जनाना चीर-
 दारिए इत्यादि चीरधातवास्तनदाहिन्या मण्डनधातवा मण्डयित्वा मञ्जानधातवास्तापिकथा
 क्रोडनधातवा क्रोधाकारिण्या अङ्गधातवा उत्सन्धाधारिण्या अणोच्चिय वड्ढि इत्यादि कुञ्जि-

धकइ गुरुकडइकइ प्रथम तु हेप्रदेसी इम जगणइकइ तउहीपणि तु मुभनइ डानु डानु उपराडु
 वत्तीनइ मुभनइ एह अपराध चणखामीनइ जिहा सेयविया नगरी जिहा जाइ वासावधानवयु
 गुरइइमकहापळी तेह प्रदेसी राजा केसी कुमार थमणप्रनि इम वोल्यु इणइप्रकारी एनिमचइ
 हेपूज्य मुभनइ एहवउ आत्मानइविपइ सकल्प विचारऊपनउ एणइप्रकारइ निश्चइ हू हेदेवा
 नुमियनुमतठ ठाउ ऊपराठउवत्त'उ तेमाटइकल्याणसहीमुभनिधापु तेकालि प्रगटथाइ प्रभातनी
 रात्रिएतइप्रभाइनीरात्रि सूर्यतजइकरी जाज्यल्यमानजगइ तिहुरइ अ तेउरपरिवारसाधइ पर
 वरउउयकु देवानुपीय तु मनइवादइ हाथजाडानइ नमस्कारकरीइ मस्तकनमावीनएक अपराध
 वली २ सम्यगप्रकारइविनयकरी खमावस्यु इमकही जेहदसिथी आयु हू तउ तेहजदिसपूतिऊप
 राठउगयु तिहुरपळी तेह प्रदेसी राजा कालि प्रगटहूइ प्रभातनी रजनीप्रभातथयु कमलविक
 स्वरथया तेजइ जायूलमानसूयऊगउ राजा हर्षपामु सतोषपामउ चित्तमाहि थाणदउ जिम
 कोणाराराजाउवाइमूवइ वादधीनीकल्यु तिमजवादवानीकल्ये अतेउरपरिवारसाथिपरवुपयकु
 पचप्रकारइ अभिगमनिकरीसचित्तपुफादिकवाहरिवीसरावइ १ अचित्तवस्तादिकपासइरापइ २
 एकसाहिकउनुउरासगकरइ ३ गुरुसाहमीचहूरापइइयाजोडइ ४ मनएकठामिरापइएहपाचअभा

खामेद्र तण्णसे केसी कुमार समणे पदेसिस्सरणो सूरियकतपम्,
 ज्ञाण देवीण तीसेण महद्द महालियाए महव्वपरिसाए जाव धम्म
 पक्खिदेति ततेणसे पदेसीराया धम्म सोच्चानिस्सम्म उट्ठाते उट्ठेद्द
 केसि कुमार समण वट्ठेद्द नम सति जेणेव सेयविया नयरी तेणेव
 पच्चारेत्यगमणाए तण्ण केसी कुमार समणे पदेसिराय एव वयासी
 माण तुम पदेसीपुव्विरमणिञ्जे भवित्तापत्थाअरमणिञ्जे भवेञ्जासि
 जसा सेवणसडेद्दवा नट्टसालाद्दवा उक्खूवा डेतिवा खलवा डेतिवा
 कइणभतेवणसडेपुव्विरमणिञ्जे भवित्तापत्थाअरमणिञ्जे भवतिपदेसी
 जज्ञाणवणसडेपत्तितेपुप्फितेफलितेहरित्तरिरेवमणासिरीए अतीव
 उवसजेमाणा २ चिट्ठति तथाण वणसडेरधमणिञ्जे भवति जयाण
 वणसडेनोपत्तिए नोपुप्फिए नोफलिए नोहरिते नोहरितञ्जमाणे
 सिरीए नोचउवसोभेमाण २ विट्ठेद्द तथाण वणसडे अरमणिञ्जे

कामिर्वक्कजञ्जामि चिलातीभिरनावदेमोत्पन्नाभिस्वामनभिञ्जस्वशरीरामिवडभामिनेडइकीप्टाभि-
 वेवराभिवेवरेदसम्मवाभि । वकुसिकाभि योनिकाभि । पत्थाविकाभि इसिनिकाभि वाक्-
 किनाभि लासिकाभि लंकुमिकाभि । सिहलाभि आविचीभि पुलिन्द्राभि, पक्कारियाभि ।
 वहलोभि, सुरगडोभि, शवरीभि, पारसीभि । एव भूताभि नानादेवीभि नानाविधानार्थ

गमनकरइ जादइ नमस्कारकरइ एहपूर्वदिननउ अपराधप्रतिमम्यग्रकारइ विनयकरी खमावइ
 तिहारपकी तेइ केसी कुमार थमण प्रदेसी समीपइ सूरियकता प्रसुखनइ देवीनइ तंणीइ धणु ज
 मीटाइ महापूज्यपरिपदाइ विस्तारइ धर्म कथाप्रतिकइइ तिहारइ तेइप्रदेसी राजा धर्मसाभली
 द्वियइ अथधारी उठवइकरीकठै केसी कुमार थमणप्रति वादइ नमस्कारकरइ जिहा सेयविया
 नगरी तिहा जाइ सावधानथयउ तिहारपकी केसी कुमार थमण प्रदेसी राजाप्रति इम वील्या
 माकइतारपे तु हेप्रदेसी पूवइ रमणीक हूइनइ पळइ अरमणीक हूइसिएतलइहवडासुधमथइ
 पळिजेइवु पूर्वइहू तउतेहवुज अथमाघायसि जिम तेइ वनपड अथवा नाटकसाला अथवा सेल
 डीनवाडी अथवापलावाडी राजापूळइइइ किम हेपूज्य वनपड पूर्वइ रमणीक हूइनइ पळइ
 अरमणीक हूइ गुरुकइइइ हेप्रदेसी तिहारइ वनपडपवसहित फूल्यु हूइ नीलउयकु दीसइ नील
 गुणइ करी विरानमानहूइ सोभाइकरी धनुधणु मीभनु थकउ २२हइ तिहारपकी वनपड रमणीक
 हूइ जिहारइ वनपड पतसहितहूइ फू लिउनहुइफलु नुहुइनीलनहुइनीलगुणइ करी विराजमान

भवति जयाण नट्टसालाए गिञ्जई वाड्ज्भइ नविञ्भइ अभिणिञ्भइ
 हसिञ्भइ रमिञ्भइ तथाण नट्टसालारमणिञ्भइ भवति जयाण नट्ट
 सालाए नोगिञ्भइ जाव नोरमिञ्भइ तथाण नट्टसाला रमणिञ्भइ
 भवति जयाण इक्खुवाडे छिञ्भइ मिञ्भइ पलिञ्भइ खञ्भइ पिञ्भइ
 तथाण इक्खुवाडे रमणिञ्भइ भवति जयाण इक्खुवाडे नोविञ्भइ
 जाव तथाण इक्खुवाडे अरमणिञ्भइ भवति जयाण खलवाडे उव्वू
 ञ्भइ उड्डुञ्भइ खञ्भइ पिञ्भइ तथाण खलवाडे रमणिञ्भइ
 भवति जयाण खलवाडे नोउव्वूञ्भण जाव अरमणिञ्भइ भवति सेते
 णट्टेण पदेसि एव वुच्चति माण तुम पदेसी पुव्वि रमणिञ्भइ भवि
 त्ता पछा अरमणिञ्भइ भविञ्भसि जाहा वणसडेइ वा जावखल
 वडेइवा तणण पएसी राया केसी कुमार समणा एव वयासी नोखलू
 भते अह पुव्वि रमणिञ्भइ भवित्ता पछा अरमणिञ्भइ भविस्सामि

प्रायदेशोत्पन्नाभि । विदेशपरिमण्डियाहि इति वेदे सप्तदीय देशापेक्षया दृढप्रतिज्ञ जन्मदेश
 स्तस्य परिमण्डिकाभि । इध्मि तेन नयनादिचेष्टाविशेषेण चिन्तित परेण स्वङ्गदिस्थापित्
 प्राथित चाभिलाषित च विज्ञानीतयास्ता स्तथा ताभि स्वदेशेयन्नेप्रथ्य परिधानादिरचनागृहीतो
 वेपीयकाभिस्ता स्तथाभिनिपुणाना मध्येया अतिशयेन कुशलास्ता निपुण कुशलारताभि । अतएव
 विनीताभि । चेडिया चक्कवालेति चेटिका चक्रवालेनार्थ स्वदेशसम्भवेन वर्षधराणा वद्धित

नहूइ माभाइ करीनहूइ अतावसोभायमानयकु सोभायमानरहइ तिह्वारइ वनपड अरमणीक
 हूइ जिह्वारइ नाटकसालाइ गीतगाइइ वाजिन्नवाजीडीइ नीचाइ अभिनयनाटिकभेदकरीनइ
 हमीइ रमाइ तिह्वारइ नाटकसालाया रनणीक हूइ आनइजिह्वारइ नाटवसालाइ नगाईइन
 वाइइ नरमीइ तिह्वारइ नाटकसाला अरमणीक हूइ जिह्वारइ इचूवाडइ सेलडाकेइइ भेदीइ
 कोहवुमाछिवालीसेलठापिल्लीइसेलडानापडपाइइ रमणीकइ तिह्वारइ इचूवाड रमणीक हूइ
 तिह्वारइ इचूवाडइ नकेदीइनपालइ नखाइइनपाजाइ तिह्वारइ इचूवाड अरमणीक हूइ जिह्वार
 इइ खलवाडइ धनगाइइ उपणीइ खाइइइ पाजइ तिह्वारइ पलवाड रमणीक हूइ जिह्वारइ
 खलवाडइ धननगाहीइ नजपायीइनयोइइ तिह्वारइ अरमणीकहूइ तेषइकारणइ हेप्रदेसी इम
 कहीइइइ रये तु हेप्रदेसी पूर्वइ रमणीक हूइ पछइ अरमणीक हीइसि जिमवनपड १ नट्टसालर
 इचूवाड २ खलवाड तिह्वारपकी हेप्रदेसी राजा केसी कुमार अमणप्रति इम बील्या तहा निश्चइ

जहा सेवणसडेइवा जाव खलवाडेइवा अरुणो सेवपियापामोक्ताइ
 सत्तगामसहस्साइ चत्तारिभागे करेस्सामि एगेभागे कोक्ताभागे
 स्सामि एगेभाग अंतैउरस्स टल्लइस्सामि एगेभागे भागेभागे सअण सअण
 लिय कूडागारसाल्लकरिस्सामि तत्थणं वचूचिं पुरिसेचिं दिग्गामात्त
 भत्तवेयणेहिं विउल्ल अस्सण ४ उवखडवित्ता वचूणं समणं माअणं
 भिक्खूयाणं पथियं पच्चियाणय परिभाणं माणे २ वचूचिं मात्तपत्त
 खाणं पोसहोववासेहिं जाव विहरिस्सामि तिकटू जास वचूणं पाउ
 व्भूणं तामेवदिसपडिगते ततेणं पट्टेमीराया कल्लपाउ जाव तेषमा
 जल्लते सेववियापामोक्त्वाति सत्तगामसहस्साइ चत्तारिभागे करति
 एगं भागं वल्लवाइणस्स टल्लइति जाव कूडागारसानं करति तत्थणं
 वचूचिं पुरिसेचिं जाव उवखडवित्ता वचूणं समणं माअणं जाव
 परिभाणं विहरति ततेणं पट्टेमीराया समणवामाणं जाणं अमि
 गयजावा जवे जाव विहरति जप्पइ चणं पट्टेमीराया समणावामाणं

पयागेन नपु सजीकृतानामतं पुरं महत्तल्लकानां कञ्चुकिनामत्तं पुरं प्रथी अन् निर्देव कान्नी प्रती-

हेपूज्य हूं पूर्विं रमणीकं ष्टुदनइ पइइ अरमणीकं ज्ञायइ एतन्इ पइइ भावनीयाइ । अ
 तेवन्सइ अथवा नइसा तखलयाडइ हिप्रडायकीइ जेअइयाप्रमुअ अरमणं मात्त माअणं पीणइ
 इइ वेहं चिहूभागे करस्सउ एकं भागं ज्ञायीअइउरस्सइ टल्लइ । अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं
 अ तपुरनइ मित्तमूअस्सुदायु एकचउथइ एतन्मात्त मात्तं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं
 तिहा वणइ पुरुपइं दाअइइ जेअनइ भूतिं ज्ञायीअपीं डिअनइ मात्तं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं
 इअणपजिस्तीणं धानपाणीयाटिमं ४ कल्लपूलखादिअस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं
 नइ सन्यासीनामीं माअणीं मिआअरनइ पयावाउरस्सइ अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं
 शुभाचारवृत्तवार्प्रत्यापयाननइ काअणीप्रमुअ पीअइउरस्सइ अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं
 लु इमककीं जेअनिमीं पीं अयाअुत्ताइ तिणीअपइं उअगाउअइ अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं
 मभातं ययुं तेअइइइ अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं
 करइ एअं भागं ज्ञायीअं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं
 अमनादिकं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं
 विचरइइइ । अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं अस्सिं

जाए तप्पभिवचण रज्यच रट्ट च बलच वाह्णच कोसच कौट्टागारं च
 पुरच अतेउरच जणवयच अण्णाढायमाणे विहरति ततेण तीसे
 मूरियकताण देवीए इमेयारुवे अब्भत्थिए ममुप्पज्झित्वा जप्पभय
 चण पएसीराया समणोवासए जाए तप्पभिइ'चण रज्जच रट्टच
 जाव अ ते अरच जाव समच जाणवयच अनाढायमाणेयाविहरइ
 तसेय खल्लुमे पदेसीराय केणयसत्थपगयोगेणवा अग्गिपयोगेणवा
 मतपयोगेणवा उद्दावेत्ता मूरियकत कुमार रज्जेववेत्ता सयमेवरज्ज
 सिरि करेमाणी विहरत्तए च्चिकट्ट एव सपेहेति २ मूरिय कत कुमार
 सद्दावेत्ति २ एव वयासी जप्पभिइ चण पदेसीराया समणोवासए
 जाए तप्पभयचण रज्जच रट्टच जाव अतेउरच जणवयच माणु
 स्सए कामभोगेय अण्णाढायमाणे आविविहरति तसेय खल्लु तव
 पुत्ता पदेस राय केणइ सत्थप्पउगेणवा जाव उद्दावेत्ता सयमेव
 रज्जसिरकरेमाणस्स पालेमाणस्स विहरत्तते ततेण मूरियकते

प्राणा वामहृत्तरक्षानां चान्तं पुरं कायचिन्तकानां वृन्देन परित्तिप्तं, तथा हस्ताहस्त हस्ता-
 रर सङ्घयमाय अष्कादष्क परिभोजमानं परगीयमानं स्तथाविध वालीचित गीतविगीय ।

तीवाजीवपुन्यपाप आश्रयञ्च वरनिर्जरावधमीघ्रादिकनवचतनुजाणवउ चिचसारथीनीपरिपीसइ
 डिक्कमणइअणवृत्ति आपणु आत्माभावनुयकुविचरइइइ लेइदवसयकी पदसी राजा थावक थयु
 इइदिवसयकी राज्यसप्तागदेसइथीघाडा रथादिक सखनाघरथाधाननाकोट्टार पुरामीटानगर
 वीयादिकएतलानइ अथ आदरकरतुविता अणकरतु वीचरइइइ तिह्वारपल्ली तेइ मूरियव तानइ
 देवीनइ एइवुएक आत्मानइविपइ सकल्प जपनुजेइदिनथी प्रदेसी राजा थावक थयउतेइदिनथी
 राज्यदेस बलवाहन अ तेउरनइ अनइ मुभनइ लोकनइ चित्तसभाल अणकरतुथकउविचरइइइ
 तेइ कल्याणसहीमुभनइ थाउप्रदेसी राजाप्रक्किइइइइसखनइव्यापारइ अथवाअग्निनइप्रयोगइ
 मवनइ प्रयोगइ मारीनइ सूर्यकात कुमारप्रतिराज्यनइविपइथापीनइ सयमेवपीतइराज्यतासीभा
 करतायका विचरतु इमकक्षी एइवुवितनकरिवीतवीनइ २ सूर्यकातकुमारप्रति तेडावइ तेडावीनइ
 इमवीन्या जिह्वारथकी प्रदेसी राजा थावक थयउ तिह्वारपल्ली राज्यदेसजिह्वालगइ अ तउर
 लोक्कप्रतिइ तथा मनुष्यसवधीया कामभोगप्रति, आणादरदंतउथकउ विचरइइइ तेमाट्टिथेय
 कल्याणकक्षी तुक्कनिहेपुवथाउ प्रदेसी राजानइ कुणइकसखनइव्यापारइ मयादिककइ मारानइ

कुमारे सूरियंकताए देवीए एव वुत्ते समाणे सूरियंकताए देवीए
 एयमद्द' नोआढाइ नोपरियाणाइति तुमिणीणसच्चिद्वृति ततेणसे
 सूरियंकताए देवीए इमेयाकवे अन्नरियण समुप्पज्जित्थामणा मुगिय
 कते कुमार पदेसिस्सरणो इम रद्धस्सभेय करिस्सती तिक्कटू पण
 सिस्सरणोछियणाणि मम्मथिरद्धस्साणि विवराणि अ तराणिघप
 जागरेमाणी २ विहरति ततेण सूरियंकता देवी अणयाकयाइ
 पदेसिस्सरणो अ तरजाणइ असण जाव साइम सब्बवत्यगधि
 मल्लालकारेसु विषपयोगपउ जइ पदेसिस्सरणोपहायस्स जाव
 पायच्छित्तस्स सुहासणा वरगयस्स त विषसजुत्त असण ४ वत्थ
 जाव अन्नकारणस्सरति २ ततेण तस्स पदेसिस्सरणात्त विषसजुत्त
 असण ४ आहारयस्स समाणस्स सरीगसिवेयणा पाउब्भूजा
 उज्जला विउलापगाठा कक्कसा कडूय चडा तिब्बा दुक्खा दुग्गा
 दुरहियासापित्तजरे परिगयसरीरे दाहवकतेयाविवहरति तण्णसे
 पएसीराया सूरियंकताए देवीए मणसावि अप्पदुस्समणो जेणेव

उपनाल्पमान' क्रीडादिलालनतया उवगवह्जिज्जमाणा इति आलिचयमान' अवयसेऽक्रमणे

पीतइज्जारा राज्यनीथासोभाकरतुघकउ राज्यपालनुघकु विहरवउ तिह्वारपक्की मूर्धकताइ कु मार
 सूरियंकता देवीनइ इम कइयकइ सूरियंकता देवीनइ एहवचन आदरइ नसामलइ यणनीलउ
 पकुरइइ तिह्वारपक्की तेहसूरियंकतानइ देवीनइ एहवउ सकल्प उपनउ ग्णे सूर्यकति कुमार
 पदेसीनइ रायनइ' एह्वरहसनुभेदमर्मनीवात्ता करिसइ एहवुविचारी प्रदेसी रायना किइ मर्म
 एकातठाम विचालउ आनम्मरापति जीतायकी विहरइइइ तिह्वारपक्की सूरियंकता देवी कीडक
 समइ'प्रदेसी रायनु अ तरउ जाणउ अन्तयाणी खादिम खादिम सर्ववरव गध फूलमाल आभरण
 नइविपइ विपनुमयागगुयूजइव्यापारइ प्रदेसीरायनइ न्दानकरीदेवपूजा दुम्माननिवारवारनइ
 थनइ अचिन्निपीतिलकादिकतेहीज प्रायश्चि'नकीधु मूपइ आसणइ आवीवइउउ एहवानइ तेह
 विपसयूत्त असयादिकइ वसु फूलमाला आभरणलकार आणीदेइ तिह्वारपक्की तेह प्रदेसी राय
 नइ तेह'वपमयुत्त अनादिक ज्यार आहार करानइ सरीरनइविपइ वेदना प्रगट्ठइ तेहवेदना
 केइवीकेउ जलीपमानकाइ विस्तीर्थकइ आसइसरीरे'त्यापागाठी करवतनीपरिविरीपय. कच्इल
 वरसवत् रुद्ररुपी नित्त्वमनुप्यनइपाउइ दुखरुप उलघतादीहिला दुखइसमीसकाइ पित्तहरइ

पोसहसाला तेणेव उवागच्छति २ पोसहसालपमञ्जदपो २ उच्चा
 र्पासवणा भूमिपडिलेहेति दम्भसधारग मधरेइ दम्भसधारग दुस
 हति पुरत्याभिमुहे सपलियकन्निसन्ने करयलपरिग्गहिय सिरसा
 वत्त मत्यए यजलिकट्टू एव वयासी नमोत्युणा अरहताण जाव
 सपत्ताण णमोत्युणा केसि कुमारस्स समणस्स धम्मधम्मायरियस्स
 धम्मोवट्टेसगस्स वदाभिण भगवत तत्थगय इहगए पासउमे भग
 वतत्यगए इहगय तिकट्टू वदति णमसति २ पुव्विपिणमए केसि
 कुमार समणस्स अतिए धूलए पाणातिवाए पच्चवखाए जाव परि
 ग्गहेइयाणि पिण तस्सेव भगवतो अतिए सव्व पाणातिवाय पच्च
 व्खामि जाव परिग्गह सव्व कोइ जाव मिव्वादसएणसल्ल अकर
 णिउभ जोग पच्चव्खामि सव्व असण चउविहपि आहार जाव

इति आलिङ्गसविशेषनापरियन्दिज्जमाणे इति स्तूयमान । परिभुविज्जमाणे इति परिभुट्य-
 मान । गिरिकन्दरमल्लीणेइव पस्पगवरपायणे इति गिरिक दरया लीनइव चम्पकपादप सुख

व्यापउरुइ सरीर दाधइरइ आकमुथकु विचरतु तिह्वारपळी तेय प्रदेसी राजा मूरियकताइ
 देवीनइ मनइपणिकरी अट्टपतउइए अणधरतुथकउ जिहा पीसधसालाकइ तिहा आवइ आवी
 नइ पोपधसालाप्रतिप्रमाजंइपु जीनइ वडानति लघूनीति भूमिप्रति पडिलेइइ डामनुसधारउ
 पाघरइ डामसयारी कपरिचठइ पूवादिसिसाहमुथकु पालठीकलीकइठउ विहू हाथइकरीनीय
 जातु मस्तकइ आवत्तं प्रदक्षिणारूप मस्तकइ अ जलीकरी इम वील्यु नमस्कारथाउ अर्हंतभणी
 आइनमोत्युणकइइजिहालगिठाथसपवाणतिहालगिकरइ वलीकसैइइ नमस्कारउ केसी कुमा
 रनि श्रमणनइ माहराथमाचार्यनइ धर्मोपदेसकनइ वादउरुउ भगवतकेसीगुरुप्रति तेकेहवाक
 तिहापइताकइ हूइहाथकउकूवादउरुउ देयउमुभतइ हेभगवनमुमेतहाथकागएइइगएइइग
 प्रतिइकहीम वादइ नमस्कारकरइ पूर्वइ पणिमइ केसी कुमार श्रमणप्रति समापइ धूलथकी प्राणा
 तिपात १ पचस्रहूउ इमस्थलमृष्टावादस्थल अट्टादाज्ञपचकस्वदारउ सतीपपरिग्गहपरिह्वडा
 तेइज भगवतने समीपे सर्वथकाकरणकरीवण अनुमतिभेदइइमनववचनकायाइकरी प्राणासासी
 स्वामलच अतेअनु अतिपातविनाशतेइपचपूउउतिमुकउ इमजसर्वथकीमृपावाद अट्टादानमैट्टून
 परिग्गहपचउ कजेध मानमायालोभमे महे एकलहि अभ्याख्यानपैमूवरति अरतिमायामृपामरता
 दसवसल्ल १८ स्थानक पापनीकरथियकरवा अयोग्य एइ सर्वथका असना

उज्जोवाए पच्चक्खामि ज पियमे सरिरे इट्ट जाव फुसति एव पियण
 चरिमेहि जमासनीसीसेहि वोसिरामे तिक्खटू आलोइय पडिक्खते
 समाहिपत्ते कालमासेकालकिच्चा सोइमेकप्पे मूरियाभे विमाणे
 उवगायसमाण जाव उववणो ततेण मूरियाभे देवे अहूणोववणणए
 चेव समाण पचविहाण पज्झतीए पज्झति भाव गच्छति तज्झा
 आहारपज्झतीए सरिरेपज्झतीए इद्रियपज्झतीए आयापाणपज्झ
 तीए भासामणपज्झतीए तएव खलु गोयमा मूरियाभेण देवेण
 सादिवा देवठीदिवा देवजुत्ती दिव्वे देवाणुभावे लट्ठे पत्ते अमि
 समन्नागते मूरियाभस्मण भते देवस्स केवइय कालठिती पन्नत्ता
 गोयमा चत्तारि पलिउवमाइ ठिइ पन्नत्ता सेण भते मूरियाभे देवे
 ताउ देवलोगाउ आउक्खएण भवक्खएण वित्तिक्खएण अणतरचय
 चइत्ता कहिगमइति कहि उववज्झिइति गोयमामाहा विदेहे वासे

मुखेन परिवडिप्यते चर्धत इति व्याख्यानमलक्करणत' प्रथागत महावेइइ सेधयिप्यति निपाट
 यिप्यति गिप्यापयिप्यत्यासक्करिप्यति नत्रआमुत्तोपडिवोहिण इति हे खोके हे नयने हे

दिक चिइप्रकारइ आहार जावजीवलगइ पच्चपुकउ जेइपणिसाहक सरिरे इण्ट कात रयेवात
 पिबसातउमाइरासरिरेनफरिइ एइवुपणिसरीर केइलुइ जमासनीमास केसिरावुइउइमकही
 अतीचारत्तागाइइते आलीइ पडिकनी ममाधिप्रासथकइ कालनइ अदसरिकालकरी सौधर्म
 कल्पइ पडिलेदेवलीकइ मूयाभ विमानइ उयपातसभाइसिख्यानइविपइ अ गुलनइ असप्यातसि
 मागि अत्रगाइनाइ उयनु तिह्वारपकी मूयाभ देवा तःकालकपनउ थकइ पप्रकारइ अयाप्यइ
 पयाप्ति भावप्रति पामइ तंकइइइइ आहारपयामः १ सरिरेपय्याप्यइ २ इ इद्रियपयाप्यइ ३
 सासोस्वासपयाप्यइ ४ भाषापनसमकाल ५ एइवीपाचपयाप्यकउतेमाटइ हेगोतमतइ जेपूर्वतइ
 नाटकसमइण्डइ उ हेभगवत सूर्याभइस्यापुष्यकराहूनाकेथकीणवडी अइपामोतहनउणउतर
 एणैकारणैप्रदेसीनीभयैजिइऊपाउनाकरीतेथैभव निश्चइ हेगोतम मूयाभइ देवइ तइ प्रधान
 देवनीवट्टिपतिवारः प्रधान देवनीजभतिकानिबसापणिउ देवनु अनुमालाधु पाःउइरत प्राटे घयु
 वलीगोतमपूइइइ मूरियाभनु जेपुन्य देवनइ केनला काललगिस्थति आपुपु कछा भगवतव इइ
 अइ हेगोतम अयरणव्यातागइ स्थतिकछावलीगोतमपूइइइ तइ जेपुन्य मूयाभ देव तइ
 सौधमादे वलीकथनी देवतपी प्रायुपुचयकरी देवनीगतनुजउकरी वीकइसरीरइरहवडाःधति

जाइ इमाइ' कुलाइ भवति अठाइ दिताइ विविधगण विउलाइ'
 भवणसयणासणजगो वाइणीइ वहुजातसवरयगाइ आगपयाग
 सपउत्ताइ विव्यड्डियपउर भत्तपाणाइ वहुदासी दासगोमडिस
 गवेलगप्पभूयाइ वहुजणस्स अपरिभूयाइ तथ अन्नयरेसुकमाले
 पुत्तत्ताए पच्चाइयस्सइ तएण तसिठारगसि गव्भगयसि चवसमा
 णसि अम्यापिज्जण सम्मेदढापइणणा सिविस्सइ तएणा तस्स दार
 गस्स मायानवणइ मासाण वहु पडिपुणणाण अहइमाणराइ दिया
 ण वियक्वताण सुकमालपाणिपाव अहीणपडिपुणण पचदियसरीर
 लक्खण वजण गुणोववेय माणुम्माणप्रमाण पडिपुणण सुज्जाय
 सव्वगसुदरग ससिसोमाकारं कत पियदसण सरुच दारय पयाडिसि
 तएण तस्स दारगस्स अम्मापियसे पठमे दिवसेठियवडियकारिस्सति
 ततिए दिवसे चदसूरदरसणि करिस्सति वचेदिवसे जागरिय जागरि
 स्सति एकारसमे दिवसे विइक्वते सपत्ते वारसमे दिवसे निव्वते

नासिके एकाजिह्वा एकात्वग् एक मन इति सुप्तानीव बाल्यादव्यक्तचेतनानि प्रतिबोधितानि

तेहनुचयकरी अ तरा रहितव्यवनकरीनइएतलैचवीनइ किहाजाएसि किहा उपजस्यइभगवत
 कडियइळै हेगोतम महाविदेह सेवइ जेइ एहवा कुलकइ धनइपूर्णदीप्ता प्रसिइविस्तीण धया
 धर सध्या आसनादिरय आसनाटिपालुपी हाथीवीडाकइजिहा धयाकइ सुवर्णरुपाजिहा अवीग
 धननुलाभतेहनुउपायतेप्रयोग तेइतिहावापीरुइ धयालीकजिमइइइ तेमाटिनापीतुइइप्रचूर
 धयु भातपाणीजिहा धणी दासी दास गाइ भइसि छालीजातिएइ धयाकइ जेइ धयालीकनै
 पराभवानजाइ तिहा अरनरइ कीइक उत्तमकुलनइविपइ पुत्रपणइ अवतरस्यइ तिहारपकी
 तेइपुत्र गत्वइ आवइ थकइ मातापितानइ धर्मइ सचलप्रतिज्ञा नेष्टाहोसइ तिहारपकी तेइ
 पुत्रनइ माता नव भसवाडा काइकभाभेरी साटीसात अहीरावि वीतक्रमइथकइसुकमालकइहाथ
 कहीरजेइनी हीनहीप्रतिपूण पाचइइ द्रीइ करीसहितसरीरजेइनइ लक्षणावगतकादि वडजनमपी
 तिलकादि गुणगभीयादितेणइसहितकइ मानतेशेयभार उन्मानते अहंभारप्रमाणते १०८ अ गुल
 तेणइकरीमतिपूर्ण भलानीपनाममर्थ अ गडपागतेशइकरीसूदरकइ अ गजेहनुचद्रमासरीरपुवैइइ
 ओम्य आकार जेइनुकात प्रियदसणइइजेइनु भलुरुपकैजेइनु एहवापुत्रप्रति माताप्रसवसइ
 तिहारपकी तेइ पुत्रनीमातापिता पहिलइदिवसइ जन्मयोग्य क्रियाकरस्यइ प्राजइ दिवसइ वद

अमुद् जाइ कम्मकरणे चौरक्खे समज्झितो वालिन्ते विउल्ल अस्सण
 पाणाखाइमं साइम उवक्खाडाविस्सति २ भित्त नाय नियगसयण
 सवधि परिजण आमतिस्सति आमतत्ता तउपछा जाव अकिल्ल
 सरीग भोयणवेनाए भोयण मडवसि मुञ्जासणवरगवातेणमित्तनाइ
 नियग सयणसवधि सद्धि विउल्ल अस्सण ४ आसाएमाणा वासएमाणा
 परिभुज्जेमाणा परिभाएमाणा एवचण विहरिस्सति जिमियभतुत्तरा
 गया वियण समाणा आयतो चोक्खा परिमुति भूया नमित्तनाइ
 जाव परिजणण विउल्लेण वत्थगध मल्लालकारिण सक्कारिस्सति
 तस्सेवमित्त जाव परिजणस्स पुरतो एव वदिस्सति जम्हाण देवाणु
 प्पिया अम्ह इमसि दारगसि गम्भवसि चेवसमाणामि धम्मे दठा
 प्रतिणा जायाणा होऊण अम्हए सदारगी दठपइण्णामेणा तएणा
 तस्स दठपइण्णस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधेज्झकरिस्सति दठ

पीवनेन व्यक्तिचेतनावति कृतानि यस्य स वधा उक्तञ्च व्यवहारभाष्येऽपीत्याइ नवमुक्ताइ

सूर्येनु दर्शनं करावसइ ऋद्धदिवसइ जागरीप्रति जागस्थइ इग्गारमइ दिवसइ वातकमिधकइ
 आवइधकइ वारमइदिवसइ नीपजावइधकइ अवसुचिवत जातकमनुकरणएतलइवमूठाणकरा
 पकइ स्नानइकरीवापइधकइ घरमाइपु जलित्त निहारपकी विस्तीण अन पाणी खादिमपूलपूल
 खादिमसुपवास नीयजावसइनीपजावइ मिबतेवाचावड जातितेपीतानी निजकतेभाइपुवादिक्क
 मायुलादिक सबधीतिससरइग्गुं परिजनदासदासावग्गुं आमवसइ आमवीनइ तिहारपकी (नान
 करीपविवं वस्वपइरी देवाचनं अलकारायया भीजणवेलाइ भीजनमडपइ सुखइ आसनइ
 वइहायकी तैयमिक्क न्याति सज्जन सबधीपरिजननइ साधि विस्तीणं असनपानखीदिमवादिम ४
 आखादतायका घाडवस्वानुधयुनीयनुइलुखडादि आखादवउ घणुयानुधीउउ नायइपुनुरादि
 तैहीपणीकरतायका समस्तपक्वानादिजिमतायका माहीमाइविचिचादेतायका इमकरतायका विच
 रस्थइ जिमिपा अनतरयका आवमनलायउ जलइकरी चीपायया परसपविव इया तैहमिक्क
 न्याति सज्जनपरिजनपत्रि विस्तीणंइ वरव गध माल्यालंकारइकरी सत्कारदेयइ तैज्ज मित्र
 न्हातिट्टा परिजननइ आगलि इमकइइयइ जेणइकारणइ हेदेवानुमियाउ अमनइ एउ पुवनइ
 गम्भनइविपइ आवइधकइ धर्मनइविपइ हटसवल प्रतिगटाइइ मोटइ घाउ अण्णारि एहपुव
 हटप्रतिउ नामइ तिहारपकी तैहहटमइणानउ पुवनउ माविक नामकरस्थइ हटपइणनइ

पङ्क्तोय ततेण तस्स दठपङ्क्तोयस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधेज्झ
 करिस्सति दठपङ्क्तोय ततेण तस्स दठपङ्क्तोयस्स अम्मापियरो अणु
 पुत्त्वण्ठियबडिय चदमूरदरिसणच जागरिय नामधेज्झकरण पर
 गमणच पच्चगमण पगवमणमच पच्चक्खाणगच जेमणच पिडवद्दा
 मणचप जपमाणच कणवेहणगव सबहरपडिलेहणगच चूला वण
 यण उवयणच अणणाणिय वडूणिय गन्नादाण जम्मणमाइयाण
 कोउयाइ महयाइठिसक्वार समुदणण करिस्सति ततेणसे दठ
 पत्तिये दारण पच्चधावि परिखित्ते तज्झा खारधातीए मज्झण
 धातीए मडणधाइए अकधातीए कीलावणधाइए अन्नाहिय वडूहि
 खुज्झाहि चिलाइयाहि वामणियाहि वमेभियाहि वत्थरियाहि पउ
 सियाइ जोयणयाहि पणइवियाहि इसिणियाहि वारुइणियाहि
 लासीयाहि लउसियाहि देमल्लीहि सिहलीहि आरवीहि पुत्तिदीहि
 पज्झणाहि मरुडीहि सवरीहि पारसीहि नाणादेसिहि विदेपरि

इत्यादि । अडारसविहदेशीप्यारभासाविसारण अष्टादशविधायो अष्टादशभेदाया देशीप्रका-
 रया विचारदो विचक्षणा, तथा गीतरति स्तथा गन्धवे गीतिनाद्ये च कुशला इये युध्यते इति

तिष्ठारपक्की तेह दठपङ्क्तोयनेइ पुवन्नइ मावित अनुक्रमिनाम देसइ दठप्रतीञ्च तिष्ठारइ तेह
 दठप्रतीञ्च मावित अनुक्रमि पङ्क्तइदितिलोकस्थति आवानीलकत्तनादिजमजोग्यक्रिया तथा
 कीजइदितिनचद्रगूर्यदरसण छद्दजजागरी बारमैदिननामवु करवु भूमिकपरिगूडाघराणटीडवु
 विद्रूपगइकरीचालवु किसाकम्फनुयगरु जमनसरीरनीवृत्तनउ करवु बीलवउ वणवेधनुकरवउ
 वरमीगाठि प्रथममु उनुकरवु कलानुगृहवउ अनैरापणि घणा गत्तागुहिउतिहायकीमाडी जन्म
 प्रमुपकलागुहीतिहालमि अनेकरचाभिधाननाकरवा भीटाकृहि सत्कारसमुदइकइरी कररयइ
 तिष्ठारपक्की तेह दठपङ्क्तु बालकपचधावइवीटतउथकुवधरयइ तेकहिहै सारकहितादुधधरवै
 तेपारधावि स्नानकरावितेमज्झधावि २ शृ गारकरीवितेमडणधावि ३ पीलइलइवइसइ ४ क्रीडा
 करावइ ५ अनैरापणि घण इ कुन्नादासी विजातिकादासी वामणाइधनुठीगणादासी वाकीहेटली
 कावातिउडिभिकातेयीइ वरवर अतायदेसनीऊपरीतववरिकातेयीइइम आगली १६ पउसिकाइ
 यानिकीइ पणइविकाइ इमितिवाइ वारुक्कियाइ तासिकाइ लउसिकाइ देसलीइ सिहलीइ
 अणु तेह पुत्तिदाइ पक्वणीहि मरुडीइ सवरीइ पारसीइ एदेस अनार्यभामावितिहानीपनीइ

मंडियाहि' मदेसनेवत्यमहियवेसाइ इगियवितिय पत्थिय वियाणि
याहि निउणकुसलीहि विणीयाहि वेडिया चक्कवालवरतसुण
वदपरियाल सपरिवुडे वरिसवरधर कचुइज्झ मच्चरग वदपरिखित्ते
इत्याउ इत्थ साहरिज्झमाणे २ अक्काउ अक परिभुम्भमाणे २ उव
नविज्झमाणे २ उवागाइज्झमाणे २ उवलालियमाणे २ उवगूहि
ज्झमाणे २ अवयासिज्झमाणे २ परिवदिज्झ २ परिवदिज्झमाणे २
परिच्व्विद्यमाणे २ रम्ममणिकुट्टिमतनेसुपरगमणा २ गिरकदर
मल्लीणे विवचपगवरपायवे निव्वावाय सुइमुहेणा परिवठिस्सइ
तण्णां दटपइणा दारग अस्मापियरो साइरेग अइवास जोयग जाणि
त्ता सोभणसि तिहि करणदिवसनक्खत्तमुहूत्त सिणहाय कयवलि
कम्मे कयकौउयमगलमायच्छित्तं सव्वालकारभूसियकरेत्ता मइया
इठि सक्कार समुदएण कलायरियस्स उवणेस्सति तंतेणसे कला
यरिपत दटपइण दागलेहीतियाउ गणितप्पहाणाउ सउणसुतपज्झ
वसाणाउ वावत्तरिकलाउ सुत्ततोय अत्थउयकरणउसिक्खावेहिइ

धरदेसनवेसइमडितइ पोतानादेसनीपहिरवानीगुहि याइइ वेसलेणीइ आगलानुइगितनयनादि
चेप्तामननुचितव प्राधंततेवाइत्तु तेइनीजाणइइ निपु ण उाहीयारमाहिषणुजहाहीरइइ वित्ती
तइइ चेटिकादासीतणु चक्रवालनसमूहवरप्रधान स्वीनुवृ दरुपपरिवारतेणइ परवगुणु वधधर
कृतिमनपु सक कचूकीते अतनिजेणवइपरनुकावकामराजादिक मइत्तरत्ते ष तपरवृ इपरवृ
थकु नाकार्यचितनारकरणहारतेइनइ एकल्लथयी वीजइहायी वीजइहाथिवीजनुवकउ २ वीजा
उत्सगनु सुखभोगवतुथकु नवावीतउथकु बालकनइयोगीत्तवाइतउथकउ श्रीजानइलालानु
थकउ हीयानी आभलि आलिमानतुथकु इतवीतु पूयमात्तुथकु तुकसानकीरातु रमणीकमिभिमय
भूमितसनइविपइ बालतुथकु पर्वतगुकाई आलीनरहिउ चपकवृचनीपरि उइवराहित सुपइ
सुपइ वधइइवृद्धियामइइ तिह्वारपली तेइदटपइयावालकप्रति भाविं भाभरी पाठचर सनउ
जातकपुत्रप्रतिजाणीनइ भीभन तिथि करण दिवसनपव महुत्तंनइविइ लानकराउ इइ जेण
कापउइइ बलिकमंधरनादेवपूजा काथाउकीतुकमपीतिलकादिकमणत्तेइविपूर्वादिक्तेहीज प्राय
इत्तेदुरितउपसमावानउ हेतु जेणइसमइमस्तउलकारइविभूषणकीणइइ करीनइ मोटा वइ
सत्कार समुदइकरी कलाचार्यनइ पडितनइसु पस्यइ तिह्वारपली वइ बालाचार्यं तेइददपइ

सेहावेहिद् तज्जहा लेहं गणिवस नट्ट गीय वादय सरगय पुष्करगय
 समत्तालजूय जगवाय पासग अट्टावय पेरिगच्च दगमाट्टिय अन्न
 विहि पाणविहि वत्यविहि विन्नेवणविहि सयणाविहि अज्ज पहे
 लिय मागहिय गाहा गाइय सिलोग हिरणजुत्ति सुवणजुत्ति
 आभरणविहि तरुणीपडिकम्म इच्छियलक्खण पुरिसलक्खण ह्य
 लक्खण गयलक्खण गोगलक्खण कुतूडलक्खण छत्तलक्खण दड
 लक्खण असिलक्खण मणिलक्खण कागिणिलक्षण वजुविज्झं
 नगरमाण वेधारमाण वार पडिवारवूह पडिवूह चक्खवूह गरुतूहं
 सगडवूह जुह निजुह असिजुह मुट्टिजुह वाहूजुह लयाजुह जुडजुह
 करुप्पवाय धणुव्वेह हिरणपाग सुवणपाग मणिपाग धाउपागसुत्त

इययोधी । एव गज्जयोधी रथयोधी । वाहुयोधी तथा वाहुभ्या प्रगृह्णातीति वाहुप्रमर्दीमाह-

वालकनइ लिखपानीकला आदिमुष्यरुज्जेहा गणितएकत्रिधीमाडीसमस्तगणितकलाइप्रधान
 पक्षीनासष्टनउजाणवु केहलीकलाएहवी वडूत्तरिकला सुवपाठयकी अद्यव्याप्यायकी करणहाथइ
 करीदेपाडवुतेहचकी सीखवस्यइनीपजीविस्यइ तिकहइरुइ इहूतरकलानाम लेपककलाएपहली
 भणितकला २ रूपकला नट्टककला ४ गीतकला ५ वाजिबकला ६ स्वरकठवदनुकलपवु ७ पुरकर
 गतढीलवाजिबकलनुजाणवु ८ तीलसुवजाडवु ९ जूवटानीकला १० जनचादलीकटुवादविवादनु
 करवु ११ पासानापवानीकला १२ अष्टापदसेतुजनीकला १३ नरीरत्तादिकनीकला १४ पाणी
 माटीएकठइकरि असुत्त बीजइएहवीकला १५ अन्ननीपजाविवानीविध १६ पाणीउपजाविवानी
 विधे १७ वस्त्रउपजाविवानिविधि १८ विलेपनविधि १९ सय्यानीविधि २० आयानीभेद २१ प्रहे
 लिकानाभेद २२ मागधिकानाभेद २३ गाथाभेद २४ गीतनाभेद २५ श्रुतीकनीभेद २६ हिरण
 युक्तिरूपउपजावाजिठए २७ सुवर्णउपजीवानिविधि २८ श्रीभर्णघडवापहिरवानीकला २९ स्वीनइ
 कलानूसीपविवु ३० स्वीनालक्षण ३१ पुरपनालक्षण ३२ धीडानीलक्षण ३३ हस्ताना ३४ वृषं
 भय ३५ कूकनीलक्षण ३६ कवनु लक्षण ३७ दडलक्षण ३८ खभलक्षण ३९ मणिरत्तादिकनी
 परीचानाडवानीकला ४० कागिणिरत्तपरीचा ४१ घरहाटमाडवानीकला ४२ नगरवासवावु प्रमाण
 ४३ कटकउतारवानु प्रमाण ४४ कटकमान ४५ कटकउतारवानु मान ४६ कटकनइडुहनइकाजि
 रचनाप्रतिकूहतेककसादमु कटकरापवु ४७ व्यूहप्रतिवूह ४८ चक्रने आधारै सगामनु वरतु इय
 आगलापरिण ४९ गरुडाकारइसगाम ५० ग्राडला आकारिसगाम ५१ जुडसीमानभेद ५२ विसेप

वेदं वदृखेड वदृखेड नान्निवाखेड पत्तछेज्भ कडगछेज्भ सञ्जीव
निजीव सउणरुयमिति तण्णसे कनापरिते दठपइण दाग लेहाइयाउ
गणियाप्यहागाउ सउणरुपपञ्चवसाणाउ वावत्तरिकलाउ मुत्तउय
अत्यउय करणउय सिक्खावेत्ता सेहावेत्ता अम्मापिऊण उवणेहिइ
ततेण तस्स दठपइणस्स टारगस्स अम्मापियरो त कालायरिय विउ
लेण प्रसगा ४ वत्यगधमल्लालकारेण मक्खारिस्सति सम्माणिस्सति
२ विउल जीवियारिइ पाइदाण दलइरसति विउल जीविरिइ पाइदाण
दलइस्सति विउल जीविरिइ दाण दलइत्ता पडिविसज्जेहिंति ततेणसे
दठपतिगणेदारतेउ मुक्खवालभावे विपणयपरियायमत्ते जीवगगमण
पत्ते वावत्तरिकलापडिते अट्टारसविइदेसीप्यगार भासाविसारते नव
गणुत्तपडिवोहिण सीयरती गधव्व नट्टकुसलेहिं सिगारवारुवुवे सगव

नुउ ५३ वहुइपडयुउ ५४ मुट्टइनुपनुध ५५ वाइनु युइ ५६ लतावेलडीतउ जुइइसत्ययोडानु
धु धयानु धांडउदेपाठवु ५७ इसत्तघोडानेवयानउघोडउदेपाठवउ ५८ चूरप्रवात्तकुरुपडनी
मुट्टिनउभारिवउ अययवारुपीनुमाठपमज्ज आगलीरपण ५९ धनुर्दानिकन्नातीरनीपवानीकला ६०
हिरेपउपाग अघडिनमुवर्णनउवादभेर अघवा चूरवाण उवाटविचार ६१ मुवणपाक ६२ मणि
पाकइ ६३ धानुवावादिपाक ६४ मूवननु पेडउवेभलभाडीमूवननुकेदवु अणु माडीनइभूभइकउ ६५
उत्तपड ६६ नालिकाखेड ६७ कमलनीकाकडीवेभनउ माडीविपवउ पवत्तदवापानडावभउकरी
कउवउ ६८ करगमुवणाटिकनीकूडुकुउलनउकेदवु ६९ मयानातिव चनेजीवताकलीइउभीतयामूउ
यासजीवकरइ ७० नसवापीनजावु करवु म ७१ पधानाअब्धानउजाणुवुचरएहवहूतरकलीनु जाण
वामइ तिहारपकी तेइ कलाचार्य दठपइथावालकप्रति लिपाटिक गणितकलाप्रथमयीमाडी
पपीनीअब्दनउजाणुकेइलीकला वहुत्तरिकला मुवयकी पाचयकी अर्थयकी करणयीयाधिकरी
देपाडिवायकी मापनइ सापविनइ माविननइ मउ पसइ तिहारपकी तेइ दठपइथाना बालकनइ
माविव तेइरुलाचाधप्रति विस्तीर्थ अमनानिक विहूथाहार ४ वस वपूरादि फूलमाला अलकारि
करी सत्कारम्यइ सत्तानम्यइ आदरदेम्यइ विस्तीर्थ जीवतालगिभोगवइ एहवु प्रीति दानदेम्यइ
विस्तीर्थ जावतानइ भोगवइ एहवु प्रीतिदान देसइ विस्तीर्थ जीवातहालगइ एहवु प्रीतिदानदइ
नइ विसर्नस्यइ धर तिहारपकी तेइदठपइणु बालकवालभावमु कीणउयकउ डाइउ वुडगादिकइ
अपयकु जीवतरूपयणउ पामउयकउ वहुत्तरिकलानुपडितहाडाहूकइ अट्टारप्रकारइ देसी
नोप्रकारभेदकिजिहाएहवा अट्टार भापाइ विचयणइइ श्रीवविनेवविनासिकाएकनिहाएक

गव हसिय भणिय चेद्विय बिलास सत्ताव निउणजुत्तोवयार कुसले
 ह्यजोही वाहूजोही गयजोही वाहूप्पमहो अलभोगनमत्य साह
 स्मिण वियालचारिया विभविस्सति तएण त दठपइण दारग अम्मा
 पियरो उम्मुक्खवालभाव जाव वियालचारग वियाणित्ता विउलेहि
 अन्नाभोगेहि पाणभोगेहि' लेणभोगेहि वत्थभोगेहि सयभोगेहि
 उवनितेहि ततेणसे दठपइणे दारए तेहि विपुलेहि अन्नभोगेहि
 जाव सयणभोगेहि' नोसञ्जिह्मिहिति नेरंजिह्मिहिति नोगिञ्जिह्मिहिति
 नोमुब्भिहिति नोअब्भोववज्जिहिति सेज्जानामए उप्पलेइवा पउ
 मेतिवा जाव सहस्सपत्तेइवा पकेजाए जले सवुडे नोविलिप्पइ पक
 रणा नोविलिप्पइ जलरणा एवामेव दठपइण्णेवि दारते कामेहि
 जाए भोगेहि वट्ठत्ते नोविलिप्पही कामरणा नोविलिप्पही भोग
 रणा नोविलिप्पही मित्त नाइ नियग सयण सवधि परिजणेण सेण
 तद्धारुवाण धेराण अतिते केवल वोहि वुब्भिहिति केवल मुडे

चवीणकमनएहवागमुचाहूतावालभावमाटइतेहयीर्वानजगार्डीएथकउ गीतनइविपइ विरतिजेइनी
 गाधवगीत अनइनाटकतिहाडाहू उहइ शृ गरइ करीमनोहररूपकइ जेइनउ योग्यचालतु इसवु
 भणवु चट्टाकायव्यापार नेत्रविकार विसेपपणइ बोलवु एतलानइनिपुण चतुरयोग्य लीकीपवार
 तेइनइवीपिडाहू धीडासाधइयइनउकरणहार एमजगजयोदो वाहूजोही भागलानइभुजामुमर्दन
 हार अत्यतभाभनिविपिसमर्थ अवीह तेमाटिकालविकालनि चालणहारपण्णिसइ तिह्वारपकी
 तेइहटपइथा वालकप्रति भाविव वालभावमु कउहइजेणइएहवाप्रति पाह्लु सर्वकहिवु विकाल
 चारी जागीनइ विस्तीण अननइभोगइ पाणीनइभोगइ धरनइभोगइ वचनइभोगइ सय्यान
 भागि आमवस्यइ तिह्वारपकी तेइहटपइणइ नीलकतेइइ विस्तीणइ अन्नभोगइ सय्याभगइ
 नहीसज्जथाइ नहीराचइ नहीगृहथाइ भोगनीवाह्वानहीकरइ नहीमु भाइ तेहीधूचीरइइ तेइ
 वयाहट्टातइ उत्पलकमलनीजाति रत्तकमल पु डरीकादि सहस्र पत्रकमल कर्दमकपणु पाणीइ
 वधु पाणोइदीपइनहे कर्दमइसपरजसाथि नहापइ नफरिसइ जननीरजिकरी इणइहट्टातइ
 दठपइन्नउपपि बालिक कामइ जायु भोगिकरी वधउ पणिनही लीपाइनही परिसाइ काम
 रजइ करी नहीफरिमाइ भोगरजइ करी नहीलिपाइ मिवते तेमुइ ज्ञातिपीतानी निजकभाइ
 पुवादि सजनमाउलादि मसुरवग्गु दासदासीएतलासाथिनहीलीपइहीपे तेइहटपइणउ साधुनइ

मणोमागसिय खड्य भुक्त कड परिसेवि आवी कम्मा रहोक्त्ता
 अरहा अरहम्म भागीत त काल मणोवज कायजोगे वट्टमाण्णं
 सव्वलोए सव्वजीवाण सव्वभावे भावे जाणमाणो पाममाणो दिग्ग
 रिस्सइ तएणासे दठपइण्णे केवली एवाक्खेण विहरिणा विहरमन्तं
 वट्ट्हि वासाइ केवलपरि आउ पाउणिग्हिति पाउणिग्गता अप्पम
 आउसे आभोएइ अप्पणो आउसेम आभोएत्ता वट्ट्ह मत्ताप्प
 पच्चक्खवाइस्सइ पच्चक्खवाइत्ता वट्ट्हि मत्ताइ असणाए छेइम्म
 वट्ट्हि छेदित्ता जस्मट्ठाए कीरइणग्ग भावे मुडे भावे अगह्णाण
 अट तवण्णते केसलावे वभवेरवासि अत्थत्तग अणुवाहणग्ग भुम्भि
 सिञ्जातो फलहसेञ्जाउरधरपवेसोलह्वावत्ताइ माणावमाणाहि
 परेहि हीलणाउ निटणातो विभणाउ गरहणाउ तच्चणाउ ताज्जे

रथापनार्थं मणो मणोसियसि मनसि भव मानसिक तच्च कटाचिद्वचसापि प्रकटित भवन्ति
 उच्यन्ते मनसि व्यवस्थित मानसि मनोमानसिक खड्यतिच्छिपित चठ नीतमिति भाव । ३
 सेवियन्ति प्रतिसेवित स्वगदि अध कम्मभूमो निपात रह कमगुप्तस्थानकृत परेहि सिद्धीमे

सकलजीवजिज्ञाधी आइते आगमिजाइतेगतिस्थिति तेकायस्थितिभवरथतिचिवषातदेवलीकष
 वचउदेवताकरकी पणिऊपन्नवुतेउपपात तर्कविचारणा पूर्वइकीधुतेपथावउउ आगलिकर
 मनगुचितन तहकाइ जयगयु भांगव असनादिक कीधुवीवादिक् सोइउ मैद्युनादिक प्रगटकर्म
 उकर्म तेअर्हत एकातभजतानधीमनुष्यदेवनइ कीटइपरवरग्राधका तैतिकालनइविपइ मन
 काउयोगयोगनैविषै वर्त्ता सबलीकइचिहूभवनि सर्वभावजातउषकउ देपनुषकउ विहनि
 तिह्वारपक्षी तेइ दठपइणउ केवली णहवइरुपि विचरवइ विचरतउथकु घणा वरिसलगइ
 पयाउ पालम्यइ पालीनइ आपणो आउपानुसेइ केइउउजेइनइ आपणु आउपानुसेप की
 यणा भातप्रतिइ पच्च पच्चखीनइ घणा भात अणसणा छेइस्यइ घणाभात असण छेटीनइ
 नइ सूयइ करी अवेलपणु मुडभावइद्रव्यमूडतेलोव्यादिभावमूडतेकीधादित्याग नाननइ
 धावनही कमनउऊपाउवु ब्रह्मचर्यंतुपालवु क्वनुअणधारवु पादकीणट्टालवु भूमिसूउ
 पादिमुव भिचानइ अथइपरवरपइसवु किह्वारइ भक्तादिकलाधउक्विवारिनहाज विह्वारइ
 पानइक्विवारइ अण आदरपामइ अपरलीकइ मर्मनुकषाडवु निदवु तैमनइकरीसूगन व
 खिसयातलाकसमीच्छीलवु गर्हणातनिदवु अगुलीइ करीदेजागीसइएइवु वइवु ताइ

रायपसेयी ।

गाण्ड परिवणाउ पव्वहणाउ उव्वावविवुवुवा वावीसपरीसहो वस
गागामकटका अहियासेभक्तित मद्रु आराहेइ २ चरिमोहि उसास
नीसासेहि सिव्भिहिति बुव्भिहिति मुत्त्वइ परिनिव्वाहिइ सव्व
दुक्खाणा अतकरेहिइ सेवभते सेव भतेति भगव गोवमे समणा
भगव महावीरे वदति नमसित्ता सजमेणा तवसा अप्पाणा भावे
माणे विहरति नमोजिणाणा जियभयाणा नमोमु यदेवयाण भगव
तीए नमोपणत्तीए नमो भगवउ अरइतो पस्से सुपस्स वणीए णमो
रायपसेणइय सूत्र सम्मत्त गू धागू थ २२२ इति श्रीराज प्रथीय सूत्र

ते होलनानि सङ्गता सङ्गतहीलनजात्याद्युध्वटानि । परोचेङ्गुप्ताभाषणानि खिसनानिधि
उडनत्यादि वाक्यानि तर्जनानि अद्याल्लवानिचेप हरस्सर नईत्सनानि ताडताति कग्गादि

पियेतादिक पराभवनु करवु प्रवृथनीपाडानु करव मोटानाहना अनकरुपी चुध्यादिकवावीस
गिसइ देहेचाचतउपसगुं तेउपसगुं केहवाकिइ द्रयानीवभावनिजभराठाकइ जेहनउअर्थेण
वावासपरीसहोपसगुं प्रति अहियासाइइइ तेअर्थेप्रति आराधयइ आराधीनइ केहलइ जसासनी
सासि सीभसइकृतार्थेयामइ केवलजानिकारीसकलजानिकारीसकलार्थेजणसि सकलकभइ मू कासइ
कमइकीधुसतापतेहटालवीथजा अत्यतटालटउरूसइ सकलदुखगारीरानधीमानसीतेहनु अ त
करस्यइ मूयाभदेवनु आगामीकभवकइइयकइ गीतमम्वामीकइइकइ एह इमज हेपूउय एह
इमजभगवत भोतम अमत्त भगवत थीमहावीरप्रति वाटइ नमस्कारकरीनइ मयमइ तप्रइकरी
अपणआत्माप्रात भावतु धकउ विचरइइइ हउइसधभारामीकाहइ नमस्कारधाउ जिनवीतराग
भणी तेकेहवाकइजेणइसातमाभयजात्याकइ वलीनमस्कारथाउ श्रुतदेवाभयीभगवतसावापीभयी
तेकेहवाकइ पूज्जइइ नमस्कारथाउ प्रज्जप्तिभणा अनेकभावनीकरणहारी नमस्कारधाउ भगवत
भणीपूज्जय्ययी अहतभणीचसइइइद्रनइपूज्जनीदभणी तेहभगवतनीकेहवाकइ वागीप्रदेसीराजाइ
कीथा अनेक प्रयाइप्रसवतीकिउपनीवताहैतेहभणीनमस्कारथाउ श्रीपण्डितद्रमूरिपण्डित
श्रीसमरच द्रमूरिपण्डितजोतकर श्रीराजचद्रमूरिविजयमानेकहपि श्रीश्रवणाय श्रितेन दाचवमु
राजेन राजप्रथनीगुयसयटदार्थेकृत अथेवैड टीकागु धातरच विलोक्यलिपितिमिद यदि ज्ञानभावा
सइ लिपिततस्मि मध्याडु खतापसीधीतीयचधाधनैरितटवार्थेस्यगु धमान स्ववृत्ति २ १००० अ
पाचनइवीसुत्र ०००० अ श्रीसभजतु वल्याण मधु श्रीरसु निपत श्री ६ श्रीपूज्जनी ६ श्री ६
श्रीधनराजजी पाटिउ भातकारक श्री ६ श्री श्री १०० श्रीसयूक्त श्री ६ श्रीसयूक्त श्री ६ श्री

सपूर्ण लि० श्री ६ आचार्यजी ऋषि श्री १०८ श्रीसयुक्त श्री ६ श्रीचिता
मणिजी तत्शिष्यलिपत मुनीपेत सीस १७३२ कातावदि ६ दिने ।

घाता ॥ ॐ ॥ इति मलयगिरि विरचिता रायप्रथीयीपागवृत्तिक समर्थिता ॥ ॐ ॥ गुं थागुं थ
१७५५ ॥ ॐ ॥ शुभ भूयात् ॥ ॐ ॥ श्रीरस्तु ॥

श्री ६ श्रीचितामणिजी तत् शिष्यलिपत मुनिसेतसी सवत् २७३२ वषेकानीवदि ६ दिने सूत्र
भिद्याद मध्ये लिप्यो अर्थपोसवदि ७ दिने इटावागुंमि सपूर्णकाधी सुभभवतुपानारायाही कल्याण
मस्तु श्रीरस्तु साहोतिलोकसाकोटेचैवहराव्यारिति मडारनोहे ।

